



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20—फरवरी 26, 2010 (फाल्गुन 1, 1931)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2010 (PHALGUNA 1, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. 1 सी.ए. (7)(128)/2009---चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 159 (1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद्, पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, की एक शाखा को दिनांक 16 दिसम्बर 2009 से गांधीधाम में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की गांधीधाम के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गांधीधाम के साथ-साथ गांधीधाम की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :--

1. अंजर
2. कच्छ
3. कांडला
4. भुज
5. आदिपुर
6. मुंद्रा
7. भवाऊ

जैसाकि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन
सचिव

चेन्नई-600034, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. 3 एस.सी.ए. (4)/1/2008-2009---चार्टर्ड लेखाकार संस्थान 1988 के विनियम 18 एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (स) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम फीस न देने के कारण 1 अक्टूबर 2008 से हटा दिया गया है।

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
1	001479	श्री वरदाराजन टी आर	36	009720	श्री ध्रुवा राव एम टी
2	001898	श्री शंकरा श्रीकान्तिया	37	010519	श्री चन्द्रामौली एन
3	002003	श्री नरसिम्हा आर	38	010564	श्री सुब्रामनियन आर
4	002738	श्री कुरपाद गुडाप्पा श्रीराम	39	010898	श्री गोपालकृष्णन ई डी
5	003021	श्रीबास्वापुर्नही चालसानी	40	011196	श्री विजय कुमार
6	003161	श्री राधाकृष्णामूर्ति जी वी	41	011217	श्री कुमारनाथन जे
7	003504	श्री कृष्णन एन	42	011791	श्री अन्तथानारायणन पी आर
8	003716	श्री अनन्थारमन बी	43	011805	श्री लक्ष्मी नरसिम्हा राव गुडुर
9	003934	श्री मेथेरेट देवस्या जॉसफ	44	011969	डा० राजागोपालन ए वी
10	004091	श्री जेकोबथॉमस कालाराक्ल	45	012278	श्री वेक्टरमन वी आर
11	004572	श्री नागाम्भूषणा राव वी	46	012292	श्री राजागोपालन एस वी
12	004629	श्री शंकरण आर	47	012792	श्री नाडाराजन सेन्नामलाई
13	004802	श्री गणपति पी आर	48	013091	श्री सीतारमन एस
14	004873	श्री तारापोरेवाला एन एम	49	013239	श्री कृष्णन आर एस
15	005240	श्री लक्ष्मणस्वामी यू	50	013554	श्री वासुदेवन पी के
16	005683	श्री वेनूगोपालन ई एस	51	014084	श्री पन्चापकेसन अन्तथनारायण
17	006027	श्री चेल्लापन पी एल	52	014165	श्री रूपा वेक्टा सुब्रामनीया सास्त्री
18	006083	श्री बालाकृष्णन सी के	53	014224	श्री शामनना नन्जप्पा
19	006399	श्री भास्करन जे	54	014434	श्री सुब्रामनियन टी एस
20	006575	श्री कृष्णास्वामी सी एस	55	014542	श्री प्रथासारथी एस
21	006954	श्री अन्नामलाई एम	56	014553	श्री आनन्दायी सेट्टी आर वी
22	007007	श्री धन्वापानी एस एस	57	015079	श्री मधवेशा पी
23	007307	श्री राजागोपालन ए एस	58	015463	श्री प्रसाद पी वी एस आर
24	007676	श्री नरसिम्हा आर ए	59	015766	श्री प्रकाश कुमार एम जे
25	007694	श्री रामाकुशना राजा टी आर के	60	015902	श्री वेक्टरमन आर
26	007898	श्री जॉन ए जी	61	016232	श्री मदमननाया विटाला
27	007991	श्री कृष्णामूर्ति आर	62	016311	श्री नचीयप्पन एम आर
28	008271	श्री पोन्नूसमय पी के	63	016330	श्री चन्नाबसाप्पा आर एच
29	008315	श्री जगन्नाथन एस टी	64	016359	श्री जेम्स थॉमस
30	008383	श्री रामदास एस	65	016459	श्री नायक सुकुमार
31	008785	श्री इकबाल एम ओ एच	66	016490	श्री मदन मोहन मूर्ति वी
32	008967	श्री थॉमस एगजेवर कयनाडी	67	016751	श्री राधाकृष्णन एम
33	009290	श्री गोपालकृष्णनन डी	68	017239	श्री महादेवन एस
34	009557	श्री नारायणन एल	69	017378	श्री कुमार वी आर
35	009717	श्री रावनन जी	70	017771	श्री कृष्णा नारायण

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
71	017882	श्री वेक्टरमानी आर	116	020179	श्री सेधूरमन वी
72	018051	श्री भारतन के	117	020245	श्री डेविड कामथ
73	018087	श्री कृष्णा कुमार सी	118	020292	श्री रामानाथन एच
74	018100	श्री विष्णु मोहन मीनावाल्ली	119	020374	श्री रेग्री वेर्गेंसी सी
75	018105	श्री नीरौजी राव एन ए	120	020406	श्री सोमाशेखरन एन
76	018181	श्री बाला कुमार वी	121	020420	श्री राजारेतनम जी
77	018218	श्री डेनिल पी टी	122	020574	श्री विश्वनाथ एम
78	018283	श्री सुब्रामीयन जी	123	020735	श्री नारायणा भट्ट एम
79	018386	श्री बालासुब्रामनियन एम	124	020746	श्री कट्टामूरि मधुसुधन राव
80	018502	श्री रविन्द्ररन आर	125	020764	श्री श्रीवाथसन सी एस
81	018547	श्री अछूता कुडवा एन	126	020788	श्री सुब्रामनी एल
82	018614	श्री सत्यानारायणा आई वी	127	020897	श्री अलगप्पन वी आर
83	018659	श्री गुहारोंय आशीष कुमार	128	020979	श्री रघुपति डी
84	018684	श्री बालारमन वी एन	129	021003	श्री बागरी श्री मोहन
85	018822	श्री गोपालकृष्णन एस	130	021018	श्री श्रीहरि वी
86	018847	श्री चिन्नास्वामी एस	131	021067	श्री श्रीनाथ बी
87	018854	श्री मुथैया के	132	021086	श्री चारी टी वी टी
88	018874	श्री मुरलीधर सारदा जे के	133	021124	श्री सुरेश आर
89	018877	श्री अब्दुल हलीम मोहम्मद इब्राहीम	134	021170	श्री यदुनाथ वी एन
90	018880	श्री रामा मूर्ति एस एल	135	021203	श्री शमसुदीन ए
91	019004	श्री रामाचन्द्रराई सी	136	021268	श्री प्रसन्ना एच टी वी
92	019057	श्री अलगप्पन वी आर	137	021274	श्री गोविन्दा राजन एस
93	019098	श्री उमेश एस एस	138	021287	श्री विनायगा सेथुराम एस
94	019155	श्री मुकुन्धन डी	139	021294	श्री अब्राहम चेरियन
95	019240	श्री सुरेश पाई के	140	021309	श्री श्रीनिवासन ए
96	019350	श्री राघवन वी	141	021311	श्री वत्सारमन वी
97	019443	श्री वेंकटेश्वरन एम	142	021312	श्री अशोक कुमार बी
98	019454	श्री थॉमस के जे	143	021501	श्री कासीनाधुनी वेंकटेश्वरा राव
99	019464	श्री रामाकृष्णा वाई वी	144	021538	श्री नन्दा कुमार आर
100	019515	श्री रवि एस	145	021560	श्री गनानानन्दा प्रसाद एस
101	019562	श्री शंकर एस	146	021582	श्री नागेश्वरा राव के
102	019581	श्री चन्द्राशेकरन एम एस	147	021662	श्री सास्त्री ए बी पी एस
103	019598	श्री बालासुब्रामनीयन के	148	021708	श्री वेंकटा राधा कृष्णनाही एस वी
104	019625	श्री वरकैड के वी	149	021779	श्री मुखतार अली साजनलाल
105	019647	श्री चन्द्रराई चेट्टी पी	150	021859	श्री राजाशेकरन एम
106	019678	श्री गुन्दु राव बी आर	151	021912	श्री कोटेश्वरा राव एन
107	019679	श्री रमेश ताडेपल्ली	152	021921	श्री रघुनाथन टी
108	019689	श्री शंकरनारायणन टी एस	153	201975	श्री चन्द्रशेखर एस
109	019755	श्री मोहन जी	154	021983	श्री भावनानी टी रमेश
110	019786	श्री रवि कुमार के	155	022000	श्री ऑसफ पी एस
111	019861	श्री सुन्द्रम के	156	022096	श्री रविचन्द्रन एन
112	020022	श्री रामाकृष्णन वी	157	022241	श्री श्री कृष्णा मूर्ति एम
113	020076	श्री शंकर के	158	022289	श्री राकेश सूद
114	020133	श्री नारायणा राव के	159	022570	श्री पूर्णाचन्द्र जी
115	020146	श्री आरचिबाल्ड मेक्सिम जॉसफ डी सुजा	160	022683	श्री रामाराज एन

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
161	022717	श्री सुरेश कुमार एच	207	024385	श्री आरुमुगम वी एम
162	022734	श्री रंगानाथम पी वी	208	024496	श्री नन्दा कुमार सी
163	022747	श्री नरसिंहमन डब्लू के	209	024520	श्री वालसन एन
164	022833	श्री मैथ्यू टी सीमन	210	024528	श्री साजु पीटर
165	022847	श्री कुमार के	211	024610	श्री सेकर के
166	022852	श्री चन्थू मेनन सी एम	212	024657	श्री सुब्रामनीयम वी एस वी
167	022870	श्रीमति राजेश्वरी ई	213	024774	श्री गणपति पी
168	022894	श्री मधुसुधन राव जी	214	024806	श्री कुरुविलाचन पी जे
169	022905	श्री बाला सुब्रामनीया सर्मा वी वी	215	024914	श्री जैन सुधीर चन्द
170	022954	श्री पून्नेसे जेकोब	216	024958	श्री सत्यानारायणा प्रसाद आर के
171	022966	श्री अमरनाथ ए एम	217	024959	श्री मलोलन पी एन
172	023018	श्री वेट्टरीवेल एन	218	025021	श्री मोहिउद्दीन एम डी
173	023070	श्री राघवेन्द्रन आर पी	219	025044	श्री सम्पथ कुमार के
174	023113	कुमारी निर्मला डी	220	025053	श्री गिरिधर वाई
175	023145	श्री गोपीनाथन के	221	025057	श्री वैक्कारमन आर
176	023321	श्री बालाजी जे	222	025063	श्री रविन्द्रा रेड्डी सीएच
177	023323	श्री राजेनधिरुन के सी एस	223	025141	श्री सीमोन फिलीप
178	023345	श्री शर्मा जी के ए पी	224	025172	श्रीमति वसन्ती रमेश
179	023352	श्री थोमस वारगेसे पी	225	025200	श्री रवि शंकर एन
180	023362	श्री प्रभाकर शेखर के	226	025216	श्री रमेश गुप्ता एस
181	023379	श्री कुमार एस	227	025236	श्री गुनाशेखरा रेड्डी जी
182	023407	श्री रामासुब्रामनियन	228	025282	श्री शंकर टी एस
183	023411	श्री प्रकाश बी वी एस	229	025308	कुमारी अरुणा के
184	023416	श्री वैक्कारमन निवार्थी के	230	025314	श्री रमेश के एस
185	023479	श्री रमेश एम	231	025441	श्री अनिल आर मल्लया
186	023552	श्री रामाकृष्णन एन	232	025509	श्री रमेश कृष्णमअचार्य एस
187	023567	श्री नवीना चन्द्रा टी	233	025515	श्री भट्ट बालाजी वी
188	023611	श्री मैथ्यू सनिचन एम	234	025590	श्री बद्री प्रसाद एम
189	023700	श्री गणेशन एन	235	025689	श्री रमेश कुमार वी
190	023730	श्री अगाडी विजयकुमार एम	236	025740	कुमारी अक्काराजू तनुजा राव
191	023911	श्री नागेशवरन ए	237	025765	श्री मेमन कोशेए
192	023969	श्री मुथू एन के	238	025777	श्री रघुनाथन ए आर
193	024035	श्री रामाचन्द्रा राव ए	239	025787	श्री कुमार एल एन सुरेश
194	024069	श्री नास्सेर मोहम्मद एम एच	240	025847	श्री गोपालकृष्णन पी
195	024137	श्री श्रीनिवासन एस	241	025945	श्री अग्नेया बी ए
196	024145	श्री बालासुब्रामनीयन एम	242	025960	श्री प्रकाश एन
197	024155	श्री टॉम मैथ्यू ए	243	025967	श्री विश्वानाथम आर
198	024160	श्री रंगन एन कानन	244	025970	श्री शिवाशंकर बी
199	024209	श्री अन्नथारमन पी वी	245	025986	श्री मुकुन्दन आर
200	024251	श्री भक्तवत्सला रेड्डी एस	246	026026	श्री शाह नवाज ए
201	024251	श्री लक्ष्मी प्रसाद गौरा	247	026092	श्री रामा चन्द्र मूर्ति आर एस
202	024253	श्री जयाचन्द्रन के वी	248	026153	श्री महेन्द्र कुमार एम
203	024328	श्री मुकिलन डी	249	026227	श्री शैलेख राज जी
204	024332	श्री रत्नाशेखर पी	250	026294	श्री विक्रम रामचन्द्र
205	024356	श्री वेकुन्टम टी एस	251	026305	श्री गोवर्धन रेड्डी ए
206	024376	श्री सौन्द्याप्पन एस	252	026398	कुमारी मीनाकुमारी वैक्केशवरन

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
253	026417	श्री कृष्णन एस	302	028131	श्री बालाचन्द्रन नायर बी
254	026423	श्री चाकों आई सी	303	028135	श्री राधाकृष्णन ए एल
255	026471	श्री मुरलीधरन वी	304	028148	श्री वैक्टासुब्रामनीयन आर
256	026497	श्री रामाकृष्णन एन	305	028161	श्री मैथ्यू वर्घेसे
257	026507	श्री वीराराघवलू सीएच	306	028177	श्री जूडे किशोर एस
258	026518	श्री रमन एम	307	028184	श्री सुधीर भांसाली
259	026527	श्री मणि आर	308	028202	श्री सुर्यानारायणन के
260	026542	श्री नारायण दास बना	309	028207	श्री गोपाल के
262	026640	श्री सतीश बाबू	310	028268	श्री नारायणा राव जी
263	026674	श्री पालानीवेलू के	311	028275	श्री रमेश के
264	026697	श्री मेका नरेन्द्रा प्रसाद	312	028449	श्री श्रीनिवास राव के
265	026699	श्री मुरलीधरन वी	313	028468	श्री नीलाकन्टन जे
266	026794	श्री शंकर एस	314	028609	श्री गणेश शर्मा बी
267	026851	श्री गोविन्द पानी	315	028610	कुमारी राधिका चन्द्रमौली
268	026926	श्री रहीमन साब पी	316	028675	श्री वर्धाराजन एस
269	027944	श्री लिंगाराजू आर	317	028691	श्री सुन्दरम् एस एम
270	027946	श्री वैक्टा सुब्रामनीयम वी	318	028695	श्री विद्याशंकर वी
271	026962	श्री सनील वारगेसे	319	028707	कुमारी राधा रवि
272	027048	श्री जॉय वारगेसे	320	028823	कुमारी यापति घोष
273	027072	श्री नागेश्वरा राव के	321	028845	श्री रवि विश्वनाथ एन
274	027099	श्री गणेश आर	322	028897	श्री रामासुब्रामनीयम सी
275	027131	श्री राधा कृष्णन के	323	028901	कुमारी माला श्रीनिवासन
276	027157	कुमारी मैरिन ए पील	324	028965	श्री जितेन्द्र बाबू एम
277	027165	श्री वेदीराज सी एस	325	028983	श्री सुब्रामनीयम एस
278	027195	श्री मोहन कुमार एम	326	029015	श्री शाजी मैथ्यू
279	027201	श्री मुरली मोहन के एस	327	029040	श्री विलिना प्रकाश के वी
280	027202	श्री थॉमस टी सी	328	029059	श्री ललिथा कुमार एम वी
281	027212	श्री बालाजी आर	329	029146	श्री आनन्द बी
282	027237	श्री तिरुपथाई चौधरी सी एच	330	029270	श्री बालाजी ए जी
283	027286	श्री अम्बलपाडी श्रीनिवास आचार्य के	331	029341	श्री जामल मेदीन एम ए
284	027309	श्री साजी मैथ्यू	332	029345	कुमारी उमा मेनन
285	027333	श्री कृष्णामूर्ति आर	333	029400	श्री कृष्णामूर्ति नायडू पी
286	027450	श्री राधा श्री कृष्णा राव ए	334	029402	श्री धीरूमवालवन एस जी
287	027493	श्री जॉन के वारगेसे	335	029458	श्री गणेश के
288	027506	श्री नारायणन टी	336	029487	श्री सत्यामूर्ति डी
289	027507	श्री राजा नन्दाकुमार	337	029499	श्री कान्नन एस
290	027645	श्री बद्रीनाथ राव	338	029517	श्री हेजमाडी धीरज रामाचन्द्र
291	027803	श्री राजेन्द्र कुमार सी	339	029522	श्री सुनील आर शेनोए के
292	027814	श्री शंकर राव डी	340	029531	श्री श्रीनिवासरामागोपाल
293	027830	श्री हरि कृष्णन एन	341	029543	श्री सत्यजीत बोलर
294	027864	श्री राम बाबू सी एच	342	029551	श्री गुम्माडी वैक्टेश्वरा राव
295	027867	श्री उदय शंकर राव एम	343	029583	श्री चन्दर एस
296	027870	श्री नागराजन रामनाथ	344	029587	श्री कमला के
297	027873	श्री कोएलहो ए जी एफ	345	029649	श्री उथमान के
298	027937	श्री गणपति कृष्णन एस	346	029653	श्री अरुणा कुमार एम एस एन वी एस
299	027989	श्री श्रीनिवासन पी आर	347	029669	श्री गीरिश के
300	028002	श्री रघवेन्द्रा राव एन	348	029719	श्री राधिका सुधीर
301	028059	श्री महाबलेश बी के	349	029759	श्री बालासुब्रामनीयन ए के

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
350	029776	श्री गिरिधर मभिदि	398	055850	श्री रीना जॉसफ
351	029912	श्री चन्द्रमौली एल	399	056000	श्री कल्याण कुमार घोष
352	029927	श्री शंकर एल सी	400	056103	कुमारी मुखर्जी सुतापा
353	029931	श्री बस्तीन लीयो आर	401	056386	श्री पालानीस्वामी सी
354	029985	श्री गिरिधर वी वी	402	056648	श्री मुरली बालारमन
355	030150	श्री विजयराघवन के एस	403	057361	श्री बेनर्जी सुकान्ता
356	030158	श्री मेहता दुर्गेश नलीनकान्त	404	057431	कुमारी सूद ममता ब्रह्मप्रकाश
357	030309	श्री गणपति आर	405	057509	श्री आनन्द मालू
358	030659	श्री हेमाचन्द्रन एस	406	057604	श्री राजदीप दत्ता
359	031197	श्री कान्न्न एम	407	057746	श्री धार जयदीप
360	031392	श्री फिलिप जॉर्ज	408	057780	श्री केशन सुमित
361	031739	श्री गोरुका ब्रजकिशोर कालूराम	409	057804	कुमारी आरती मल्होत्रा
362	032021	श्री रमेश ए भट्ट	410	057894	कुमारी बेद जया
363	032615	श्री हरिगोविन्द सी	411	058070	श्री सुब्रामनीयम आर वी
364	033443	श्री वासुदेवन आर	412	058153	श्री सेन दीप
365	034346	श्री पराजपे गीरिश एस	413	058230	श्री पाण्डा देवारचन
366	035465	श्री बालाकृष्णन एस	414	058641	श्री पोददार विकास
367	035956	श्री सरकर देव रोनीजीत	415	058708	श्री कुमार घनश्याम
368	036741	कुमारी उमा अनन्था	416	059024	श्री सुवा अग्रवाल
369	036969	श्री अयर शंकर रामानाथन	417	059132	श्री सिन्हा अवीक
370	038668	श्री रवि कुमार रमनन	418	059353	श्री तिवारी कमल
371	038851	श्री शंकर कुपूस्वामी	419	59626	सीए अजय टीबरवाल
372	039640	श्री मधु कुमार बालासुब्रामनीयन	420	059680	श्री सेहगल मनीष
373	041429	श्री अब्राहम थोमस	421	060071	श्री रामजी शंकर
374	042096	श्री पंकज मलिक	422	060119	श्री पैडीसेट्टी सुरेश
375	042228	श्री जोशी प्रयाग अविनाश	423	060256	श्री जैन सौरभ
376	042948	श्री कासीनाथन गुरुमूर्ति	424	060619	श्री अर्नब पाल
377	043567	श्री थिरुमलाई वी	425	060737	श्री मुखर्जी सौरव
378	043696	श्री मोहन दास टी आर	426	061119	कुमारी सेठ शूचि
379	043812	श्री मनीकान्तन वी	427	061251	श्री सुब्रामनीयम के
380	044677	श्री मुरली एस	428	061284	सीए सतीश कुमार गनता
381	044694	श्री रामाकृष्णा के	429	061285	श्री केजरीवल दिनेश
382	044809	श्री धुलासी कुमार एम के	430	061361	श्री बासू दिपांजन
383	044816	श्री अरविन्द दिनकर शर्मा	431	061574	सीए रवि कान्त अग्रवाल
384	046112	कुमारी राव ममता हरिदास	432	061796	श्री गुटगुटिया रवि
385	046651	श्री चन्द्र मोहन एस	433	062094	कुमारी कृष्णन अपर्णा
386	047147	कुमारी लथा वी	434	062273	श्री नंगालिया अमित कुमार
387	048901	श्री दरियाव सिंह राज पी	435	062407	कुमारी बोनिक प्रियंका
388	049262	कुमारी प्रभावती वी	436	062695	कुमारी फिटकरीवाला सुप्रिया
389	049901	श्री रोहित प्रकाश	437	063145	श्री जैन राहुल
390	049984	श्री अग्रवाल संजय रघुनाथ	438	063272	श्री बजला अमित कुमार
391	050294	श्री आशिम कुमार देव भौवमीक	439	063633	कुमारी गुहा ठाकुरता सराबन्ती
392	050507	कुमारी सुदेशना मुखर्जी	440	063642	श्री लोयलका मनीष
393	050993	श्री नागोजी सत्याशिवम्	441	063688	श्री सीपानी बीकास कुमार
394	051024	श्री अरिन्दम गुहा	442	064003	श्री अग्रवाल नितेश
395	053685	श्री सुनील वी जे जॉर्ज	443	064961	सीए चन्द्रा बेद
396	055283	श्री मिश्रा आलोक चंद्र	444	065024	सीए पुनीत कुमार अग्रवाल
397	055732	श्री गणेश वी एस	445	065625	सीए कृष्णा जालान

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
446	066058	सीए मानब नाग	493	108479	कुमारी शर्मा संगीता जुगल किशोर
447	066600	सीए संजय शुक्ला	494	108580	श्री एडम सैयद
448	072451	श्री धरिन्दा मूर्ति टी	495	110105	कुमारी शिल्पा ओमप्रकाश महेशवरी
449	076571	श्री श्रीश जैन	496	110298	कुमारी आशा प्रसन्ना
450	078594	कुमारी अनिता श्रीरेश जैन	497	111413	श्री हरिहरन गणेशन
451	079704	श्री अरोडा अतुल	498	112692	श्री साई सुनील वेनूगोपाल पंगानाममुला
452	082667	श्री श्रीधर एम के	499	113490	श्री विकास महेश रोंगटा
453	084335	श्री बज्राचार्य रतना राज	500	113905	श्री सुनील बजाज
454	084546	श्री रमानी आर	501	114230	श्री सरोज कुमार खुन्टीया
455	084771	कुमारी जयालक्ष्मी पी	502	114258	कुमारी उन्नति विरल शाह
456	084971	श्री रमेश पी	503	115144	कुमारी रेम्पया के लक्ष्मण
457	086307	श्री सुभाष चन्द्र अडिवेप्पा बालीगर	504	115926	श्री हर्षवर्धन रायचन्दभाई लूनीया
458	086800	श्री संदीप गुप्ता	505	117132	श्री पॉल सेमूल रॉबर्ट्स
459	086983	श्री देवटा सुब्रामनीयन एस	506	117669	कुमारी प्रिया ठाकुर
460	087237	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	507	119194	कुमारी अक्षता सुधाकर घारोडे
461	087530	श्री सयारीक मैथ्यू	508	119718	श्री तनवीर अली मोइनूउददीन गिरंजी
462	087760	श्री बाखरी संजय कुमार	509	120342	श्री आनन्द मनोहर नायक
463	088929	श्री रंगाराजन एस	510	200002	श्री बालाकृष्णन एच
464	089371	श्री श्रीवास्तवा सौरभ कुमार	511	200010	श्री रंगानाथन ए एस
465	089521	श्री केशवदास	512	200013	श्री रामासामी बी
466	091841	श्री अयर जगदीसन कृष्णामूर्ति	513	200077	श्री मुरली एन
467	091994	श्री बावेजा रजनीष सिंह	514	200093	श्री सत्यानारायणा मूर्ति पी
468	092971	श्री जेकोब फिलिप	515	200173	श्री सीबीचेन जॉसफ
469	093039	कुमारी कोटामराजू उमाश्री	516	200175	श्री बालासुब्रामनीयन आर
470	093142	श्री सिंह महेन्द्र	517	200225	श्री सुरेश के
471	093159	श्री गणपति सुब्रामनीयम आर	518	200280	श्री अब्राहम थॉमस
472	093291	कुमारी गणपतिराजू कौशल्या देवी	519	200328	श्री अंजानेयूलू रेड्डी जॉनाला
473	094788	कुमारी अडवाणी नीरू	520	200381	कुमारी उषा एस
474	097556	श्री मिश्रा आनन्द	521	200416	श्री अजीत नारायण इरेडी
475	097697	श्री हरीहरा प्रसाद पी जी	522	200418	श्री श्रीनिवास राव जे
476	099099	श्री जयदेव के	523	200432	श्री कुप्पूसामी आर
477	099837	श्री सिंघानिया मनीष	524	200441	श्री लालेन थॉमस
478	099844	कुमारी गोस्वामी रुचि	525	200481	श्री श्रीकान्त एस
479	099941	कुमारी पद्मागिरिसन जयाश्री	526	200521	श्री नरेन्द्र जैन
480	100112	श्री नटराजन एस	527	200548	श्री पॉलोसे वी ए
481	100137	कुमारी वैशाली पन्थारीनाथ पाटिल	528	200582	श्री जॉर्ज चैरियन
482	100505	श्री हज्जारापू प्रेम कुमार	529	200587	श्री भारानी कुमार पी
483	100739	श्री कुट्टील अब्राहम वेर्गसे	530	200598	कुमारी राधा पिल्लूतला
484	101157	कुमारी दामोदरे मेधा गजान्न	531	200636	श्री फानीन्द्र नाथ पी एस
485	101267	श्री देसाई असीम मयूर	532	200719	श्री रामाचन्द्रन ए
486	102357	श्री मित्तल दीपक	533	200737	श्री दीपक नटराज रामामूर्ति
487	102747	श्री अशोक कुमार छाजेर	534	200771	कुमारी अनीन्दिता मुखर्जी
488	103433	श्री नीगुडकर अजय अविनाश	535	200860	श्री विश्वानाथन एस
489	103703	कुमारी लाल मेघना के	536	200863	श्री गुरुमूर्ति के
490	104424	कुमारी चारुलता सोनी	537	200897	श्री रियाज अहमद एस
491	104551	कुमारी हेतल प्राग मोदी	538	200898	श्री बालासुब्रामनीयन एस
492	106326	कुमारी रोशन होशांग नानावती	539	200899	श्री सुर्यानारायणा रेड्डी के

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
540	200922	श्री विनोद जॉसफ टेल्लिस	587	202281	श्री वेनगटानारायण
541	200925	श्री रविचन्द्रन एन आर	588	202284	श्री वैक्कारमन पी एन
542	200941	श्री श्रीधर एल	589	202294	श्री बद्रीनाथ पी
543	200943	श्री मुरली नारायणन वी आर	590	202336	श्री गणेश बाबू एम
544	200978	श्री प्रकाश एस	591	202341	श्री श्रीराम एस
545	201015	श्री देशपाण्डे बालाचन्द्रा भीमराव	592	202358	श्री श्रीकुमार एस
546	201037	श्री सुधीर के पी	593	202546	श्री रविचन्द्रन टी आर
547	201059	कुमारी विजयावल्लि सी एस	594	202549	श्री कमभोजीराजा मोहन शेट्टी
548	201091	श्री सक्थी वेल आर	595	202584	श्री उमाशंकर राव पी
549	201123	श्री सुमीत्रा नन्दन श्रीवत्सा के	596	202606	श्री धीयागा थूराईवन एस
550	201176	कुमारी अनीता गोपीनाथ	597	202676	श्री अश्वथ ए
551	201203	श्री संतोष मैथ्यू	598	202719	श्री आनन्दन के आर
552	201215	कुमारी सुमाथी आर डी	599	202786	कुमारी चित्रा एच
553	201232	श्री फेबियन सीनक्लेयर होल्ड	600	202814	श्री रविचन्द्रन वी वी
554	201257	श्री सुरेश ए	601	202845	श्री राम कुमार चीलूकुरी
555	201312	श्री रामकुमार आर	602	202910	श्री हेनरी सुधाकर
556	201374	श्री रमेश बाबू	603	202914	श्री वेक्टेसन के एस
557	201411	श्री शेरिंग थेक्केकारा	604	202985	श्री सुन्दर राजन पी बी
558	201450	श्री वीरा भद्राजी एम वी एस	605	202988	श्री रामकुमार एस
559	201472	श्री मति इन्दिरा वेनुगोपाल	606	202994	श्री बालाजी महाशाबडे के
560	201517	श्री रामचन्द्र जोशी वी	607	203003	श्री सेलवामनी के पी एल
561	201518	कुमारी सुबालक्ष्मी के	608	203171	श्री सुब्रामनीयम एम
562	201573	श्री सुधर्शन वी	609	203232	श्री श्रीनिवासूलू मूणा
563	201617	कुमारी ज्योथि आर एन	610	203242	श्री रत्नाकर बान्दरु
564	201676	श्री अरविन्द एल	611	203254	श्री नारायणन एस
565	201687	कुमारी समीताबी विथलानी	612	203256	कुमारी बिन्दू सी कुरियाकोसे
566	201690	श्री विनोद हरिहरन शंकर	613	203291	श्री रमेश डूगीरल्ला
567	201738	श्री जेबाचन्द्रन एस प्रणजोथी	614	203295	कुमारी दीपा एस चन्द्रिय
568	201787	श्री प्रदीप कुमार जैन	615	203359	श्री दर्दाराजन जी
569	201844	श्रीरघुराम प्रसाद वी	616	203378	श्री आनन्द राव टी वी
570	201850	श्री मरेल्ला वेक्ता उमापति राव	617	203388	श्री गोवर्धन अपकरी
571	201885	श्री बेनजमीन पी टी	618	203396	श्री शेफीउल्ला सीगनामाला
572	201911	श्री जॉली जॉर्ज	619	203418	श्री संतोष शेट्टी
573	201949	श्री हाजा बाथुरअली ए एस	620	203426	कुमारी जैनसमा कुरैन
574	202033	श्री श्रीराम पी वी	621	203448	श्री वेसले विजय कुमार आई
575	202049	श्री जॉसफ पी जॉसफ	622	203453	श्री वीरारघुवा रेड्डी नल्लामील्ली
576	202053	श्री प्रसाद नेक्काडापू वी एस एल	623	203460	श्री राजेश श्रीपदा
577	202098	श्री गोपाल बी	624	203521	श्री वेक्ता सत्या राम कुमार सुनकारी
578	202160	श्री धरमाला वेक्ता रमन मूर्ति	625	203585	श्री जॉन जॉसफ
579	202184	श्री कृष्णा मनी आर	626	203593	कुमारी कामिनी शाह
580	202191	श्री मंगंती चन्द्र मोली शर्मा	627	203640	श्री जयागन्धन डी
581	202203	श्री नागेशअप्पा बी	628	203642	कुमारी शोभा रूपनागुन्टा
582	202215	श्री बोमीरेड्डीपल्ली रामाकृष्णा सुब्रामनीयम	629	203646	श्री प्रशान्त माधव शानभग
583	202220	श्री जगन्नाथन आर	630	203664	श्री रंगानाथन एस
584	202246	श्री वेकुन्तनाथ के बी	631	203672	श्री अनन्थन एन आर
585	202260	श्री रवुला श्रीधर राव	632	203673	श्री दिनेश सिंह
586	202279	श्री श्रीराम जी	633	203688	कुमारी राज्या लक्ष्मी वी

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
634	203691	श्री राजागोपाल ए	681	205275	कुमारी कान्धीमयी जी
635	203725	श्री श्रीकृष्णन पी	682	205303	श्री बालासुब्रामनीयन आर
636	203730	श्री कृष्णन टी	683	205371	कुमारी बेथल निशा रेबेल्लो
637	203820	श्री मुकेश बूबना	684	205400	श्री उन्नीकृष्णन पी
638	203837	श्री नागा भावनानारायणा स्वामी सी एच	685	205405	श्री रवि कुमार एन
639	203838	कुमारी कंचना एस	686	205407	श्री वेनूगोपाला बी
640	203871	श्री वेक्टेस जी एस	687	205419	श्री रंगानाथा अचार के
641	203878	श्री लक्ष्मी कान्त घाटटी	688	205471	श्री अरविन्द चन्द्रन
642	203903	कुमारी मीनाक्षी आर	689	205502	कुमारी लिसा जॉसी
643	203942	श्री श्रीनिवासन वी	690	205532	श्री राज कुमार छेबरोलू
644	203955	श्री प्रभाकर वीरावल्ली	691	205538	कुमारी जीना ओमन
645	203968	श्री तेजोमूर्तुला रामोजी	692	205542	श्री सेशाफानी सेट्टी एस
646	203977	श्री वेक्टेसन एस	693	205558	श्री प्रसाद एस वी बी
647	204012	श्री रामाचन्द्रन के	694	205572	श्री विद्यानाथन एस
648	204143	श्री सेव्य जॉन सी	695	205580	श्री उमाकान्थ एन
649	204181	कुमारी गिरिजा सुन्दरम्	696	205586	श्री कन्नन पी वी
650	204197	श्री बालाजी पी	697	205605	श्री पारस कुमार पी
651	204217	कुमारी सुधन्या पी	698	205621	कुमारी शिवाशेनबगम के
652	204225	श्री टाटावर्धी सुरेश	699	205646	कुमारी सुधा रानी के
653	204227	श्री जॉसफ फिलिप	700	205649	श्री नोरी श्याम सुन्दर
654	204248	श्री गोपालकृष्णन ई	701	205663	श्री गणेश टी
655	204261	श्री चिरंजीवी राव पी वी के	702	205677	श्री थयाहराजन जे
656	204284	श्री ओम प्रकाश बी आर	703	205680	श्री राधाकृष्णन एम
657	204295	कुमारी भारथी के	704	205683	श्री जूझर एस
658	204316	श्री शंकर रेड्डी पी	705	205687	श्री हैनरी आई
659	204405	श्री भालाजी एम	706	205708	श्री श्रीराम जे
660	204468	श्री चिदंबरम एम	707	205766	श्री वेक्टेस वी
661	204587	श्री श्रीनिवासा राव एम	708	205815	श्री लक्ष्मी नरसिम्हा सास्त्री के
662	204609	श्री बालासुब्रामनीयन वी बी	709	205832	कुमारी तारा गोपालकृष्णन
663	204613	श्री श्रीनिवासूलू बी	710	205851	श्री नागेशवर राव आर वी
664	204668	श्री प्रसन्ना पाई एस	711	205887	श्री वेक्ट रामन आर
665	204680	श्री श्रीधर एस	712	205892	श्री वेलायुधम जे
666	204686	श्री अंजाहीबोडापति	713	205948	श्री थनकाचन के जे
667	204687	श्री गारापति वीरा वेक्टा सत्यानारायणा	714	205969	श्री प्रकाश के
668	204743	श्री सदागोपन आर	715	205986	श्री मनोज एस
669	204755	श्री कृष्णा रेड्डी ए	716	205991	श्री रामकुमार एस वी
670	204769	कुमारी अर्चना श्रीनिवासन	717	206044	श्री श्रीकान्त एस
671	204799	श्री कुमार जी	718	206053	श्री सुब्रामनीयम ए वी के
672	204880	श्री उन्नीकृष्णन बी	719	206073	श्री सन्का विसवेश्वरा राव
673	204926	श्री गोकुलकृष्णन बी	720	206086	श्री बालिगा संजय विश्वनाथ
674	204968	श्री जाल्लूरी प्रवीन	721	206110	श्री मेहूल सुरेश शाह
675	205007	श्री कोमरावोलू मधूसुधना राव	722	206123	श्री साबू जॉसफ
676	205040	श्री गणेश एस	723	206147	श्री नारायणस्वामी एस
677	205087	श्री सत्यानारायणा वेक्टा शिवा जीला	724	206156	श्री महेश के
678	205115	श्री विजया कुमार बूडडी	725	206298	श्री चन्द्रामोली वी
679	205228	कुमारी भूवनेश्वरी के	726	206303	कुमारी वानी श्री जी
680	205246	कुमारी आरती मिमानी	727	206324	श्री संजीव ए

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
728	206325	श्री पाकीयाराज एम	776	207286	कुमारी प्रथा राधा माधवी
729	206353	श्री रॉयमन जॉसफ	777	207287	श्री पूरनचन्द्र राव कासूकूर्थी
730	206359	श्री केतन शाह	778	207290	कुमारी बाबलूशा इस्तेहर पॉल
731	206400	कुमारी वसुन्दा जीवन गुजराती	779	207323	श्री नरसिंम्हा मूर्ति एम वी
732	206426	श्री नागामबीका प्रसाद एस वी	780	207364	श्री अनिल कुमार एम वी
733	206429	श्री बालाजी वर्मा पूसापति	781	207365	श्री कोथूरी श्रीधर
734	206452	श्री विश्वनाथ के एस	782	207439	श्री रूपेश आर
735	206499	श्री नीजू अब्राहम	7823	207458	श्री नरसिंहमन एन
736	206504	श्री साई गणेश के	784	207462	श्री रामाकृष्णन एन
737	206509	श्री कल्याणरमन आर	785	207482	श्री रमेश ए आर
738	206518	कुमारी प्रभा बी	786	207486	कुमारी कौसेर इसमेल
739	206521	श्री गीता रामाकृष्णन	787	207507	कुमारी मीरा पी वी
740	206539	श्री बोनी मैथ्यू	788	207518	श्री गोपी राज एस
741	206615	कुमारी शेनोए रूपा विटठलदास	789	207601	कुमारी अनिता एस
742	206643	कुमारी हरिधा वी	790	207630	श्री श्रीराम विश्वनाथ ए
743	206675	कुमारी देवी पुष्पा पेरूमल	791	207683	श्री गुरुराज वी
744	206736	श्री रामानाथन जे	792	207729	कुमारी जया रामास्वामी
745	206746	कुमारी देवी सुधा के एन	793	207737	श्री राजेश प्रभू सी
746	206750	श्री जॉर्ज नीनन	794	207747	श्री वेक्टेसवरन वी
747	206767	श्री सुभाष वी	795	207791	कुमारी राजश्री आर
748	206789	श्री कन्नेगणति रंगा राव	796	207815	श्री दोरेस्वामी पी
749	206842	श्री गिरिदास डी	797	207823	श्री दामोदर एस
750	206853	श्री हरीकुमार टी	798	207833	श्री अविनाश पी मादी
751	206856	श्री चुन्दुरु अन्नता कृष्णा चेतन्या	799	207857	श्री विक्रम प्रभाकर एल
752	206857	श्री सुब्रामनीयम पी	800	207882	श्री चन्द्रन आर
753	206859	श्री गणेश के सी	801	207903	श्री मनीकनदन वी पी
754	206877	श्री संजय एम रॉय	802	207949	श्री अन्नामभोटला अटचुट किरण
755	206891	श्री फानिन्द्रा निचनमेतला	803	208000	श्री आनन्दन ई ए
756	206895	कुमारी रेवथी बालाजी	804	208034	श्री राधा कृष्णन सीथारमन
757	206901	श्री प्रभू आर	805	208046	श्री मीरन शाह
758	206911	कुमारी सुकन्या आर	806	208086	श्री रादेश कृष्णा एस
759	206917	श्री रवि शंकर सर्मा के	807	208095	कुमारी माधवी बी
760	206920	श्री सत्या प्रमोद कौशिक	808	208103	श्री आनन्द कुमार पी
761	206927	कुमारी विद्या पी	809	208104	श्री अभिजीत के
762	206965	श्री कुरूपति उगेन्द्रा	810	208144	श्री चिथिराई अल्यास बाबू ए
763	206972	श्री सुरेश आर	811	208159	श्री सत्यानारायणन के
764	206976	श्री सुदर्शन बी	812	208213	कुमारी सेल्लवा पार्वती बी
765	206992	श्री देशीकन एन	813	208222	श्री सतीश कुर्पड
766	207020	श्री बालाजी के	814	208227	कुमारी रीतू अग्रवाल
767	207032	श्री वीरा वेक्टा सतीश गोटीपति	815	208228	श्री सुमन्थ कुमार के
768	207074	श्री रोजी जॉर्ज	816	208254	श्री रामाकृष्णन वी
769	207119	श्री श्रीधर संपत	817	208321	श्री रवि आर टी
770	207134	श्री अरविन्द बाबू गौरेला	818	208334	श्री चन्दाप्पा एस एस
771	207161	श्री संजीव कुमार एस	819	208448	श्री साम्बामूर्ति एन
772	207193	श्री रघू वेक्टेसम	820	208451	श्री राजीव ए
773	207220	श्री प्रसान्त पी	821	208478	श्री नटराजन एस
774	207266	श्री वेन्कीताचेलम जी	822	208486	श्री अजय थॉमस
775	207281	श्री सुशील साबू	823	208536	श्री प्रकाश पी

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
824	208541	श्री गान्दीकोटा विद्याधर	872	209361	श्री भट्ट शिवास्वामी शंकर
825	208543	श्री वामनाशेनोए वी	873	209378	श्री धीम्मा रेड्डी तुरपूसीमा
826	208577	श्री वीरापापेन्नी मुरली कृष्णा	874	209383	श्री गणेश कुडवा एन
827	208583	श्री वेनू गोपाल बी	875	209406	श्री जावीद अशफाक अजनी
828	208623	श्री मैथ्यू जॉस	876	209409	श्री सत्या बनगौरु सेट्टी बन्दारु
829	208636	श्री मोहम्मद अदनान ओमर सेट्ट	877	209423	कुमारी श्रीविद्या एस
830	208647	श्री नन्दा कुमार एन	878	209426	श्री किशोरकुमार भोजनापाल्ली
831	208650	श्री मसतन राव टी	879	209440	कुमारी अंजेलदेवी डी
832	208663	श्री सनेहन जी ओलिकारा	880	209508	श्री लक्ष्मीनारायणन एन
833	208666	कुमारी पद्मावती अड्डाला	881	209512	कुमारी अनुपमा कृष्णामूर्ति
834	208718	श्री मधु कुमार एम एस	882	209524	श्री जॉनमन एगजेवर
835	208748	श्री श्रीहरी मडाला	883	209525	कुमारी मीनाक्षी जी
836	208750	श्री बीनू एम जी	884	209572	श्री नारायणन आर
837	208764	श्री प्रवीन कुमार के	885	209623	कुमारी जयाश्री जगदीश
838	208796	श्री राहुल के	886	209653	श्री गिरिश पोददार
839	208802	कुमारी चित्रा वनामली	887	209689	कुमारी हेमा संकरन
840	208804	श्री परमेश्वरन पी एन	888	209719	श्री बीजू जॉन
841	208806	कुमारी सजना कुरुविल्ला	889	209734	श्री अरुण कुमार एम के
842	208809	श्री अरविन्दन एस	890	209736	कुमारी धना लक्ष्मी जी
843	208870	श्री नागेश कुमार मनगोल्लू	891	209785	कुमारी शेफाली एन एस
844	208876	श्री नरसिमम बी	892	209788	कुमारी कादम्बरी एन नानेह
845	208886	कुमारी प्रिया श्रीनिवासन	893	209797	श्री रवि कुमार के
846	208909	श्री कोटनी पैडी राजू	894	209808	श्री हरीशकेश पी
847	208943	श्री शिबू नीनन	895	209874	श्री योगेश नारायणन सुन्दरम्
848	208948	कुमारी श्रीदेवी के	896	209875	श्री वेक्टा रमनन के जी
849	209028	श्री राजेश के एस	897	209892	श्री अविनाश लोढा
850	209031	श्री स्वामीनाथन एम	898	209893	श्री गोपी आर
851	209058	कुमारी राजालक्ष्मी एन	899	209898	श्री मोहम्मद अफजल खान
852	209088	कुमारी प्रवृथावर्धीनी एस	900	209899	श्री जॉली टी टी
853	209100	श्री नागाबूशना रेड्डी वी	901	209966	श्री राजासेकरन पी
854	209118	श्री सब्रीनाथ जी एन	902	209983	श्री नारायणा हेगडे
855	209121	श्री पुलावर्धी एन वी के किशोर	903	210063	श्री राम कुमार एस
856	209135	श्री सुन्दरा राजेश ए	904	210080	श्री साजन बाबू सी
857	209140	श्री हरि किशन एस	905	210081	श्री पंकज कुमार जैन बी
858	209144	श्री राजकुमार पी	906	210110	श्री सुरेश कुमार पी
859	209154	श्री सेथूरमन एस	907	210115	श्री संतोष एल
860	209178	श्री पंकज कुमार बफना	908	210137	श्री विकास सुरेका
861	209186	श्री पवन कुमार पी	909	210153	कुमारी मानवी केला
862	209187	कुमारी अमिता प्रभू	910	210173	श्री हरीशकुमार एम
863	209225	श्री अनुराग राठी	911	210192	श्री रामप्रसाद यू
864	209231	कुमारी कविथा आर हेजे	912	210203	कुमारी बाथूला वी के दूर्गा
865	209264	कुमारी उष्मा शाह	913	210230	श्री सतीश कुमार आर
866	209277	श्री वैक्टा हनुमा उदयकान्थ देवराज	914	210239	कुमारी अर्चना पुरुषोत्तम
867	209285	श्री साबू सी एस	915	210300	श्री गौरी शंकर के
868	209288	श्री यूनुस आवनी वीदू	916	210318	श्री बालाजी एन
869	209316	श्री सुशील कुमार के एस	917	210327	श्री प्रसाद पी ए
870	209349	श्री हरीश बी	918	210347	श्री अनन्था प्रभू टी आर
871	209353	श्री संजय बी	919	210361	श्री अनिल कुमार

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
920	210366	श्री वीरा वेक्टा राजू वेतसा	967	211342	श्री बीपिन कोशए थोमस
921	210380	कुमारी अनुसुया चमन	968	211415	श्री अयप्पन एस यू
922	210418	श्री चेतन्या सी एस	969	211416	श्री सन्तोष कुमार बी
923	210450	श्री सकाराय लम्बाडे इरेशी राव	970	211420	श्री बालागंगाधरन एस
924	210464	श्री शंकर ए एम	971	211423	कुमारी चित्रा रामास्वामी
925	210481	श्री सुभाष गुप्ता बालीवेटी	972	211444	श्री अरविन्द आर
926	210489	श्री कृष्णाप्रसाद बी	973	211462	श्री गोकुल तापडिया
927	210493	श्री प्रदीप गोपालकृष्णन	974	211498	श्री सेटेफन गनानाशेकरन एस
928	210509	श्री जगथा भास्कर	975	211504	श्री नरेन्द्र कुमार एम
929	210510	श्री ब्रिजेश राय के	976	211543	कुमारी वसुधा एस
930	210516	श्री गुरुमूर्ति आर	977	211575	श्री श्रीनिवास के
931	210591	श्री विनोद कुमार एस	978	211583	श्री जनारधना प्रसाद वी
932	210592	श्री खालिद इकबाल	979	211587	श्री बालाकृष्णन वी
933	210596	श्री वीराही इडारा	980	211645	श्री श्रीनिवासा राव वेम्पति
934	210599	कुमारी अपर्णा एम	981	211651	श्री रामा किरण ए
935	210637	श्री हारवेश कुमार मारवाह	982	211653	श्री ईवान ओजवेलेड सेकेरा
936	210640	कुमारी रेनूका बालीगा	983	211694	श्री विनय मोहन
937	210663	श्री कल्याण चक्रवर्ती मच्छीराजू	984	211703	श्री रॉबिन मोसेस राज जी
938	210664	कुमारी सीनधुजा वी वी	985	211703	श्री बद्रीनाथ आर
939	210674	कुमारी राखी एन पंचागटी	986	211712	श्री किरण कुमार थोटा
940	210681	श्री श्रीनिवासन बी	987	211763	श्री अतुल वी शर्मा
941	210712	श्री विनोद कुमार वी	988	211776	श्री कार्तिकेया वी कसिनाधुनी
942	210714	श्री मनीष अस्थाना	989	211877	कुमारी वैशनवी आर
943	210783	श्री सिधार्थ आर कैलाश	990	211914	श्री कार्तिक बालासुब्रामनीयन
944	210784	श्री वासुदेवा विठाल आई	991	211940	श्री सुब्रामनी पी
945	210863	श्री विवेक वासुदेवन	992	211948	श्री तिरुमाला डी राघवा
946	210937	श्री पेरला सुधीर	993	211953	श्री उदय भास्कर एन
947	210938	श्री जया शंकर पेरला	994	211958	कुमारी थेरसा मारगरेट एस डी पी
948	210947	कुमारी वीनाधारी सोमीसेट्टी एस	995	211990	श्री विजेश के आर
949	210960	श्री सुधाकर आई	996	212035	श्री सुनील जैन
950	210991	श्री रंजीथ बी	997	212046	कुमारी मथानगी के
951	211003	श्री नटराज वी	998	212063	श्री वासुदेवन के आर
952	211046	कुमारी जयन्ती चन्द्रशेखर	999	212084	श्री मुरली मोहन राव मोक्कापति
953	211059	कुमारी सुकृथी वेंकटेश	1000	212093	श्री दिपक बी
954	211071	कुमारी कावेती श्री रमानी शैलजा	1001	212095	कुमारी मिनीमोले साजन
955	211081	कुमारी ललिथा एस	1002	212141	श्री श्रीकान्ध आर
956	211108	श्री सुन्दरसेन वी	1003	212143	कुमारी रमा एस
957	211150	श्री थिरिविक्रम रेड्डी चिन्ताला	1004	212144	श्री जामी सतेसू
958	211164	श्री रामानाधा बाबू पल्लापोटू	1005	212163	कुमारी राजा राजेशवरी एस
959	211168	श्री बालगोपाल जी	1006	212167	श्री श्री रामा नागा राजू चिन्तालापूडी
960	211218	कुमारी प्रिया रामाचन्द्रन	1007	212214	श्री सुनील शंकरन
961	211224	श्री श्रीहरि कोटूरी	1008	212216	श्री सुरेश एस
962	211230	कुमारी दीना जेर्कोब	1009	212224	कुमारी शशिकला के
963	211251	श्री श्रीनिवासन एस	1010	212234	श्री प्रभू कारूनकर सुनकारा
964	211262	श्री जया किरण कार्तिक पी	1011	212237	श्री सुनील कुमार जैन
965	211291	श्री पाण्डेन के	1012	212333	श्री श्रीधरा एम जी
966	211323	श्री कमोझाला रामाकृष्णा	1013	212369	श्री अकेला श्री राम वामसी

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
1014	212373	कुमारी आरथी एस	1060	213091	श्री शाहनी रवि
1015	212375	श्री विष्णू वी	1061	213092	श्री कुमार रेड्डी पी एस
1016	212390	श्री ससीकुमार वी	1062	213095	कुमारी शीतल कुमभट्ट
1017	212420	श्री मुनिपाल्ली गायत्री दिनकर	1063	213122	श्री पत्रा रबी कृष्णा
1018	212422	श्री प्रमोद के पी	1064	213128	श्री श्रीजीथ एन वी
1019	212426	कुमारी राधिका एम	1065	213130	श्री संदीप एम
1020	212430	श्री किरण कुमार काजा	1066	213144	कुमारी कार्तिका जी
1021	212440	कुमारी अरुणा एन	1067	213158	श्री कार्तिक सी पी
1022	212464	कुमारी सुजाता पी	1068	213180	श्री चालापाथी वी वी एस
1023	212465	श्री इमानदी लक्ष्मीकान्ध	1069	213190	श्री मुरली कृष्णा वी
1024	212476	कुमारी लक्ष्मी पत्ताबी रमन	1070	213227	कुमारी कलाई सेलवी आर
1025	212488	श्री वेक्टेस वी आर	1071	213321	श्री महेश टूम्पेपाली
1026	212491	श्री सुरेश स्वर्णा	1072	213323	श्री स्टीफन जॉय
1027	212494	श्री रामकुमार के	1073	213334	श्री सुरेन्द्र टडिकमेल्ला
1028	212498	कुमारी शिल्पा एन आर	1074	213336	श्री दीपक एम डी
1029	212500	कुमारी आरती नाथन	1075	213366	श्री हरीहर सुब्रागनीयन जी
1030	212502	श्री गुरुमूर्ति वी	1076	213387	श्री राजीव भण्डारी
1031	212509	श्री श्रीराम के	1077	213393	कुमारी अंजली प्रभू
1032	212552	श्री मुकेश फालोर	1078	213432	श्री वैक्टा रमन राव नीरेला
1033	212567	श्री जॉसु देवसीया	1079	213444	श्री चन्द्रशेखर एस
1034	212581	कुमारी संधिया जी	1080	213471	श्री थारीक पी
1035	212583	कुमारी महालक्ष्मी वी एस	1081	213494	श्री मुरली मोहन राजू रेड्डीचेरला
1036	212595	श्री तन्वीर अहमद एस	1082	213504	कुमारी प्रतिभा एस ललवाणी
1037	212630	श्री नटराजन एच	1083	213515	श्री नवीन कुमार एन पी
1038	212649	श्री लक्ष्मीनारायणन डी	1084	213528	श्री किरण कुमार टी
1039	212708	कुमारी तशिना कृष्णाए	1085	213547	श्री सतीश एम जी
1040	212713	श्री मधुसुदन राव वी	1086	213570	श्री कानचेती प्रवीन कुमार
1041	212717	श्री कार्तिक बालासुब्रामनीयन	1087	213576	श्री शाजी एम
1042	212736	श्री किशोर कुमार रेड्डी डी	1088	213615	श्री कान्नाप्पन के एन
1043	212757	श्री सतीश कुमार जैन काला	1089	213620	श्री साई गोपाल पात्रो सी एच
1044	212761	श्री सुधाकर ओरुगति	1090	213643	श्री प्रसाद गोविन्दराय भट्ट
1045	212762	श्री नूरुला बाशा एस एम	1091	213661	कुमारी हेमामालीनी एस
1046	212789	श्री हरिश के एस	1092	213669	श्री मोहम्मद समीर पी
1047	212814	श्री रामाकृष्णन एम बी	1093	213690	श्री रामानारायणन जी
1048	212825	श्री गोपालकृष्णन आर वी	1094	213709	कुमारी जयंसी मेजेला मेरी एस
1049	212833	श्री श्रीकान्त आर	1095	213797	कुमारी सारदा जी
1050	212878	श्री अरुण कुमार आर	1096	213799	श्री धावेजी सी वी वी आर ए एस
1051	212968	कुमारी निधिया डी	1097	213807	श्री प्रमोद कुमार एम
1052	212997	कुमारी स्वेथा नागराज	1098	213811	कुमारी अनुषा आर जैन
1053	213008	श्री साईराम वाडावाली	1099	213837	कुमारी रमया वी
1054	213020	कुमारी अंजू मैथ्यू	1100	213847	श्री बोनेला नरसिंगा राव
1055	213026	श्री कृष्णानन्द नायक	1101	213852	श्री सतीश कुमार आर
1056	213030	श्री दारा प्रसाद जी एन एस	1102	213869	श्री विक्रम अशोक श्राफ
1057	213071	श्री वैक्टा फानी राज कुमार ए	1103	213892	श्री बालाजी पी
1058	213072	श्री वैक्टा सुरेश बाबू बूडे	1104	213919	श्री हरीश एच
1059	213086	श्री विशाल सिसोदिया	1105	213923	श्री शिवराम आर

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
1106	213930	कुमारी श्रीप्रिया आर	1153	214790	श्री श्रीवत्सा
1107	213931	श्री सुजीत बी	1154	214796	कुमारी दिप्ती वाई सी
1108	213943	श्री शाखल जैन	1155	214797	श्री प्रवीन सी जी
1109	213952	श्री श्रीनिवास डूगमपुडी	1156	214877	श्री मधुसुदन आर
1110	213964	कुमारी पम्पू लक्ष्मी सरिशा	1157	214934	श्री वैकटा नवीन लालम
1111	213975	श्रीकांति प्रसाद अम्बातीपूडी	1158	214939	श्री बेस्टू वारगेसे
1112	213985	श्री खासीम साब अकबर साब नूरबाश	1159	214970	श्री विनोद कुमार जी
1113	214002	कुमारी साधना सुरेका	1160	214974	श्री अदित्या नरेन्द्र
1114	214044	श्री सुधीर सत्यापाल एस	1161	214975	कुमारी कविथा वी
1115	214059	कुमारी श्रीविद्या के	1162	215015	श्री गोवधमन ए एम
1116	214081	श्री नाइसन लॉस	1163	215041	कुमारी कृष्णा करुणा सोनचत्रा
1117	214083	श्री रवि कुमार चैन्नूपति	1164	215081	श्री टॉनी डेविस
1118	214120	श्री बाडे हीमा वैकटा नरेश	1165	215140	श्री रवि कुमार वी
1119	214141	श्री किशोर एलेक्स	1166	215155	श्री गिनू पॉल
1120	214143	श्री विनोद आर	1167	215161	कुमारी वेनू माधवी चेरुकुरी
1121	214147	श्री सुर्था चन्द्र शेखर मल्ला	1168	215188	श्री नन्दू सी पी
1122	214149	श्री बाला वैकटा सुब्राह्मनीयम चिन्ती	1169	215228	श्री राजेश खन्ना सी
1123	214255	श्री अनिल कुमार कोनरू	1170	215240	श्री राजा शेखर ईथा
1124	214268	श्री सुनील वी	1171	215257	श्री सत्येन्द्र भट्ट के
1125	214286	श्री पेटरो सुनील कुमार	1172	215265	कुमारी सुषमीता रतनम
1126	214297	श्री अर्ज अनवर अली एस	1173	215274	श्री रवि बोकम
1127	214397	श्री राघवेन्द्रा एन	1174	215320	श्री रामाबाबू एडेपू
1128	214425	श्री राघवेन्द्रा जी वी	1175	215334	श्री अर्ली विश्वानाथ चन्द्रकान्त
1129	214456	श्री सेन्थील कुमार वी एम	1176	215340	श्री वैकटराघवन एस
1130	214510	श्री श्रीराम फानेशवर के	1177	215379	श्री जतिन बत्रा
1131	214542	श्री राकेश वी	1178	215381	श्री दुगार आशीत जगत सिंह
1132	214551	कुमारी तूलसी मददीनेनी	1179	215474	श्री गणेश कुमार जे
1133	214559	श्री श्रीनिवास ए	1180	215475	श्री सुधाकर अरलागाडा
1134	214561	कुमारी जयाश्री पी	1181	215508	श्री जॉन पाशा शाईक
1135	214562	श्री श्रीनिवास वी	1182	215515	श्री रवि कुमार के
1136	214572	श्री गिरिश बी	1183	215532	श्री हरि बाबू पिन्नाका
1137	214593	श्री विक्रम कनकारिया ए	1184	215560	श्री श्याम प्रसाद पी जी
1138	214615	श्री विजय ए एम	1185	215576	श्री सुनील कुमार पी
1139	214617	श्री रमेश एन	1186	215581	श्री विवेक वी अयर
1140	214619	कुमारी विनीता रविन्द्ररनाथ	1187	215607	श्री राघवा चैरी टी
1141	214622	श्री प्रशांत जैन	1188	215611	श्री सेन्थील कुमार बी
1142	214623	श्री राजेश अचार्य	1189	215658	कुमारी राधामाजी के
1143	214659	कुमारी शारदा सी वी	1190	215693	श्री विक्रम प्रिया वामसी एम
1144	214664	कुमारी निरंजना रमन	1191	215694	श्री अरुण ए
1145	214665	कुमारी कृष्णा प्रिया डी	1192	215729	कुमारी वनिथा मारग्रेटे
1146	214667	श्री ईश्वर सुदेरज	1193	215750	श्री टॉमी जॉसफ
1147	214671	कुमारी शोभना जी	1194	215754	श्री संतोष वी
1148	214682	श्री शिवकुमार जी	1195	215759	श्री सुनील कुमार एम
1149	214685	श्री अश्वथ जी भट्ट	1196	215760	श्री श्रीधर ए
1150	214687	श्री श्रीराम एस	1197	215773	श्री दानूनजया ए
1151	214728	श्री सुंदरे सदानन्दा	1198	215778	कुमारी पद्मावती एस
1152	214753	कुमारी पायल नन्दी	1199	215781	श्री प्रभात कुमार तलासू

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
1200	215806	श्री मुरलीधर राव वाडी	1246	216722	कुमारी कल्पना जी
1201	215813	श्री अनन्ता चराना साहू	1247	216724	श्री विशेष राजाराम आर
1202	215831	श्री कार्तिक नारायणन पी आर	1248	216730	श्री जगदीश एस आर
1203	215845	कुमारी हेमा जोशी	1249	216743	कुमारी शर्मिला रानी एन
1204	215884	श्री श्रीराम एम भट्ट	1250	216748	कुमारी डिम्पल चौधरी
1205	215886	श्री रमेश बाबू मूरिकी	1251	216765	श्री कुरुविल्ला मैथ्यू
1206	215889	श्री सतीश जी	1252	216775	श्री श्रीनिवासा राव कोलासानी
1207	215904	कुमारी गौरी के	1253	216776	श्री अशोक नायर
1208	215964	कुमारी सुधा सी	1254	216794	श्री रजनीश दाहल
1209	215994	श्री दास प्रियारंजन	1255	216796	श्री जॉस जे मेक्कालाथ
1210	216004	श्री अचन्ता रामा नागा उपेन्द्र	1256	216804	श्री चेरिस्टी सी चान्डी
1211	216006	श्री वेंकट चन्द्र शेखर अल्लूरी	1257	216814	श्री शिवकुमार जी
1212	216025	श्री वाडलामनी रामा प्रसाद	1258	216815	कुमारी चर्इत्रा के मिश्रा
1213	216029	श्री चुन्दरू रघुवेन्द्रा कौंडिनीया	1259	216821	श्री प्रसाद राव मारासू
1214	216052	श्री जितेन्द्र कुमार गौर	1260	216843	श्री निश्चय सर्राफ
1215	216054	श्री रविन्द्र के	1261	216852	श्री सचीन दत्तात्रय सानू
1216	216089	श्री संतोष टी वी	1262	216863	कुमारी सरस्वती अधिकारी
1217	216117	श्री चेतन प्रकाश एस पीरगल	1263	216869	श्री मैथ्यू वार्गेसे प्राकाट
1218	216130	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1264	216880	कुमारी श्री विद्या लक्ष्मी के
1219	216146	कुमारी अनुषा रघुनाथन	1265	216881	श्री वेंकट नागा प्रसाद मुबाला
1220	216177	श्री गोकुलदास पाई एच	1266	216913	श्री प्रदीप थॉमस
1221	216202	श्री देवरा शेड्टी किरण कुमार	1267	216958	श्री पुनीत कुमार मेहता
1222	216204	श्री आनन्द एम	1268	217007	श्री राजाशेखर रेड्डी एडा
1223	216215	श्री श्रीहरि जी	1269	217012	श्री जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
1224	216219	श्री शिवा शंकर रेड्डी सनम रेड्डी	1270	217032	कुमारी प्रिथि जे
1225	216226	श्री अचार्य दिपेन्द्र कुमार	1271	217068	श्री राजकुमार राव बी एस
1226	216261	कुमारी रेनी पॉल	1272	217118	श्री अजू स्केरिया
1227	216271	श्री सुब्बा राव उनम	1273	217142	कुमारी कीर्ति एच एस
1228	216296	श्री मीन्स मैथ्यू	1274	217211	कुमारी लक्ष्मी कृष्णन
1229	216340	श्री बिजी जॉसफ	1275	217219	कुमारी वानाजाक्षी सी
1230	216372	श्री प्रवीन जैन	1276	217237	श्री धर्मा राव ए
1231	216382	श्री अमपूरन जे के	1277	217268	श्री कृष्णाराज एस
1232	216388	श्री सुजीत पोंखरल	1278	217295	श्री वनजीनाथन एम
1233	216434	कुमारी नेहा मेहता	1279	217300	श्री पदमानभा एन
1234	216451	श्री मुरलीधर नन्दूरी	1280	217325	श्री गौरव गुप्ता आर
1235	216504	श्री विनोद कुमार एस	1281	217348	श्री राजेश के
1236	216505	कुमारी संगीता आर	1282	217419	श्री राधाकृष्णन आर
1237	216553	श्री गिरिश सी एस	1283	217432	श्री लक्ष्मी नरसिंहा मूर्ति आर
1238	216599	श्री कार्तिक कोल्लूरी	1284	217483	श्री विजय कुमार सीएच
1239	216654	कुमारी शिल्पा एस मल्लोत्रा	1285	217509	कुमारी नीराजा आर
1240	216669	श्री कार्तिक टी	1286	217515	कुमारी कामत पूर्णिमा श्रीनिवास
1241	216671	श्री रमेश सी एस	1287	217520	श्री सदाशिव एन टी
1242	216677	श्री अजय कुमार रौतरी	1288	217636	श्री अभय कीर्ति
1243	216709	श्री कृष्ण मोहन यू	1289	217645	कुमारी वेंकट किरणमाई एन
1244	216715	श्री श्रीनिवासा राव अप्पाणा	1290	217652	कुमारी शमिमा नसरिन
1245	216721	श्री गोपाला कृष्णा सकामूरी	1291	217658	कुमारी अमनीक तलवार

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम
1292	217661	श्री जॉन पॉनवेलील फिलिप	1340	219308	श्री सुनील पोंखरेल
1293	217714	श्री सचिन एस शाह	1341	219368	श्री पीटर फर्नान्डीस
1294	217722	श्री पाण्डू ई	1342	219373	श्री रामा कृष्णाजी गुप्ता कुन्चम
1295	217775	श्री खाजा करिमूल्ता शाईक	1343	219452	श्री नवनीत अचार्य
1296	217776	श्री विजय भास्कर देसु	1344	219462	श्री शेषानन्द संगत
1297	217860	कुमारी कृपा जी	1345	219470	श्री गणीपीनी समबाशिवा राव
1298	217883	श्री उदय कुमार रेड्डी कावूरु	1346	219505	श्री पंकज तायल
1299	217886	श्री तेजस जे शाह	1347	219560	श्री राहुल एन वी
1300	217938	श्री मनोहरन जे	1348	219575	श्री प्रदीप कुमार जी
1301	217984	श्री कोटेश्वरा राव पासुमारति	1349	219618	श्री अरुण कार्तिक एस
1302	218009	श्री विवेक एन रागव	1350	219654	कुमारी रंजीता एस एन
1303	218019	कुमारी विद्या वाई	1351	219710	श्री आनन्द मन्डेलिया
1304	218074	श्री मेहूल ललिथ कुमार	1352	219713	श्री श्रीनिवास सी जी
1305	218130	कुमारी थसनीम बानू एस एफ	1353	219748	श्री राजा सोमाशेखर गुप्ता
1306	218145	श्री अनन्त प्रसाद बी आर	1354	219779	कुमारी सुनेना तमराकर
1307	218214	कुमारी कामथ लक्ष्मी दयानन्द	1355	219808	श्री श्रीपाल डी
1308	218251	श्री श्रीराजागणपति एस	1356	219821	श्री सुनील कुमार एम
1309	218258	श्री सत्यानारायणा सी एस	1357	219845	श्री सुरेन्द्र मोट्टामारी एन वी
1310	218334	कुमारी सुचरिथा बी	1358	219870	श्री राजू आर
1311	218350	कुमारी सरावन्थी वी डी एन	1359	219906	श्रीसुरेश राज खाकुरेल
1312	218386	कुमारी वनिता ए वी	1360	219913	कुमारी लावण्या एस
1313	218476	कुमारी विष्णू प्रिया एल आर	1361	219963	श्री अदित्या यू जी
1314	218583	श्री वैकटा सीबाए तल्लूरी	1362	220010	श्री मुरली कृष्णा बोनगिरि
1315	218599	कुमारी अपर्णा अम्मानन्या	1363	220035	श्री मुकेश गुप्ता
1316	218611	श्री डिगी मैथ्यू	1364	220037	श्री मोहित खाडोलिया
1317	218635	कुमारी हसीना प्रवीन शाईक	1365	220082	श्री विपुल बियानी
1318	218685	श्री अमीत कुमार बजाज	1366	220102	श्री विशाल नारंग
1319	218704	श्री अदित्या पी	1367	220147	श्री प्रशांत कुमार एस
1320	218705	श्री अशोक कल्याण ताव्वा	1368	220159	श्री हरिनाथ बाबू के
1321	218823	श्री शिवादरशन एस अंक्लकोटि	1369	220175	श्री किरण शानबोध
1322	218824	श्री दिलीप राधाकृष्णन	1370	220236	कुमारी भगंता ए वी
1323	218834	श्री बालाकृष्णा गलीपेली	1371	220253	कुमारी कलाईवानी जी
1324	218872	श्री महावीर जैन एम	1372	220262	श्री श्रीनिवास राव डोकी
1325	218982	श्री साहू सुधाकर	1373	220313	श्री राजेशकुमार के
1326	218990	श्री चीनेश जॉसफ	1374	220317	श्री हरनाथ बाबू कानमारलापूडी
1327	219006	कुमारी वासवी एल	1375	220345	श्री दिवाकर प्रदुयमना के
1328	219013	कुमारी सरिता बी	1376	220352	कुमारी ससीकला पी
1329	219031	श्री रवि शंकर	1377	220357	कुमारी गायत्री कामेश
1330	219066	श्री रघुरमन के एल	1378	220359	श्री सुब्बा राव कापूगणति
1331	219107	कुमारी ममता ओमप्रकाश बागडिया	1379	220360	श्री जनक कुमार बारल
1332	219112	श्री पण्डित्युराई जे	1380	220361	कुमारी श्रीदेवी आर
1333	219127	कुमारी दिव्या बी	1381	220380	श्री अग्नीजीत प्रहाराज
1334	219141	कुमारी मधुरिमा एस	1382	220391	श्री शाकील सचेमनाद
1335	219148	कुमारी मनीषा वी अग्रवाल	1383	220406	श्री गौरव खन्ना
1336	219211	कुमारी विशाखा मोहनदास पाई	1384	220419	कुमारी निखिल मित्तल
1337	219222	कुमारी तेजल कोशिक गौर	1385	220493	श्री रतन बाबू वी
1338	219249	श्री दीपक कुमार	1386	220603	श्री मधान कुमार जे
1339	219270	श्री सेबी जॉर्ज	1387	220608	श्री श्रीधर मिरियमपाली

संख्या			संख्या		
1388	220666	श्री माल्लेशाम जे	1415	404076	श्री कुक्कर गौरव
1389	220679	श्री माला रेड्डी बुट्टुकुरी	1416	404387	श्री मालपाणी विजय
1390	220790	कुमारी शानू जैन	1417	404630	कुमारी काजल डागा
1391	220798	कुमारी मडाळी मयूरा राजेन्द्र	1418	404658	कुमारी अदिती जैन
1392	220823	श्री अश्विन दिनकरन	1419	405209	श्री अग्रवाल राज कुमार
1393	220826	कुमारी श्रेया जैन	1420	406078	सीए रजत अग्रवाल
1394	220830	श्री समीर पी बी	1421	406368	सीए रवि कान्त
1395	220831	श्री भास्कर एस वाई एन	1422	406454	सीए सीमा केडिया
1396	220832	श्री रवि बाबू छाला	1423	407034	सीए विनायक रामाचन्द्रा लेले
1397	220898	श्री चैतन्य कुमार के	1424	408602	सीए अनीक कुमार विजय
1398	220900	श्री उदय कुमार एस	1425	500963	श्री बेद सुनील
1399	220988	कुमारी अंजना आर	1426	501193	कुमारी गोवदा दिव्या
1400	220989	श्री शंशू बाबू डी	1427	502201	कुमारी बेनर्जी इशीता
1401	221020	कुमारी वानीश्री नायडू सी	1428	504647	श्री भासीन आशीष
1402	221034	श्री कानाकाराज एन	1429	505376	कुमारी आईवतूरी मधुरी
1403	221040	श्री राघवेन्द्र बी शेटर	1430	505620	श्री गोयल विकास
1404	221066	श्री अमरेशवर जी	1431	506343	श्री नरेन्द्र कुमार
1405	221147	श्री लोकेश के वी	1432	506595	कुमारी डीप्पी शर्मा
1406	221157	कुमारी शिवागमी एन	1433	509364	श्री डीप नारायण साह
1407	221237	श्री सेबीसतीयन फिलीप	1434	510128	श्री मोहम्मद अब्दुल मोइद
1408	401261	श्री संजीव कुमार	1435	510335	श्री मोहन राव राजाना
1409	402577	श्री मीगलानी जितेन्द्र	1436	510527	श्री सतीश तिरुमेला
1410	402697	श्री अग्रवाल आनन्द	1437	510543	कुमारी निहारिका ठाकुर
1411	402737	कुमारी चन्द्रशेखरन रशमि	1438	511021	श्री त्रिनाथ के
1412	403243	श्री अग्रवाल देवेन्द्र	1439	511035	श्री रमेश आर
1413	403398	श्री वर्मा सन्दीप	1440	511257	श्री कलप्पा के एम
1414	404042	श्रीमति जयसिंह दिप्ती			

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3 एस.सी.ए. (4)/2/2008-2009 चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद) द्वारा यह सूचित किया जाता है चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनकी मृत्यु हो जाने के कारण आगे दी गई तिथियों से हटा दिया गया है ।

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रद्द दिनांक
1	000795	श्री कुरुविल्ला पी जे	17/09/2008
2	000874	श्री नटराजन चितूर	15/07/2008
3	001079	अन्नथा कृष्णा अयर श्री रमाही एच	06/02/2008
4	001339	श्री वीराभादरा राव	16/05/2008
5	001607	कोटा श्री गोपालकृष्णा राव पी	01/08/2008
6	002099	श्री वारदाराजन	26/06/2008
7	002138	सदागोपन श्री बोराईस्वामी एन	09/10/2008
8	003174	आर श्री किनी उलाल माधवा	26/07/2008
9	003695	श्री रामानाथन सी	07/10/2008
10	003893	श्री गंगाधरन एन एल	01/04/2008
11	004485	श्री सुब्बारमन एम एन	18/04/2008
12	004930	श्री धानगावाडिवेल एस	14/10/2008
13	005073	श्री राजागोपालन पी	29/04/2008
14	005671	श्री जयाराम हरी	04/05/2008
15	006439	श्री कृष्णामूर्ति डी	20/02/2009
16	006549	श्री सीता राम राव जी	10/12/2008
17	006619	श्री पूनेन पूलीकोडे	25/11/2004
18	006901	जेर्कोब श्री अनन्थारमन वी	16/06/2008
19	008115	श्री राजाचन्द्रन पी एच	29/10/2008
20	009510	श्री जॉन जॉसफ	15/07/2008

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रद्द दिनांक
21	009593	श्री शिवारमन वी	15/05/2008
22	009658	श्री हेबेल भीमाशंकर	10/09/2008
23	010370	मसनप्पा श्री अल्ला लक्षमाया	17/03/2008
24	011032	श्री सुधीर राव वेलौरे	27/09/2008
25	011120	श्री अरविन्दका मेनन ए	22/12/2008
26	011266	श्री अयप्पन वी	15/04/2008
27	011882	श्री अलगअप्पन एस	21/02/2008
28	012905	श्री राजन ए	26/10/2008
29	013012	श्री जैन मनगीलाल	10/10/2007
30	013780	भवरीलाल श्री नहाता विजय चन्द	12/01/2008
31	013844	श्री कृष्णा राउ यू	12/07/2008
32	014176	श्री मैथ्यू टी सी	20/01/2009
33	014482	श्री विश्वानाथन वी	30/01/2008
34	014533	श्री हरेन्द्रन के पी	12/03/2007
35	015265	श्री शामूगन एन	30/12/2008
36	015806	श्री मानीयन एम एस	24/07/2009
37	016031	श्री राज मोहनदास	10/02/2008
38	016226	शेट्टी के श्री जगन्नाथन	26/11/2007
39	018197	पदमनभान श्री मेयप्पन एन	08/11/2008
40	018665	श्री सुर्या वारा प्रसाद	19/01/2009
		वाराहाभाटला	

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक
41	018674	श्री अनिल कुमार विथलानी बी	23/06/2008	56	026829	श्री पीटर सी वी	02/08/2007
42	019384	श्री चैल्लाप्पा पी आर	1/05/2008	57	027578	श्री प्रसाद बी	03/03/2008
43	019543	श्री अब्राहम सी पी	17/10/2008	58	028190	श्री वेक्टा राव के	23/01/2009
44	019722	श्री चाकोंक राजन वार्गेस	15/08/2008	59	030385	श्री राजू बेल्ली	26/01/2008
45	020178	श्री रामाकृष्णन वी	11/12/2006	60	050625	श्री ब्रह्मा संजीत	14/09/2008
46	020900	श्री अलगरसमी जी	01/02/2008	61	072275	श्री मायनेनी मोहन मुरली	30/12/2007
47	021988	श्री पूरनालिंगम ए	21/12/2007	62	200761	श्री बसती गिरिधर शेनोए	10/12/2008
48	022107	श्री छेट्टी टी जी एस एन	14/09/2008	63	201565	श्री विजय कुमार बी कट्टी	07/11/2008
49	023811	श्री वीरा ब्राह्मेन्द्र राव ए	23/07/2007	64	206530	श्री गणेश के आर	19/04/2008
50	023876	श्री रामानारायणन एस	07/08/2008	65	207261	श्री गणेश ई	11/08/2008
51	024097	श्री महादेवा दास सी	23/02/2008	66	207307	श्री कुरेन थॉमस	15/10/2008
52	026086	श्री किशोर कुमार बाई	06/12/2008	67	214948	श्री जयाप्रदीप के एम	31/10/2007
53	026551	श्री महेशवरी आर सी	04/11/2008	68	217208	श्री ईलावारासन एस	25/02/2008
54	026581	श्री दातातरया गणपत राव	01/04/2008	69	218060	श्री वेनी सथिटपराजन	10/02/2008
55	026698	श्री राजू ए जी	17/09/2008				

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3एस.सी.ए. (4) /3/2008-2009 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम 1988 की धारा 18 का अनुसरण करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद द्वारा इस संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों को उनकी इच्छानुसार उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से हटा दिया गया है ।

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक
1	012545	श्री वासु एस	31/03/2009
2	018292	श्री रामानाथन के	31/03/2008
3	025992	श्री नटराजन डी	27/06/2008

(टी0 कार्तिकेयन)
सचिव

3एस.सी.ए. (8) /1/2008-2009 चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम 10 (1) खण्ड — 4 के अनुसरण में 10 (2) खण्ड (ब) में अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1988 अधिनियम के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को फिस न देने के कारण 1 अक्टूबर 2008 से रद्द कर दिया गया है।


क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	एफ सी ए	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	ए सी ए
1	001279	श्री सुन्धरसेन एस एस	एफ सी ए	37	021060	कुमारी मालथी एम के	ए सी ए
2	003009	श्री रतनम आर एन	एफ सी ए	38	021317	श्री थोमस ए जॉर्ज	एफ सी ए
3	004065	श्री सुब्रामनीयन वी	ए सी ए	39	021468	श्री अरूमूसा वेलन एस	एफ सी ए
4	006287	श्री सुन्दरा बाबू वाई	एफ सी ए	40	021618	श्री चैंगलरायलू जी	एफ सी ए
5	009042	श्री सत्यानारायणा टी एन	एफ सी ए	41	021690	श्री एन्टोनी इसाक	ए सी ए
6	010116	श्री श्रीनिवासन ए वी	एफ सी ए	42	021769	श्री गोमयीशंकर वी आर	एफ सी ए
7	010241	श्री थोमस लार्जोर्स	एफ सी ए	43	021934	श्री प्रेम कुमार एम	ए सी ए
8	010308	श्री कस्तूरी रंगन ए	ए सी ए	44	021965	श्री सनथानम टी आर	एफ सी ए
9	010320	श्री गोविन्दा राजू एन वी	एफ सी ए	45	022145	श्री अरुणागिरेश्वरा अय्यर वी	ए सी ए
10	010815	श्री रमन टी एच	एफ सी ए	46	022297	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	एफ सी ए
11	011241	श्री शंकरकुमारास्वामी टी सी	एफ सी ए	47	022533	श्री गुनाशेकरन आर	एफ सी ए
12	011734	श्री राठी नन्द किशोर	एफ सी ए	48	022539	श्री मुरलीधरन आर	ए सी ए
13	012330	श्री श्रीधरा बी एच	एफ सी ए	49	022921	श्री राधाकृष्णन ए आर	एफ सी ए
14	014753	श्री प्रमसिवन टी	एफ सी ए	50	023175	श्री राजन पी बी	एफ सी ए
15	015514	श्री शंकर टी आर	ए सी ए	51	023339	श्री अचेह एन डी एलियास लोकेश	एफ सी ए
16	018213	श्री रघुपथि के	ए सी ए	52	023380	श्री श्रीधर एन	एफ सी ए
17	018234	श्री नरसिंग राव आई	एफ सी ए	53	023619	श्री दिलीप प्रलाहदराव हिलीनहल्ली	ए सी ए
18	018366	श्री सुब्बा राव वी वी के	ए सी ए	54	023874	श्री श्रीधर जी	एफ सी ए
19	018590	श्री सम्बाशिवा राव नन्दिराजू	एफ सी ए	55	023964	श्री चन्द्रा मोली ए	एफ सी ए
20	018676	श्री शैलेश चन्द्रा	एफ सी ए	56	024820	श्री आनन्धन ई	एफ सी ए
21	018691	श्री श्रीरमन जे	एफ सी ए	57	024826	श्री सत्थियाप्रियान जी	एफ सी ए
22	018762	श्री जियायुदिन ए एम	ए सी ए	58	025016	श्री वेंकटरमन एस	एफ सी ए
23	019054	श्री जयाकुमार आर	एफ सी ए	59	025056	कुमारी मालथी रघुनाथ	एफ सी ए
24	019107	श्री वैक्केश कुमार आर	ए सी ए	57	024826	श्री सत्थियाप्रियान जी	एफ सी ए
25	019121	श्री सुर्यानारायणा टी	एफ सी ए	58	025016	श्री वेंकटरमन एस	एफ सी ए
26	019341	श्री सत्याना गोपालन के एस	एफ सी ए	59	025056	कुमारी मालथी रघुनाथ	एफ सी ए
27	019563	श्री कृष्णामूर्ति वी	एफ सी ए	60	025276	श्री रविचन्द्रन एस	एफ सी ए
28	019600	कुमारी बाग्यालक्ष्मी शंकर	ए सी ए	61	025440	श्री रमानी जे आर वी	ए सी ए
29	019656	श्री रवि डी	एफ सी ए	62	025445	श्री चैन्नूपति चन्द्रशेखराराव	ए सी ए
30	019750	श्री नागराजन आर	एफ सी ए	63	025641	श्री मोहन जे	एफ सी ए
31	020036	श्री नारायणन नाम्बीर एन आर	ए सी ए	64	025908	श्री श्रीरमन वी	एफ सी ए
32	020051	श्री दिलीप कुमार एस	एफ सी ए	65	025944	श्री बालाकृष्णा शबराया के	एफ सी ए
33	020134	श्री नाडाराजन एस	एफ सी ए	66	026115	श्री चन्द्रामूर्ति के	एफ सी ए
34	020198	श्री सुब्बारात्म पी	ए सी ए	67	026236	श्री वैक्केश कोटेश्वर एन	एफ सी ए
35	020433	श्री जयदेवा बी आर	एफ सी ए	68	026249	श्री सतीश कुमार वी	एफ सी ए
36	020868	श्री नटराजन के	एफ सी ए	69	026560	श्री दीपक कपूर	एफ सी ए

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	ए सी ए	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	ए सी ए
70	026763	श्री शाजी जॉस	ए सी ए	104	081370	श्री नारायणास्वामी जी	ए सी ए
71	026776	श्री रियाज अहमद खान पी	ए सी ए	105	081612	श्री नागराज एच एस	ए सी ए
72	027140	श्री शिवा प्रसाद के	ए सी ए	106	083622	श्री गोनसलवेश देव एन्डोनी	ए सी ए
73	027256	श्री नारायण राव के	ए सी ए	107	083902	श्री नायर गिरिश	ए सी ए
74	027552	श्री अशोक आर	ए सी ए	108	094124	श्री महेशवरी गौरव	ए सी ए
75	027564	श्री सुरेश कुमार बी एस	ए सी ए	109	094947	श्री चोपडा कमल सिंह	ए सी ए
76	027622	श्री थॉमस जॉसफ	ए सी ए	110	101101	श्री कानन एन एस रामलिंगम अयर	ए सी ए
77	027691	श्री शंकरास वेन्कोसा लडवा	ए सी ए	111	102527	श्री खत्री जामिल अहमद उसमान	ए सी ए
78	027842	कुमारी राजलक्ष्मी आर	ए सी ए	112	105098	कुमारी शाची महेशवरी	ए सी ए
79	028241	श्री राम प्रसाद डी	ए सी ए	113	106520	श्री पराग चिन्तामनी लॉटे	ए सी ए
80	028362	श्री गोपाला देसीकन के	ए सी ए	114	107100	कुमारी श्रीदेवी श्रीकान्त	ए सी ए
81	028662	कुमारी सुशीला महेश	ए सी ए	115	115192	कुमारी स्मीता शशीकुमार	ए सी ए
82	208970	श्री रामामूर्ति एन	ए सी ए	116	119332	कुमारी जूली रितेश शाह	ए सी ए
83	029393	श्री अशोक जी	ए सी ए	117	200016	श्री कार्तिक आर	ए सी ए
84	0291438	कुमारी भारथी शाह	ए सी ए	118	200167	श्री रंगाराज के पी	ए सी ए
85	031400	श्री मुषीया के	ए सी ए	119	200364	कुमारी भूमा जी	ए सी ए
86	035521	श्री सुदेव माधव राव	ए सी ए	120	200405	श्री गोपाल जे	ए सी ए
87	037830	श्री सुब्रामनीयम श्रीधर	ए सी ए	121	200559	श्री अनन्धा पद्मानभा एलसे ए	ए सी ए
88	038695	कुमारी जयाश्री बालाकुमार	ए सी ए	122	200612	श्री मनोहर एस	ए सी ए
89	041715	श्री नारायण राव बी आर एस	ए सी ए	123	200684	श्री मैथ्यू जॉसफ	ए सी ए
90	051284	श्री शर्मा दिवाकर	ए सी ए	124	200722	श्री सेबीस्तीयन मैथ्यू	ए सी ए
91	53991	श्री डे पलाश कुमार	ए सी ए	125	200828	श्री करिथीवासन आर	ए सी ए
92	056675	श्री चौधरी रवि कुमार	ए सी ए	126	200887	श्री हरी कृष्णन जी	ए सी ए
93	058905	कुमारी नहाता प्रतिभा	ए सी ए	127	200983	श्री सज्जन राज जैन पी	ए सी ए
94	059518	सीए चित्रा अर्पना वाई	ए सी ए	128	201082	श्री सुब्रामनीयन जी	ए सी ए
95	059575	कुमारी विद्या संजय	ए सी ए	129	201115	श्री पौली स्टेनली पायापिल्ले	ए सी ए
96	060378	श्री संतोष महेशवरी	ए सी ए	130	201274	श्री सत्यानारायण पी	ए सी ए
97	060769	सीए सौवा भूनीया	ए सी ए	131	201474	श्री श्रीकुमार एम	ए सी ए
98	072258	श्री सेशागिरि राव आई	ए सी ए	132	202304	श्री रूथूस्वामी आर	ए सी ए
99	076660	श्री भट्टनागर संजय	ए सी ए	133	202453	श्री सलीम पी बी	ए सी ए
100	077162	कुमारी विद्या भास्कर सुब्रामनीयन	ए सी ए	134	202520	श्री चिन्नाप्पन ए	ए सी ए
101	080120	श्री नीलकंठन एस	ए सी ए	135	202643	श्री धर्मेन्द्र वरदा	ए सी ए
102	080143	श्री रघुनाथन के	ए सी ए	136	202646	कुमारी गायत्री एन	ए सी ए
103	081164	श्री भास्करकृष्णा बी वी एस	ए सी ए	137	202702	कुमारी अरूणा डागा	ए सी ए

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम		क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	
138	202762	श्री प्रदीप सी	ए सी ए	172	207414	श्री कुमार जे एस	एफ सी ए
139	202798	श्री वैक्टरमनन जे	एफ सी ए	173	207745	कुमारी रंजनी विजयराघवन	ए सी ए
140	202873	कुमारी वासीरेड्डी लक्ष्मी	एफ सी ए	174	207888	श्री शिवारामाकृष्णन टी पी	ए सी ए
141	202968	श्री सुरेश के	ए सी ए	175	207935	श्री दीपू जे थॉमस	ए सी ए
142	203211	श्री कोटटाकोटा सुरेश कुमनंदन	एफ सी ए	176	207958	कुमारी कविता डी	एफ सी ए
143	203324	कुमारी महालक्ष्मी के	एफ सी ए	177	208101	श्री प्रदीप के	ए सी ए
144	203340	श्री मुरुगेसन एन	एफ सी ए	178	208137	श्री मैथ्यू स्टीफन के	ए सी ए
145	203573	कुमारी सकेंथिया शेर्यल लोबो	ए सी ए	179	208191	कुमारी अरुणा एम	एफ सी ए
146	203620	श्री किशन राव पुथली	एफ सी ए	180	208218	श्री पवन आर	ए सी ए
147	203980	श्री अण्णा राव मायनेनी	एफ सी ए	181	208235	श्री नागेन्द्र बाबू बी	ए सी ए
148	204336	श्री वेक्टेस एम एस	एफ सी ए	182	208317	श्री सुन्दरराजन डी	ए सी ए
149	204451	श्री वेला श्रीनिवासा सेशा साई बाबू	एफ सी ए	183	208373	श्री बेलावेन्द्रन वी	ए सी ए
150	204558	श्री वेक्टा सुब्बा राव पुसरला	ए सी ए	184	208386	श्री सयलेश बाबू ओ वी	ए सी ए
151	204599	श्री वेक्टेसवरा प्रभू आर	ए सी ए	185	208399	श्री हाजा मोहिदीन एस	ए सी ए
152	204993	श्री पॉथेन के वार्गेसे	एफ सी ए	186	208458	श्री रामा कृष्णा डी	ए सी ए
153	205082	श्री बालाजी आर	एफ सी ए	187	208554	श्री साई किर्ती चन्द डी	एफ सी ए
154	205108	श्री मैथ्यूस वी अब्राहम	एफ सी ए	188	208819	श्री सदाशिवा मरकाला एच	एफ सी ए
155	205271	श्री अशोक अरुणकुमार राव	ए सी ए	189	209019	श्री शाम बल्लाल के आर	ए सी ए
156	205511	श्री वेक्टरंगम के	ए सी ए	190	209032	कुमारी दीपा वारगेसे	ए सी ए
157	205864	श्री संदीप देशपाण्डे	एफ सी ए	191	209188	कुमारी वन्दना नवल	ए सी ए
158	205926	कुमारी अनू वीनू जॉन	ए सी ए	192	209359	कुमारी अगस्टीना बालाचन्द्रन	ए सी ए
159	206144	कुमारी करुण्णा गन्दावर्षू	एफ सी ए	193	209489	कुमारी अनिथा मेरलयन डीसिलवा	ए सी ए
160	206167	श्री गिरिश ए पी	ए सी ए	194	209491	कुमारी निथ्या पी	ए सी ए
161	206317	कुमारी जेयोना अन्न जॉस	एफ सी ए	195	209631	कुमारी दीपा एस	ए सी ए
162	206371	श्री चिव्यूकुला वेक्टा पट्टाभी रामा शर्मा	ए सी ए	196	209728	श्री वेल्मुनी ए	ए सी ए
163	206465	श्री पवन के	ए सी ए	197	209765	कुमारी दीपा राव	ए सी ए
164	206515	श्री सुब्रामनीयम एस	एफ सी ए	198	209815	कुमारी मीरा एस रमन	ए सी ए
165	206645	श्री प्रसाद डी एस	ए सी ए	199	209885	श्री सोनी अब्राहम	ए सी ए
166	206690	श्री सत्या प्रकाश वी	ए सी ए	200	210207	श्री बालाजी सुब्रामनीयन एस	ए सी ए
167	206993	श्री अर्जुन सोमाशेखर	ए सी ए	201	210233	श्री सांजन जोस	ए सी ए
168	207039	श्री सुरेश कुमार आर	एफ सी ए	202	210243	कुमारी कीर्तिमालीनी नीलेकर	ए सी ए
169	207042	कुमारी अरुणा पी	एफ सी ए	203	210266	श्री राजेश पी बी	एफ सी ए
170	207111	श्री सत्यानारायणा वी वी	एफ सी ए	204	210309	श्री सत्यानारायणा बारू	ए सी ए
171	207283	कुमारी मायालक्ष्मी एन एस	एफ सी ए	205	210316	श्री बाईजू के	ए सी ए

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम		क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	
206	210462	श्री ईश्वरदास वी	ए सी ए	240	213958	श्री गनाचारी सुरेश नागप्पा	ए सी ए
207	210569	कुमारी प्रवीणा भण्डारी	ए सी ए	241	214015	श्री कालेश्वर प्रसाद वाई एन	ए सी ए
208	210586	श्री कांची वरदा राजू पंचाडी	ए सी ए	242	214109	श्री हबीब मोहम्मद ए एच	ए सी ए
209	210687	श्री मुरली कृष्णा जे एस	ए सी ए	243	214264	श्री पुरोहित राजीव हंमन्त राव	ए सी ए
210	210814	श्री फानी कुमार के वी	ए सी ए	244	214323	कुमारी दीप्ती एम	ए सी ए
211	210973	श्री कल्याण चक्रवर्ती एम	ए सी ए	245	214442	श्री सुजीथ एन्टोनी	ए सी ए
212	210999	श्री प्रतीश फिलिप	एफ सी ए	246	214629	श्री राजेशा जी	ए सी ए
213	211178	श्री सयीश कुमार एन	ए सी ए	247	214901	श्री शिवानन्दा कुमार जी	ए सी ए
214	211195	कुमारी अनिता विटटल	ए सी ए	248	215212	श्री अशर्फुल्लापील	ए सी ए
215	211198	श्री बाँबी वरगेसे	ए सी ए	249	215287	कुमारी जयंती एस	ए सी ए
216	211280	श्री वेंकटेश्वरालू बथीनी	ए सी ए	250	215549	श्री दिनकर वाई आर	ए सी ए
217	211650	श्री अश्विन जी मेहता	ए सी ए	251	215659	श्री सेशागिरि जी	ए सी ए
218	211674	कुमारी सुधा मूर्ति वी	ए सी ए	252	215738	कुमारी माधवी अग्रवाल	ए सी ए
219	211722	कुमारी सुचित्रा अनिल मेनन	ए सी ए	253	215768	श्री कृष्णामूर्ति शिवराया	ए सी ए
220	211912	श्री सीरेश एस	ए सी ए	254	215900	कुमारी गायत्री आर	ए सी ए
221	211979	कुमारी विजय लक्ष्मी पी	ए सी ए	255	216119	कुमारी सोनल दिसावल	ए सी ए
222	212013	श्री वसुकी एच एस	ए सी ए	256	216228	श्री दिलीप आर	ए सी ए
223	212056	श्री राघवेन्द्र डी	ए सी ए	257	216258	कुमारी निरुपा जे श्रीनिवास	ए सी ए
224	212098	श्री वेंकटेश्वरा राव टी	एफ सी ए	258	216509	श्री सुरेश गोपाल पाटिल	ए सी ए
225	212195	श्री रफी ए जे	ए सी ए	259	216681	श्री सजीव पी वी	ए सी ए
226	212461	कुमारी वनिथा जी	ए सी ए	260	216683	श्री लक्ष्मी नरसिंगा राव एम	ए सी ए
227	212585	श्री वेंकट रमेश बाबू नून्ना	एफ सी ए	261	216726	श्री चन्द्रशेखरन पी	ए सी ए
228	212756	श्री प्रमेश एस आर	ए सी ए	262	216792	श्री यौ तसाई कोनेल वेन	ए सी ए
229	212863	श्री हूनागुण्ड मालीकार्जून प्ररप्पा	ए सी ए	263	216828	श्री शेखर पारेख	ए सी ए
230	212891	श्री चेतन कुमार लूनकर आर	ए सी ए	264	216845	श्री हरिन्धा रेड्डी टी	ए सी ए
231	212895	श्री कालानी कृष्णा वारा प्रसाद	ए सी ए	265	216882	श्री अरिहन्त बारडीया एस	ए सी ए
232	212921	श्री गोनूगुन्ता मुरली	ए सी ए	266	217059	कुमारी चित्रा सी	ए सी ए
233	213034	श्री सुरेश डी एम	ए सी ए	267	217165	श्री किलरी श्रीनिवासा राव	ए सी ए
234	213063	श्री गिरिश कुमार	ए सी ए	268	217240	कुमारी पदमीनी पाई बी एच	ए सी ए
235	213219	कुमारी ललिथा एस	ए सी ए	269	217275	श्री कार्तिक जी	ए सी ए
236	213324	कुमारी राजालक्ष्मी सी	ए सी ए	270	217414	श्री अमित	ए सी ए
237	213612	श्री जयाकृष्णा पी	ए सी ए	271	217465	श्री वेनू विश्वनाथ वाराणसी	ए सी ए
238	213895	श्री पेटलूरु अमरनाथ रेड्डी	ए सी ए	272	217510	श्री बालाजी आर	ए सी ए
239	231901	श्री नालावाडी सुनील सम्बाजी	ए सी ए	273	217551	श्री रोहन जॉन डी सुजा	ए सी ए

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम		क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	
274	217565	श्री अनिल कुमार एस	ए सी ए	291	219455	श्री परनाजोथी एस	ए सी ए
275	217696	श्री संजीवा रेड्डी मेडिकोन्डा	ए सी ए	292	219526	श्री अमित कुमार त्रिपाठी	ए सी ए
276	217786	श्री चैथन जे	ए सी ए	293	219635	श्री राजेन्द्र गड्डे	ए सी ए
277	217844	श्री राजेन्द्र कोईराला	ए सी ए	294	219805	कुमारी याशीका अहलुवालिया	ए सी ए
278	218082	श्री किरण सुबेदी	ए सी ए	295	220086	कुमारी लक्ष्मी वी एस	ए सी ए
279	218279	श्री श्रीराम कुमार कश्यप पेलूरी	ए सी ए	296	220179	श्री अर्पित कोठारी	ए सी ए
280	218319	श्री संजीव कुमार बी	ए सी ए	297	220476	श्री भास्करा प्रसाद के	ए सी ए
281	218459	श्री नवीन के आर	ए सी ए	298	220496	श्री संतोष कुमार पटनाना	ए सी ए
282	218585	श्री बालाकृष्णा वरना बी	ए सी ए	299	220502	कुमारी पानीग्राही स्वागतीका	ए सी ए
283	218728	कुमारी वर्षा भण्डारी एस	ए सी ए	300	401433	कुमारी अग्रवाल स्वीटी	ए सी ए
284	218960	श्री कार्तिक मलाडी	ए सी ए	301	402141	कुमारी जैन रश्मी	ए सी ए
285	219003	श्री गोपाला कृष्णा एस पाई	ए सी ए	302	403913	कुमारी अग्रवाल मेघा	ए सी ए
286	219033	श्री गुरु सन्धानम जी	ए सी ए	303	500489	श्री महीपाल विनय कुमार	ए सी ए
287	219146	श्री विनोद कुमार ओ के	ए सी ए	304	500509	श्री श्रीनिवासा रेड्डी के	ए सी ए
288	219267	श्री नारायणन वी	ए सी ए	305	501789	कुमारी अनुराधा बी एस	ए सी ए
289	219271	श्री लक्ष्मी शंकर टी वी	ए सी ए	306	504211	कुमारी गुप्ता ज्योत्सना	ए सी ए
290	219420	श्री मिथुन एस जे डी सुजा	ए सी ए	307	506856	श्री रितेश शंकर गुप्ता	ए सी ए


 (टी० कार्तिकेयन)
 सचिव


3एस.सी.ए. (8) / 2 / 2008.2009 चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम 10 (1) खण्ड - 3 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1988 अधिनियम के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके नाम के आगे दी गयी तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं। क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रद्द दिनांक	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रद्द दिनांक
1	002258	श्री स्वामीनाथन कृष्णामूर्ति	एफ सी ए 01/04/2008	34	026574	श्री सेकरन एन	ए सी ए 16/12/2007
2	004442	श्री सेवल वासुदेवन पदमानभन	एफ सी ए 01/04/2008	35	026702	श्री रघु एस	एफ सी ए 01/01/2008
3	004629	श्री संकरन आर	एफ सी ए 15/02/2008	36	026903	श्री सेकर टी एन	एफ सी ए 17/09/2008
4	005326	श्री सुब्रामनीयन नामपौथीरी सी एन	एफ सी ए 01/04/2008	37	027054	श्री वेक्टेसवरन एन	ए सी ए 01/04/2008
5	007064	श्री वेक्टरमन एन के	एफ सी ए 01/04/2008	38	027081	श्री रामाकृष्णन एस	ए सी ए 26/06/2008
6	007109	श्री नारायण राव पी एन	एफ सी ए 17/11/2008	39	027108	श्री प्रसाद आई	एफ सी ए 01/04/2008
7	011661	श्री धीरुमलाई एस	एफ सी ए 01/07/2008	40	027367	श्री मुरलीधरन के एम	एफ सी ए 01/04/2008
8	013219	श्री सुब्रामनीयन एन	एफ सी ए 19/08/2008	41	027411	श्री स्टर्लिंग जोशवा पचीकार	एफ सी ए 16/08/2008
9	013677	श्री कृष्णामूर्ति के वी	एफ सी ए 01/04/2008	42	027479	श्री गुरुशंकर प्रसाद एन	एफ सी ए 20/02/2008
10	013844	श्री कृष्णा राउ यू	एफ सी ए 01/01/2008	43	027616	श्री पूरुनाचन्द्रा प्रसाद एन	ए सी ए 22/01/2008
11	014518	श्री सौन्दरा राजन एस	ए सी ए 01/04/2008	44	027618	श्री बालाजी एन वी	एफ सी ए 01/09/2008
12	016034	श्री पन्नालाल जैन एस	एफ सी ए 23/01/2009	45	027782	श्री चन्द्रा शेखर के	ए सी ए 01/10/2008
13	017858	श्री विश्वनाथन सिंहिकुलम रमया	एफ सी ए 01/04/2008	46	027844	श्री सुब्बा राव ए वी	एफ सी ए 12/02/2009
14	018082	श्री श्रीनिवासन सेशन	एफ सी ए 01/04/2008	47	028213	श्री विजयकुमार डी	एफ सी ए 07/08/2008
15	018305	श्री नहार चम्पालाल	एफ सी ए 31/03/2008	48	028384	श्री प्रभाकर वी	एफ सी ए 15/04/2008
16	018409	श्री गणपति सुब्रामनीयन वी	एफ सी ए 01/04/2008	49	028759	श्री श्रीधर ए वी	ए सी ए 04/03/2009
17	018449	श्री अन्नथा नारायणन वी	एफ सी ए 01/04/2008	50	028837	श्री स्कारिया धीमस	एफ सी ए 09/01/2009
18	018650	श्री सेशाहदरी एन आर	एफ सी ए 01/04/2008	51	029112	श्री श्रीधर के	एफ सी ए 07/01/2008
19	018864	श्री राधाकृष्णन वी	एफ सी ए 01/04/2008	52	029124	श्री धारवाड गुरुराजाचार	एफ सी ए 01/04/2008
20	018972	श्री सुन्दर राजन जे	ए सी ए 01/04/2008	53	029541	श्री कुमार शंकर आर	एफ सी ए 19/03/2008
21	019381	श्री जॉर्ज वारगेसे	एफ सी ए 01/06/2008	54	029559	श्री गणेश एच	एफ सी ए 06/11/2008
22	019704	श्री प्रसन्ना वेक्टेसन एस	ए सी ए 01/04/2008	57	032403	श्री सोमानी लक्ष्मीनारायण रामजीवन	ए सी ए 31/03/2008
23	019995	श्री गुरुस्वामी आर	एफ सी ए 01/04/2008	58	032813	श्री श्रीनिवास वी	ए सी ए 14/03/2008
24	020185	श्री सुरेश बाबू एस	एफ सी ए 01/04/2008	59	035278	श्री श्रीकान्त पी एस	एफ सी ए 18/09/2008
25	020192	श्री ओम प्रकाश मेडा	एफ सी ए 01/04/2008	60	037463	श्री विजयनगर मुकुन्द पद्मानाथ	ए सी ए 01/03/2009
26	020228	श्री नचियाप्पन वी	एफ सी ए 01/01/2009	61	044726	कुमारी शुभा गणेश	एफ सी ए 01/11/2008
27	021136	श्री सिंगारावादीवेलन एस	एफ सी ए 01/04/2008	62	047481	कुमारी मेनन मीनी भास्करन	ए सी ए 16/09/2008
28	022523	श्री श्रीनिवासन एन	ए सी ए 01/04/2008	63	050088	श्री सत्यानारायणा मूर्ति के वी	एफ सी ए 17/11/2008
29	023462	श्री मलिकार्जुना एम	एफ सी ए 01/05/2008	64	051176	श्री सैनी घनश्याम दास	एफ सी ए 19/05/2008
30	023938	श्री जॉर्ज पी अब्राहम	एफ सी ए 01/11/2007	65	052552	श्री वासु रविराज	ए सी ए 01/09/2008
31	023947	श्री चन्द्रशेखर वी	एफ सी ए 23/01/2008	66	052657	श्री मैथ्यू मथाई	ए सी ए 08/01/2008
32	025060	श्री श्रीराम आर	एफ सी ए 11/07/2008	67	054753	श्री रामानाथ वी पी	एफ सी ए 18/08/2008
33	025508	श्री हरिश द्वारकानाथन	एफ सी ए 25/09/2008	68	056721	श्री घोष स्वरूप	ए सी ए 02/03/2008

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक
69	056998	श्री गुहा देवसीस	ए सी ए 16/12/2008	117	205639	श्री सम्बाशिव राव मुराकोन्डा	ए सी ए 01/04/2008
70	060965	श्री खंगटा युगल किशोर	एफ सी ए 01/04/2008	118	205839	श्री महेन्द्र जैन	एफ सी ए 01/04/2008
71	062267	श्री अग्रवाल पंकज कुमार	एफ सी ए 27/03/2008	119	205994	श्री मुरलीकृष्ण टी एन	ए सी ए 17/09/2008
72	072258	श्री सेशागिरि राव आई	एफ सी ए 24/12/2008	120	206000	श्री मुस्सेसन आर	एफ सी ए 25/06/2008
73	074558	श्री रवि जैन	एफ सी ए 01/04/2008	121	206449	श्री सुन्दरसेन जे	ए सी ए 01/04/2008
74	075282	श्री गौतम विवेक कुमार	ए सी ए 21/04/2008	122	206576	कुमारी विद्या नागराजन	ए सी ए 31/03/2008
75	078206	कुमारी गुप्ता निधि	एफ सी ए 01/04/2008	123	206818	श्री श्रीनिवास अरावली	एफ सी ए 31/03/2008
76	088971	कुमारी जानकी एस	ए सी ए 25/06/2008	124	206852	श्री गिरि के	ए सी ए 25/11/2008
77	089208	श्री राजन एल	एफ सी ए 26/06/2008	125	206896	श्री लक्ष्मीनारायणा टी	एफ सी ए 17/05/2008
78	094680	श्री कृष्णाकुमार एस	ए सी ए 18/06/2008	126	207071	कुमारी राधा एस	ए सी ए 02/08/2008
79	109942	श्री केतूल हर्षदभाई शाह	ए सी ए 30/12/2008	127	207076	श्री गोपीनाथ एस	ए सी ए 01/02/2008
80	111167	कुमारी मयूरी धीरज शाह	ए सी ए 01/04/2008	128	207143	श्री रवीन्द्रन वी	एफ सी ए 01/12/2007
81	111544	कुमारी सरोज प्रवेश कासत	ए सी ए 27/09/2008	129	207272	श्री श्रीकान्त एम एस पी	एफ सी ए 26/09/2008
82	119213	कुमारी लीना सचिन कामत	ए सी ए 01/04/2008	130	207331	श्री प्रकाश नायक एस	ए सी ए 05/05/2008
83	122935	श्री सुनील चन्द्रकान्त हूकेरी	ए सी ए 01/04/2008	131	207363	श्री बालाजी पी डी	एफ सी ए 08/09/2008
84	200636	श्री फनीन्द्र नाथ पी एस	एफ सी ए 15/01/2008	132	207586	कुमारी लथा सी	ए सी ए 26/12/2008
85	200879	श्री श्रीरामाचन्द्र मूर्ति सीएच	एफ सी ए 01/07/2007	133	207650	श्री किरण मोहन एल	एफ सी ए 18/02/2009
86	201007	श्री गोपा कुमार एस	ए सी ए 29/02/2008	134	207756	श्री कार्तिक भारथी जे	ए सी ए 06/07/2007
87	201106	श्री सुरेशा सी एच	ए सी ए 31/03/2008	135	208184	कुमारी प्रिया के	ए सी ए 31/12/2008
88	201697	श्री प्रथासारथी आर	ए सी ए 01/04/2008	136	208208	श्री वेनूगोपाल के	एफ सी ए 07/10/2008
89	201797	श्री विजय कुमार एम पी	एफ सी ए 11/10/2007	137	208258	श्री नन्दाकुमार आर	एफ सी ए 01/04/2008
90	202043	श्री श्रीनिवासुलू जे	एफ सी ए 01/04/2008	138	208409	श्री नवीन तुलसीयन	एफ सी ए 01/04/2008
91	202052	श्री रामानाथन एम एस	एफ सी ए 25/08/2008	139	208413	श्री रामानन्दा कामथ	एफ सी ए 01/02/2008
92	202203	श्री नागेशपा बी	एफ सी ए 11/03/2009	140	208415	श्री सावीयो जॉर्ज किङ्गन	ए सी ए 22/08/2008
93	202287	श्री विवेकानन्द नेकान्ती	एफ सी ए 19/04/2007	141	208641	श्री गुरुराज कुलकर्णी	एफ सी ए 01/04/2008
94	202479	कुमारी सोमया एस	एफ सी ए 29/02/2008	142	208655	श्री बन्दरी बालाजी प्रसन्ना	ए सी ए 25/09/2008
95	202764	श्री अनन्था नारायणा टी	एफ सी ए 24/09/2008	143	208656	श्री कुमार गुप्ता पी वी एस	एफ सी ए 01/04/2008
96	202857	श्री रघोथामन एस	ए सी ए 31/10/2008	144	208811	श्री शशीधर जी	एफ सी ए 15/12/2008
97	202921	श्री वासेन वी	ए सी ए 18/02/2008	145	208890	कुमारी सुजाता के भाट	ए सी ए 10/02/2008
98	203028	श्री कन्ना बृपथी के जी	ए सी ए 13/05/2008	146	209157	श्री वेयापूरी कानन आर	एफ सी ए 01/04/2008
99	203090	कुमारी अमूर्थावाल्मी एस	एफ सी ए 30/09/2008	147	209570	श्री विवेक पंचिसिया	एफ सी ए 01/02/2008
100	203133	श्री सत्यानारायणा मूर्ति टी एन के	ए सी ए 18/12/2008	148	209575	श्री अनूप बी	एफ सी ए 23/10/2008
101	203541	कुमारी धूलसी बी	ए सी ए 29/12/2008	149	209603	श्री सन्तोष कुमार एम के	ए सी ए 01/04/2008
102	203882	श्री थॉमस के मैथ्यू	एफ सी ए 12/08/2008	150	209742	कुमारी चित्रा एस	ए सी ए 22/09/2008
103	204070	श्री दीपक चन्द भन्साली	एफ सी ए 29/08/2008	151	209876	श्री योगीश अचार्य के	एफ सी ए 01/04/2008
104	204292	श्री जगन पी	ए सी ए 10/01/2009	152	210005	कुमारी सुजाता आर भट्ट	एफ सी ए 31/12/2007
105	204301	श्री श्रीनिवासुलू जोनालागाडडा	एफ सी ए 31/03/2008	153	210053	श्री अब्राहम पेनादाथवर्की	ए सी ए 01/04/2008
106	204309	श्री वैक्टा नग्रा प्रसाद गुप्ता बी	ए सी ए 28/08/2008	154	210171	कुमारी अनुराधाकसाराबाडा	एफ सी ए 01/04/2008
107	204312	श्री अभिनन्दन रेड्डी	एफ सी ए 31/05/2008	155	210348	कुमारी सुचित्रा के आर	ए सी ए 12/03/2009
108	204333	श्री मुरुगादास पी	ए सी ए 07/06/2008	156	210575	श्री वैक्टा शिवा प्रसाद तूतूरी	एफ सी ए 01/01/2009
109	204601	श्री मुकुन्दन वी	एफ सी ए 13/03/2009	157	210666	श्री गनननिधि गली	ए सी ए 01/08/2008
110	204788	कुमारी टीना बी	ए सी ए 10/02/2009	158	210859	कुमारी ज्योती के	ए सी ए 21/05/2007
111	204794	कुमारी गायत्री जी	ए सी ए 13/02/2009	159	211022	श्री संजय बी सिंघल	ए सी ए 01/04/2008
112	204838	कुमारी शेरिन जोस	एफ सी ए 01/04/2008	160	211146	कुमारी दिव्या एलोएसियस	ए सी ए 22/08/2007
113	204924	श्री सुब्रामनीयन आर	ए सी ए 14/03/2008	161	211158	कुमारी राजी एल	एफ सी ए 19/09/2008
114	205076	श्री भारत राम वरदाचारी	एफ सी ए 06/10/2008	162	211446	श्री टीनीकेला श्री वैक्टा रमनमूर्ति	एफ सी ए 01/04/2008
115	205113	श्री रामामूर्ति सी	एफ सी ए 30/04/2008	163	211878	श्री विश्वनाथ एस	ए सी ए 01/04/2008
116	205519	श्री पशुपथि वी	ए सी ए 01/04/2008	164	211928	श्री फानिन्दर कुमार डी	ए सी ए 04/10/2007

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक
165	211929	श्री पूनडियन एस	ए सी ए 28/04/2008	209	215821	श्री संजीवा राव वृन्म	ए सी ए 01/04/2008
166	211931	श्री वेक्टरमन पी	ए सी ए 26/09/2008	210	215849	श्री लक्ष्मी कान्या आर	ए सी ए 28/02/2008
167	211967	श्री सुरेन्द्र रेड्डी बी	ए सी ए 06/09/2008	211	215929	श्री वसन्त कुमार के बी एम	ए सी ए 14/02/2009
168	211982	श्री सुर्या भास्कर रेड्डी डी	ए सी ए 31/05/2008	212	216160	कुमारी रामायनी धारशीनी पी ए	ए सी ए 04/07/2008
169	212039	श्री रामाकृष्णा माडी	ए सी ए 28/01/2008	213	216217	श्री अरुण बालाजी ए	ए सी ए 25/06/2008
170	212150	श्री अशोक एस	ए सी ए 06/03/2008	214	216254	श्री प्रधासाररथी आर	ए सी ए 31/05/2008
171	212235	कुमारी रंजू जैन	ए सी ए 17/09/2008	215	216467	श्री आकाश मन्डेलिया	ए सी ए 01/09/2008
172	212260	श्री प्रदीप एन	ए सी ए 12/02/2008	216	216488	श्री सुरेश कुमार वी	ए सी ए 09/09/2008
173	212263	श्री प्रकाश के जी	ए सी ए 02/04/2007	217	216531	श्री वरुण बालाचन्द्रन	ए सी ए 10/03/2008
174	212429	कुमारी सुर्याप्रभा रेनु एस	ए सी ए 21/02/2009	218	216587	श्री सुरेश कुमार	ए सी ए 02/04/2007
175	212495	श्री नरसिम्हा राव नाम्बूरु	ए सी ए 16/08/2008	219	216825	श्री बीनील कुमार कुरैयाकोस	ए सी ए 04/06/2008
176	212498	कुमारी शिल्पा एन आर	ए सी ए 26/12/2008	220	216882	श्री अरिहन्त बारडीया एस	ए सी ए 22/02/2009
177	212609	श्री सुनील कुमार वटीपल्ली	ए सी ए 22/02/2008	221	217303	श्री अदित्या कोठरी	ए सी ए 05/01/2009
178	212619	श्री मनीषन के बी एस	ए सी ए 28/10/2008	222	217312	श्री सेन्थिल कुमार एस	ए सी ए 31/12/2008
179	212624	श्री अरुणागिरिनाथन एस	ए सी ए 02/01/2008	223	217613	श्री वैक्य नेहरू कुमार टी	ए सी ए 25/02/2008
180	212659	श्री श्रीनिवासन के	ए सी ए 01/04/2008	224	217699	कुमारी मरियम्मा एम	ए सी ए 01/12/2008
181	212796	श्री रामाकृष्णा राव पेरुरी	ए सी ए 01/10/2008	225	217884	श्री सुधाकर डी	ए सी ए 06/04/2008
182	212996	श्री दिनकर टी वी	ए सी ए 31/01/2008	226	217904	कुमारी खाजा मोइनूदीन अहमद एन	ए सी ए 31/03/2008
183	213161	श्री ब्रूसा किशन	ए सी ए 15/12/2008	227	217975	कुमारी रचना कोठारी	ए सी ए 01/04/2007
184	213228	श्री अयप्पन एस	ए सी ए 19/11/2008	228	218004	कुमारी लक्ष्मी कल्याणी बालानामू	ए सी ए 31/03/2008
185	213304	श्री शिवकुमार वी एम	ए सी ए 09/09/2008	229	218100	कुमारी रश्मी यादिता	ए सी ए 27/01/2009
186	213338	श्री सुन्दर एन	ए सी ए 01/05/2008	230	218102	कुमारी गुडडी रानी	ए सी ए 12/02/2009
187	213384	श्री वसन्त आनन्द राव नायक	ए सी ए 01/06/2008	231	218152	कुमारी शिवकुमारी जे पी	ए सी ए 22/09/2008
188	213583	श्री आनन्दू विठाल नायक	ए सी ए 07/02/2008	232	218199	श्री पवनकुमार प्रकाश कुलकर्णी	ए सी ए 07/01/2009
189	213586	श्री विमल राज	ए सी ए 31/12/2008	233	218200	कुमारी पुष्पालाधा वी	ए सी ए 07/07/2008
190	213801	श्री टॉम क्रॉसल जॉन	ए सी ए 01/04/2007	234	218488	श्री तृप्यड वीरूपकशप्पा मुपाना	ए सी ए 02/09/2008
191	213918	कुमारी लक्ष्मी के वी	ए सी ए 16/05/2008	235	218525	श्री सीबक के एस	ए सी ए 01/01/2009
192	214074	श्री राघवन आर	ए सी ए 01/09/2008	236	218533	श्री सुभाष बाबू समला	ए सी ए 01/04/2008
193	214108	कुमारी संगीता पाट्टकुमार	ए सी ए 11/06/2008	237	218615	कुमारी करिया नमर्था नरसिम्हा नायक	ए सी ए 01/12/2008
194	214161	कुमारी रेखा बाई	ए सी ए 29/08/2008	238	218631	श्री अमित छालानी	ए सी ए 27/08/2008
195	214257	श्री कोडाना पानी जी	ए सी ए 11/02/2008	239	218663	कुमारी अर्चना एन	ए सी ए 13/10/2008
196	214432	कुमारी सुप्रिया आर चौसालकर	ए सी ए 09/03/2009	240	218763	कुमारी पूर्णिमा जी	ए सी ए 14/12/2008
197	214513	श्री भारत कुमार शर्मा जी	ए सी ए 31/12/2007	241	218830	श्री सम्बाशिवा रेड्डी बादूरी	ए सी ए 16/08/2008
198	214540	कुमारी भारथी बालासुब्रामनीयन	ए सी ए 27/08/2008	242	218889	श्री कार्तिक एस	ए सी ए 10/03/2008
199	214789	श्री बादल जैन	ए सी ए 08/10/2007	243	218911	श्री महेंद्रा एम	ए सी ए 20/01/2009
200	214911	श्री गणेश कुमार सी	ए सी ए 01/03/2009	244	218917	श्री चाणक्युडू जे	ए सी ए 27/11/2008
201	215471	श्री पंकज कुमार बोहरा	ए सी ए 22/02/2008	245	218943	श्री शिवाप्रसादा एम टी	ए सी ए 09/09/2008
202	215472	श्री अभय शंकर वी	ए सी ए 20/08/2008	246	219092	श्री नीजो एम पंजीकरण	ए सी ए 20/10/2008
203	215627	श्री आनन्द प्रकाश जान्नीड	ए सी ए 26/12/2008	247	219174	श्री शाम्बावेल्स एस	ए सी ए 19/09/2008
204	215671	कुमारी पार्वथा वरधीनी सी	ए सी ए 07/12/2007	248	219188	श्री विक्रम प्रकास जावेरी	ए सी ए 16/04/2008
205	215720	श्री अरविन्दा कुमार एच एस	ए सी ए 16/09/2008	249	219204	कुमारी श्रीदेवी विल्ला	ए सी ए 01/04/2008
206	215749	कुमारी टीना जैरी	ए सी ए 01/10/2008	250	219230	कुमारी आरथी जव्वर	ए सी ए 16/01/2009
207	215763	श्री हेमन्त कुमार एम शूर्पाली	ए सी ए 27/02/2008				
208	215783	श्री राजेश वी एस	ए सी ए 12/01/2009				

क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक	क्रमांक संख्या	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	रदद दिनांक
251	219279	श्री उर्नकर सचिन मोहन	ए सी ए 25/12/2008	271	220723	कुमारी देवी मंगा बोजा	ए सी ए 22/08/2008
252	219363	श्री श्रीनिवास के	ए सी ए 19/07/2008	272	220725	श्री महेश मानीखम के	ए सी ए 29/08/2008
253	219366	कुमारी निशा मेनन	ए सी ए 02/04/2008	273	220825	श्री स्वामीनाथन वी	ए सी ए 15/11/2008
254	219461	श्री सेन्थिल कुमार आर	ए सी ए 31/01/2008				
255	219570	श्री मदाना हनुमन्था कुमार आर	ए सी ए 01/04/2008	274	221064	श्री रंजीथ कुमार के	ए सी ए 01/09/2008
258	219764	श्री वीरेन्द्र कुमार एच	ए सी ए 02/04/2008	275	221086	कुमारी दिव्या एस	ए सी ए 07/11/2008
259	219829	श्री वैक्टा नरसिंगा राव के	ए सी ए 01/04/2008	276	221250	श्री मोहनकुमार एन	ए सी ए 13/11/2008
260	219885	श्री वीनू के बालाकृष्णन	ए सी ए 01/02/2008	277	221317	श्री सरेयास गुज्जर	ए सी ए 06/10/2008
261	219911	श्री उत्तम कुमार पी	ए सी ए 27/01/2008	278	221385	श्री अनूप दूत एच	ए सी ए 18/11/2008
262	219981	श्री सुन्दापारीपूर्णन एन	ए सी ए 18/09/2008	279	221422	श्री राजा शेकर मेती	ए सी ए 01/01/2009
263	220071	श्री किशोर कुमार बी	ए सी ए 05/05/2008	280	221526	श्री सुनोज सानी	ए सी ए 01/10/2008
264	220113	श्री जासीन जोस	ए सी ए 22/08/2008	281	221744	श्री सुब्रामनीयम पी	ए सी ए 01/02/2009
265	220129	कुमारी मनीमाला एस	ए सी ए 01/04/2008	282	221961	श्री मेदूथूरी वैक्टेशवर रेड्डी	ए सी ए 10/01/2009
266	220174	श्री जूनैद राजवी एल एम	ए सी ए 26/07/2008	283	401859	श्री जैन अदिनाश	ए सी ए 01/08/2008
267	220349	श्री मुरलीधरन एन	ए सी ए 11/09/2008	284	406146	सीए राधा रानी गुप्ता	ए सी ए 26/12/2008
268	220382	श्री धीरज कुमार अग्रवाल	ए सी ए 01/04/2008	285	406566	सीए आनन्द पलाडी	ए सी ए 01/04/2008
269	220529	श्री भारदवाज	ए सी ए 01/04/2008	286	502346	कुमारी गुप्ता पारुल	ए सी ए 21/08/2007
270	220623	कुमारी अरपिता एम	ए सी ए 16/04/2008	287	511099	श्री गणेश पी पाई	ए सी ए 23/02/2008


 (टी० कार्तिकेयन)
 सचिव

कोलकाता-700071, दिनांक 30 सितम्बर 2009

3 ईसीए/4/1/2008-2009 : चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सुचित किया जाता है की चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा 20 उप धारा (1) (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम किस न देने के कारण 1 अक्टूबर 2008 से हटा दिया है। उनके नाम निम्नलिखित हैं।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान
1.	001188	मि. गांगुली अनिल कुमार कोलकाता	14.	009873	मि. भंडारी प्रकाश चन्द्र कोलकाता
2.	003265	मि. बनर्जी अमल कुमार कोलकाता	15.	010178	मि. सेन मीहिर कुमार न्यु जर्सी
3.	003268	मि. बिदानी नरेन्द्र नाथ कोलकाता	16.	010672	मि. नाहिरी अजय कुमार कोलकाता
4.	004863	मि. पाल सुधीर कृष्णा कोलकाता	17.	010773	मि. साहा सुकुमार कोलकाता
5.	005388	मि. साहा उपेन्द्र चन्द्रा कोलकाता	18.	011174	मि. प्रफुल्लाचन्द्रा शांतिलाल साहा कोलकाता
6.	006998	मि. मजुमदार सुशील कुमार कोलकाता	19.	011422	मि. शीशिर कुमार दत्ता कोलकाता
7.	007507	मि. श्री निवास के कोलकाता	20.	012128	मि. अग्रवाल लक्ष्मेन्द्रा कुमार कोलकाता
8.	007800	मि. चक्रवर्ती अरुण कुमार कोलकाता	21.	012235	मि. अगरवाल मदन लाल कोलकाता
9.	008019	मि. कमलानी अबदुल करीम सारजाह	22.	012588	मि. पतोडिया राजेन्द्र प्रसाद कोलकाता
10.	008426	मि. बन्धोपाध्याय शिखर कोलकाता	23.	013023	मि. चक्रवर्ती प्रदीप कुमार कोलकाता
11.	008452	मि. नन्दी अशोक कुमार लंदन	24.	013165	मि. घोष दीपक कुमार कोलकाता
12.	008719	मि. मुखोपाध्याय श्यामनन्दा ओमान	25.	013268	मि. चौधरी विजय कुमार कोलकाता
13.	009404	मि. दत्ता शब्याशाची कोलकाता	26.	013351	मि. वेंकटेशन वी पोर्ट ब्लेयर

27.	013471	मि. गांगुली गंगेश कुमार कोलकाता	46.	049437	मिस. मजुन्दार सास्वती मिडलेक्स
28.	013540	मि. मित्रा तापस कुमार कोलकाता	47.	050167	मि. चट्टराज श्यामल बरण कोलकाता
29.	013922	मि. अशोक कुमार बन्धोपाध्याय कोलकाता	48.	050265	मि. घोष सुरोजित कुमार कोलकाता
30.	013957	मि. भंडारी अनिल कुमार कोलकाता	49.	050322	मि. खंडेलवाल बालाभद्रा राउरकेला
31.	014018	मि. भौमिक चित्त बिकास कोलकाता	50.	050459	मि. बन्धोपाध्याय स्वपन कुमार कोलकाता
32.	014458	मि. दास प्रवीर कुमार हावड़ा	51.	050481	मि. तालुकदार सुनीरमल कोलकाता
33.	014863	मि. सेठी वीर कुमार कोलकाता	52.	050513	मि. बेगानी विजय कुमार रनदीहट
34.	015201	मि. राय बेनी माधव कोलकाता	53.	050581	मिस. सेनगुप्ता इला कोलकाता
35.	015349	मि. लो प्रवीन कुमार दुबई	54.	050698	मि. सील देबब्रत कोलकाता
36.	016381	मि. घोष अंजन कोलकाता	55.	050755	मि. काशीनाथ गौली हावड़ा
37.	016524	मि. बासु लीलामय कोलकाता	56.	050872	मि. देब रतन कुमार शिलचर
38.	016641	मि. चक्रवर्ती बिश्वास नाथ हावड़ा	57.	050905	मि. बनर्जी प्रोसेनजीत कोलकाता
39.	016722	मि. डागा ललित कुमार कोलकाता	58.	050935	मि. मुखर्जी पबीत्रा कुमार भुवनेश्वर
40.	017944	मि. कपुर अश्विनी कुमार कोलकाता	59.	051012	मि. सेन पार्थ कोलकाता
41.	019784	मि. जया कुमार जी कोलकाता	60.	051054	मि. बक्शी सोहेल युरुफ कोलकाता
42.	037701	मि. वीरामाल्लु भीमा सत्यम शिलचर	61.	051247	मि. अलफानसो रिचार्ड दास कोलकाता
43.	040447	मिस. कौशल स्मीता पवन कोलकाता	62.	051268	मि. गुप्ता संदीप कोलकाता
44.	045505	मि. कौशत्य मृगंका मजुन्दार कोलकाता	63.	051339	मि. अहमद तारीक कनाडा
45.	048162	मि. घोषदस्तीदार सुमीतेन्द्रनाथ कोलकाता	64.	051342	मि. शर्मा ब्रीज मोहन कोलकाता

65.	051417	मि. गुप्ता दुली चन्द कोलकाता	84.	052485	मि. साव कैलाश नाथ केनिया
66.	051482	मिस. चटोपाध्याय सम्पा कोलकाता	85.	052498	मि. विश्वास कल्याण कोलकाता
67.	051627	मि. गांगुली दीपांकर दरेसलाम	86.	052541	मि. पांडा रामा कांता कटक
68.	051686	मि. घटक सुमन्तो कोलकाता	87.	052666	मि. हक फजलुल मसुन्दी
69.	051791	मि. नारायणन के वी कोलकाता	88.	052691	मि. घोष सोमनाथ कोलकाता
70.	051825	मि. हरी दिलीप कुमार न्यु यार्क	89.	052697	मि. भीष्म चन्द मिश्रा कोलकाता
71.	051913	मि. पाण्डा बिमल चन्द्रा भुवनेश्वर	90.	052771	मि. शीघवी अनिल कोलकाता
72.	051992	मि. जोहरी रोहित दुबई	91.	052781	मि. शर्मा रामावतार कोलकाता
73.	051997	मि. बोरार मुलचन्द गुवाहाटी	92.	052827	मि. भोरा बसंत कुमार कोलकाता
74.	052011	मि. जयसवाल बदरी प्रसाद कोलकाता	93.	053008	मि. आंचलि नरेश कुमार इंडोनेशिया
75.	052079	मिस. शांति मनी एस कोलकाता	94.	053137	मि. दीलिप कुमार सुन्दरम ब्लुमफील्ड हिल्स
76.	052142	मि. मुखर्जी त्रिदीब ज्योति कोलकाता	95.	053323	मि. भगरिया अनिल कुमार लगोस
77.	052219	मि. गोपाल कृष्णन एल कुवेत शीटि	96.	053347	मि. उमेश वर्मा रिसड़ा
78.	052259	मि. राय बिजय कोलकाता	97.	053413	मि. मरोदिया अलोक कोलकाता
79.	052326	मि. मित्रा राज सांन्तनु दुबई	98.	053418	दास सुदीप्तो दुबई
80.	052345	मि. झुनझुनवाला राजेश कोलकाता	99.	053472	मि. सुबरामन्नीयन वी कायरो
81.	052354	मि. मित्रा श्रीकुमार हावड़ा	100.	053522	मि. बासु सैबाल कोलकाता
82.	052456	मि. अग्रवाल सुरेश प्रसाद कोलकाता	101.	053595	मि. अगरवाल संभु कुमार कोलकाता
83.	052465	मि. प्रदीप प्रदीप लंदन	102.	053599	मि. अगरवाल प्रदीप ज्योति कोलकाता

103. 053619	मि. सेन कल्याण ऑंटारियो	122. 054456	मि. हलन सुशील कुमार कोलकाता
104. 053643	मि. दीलिप कुमार झाझरिया कोलकाता	123. 054474	मि. सोनी राजेश कुमार हिन्दमोटर
105. 053713	मि. राव सी वी सूर्यानारायण भुवनेश्वर	124. 054502	मि. रुसतमजी मलेशरा रुशी बी कोलकाता
106. 053758	मि. पाति तिलक जकारता	125. 054527	मि. बनवारी लाल गुप्ता मनीला
107. 053791	मि. कपुर प्रीति कोलकाता	126. 054550	मि. दत्ता सुप्रीयो कोलकाता
108. 053886	मि. गुप्ता कुसुम कोलकाता	127. 054642	मि. अगरवाल प्रमोद कुमार कोलकाता
109. 053932	मि. बोस सुबर्णो कोलकाता	128. 054661	मि. अगरवाल आसुतोष कोलकाता
110. 053954	मि. अगरवाल विनय कुमार कोलकाता	129. 054691	मि. डीसुजा एरिक क्लाइभ टोरंटो
111. 054062	मि. पाठक इन्द्रजीत कोलकाता	130. 054852	मि. लांबा संजीव कोलकाता
112. 054099	मि. लाबो चूसन्थुस अड्रियन अस्ट्रेलिया	131. 054919	मि. शीघवी अशोक कुमार कोलकाता
113. 054101	मि. अगरवाल मोहन लाल शिवपुर	132. 054920	मि. चौधरी संजय कुमार रानीगंज
114. 054220	मि. जतिया अरविन्द कोलकाता	133. 055026	मि. सेनगुप्ता रुजय कोलकाता
115. 054269	मि. बंधिया हरक चन्द रोमानिया	134. 055082	मि. दत्ता राय प्रीतम कोलकाता
116. 054280	मि. डागा अलोक कुमार कोलकाता	135. 055156	मि. मुखोपाध्याय अमिताभ कोलकाता
117. 054327	मि. आचार्य बेनी प्रसाद भुवनेश्वर	136. 055183	मि. उदय कुमार अगरवाल कोलकाता
118. 054333	मि. महेश्वरी संजय कोलकाता	137. 055216	मि. दत्ता प्रोसेनजीत कोलकाता
119. 054381	मि. पटेल संदीप वी केमब्रीज	138. 055220	मि. पुरुषोत्तम कुमार कंकानी कोलकाता
120. 054390	मि. अजमेरा राजेश कोलकाता	139. 055293	मि. गोपाल कुमार स्वाइका कोलकाता
121. 054446	मि. साहु अजया कुमार बुरला	140. 055296	मि. कुम्भत कौशल कोलकाता

141. 055306	मि. गुप्ता संजीव बोटस्वाना	160. 056218	मि. मुखर्जी नबो कुमार कोलकाता
142. 055396	मि. बेद संदीप कुमार कोलकाता	161. 056219	मि. मुखर्जी कौशिक कोलकाता
143. 055447	मि. प्रसन्ता कुमार बरूआ गुवाहाटी	162. 056263	मि. गंगोपाध्याय अरूप कोलकाता
144. 055616	मि. दास गुप्ता सोमनाथ दुबई	163. 056277	मि. साहु अजया कुमार बनगांइगांव
145. 055645	मि. गुप्ता अनुपमा कोलकाता	164. 056370	मि. राजेश कुमार साहु भुवनेश्वर
146. 055663	मि. मुखर्जी जयदीप उत्तरपाड़ा	165. 056385	मि. राय प्रान्तिक कोलकाता
147. 055678	मि. बेरोलिया संदीप कुमार जोका	166. 056395	मि. चक्रवर्ती उदित कोलकाता
148. 055686	मि. कुंडु अमिताभ कोलकाता	167. 056421	मि. तरफदार सैख रमजान ओमान
149. 055706	मि. अधिकारी हिमांशु कुमार कोलकाता	168. 056472	मि. बागची बासब प्रसाद कल्याणी
150. 055726	मि. खैरुल्ला सलीम कोलकाता	169. 056486	मि. अगरवाल सुनील कुमार चन्दननगर
151. 055758	मि. गुहा राय अनिरुद्ध कोलकाता	170. 056513	मि. भट्टा देबनारायण कोलकाता
152. 055771	मि. चौधरी सुबिनय ईश कोलकाता	171. 056564	मि. नितार्ई चक्रवर्ती कोलकाता
153. 055848	मिस. सुसमिता दत्ता खतरा	172. 056568	मि. चौधरी सौमित्रा नारायण हिन्दमोटर
154. 055881	मि. सरकार नन्दन कुमार बकराहाट	173. 056587	मिस. राय कुंडु अरुमिता कोलकाता
155. 055901	मि. अगरवाल निरंजन कुमार कोलकाता	174. 056626	मि. झा नवीन कुमार सिलोंग
156. 055942	मि. श्यामल सरकार उत्तरपाड़ा	175. 056695	मि. राय सृसेन्दु कोलकाता
157. 056054	मिस. जालान संगीता रसीया	176. 056703	मि. चटोपाध्याय सोमेन हावड़ा
158. 056107	मि. गुप्ता भाष्कर कोलकाता	177. 056705	मि. जैन दीपक कोलकाता
159. 056199	मि. सेनगुप्ता अभिजीत कोलकाता	178. 056723	मिस. सिंह सीमा कोलकाता

179.	056728	मि. सुप्ल कमल कुमार कोलकाता	198.	057301	मि. घोष शिवाजी कोलकाता
180.	056741	मि. महाराज पंकज कुमार कोलकाता	199.	057317	मि. घोष देवासिंह कोलकाता
181.	056751	मि. मेहता संजय कोलकाता	200.	057327	मि. मित्रा संदीप कुमार कोलकाता
182.	056752	मि. चिरीमार आदित्य कोलकाता	201.	057335	मि. राम राकेश कोलकाता
183.	056753	मि. मोहान्ता इन्द्रजीत गुवाहाटी	202.	057371	मि. मिश्रा संजीव केलिफोर्निया
184.	056819	मि. बोस बिजय कुमार कोलकाता	203.	057382	मि. दास सुभरा कोलकाता
185.	056886	मि. गुरुमूर्ति एन कोलकाता	204.	057398	मि. जैन आकाश कोलकाता
186.	056931	मि. लहोति नवीन कुमार कोलकाता	205.	057401	मिस. दास दीपा कोलकाता
187.	056944	मि. महाराणा प्रतिवा रंजन भुवनेश्वर	206.	057412	मि. मिश्रा आदित्या कोलकाता
188.	056962	मि. खैरलुवाला मसूद अली एस दय इस सलाम	207.	057414	मि. दास चिन्तामणी कोलकाता
189.	056985	मि. लीहाला कपिल कोलकाता	208.	057450	मि. मिश्रा निलाली प्रसाद भुवनेश्वर
190.	057019	मि. अतुल श्रीवास्तवा कोलकाता	209.	057489	मि. गुप्ता संदीप कोलकाता
191.	057039	मि. दुग्गर सुशील कुमार कोलकाता	210.	057513	मिस. नाग नन्दिनी कोलकाता
192.	057061	मि. कोचर दीलिप कुमार कोलकाता	211.	057524	मिस. चक्रवर्ती मौसमी कोलकाता
193.	057078	मि. खान सभा कोलकाता	212.	057678	मि. पोद्दार संजय कोलकाता
194.	057131	मि. झुनझुनवाला सुभाष कुमार कोलकाता	213.	057682	मि. अगरवाल संजय कोलकाता
195.	057154	मि. मेहरा राजीव कोलकाता	214.	057728	मि. स्वेन नरसिंहा चरण भुवनेश्वर
196.	057216	मि. हादा चन्द्रा सेन युएइ	215.	057738	मि. अगरवाल आनन्द कोलकाता
197.	057296	मि. साव प्रमेश कोलकाता	216.	057779	मिस. गुप्ता संगीता कोलकाता

217. 057806	मि. अगरवाला रंजन कोलकाता	236. 058188	मि. चक्रवर्ती पार्थसारथी कोलकाता
218. 057860	मि. चन्द्र शेखर मोहान्ती पुरी	237. 058197	मि. महेश्वरी पंकज कोलकाता
219. 057873	मि. तिवारी राकेश कुमार कोलकाता	238. 058311	मि. गुप्ता नवीन कोलकाता
220. 057883	मि. अगरवाल महेश्वर दुर्बई	239. 058315	मि. सैकत मित्रा कोलकाता
221. 057888	मि. हजारीका प्रत्युस तपन गुवाहाटी	240. 058320	मि. मैत्रा उज्जवल कोलकाता
222. 057908	मि. केजरीवाल संदीप कुमार कोलकाता	241. 058364	मि. गुप्ता सैलेश कुमार हावड़ा
223. 057914	मि. पाल सोम्या ज्योति कोलकाता	242. 058366	मि. गुहा सुभदीप कोलकाता
224. 057919	मि. अगरवाल मनोज कोलकाता	243. 058420	मि. वालिया किटी सिमरत कोलकाता
225. 057945	मि. चौधरी राजेश कोलकाता	244. 058512	मि. मित्रा जयदीप कोलकाता
226. 057974	मि. बन्धोपाध्याय अंजन कोलकाता	245. 058518	मि. जान एमडी तनवीर कोलकाता
227. 057987	मि. दमानी महावीर प्रसाद कोलकाता	246. 058534	मि. दिलीप कुमार सिंह भद्रकाली
228. 057999	मि. पानीग्राही हरेकृष्णा भुवनेश्वर	247. 058544	मि. पाठक देवेश कोलकाता
229. 058002	मि. जलान राकेश कोलकाता	248. 058547	मि. भट्टाचार्य दिपांकर श्यामनगर
230. 058051	मि. गरोदिया राजेश कुमार दुर्गापुर	249. 058570	मि. मित्रा अमिताभ कोलकाता
231. 058066	मि. अगरवाल निर्मल कोलकाता	250. 058588	मि. गुप्ता पभेल दुर्बई
232. 058102	मि. राय सब्यसाची कोलकाता	251. 058632	मि. केजरीवाल विवेकानन्द बजबज
233. 058141	मिस. खैतान रशमी कोलकाता	252. 058638	मि. बुबना पंकज कोलकाता
234. 058174	मि. मजुन्दार बिश्वाजीत स्वी	253. 058648	मि. सेठ अमित कोलकाता
235. 058182	मि. रानासिंह अनिल कुमार भुवनेश्वर	254. 058653	मि. घोष अरुपेश कोलकाता

255. 058660	मि. बोस कौशिक कोलकाता	274. 059216	मि. पारसरामका संदीप कोलकाता
256. 058663	मि. सेन गुप्ता विश्वजीत कोलकाता	275. 059246	मि. झुनझुनवाला विवेक कोलकाता
257. 058716	मि. पिलाई नोबे कुमार कोलकाता	276. 059284	मि. दास सुनील रायगादा
258. 058757	मिस. पियाली बनर्जी कोलकाता	277. 059317	मि. धनुका विनय कोलकाता
259. 058813	मि. चन्दक राज कुमार हावड़ा	278. 059338	मि. श्राफ अनिल कुमार कोलकाता
260. 058819	मि. आर्या राकेश कोलकाता	279. 059360	मि. अगरवाल आनन्द कोलकाता
261. 058830	मि. बन्धोपाध्याय रामनाथ हल्दिया	280. 059362	मि. मुखर्जी अर्घो संजोश
262. 058888	मिस. तुलसान रंजीता कोलकाता	281. 059384	मि. कजरीया योगेश कोलकाता
263. 058919	मि. सरकार बरुण कुमार हल्दिया	282. 059408	मि. मिश्रा निहार रंजन भुवनेश्वर
264. 058920	मि. ठाकुर अरविन्द कुमार कोलकाता	283. 059415	मि. जैन अनुप कुमार कोलकाता
265. 058956	मि. महेश्वरी राजीव कुमार कोलकाता	284. 059421	मिस. महास्वेता मजुन्दार कोलकाता
266. 059001	मि. खंडेलवाल संतोष कोलकाता	285. 059432	मि. जैन प्रवीन कुमार कोलकाता
267. 059031	मि. स्वर्गी संतोष कुमार कोलकाता	286. 059498	मि. चटर्जी सब्यासाची दुर्गापुर
268. 059045	मि. आचार्य मुल्लागदा नानाजी बरहमपुर	287. 059550	मि. दत्ता जयदीप कोलकाता
269. 059063	मि. खैतान सिद्धार्थ कोलकाता	288. 059598	मि. तुल्ल्यान बिषनु कुमार कोलकाता
270. 059085	मिसेस. मुखर्जी जयीता दुर्गापुर	289. 059613	मि. मोहान्ती देबाशिश अवधेश्वर
271. 059114	मि. भोला संजय हावड़ा	290. 059614	मि. अवशय कुमार दे बालासोर
272. 059124	मिस. संगीता अगरवाल लहीला कोलकाता	291. 059637	मि. राय रजत कोलकाता
273. 059209	मि. नियोगी कौसत्व कोन्नगर	292. 059661	मि. मिमानी बिमल कोलकाता

293.	059673	मि. शेखर सोमदथन कोलकाता	312.	060050	मि. भटाचार्य सुगाता सोनारपुर
294.	059757	मि. घोषाल अतानु बारासात	313.	060064	मि. साधुखान मिलन कोलकाता
295.	059769	मि. शर्मा राजीव लिलुया	314.	060110	मि. बोरठाकुर संसांक शेखर दुलियाजन
296.	059773	मि. सिंह पंकज कुमार कोलकाता	315.	060135	मि. विवेक सीताराम शर्मा कोलकाता
297.	059774	मि. साहाल अंजना कोलकाता	316.	060143	मि. अगरवाल सुनील कुमार कोलकाता
298.	059779	मि. गनेरीवाला विनीत कुमार कोलकाता	317.	060150	मि. सौगाता बनर्जी इशाकह
299.	059792	मि. भुरा अशोक कुमार कोलकाता	318.	060159	मि. श्रोफ श्याम सुन्दर कोलकाता
300.	059808	मि. नारायण राजेश कोलकाता	319.	060163	मि. पोद्दार राजीव कोलकाता
301.	059833	मि. बेहरा पतिता पवन सुवेनेवर	320.	060216	मि. अगरवाल अमित कोलकाता
302.	059866	मि. सुरेका विनोद कोलकाता	321.	060240	मि. भुपल गौतम कोलकाता
303.	059883	मि. गुप्ता राज कुमार कोलकाता	322.	060258	मि. राजेश कुमार धावन कोलकाता
304.	059896	मिस. इदनानी डिपल कोलकाता	323.	060259	मि. मेथुस सिबु कोलकाता
305.	059918	मि. परसुरामपुरिया विकास हावड़ा	324.	060265	मि. पाल जयदीप बारासात
306.	059955	मिस. बेश्या संघीता गुवाहाटी	325.	060276	मि. मालपानी निर्मल कुमार कोलकाता
307.	059963	मि. जयसवाल सुजीत कामरूप	326.	060311	मि. विवेक कुमार तुल्ल्यान कोलकाता
308.	059968	मि. अग्रवाल अमित हुगली	327.	060342	मिस. बभीशी हेतल कोलकाता
309.	059973	मि. जैन अजय कोलकाता	328.	060368	मि. पटनायक विर्कन कोलकाता
310.	059994	मि. केडिया श्याम सुन्दर हावड़ा	329.	060388	मि. राय विवेक प्रोगुन कोलकाता
311.	060038	मि. सुरेका राजेश हावड़ा	330.	060392	मि. पारख अमित हावड़ा

331. 060439	मि. मुखोपाध्याय रामजोय हावड़ा	350. 060857	मि. चौधरी अमित कोलकाता
332. 060454	मि. अग्रवाल संजय कोलकाता	351. 060862	मि. बासक पार्थ कोलकाता
333. 060493	मि. गरेवाल दविन्द्र कौर कोलकाता	352. 060875	मि. भोरा राहुल कोलकाता
334. 060503	मि. घोष सुरंजन कोलकाता	353. 060901	मि. मुकेश अगरवाला दुर्गापुर
335. 060549	मि. सिंगपुरवाला मोयज कोलकाता	354. 060926	मि. दोकानिया विकास कुमार कोलकाता
336. 060554	मि. जयसवाल प्रकाश कुमार कोलकाता	355. 060971	मि. दत्ता प्रोसेनजीत कोलकाता
337. 060630	मि. जैन नीरज कोलकाता	356. 061027	मि. परीदा तुसार कान्त कोलकाता
338. 060646	मि. पारिक अरुण कोलकाता	357. 061036	मि. जैन पंकज कुमार सलकिया
339. 060666	मि. केजरीवाल समीर कुमार हावड़ा	358. 061072	मि. हजारिका देबोजीत दुलियाजन
340. 060697	मि. दीपक कुमार कोलकाता	359. 061086	मि. बहेती राहुल कोलकाता
341. 060718	मि. मित्रा अरुणभा कोलकाता	360. 061106	मि. अगरवाल गिरिश कोलकाता
342. 060725	मि. दास पार्थ कोलकाता	361. 061108	मि. गर्ग राकेश कुमार शिवपुर
343. 060761	मि. अगरवाल सिवेन्द्र नाथ सलकिया	362. 061143	मिस. कपूर मोली कोलकाता
344. 060802	मि. सुराना विकास कोलकाता	363. 061150	मि. माइती अनुपम हावड़ा
345. 060804	मि. चौधरी अविक कोलकाता	364. 061157	मि. दास एमबोरिस कोलकाता
346. 060815	मिस. नौवलखा सीमा गुवाहाटी	365. 061173	मि. साहु गोपीनाथ भुवनेश्वर
347. 060826	मि. चौबे संजीव कुमार टिसुकिया	366. 061276	मि. जालान विकास कोलकाता
348. 060836	मि. अगरवाल आनन्द कोलकाता	367. 061300	मिस. चौरोरिया पुजा कोलकाता
349. 060846	मि. मित्रा फालगुनी कोलकाता	368. 061305	मि. लधनिया विनीत सलकिया

369. 061330	मिस. मेहता मिनल हावड़ा	388. 061841	मि. अमित कुमार अगरवाल हावड़ा
370. 061332	मि. राय अमित कोलकाता	389. 061855	मि. लथ मुकेश भद्रकाली
371. 061347	मि. जैन नीरज गुवाहाटी	390. 061907	मि. गुप्ता अरिन्दम सीरामपुर
372. 061358	मि. महापात्र प्रनब कुमार भुवनेश्वर	391. 061916	मिस. साधुखान बिपासा कोलकाता
373. 061404	मि. जैन अमित कुमार रिसड़ा	392. 061960	मिस. दुगर रेखा हावड़ा
374. 061407	मि. दोकानिया रामा कान्त कोलकाता	393. 061968	मि. तिवारी अरविन्द सीलिगुड़ी
375. 061448	मि. गुप्ता नितीन गुड्डु कोलकाता	394. 061988	मि. अरविन्द बहेती कोलकाता
376. 061449	मि. बासु मंजीर हावड़ा	395. 061991	मि. अगरवाल अमित कोलकाता
377. 061476	मि. भरालावाला दिलीप कुमार कोलकाता	396. 061992	मि. गुप्ता कोयेल कोलकाता
378. 061495	मि. संजय कुमार अगरवाल कोलकाता	397. 062020	मि. शर्मा हरकेश हावड़ा
379. 061514	मि. सिंह अनुप्रीत कोलकाता	398. 062021	मिस. दालमिया भावना कोलकाता
380. 061622	मि. भगत उमेश मालदा	399. 062022	मिस. मीनु झुनझुनवाला सिंगापुर
381. 061639	मि. एच अर्पण कोलकाता	400. 062063	मिस. भट्टाचार्या सुकन्या कोलकाता
382. 061668	मि. केजरीवाल पुरषोत्तम कोलकाता	401. 062069	मि. राय सुभासिस कोलकाता
383. 061700	मि. बासु दीपायन कोलकाता	402. 062084	मि. मिश्रा विशाल कोलकाता
384. 061746	मि. शर्मा सौरभ कोलकाता	403. 062113	मि. हशमी हसन अफरोज कोलकाता
385. 061781	मिस. जैन स्नेहलता हावड़ा	404. 062117	मि. पाल देबनाथ हावड़ा
386. 061787	मिस. रमामूर्ति रूपा कोलकाता	405. 062124	मि. जैन राजेश कोलकाता
387. 061818	मि. गर्ग मनीष कोलकाता	406. 062180	मि. अगरवाला आदित्या सीलिगुड़ी

407.	062204	मि. सेनगुप्ता सीलादित्या चिसुरा	426.	062537	मि. केडिया आसिश कोलकाता
408.	062229	मि. लदिया अंजनी कुमार कोलकाता	427.	062551	मि. बोथरा अजित कोलकाता
409.	062235	मि. दरगर संजीव कोलकाता	428.	062567	मि. पांडा सोम्या रंजन कोलकाता
410.	062253	मि. अगरवाल विनय कुमार कोलकाता	429.	062568	मि. जिया रहान दुबई
411.	062304	मि. गुप्ता ओम प्रकाश कोलकाता	430.	062657	मिस. टिबरीवाला वैशाली कोलकाता
412.	062313	मि. पटनायक संदीप भुवनेश्वर	431.	062665	मि. अग्रवाल आसिश रिसड़ा
413.	062319	मि. हीरा कश्यप कोलकाता	432.	062700	मि. सेनापति प्रफुल्ला कुमार भुवनेश्वर
414.	062328	मि. गुहा सुभराजीत कोलकाता	433.	062715	मि. सिंह संजीव कुमार कोलकाता
415.	062334	मि. सोंथालिया दीपक संबलपुर	434.	062739	मि. बंधिया विनीत कुमार कोलकाता
416.	062340	मि. गुप्ता कौशिक कोलकाता	435.	062769	मि. नहाटा आनन्द रिसड़ा
417.	062383	मि. खंडेलवाल श्रुति कोलकाता	436.	062816	मि. श्रोफ चेतन कोलकाता
418.	062388	मि. हरलालका नेहा कोलकाता	437.	062819	मि. अग्रवाल मनीष कोलकाता
419.	062442	मि. जोषत मनीष आगरतला	438.	062829	मिस. बागरी स्वेता सलकिया
420.	062468	मि. अगरवाल अलोक कुमार कोलकाता	439.	062850	मि. माधोगरिया सतिश बराकर
421.	062471	मि. कुमार सचिन कोलकाता	440.	062851	मि. केडिया अमित कुमार कोलकाता
422.	062485	मि. गोस्वामी सौभिक कोलकाता	441.	062853	मि. अग्रवाल आसिश कोलकाता
423.	062488	मि. पटवारी मेहुल हावड़ा	442.	062870	मि. बासु सांतनु कोलकाता
424.	062513	मि. अगरवाल बिमल कोलकाता	443.	062873	मि. मिश्रा बिपीन कुमार रिसड़ा
425.	062531	मि. अगरवाल विशाल हावड़ा	444.	062876	मि. मनीष गोयेंका रिसड़ा

445. 062890	मि. पोद्दार विकास कोलकाता	464. 063228	मि. आलम तनवीर कोलकाता
446. 062935	मि. अगरवाल मृदु कोलकाता	465. 063245	मि. अगरवाल बजरंग लाल कोलकाता
447. 062938	मि. रोय पुशपल कोलकाता	466. 063255	मि. मनोज रवि कोलकाता
448. 062953	मिस. अगरवाल दिप्ती कोलकाता	467. 063288	मि. मुरारका अभिषेक रिसड़ा
449. 062959	मि. दुबे मनोज कुमार कोलकाता	468. 063300	मि. गुप्ता राजीव कोलकाता
450. 062963	मि. पारेक अमित कोलकाता	469. 063301	मि. शर्मा राकेश कोलकाता
451. 062968	मि. बजाज सुनील कुमार हावड़ा	470. 063307	मि. बागची सुमित्रा कुमार कोलकाता
452. 063021	मि. जाना सोमेन कोलकाता	471. 063320	मि. एस चन्द्रा शेखर खड़गपुर
453. 063071	मि. बोस जयीता कोलकाता	472. 063339	मिस. राथी दिव्या कोलकाता
454. 063085	मि. खन्ना संदीप कोलकाता	473. 063342	मि. अगरवाल राजेश बराकर
455. 063091	मि. मिश्रा संजय कुमार भद्रकाली	474. 063368	मि. सुभास वर्मा हावड़ा
456. 063116	मिस. ममता डागा कोलकाता	475. 063396	मि. केडिया दीपक कोलकाता
457. 063123	मि. अगरवाल अमित कोलकाता	476. 063399	मि. शर्मा विकास कोलकाता
458. 063133	मिस. चक्रवर्ती सरमिष्ठा कोलकाता	477. 063469	मि. बंसल मितेश कुमार बराकर
459. 063177	मि. सुरेका मनोज हावड़ा	478. 063482	मि. शर्मा अमित कोलकाता
460. 063179	मि. साहा अरिन्दम कोलकाता	479. 063493	मि. अगरवाल राकेश कोलकाता
461. 063189	मिस. पीटी प्रियंका कोलकाता	480. 063495	मि. मुन्द्रा विनीत कोलकाता
462. 063209	मि. केडिया राहुल कोलकाता	481. 063541	मिस. वाध्या शालीनी आसनसोल
463. 063211	मि. सरकार मानस किशोर कोलकाता	482. 063583	मि. गुहा अभिषेक कोलकाता

483.	063587	मि. मोहम्मद शेख जावीद कटक	502.	063839	मिस. जयराम अनुराधा कोलकाता
484.	063617	मि. पतोडिया समीर हावड़ा	503.	063868	मिस. गुप्ता सुनीता कोलकाता
485.	063631	मिस. मुखर्जी इन्द्रानी हावड़ा	504.	063869	मिस. गर्ग नेहा राउरकेला
486.	063634	मि. दुगर योगेन्द्र कोलकाता	505.	063874	मि. सुरज अगरवाल कोलकाता
487.	063641	मि. लधनीया संजय कुमार भुवनेश्वर	506.	063881	मि. अगरवाल गोपाल कुमार हावड़ा
488.	063648	मि. जैन प्रमोद कोलकाता	507.	063884	मि. झुनझुनवाला अमित कुमार कोलकाता
489.	063650	मिस. पटेल योगिता कोलकाता	508.	063893	मि. अगरवाल निखील कुमार कोलकाता
490.	063658	मि. मिश्रा अंशुमान भुवनेश्वर	509.	063895	मिस. अगरवाल रेनु बराकार
491.	063700	मि. जैन विकास भुवनेश्वर	510.	063950	मि. स्वेन रविन्द्र कुमार भुवनेश्वर
492.	063727	मि. चौधरी सुभोजीत कोलकाता	511.	063983	मि. मधुर टीबरीवाल कोलकाता
493.	063736	मि. वखरीया शैलेस वी कोलकाता	512.	064029	मि. शर्मा अंकुर कोलकाता
494.	063742	मि. राय अनिल कुमार बराकर	513.	064042	मि. माधोगरीया विनय हावड़ा
495.	063751	मि. लाधा नीलेश कोलकाता	514.	064087	मि. मिश्रा अमित कुमार हावड़ा
496.	063757	मि. ठक्कर विनय कोलकाता	515.	064100	मि. अगरवाल नितेश कोलकाता
497.	063758	मि. चटर्जी प्रबाल कटक	516.	064106	मि. प्रशान्त कुमार राय बरबील
498.	063766	मिस. अगरवाल संगीता कोलकाता	517.	064107	मि. चन्दगोटिया पारस कुमार रायरंगपुर
499.	063700	मि. सुमीत रवि कुमार कमपाला	518.	064113	मि. चामरिया दीपक कोलकाता
500.	063787	मि. अगरवाल संदीप रानीगंज	519.	064126	मि. सेथ राहुल कोलकाता
501.	063806	मि. बिसाल कुमार बरुका कोलकाता	520.	064141	मि. अमित कुमार कोलकाता

521.	064182	मि. गुप्ता दीपक कुमार हुगली	540.	064550	मि. झाहनविद्या श्यामसुखा कोलकाता
522.	064185	मि. दास अमित कुमार कोन्नगर	541.	064551	मि. मनोज कुमार श्रीवास्तवा कोलकाता
523.	064191	मि. तातिया आकाश कोलकाता	542.	064564	मि. सुभासिस रथ पुरी
524.	064243	मिस. वालिया अमरिता कोलकाता	543.	064566	मि. संदीप कुमार अगरवाल दुर्गापुर
525.	094269	मि. प्रदीप केडिया भुवनेश्वर	544.	064572	मि. सौरभ मुखर्जी भद्रकाली
526.	064278	मि. आशिस कुमार सिंह मखला	545.	064581	मि. पंकज अगरवाल कोलकाता
527.	064354	मि. सुनील कुमार अग्रवाल बोलनगीर	546.	064582	मि. सौरभ अगरवाल कोलकाता
528.	064394	मिस. राप्ती बासु कोलकाता	547.	064585	मि. मनीष अगरवाल हावड़ा
529.	064404	मि. राजेश कुमार पांडे कोलकाता	548.	064649	मि. विवेक पौदार हावड़ा
530.	064409	मि. कमलेश कुमार अगरवाल कोलकाता	549.	064672	मि. सौरभ जयसवाल कोलकाता
531.	064427	मि. नवीन वर्मा कोलकाता	550.	064728	मि. रवि गादिया कोलकाता
532.	064437	मि. सुरेन्द्र शर्मा झाड़ग्राम	551.	064789	मि. संदीप जजोडिया कोलकाता
533.	064454	मिस. अन्जना जैन कोलकाता	552.	064865	मि. राकेश रौशन झा कोलकाता
534.	064459	मिस. अंतरा पाल हावड़ा	553.	064952	मि. संजय कुमार सोनी हावड़ा
535.	064478	मि. समित कुमार जेना कोलकाता	554.	064956	मिस. प्रीती जैन हावड़ा
536.	064501	मि. नवल किशोर वर्मा कोलकाता	555.	064974	मिस. भिमली कुलश्रेष्ठा कोलकाता
537.	064507	मि. आदित्य मरोदिया कोलकाता	556.	064988	मि. पवन कुमार पेरीवल कोलकाता
538.	064508	मि. सुमित बिश्वास कोलकाता	557.	065035	मि. अन्जनी कुमार उपाध्याय हावड़ा
539.	064524	मि. अरिन्दम बिश्वास कोलकाता	558.	065061	मि. राजेश कुमार बियानी कोलकाता

559.	065063	मि. नारायण रथ जाजपुर रोड	578.	065449	मि. जगबन्धु पात्रा भुवनेश्वर
560.	065075	मिस. प्रीतु बैद हावड़ा	579.	065466	मि. विकास अगरवाल हावड़ा
561.	065090	मि. अमित रंगता कोलकाता	580.	065477	मि. अशोक कुमार सिंह कोलकाता
562.	065097	मि. विवेक जैन बैङल	581.	065482	मि. विकास जैन कोलकाता
563.	065118	मि. ए. बी. देबासिश राउत कोलकाता	582.	065486	मि. विकास कुमार खेमका कोलकाता
564.	065151	मि. मनीष जजोडिया कोलकाता	583.	065488	मि. आसिश कुमार खंडेलवाल कोलकाता
565.	065187	मि. हनुमान दास राठी हावड़ा	584.	065509	मि. प्रशांत शारास्वत कोलकाता
566.	065248	मिस. ममता चौपड़ा कोलकाता	585.	065565	मिस. सोभा भंडारी कोलकाता
567.	065262	मि. संदीप दास भुवनेश्वर	586.	065578	मि. रवि कुमार शर्मा भद्रकाली
568.	065266	मि. नवीन खैतान नयासराय	587.	065611	मि. मनीष कुमार शर्मा कोलकाता
569.	065278	मिस. सीमा तिवारी हिन्दमोटर	588.	065620	मि. शिव प्रसाद साहु केउनझाड़
570.	065282	मिस. मितु शराफ बांकुड़ा	589.	065655	मिस. अदिति गर्ग कोलकाता
571.	065288	मि. समीर अगरवाल कोलकाता	590.	065690	मि. सोरभ गोयेंका हावड़ा
572.	065312	मिस. नुपुर कमानी कटक	591.	065737	मिस. बिजय कुमार अगरवाल सुवर्णापुर
573.	065363	मि. इब्राहीम लोधगर कोलकाता	592.	065743	मि. मौ. सलाउद्दीन अली अहमद जाजपुर
574.	065370	मि. ऋषि स्वर्णकार रिसड़ा	593.	065770	मिस. दीपाली जयराम कोलकाता
575.	065383	मि. सुब्रत कुमार पांडा भुवनेश्वर	594.	065774	मि. सुसमीत बनर्जी कोलकाता
576.	065408	मिस. सपना जैन कोलकाता	595.	065787	मि. अमरजीत कुमार गुप्ता कोलकाता
577.	065448	मि. अवदेश कुमार कोलकाता	596.	065807	मि. गणेश कुमार बंसल रिसड़ा

597.	065847	मि. राजेश दत्ता कोलकाता	616.	066157	मिस. ऋतु केडिया कोलकाता
598.	065862	मि. बीरेन्द्र कुमार महनोत कोलकाता	617.	066209	मि. स्वरूप कुमार कोलकाता
599.	065865	मि. प्रणय कुमार सुरेका कोलकाता	618.	066240	मि. जयदीप नसकर कोलकाता
600.	065894	मिस. गमता ओझा कोलकाता	619.	066252	मि. अभिषेक रंजन सिंह जमुरीया हाट
601.	065947	मि. सौरभ ढंड कोलकाता	620.	066284	मि. हिमांशु शेखर कबि कोलकाता
602.	065958	मिस. स्वेता अगरवाल हावड़ा	621.	066308	मि. संत कुमार पटनायक भुवनेश्वर
603.	065963	मि. सुबोध अगरवाल हावड़ा	622.	066312	मिस. प्रियंका अगरवाल हावड़ा
604.	065987	मि. राकेश कंडोई हावड़ा	623.	066313	मि. ऋषि पोद्दार कोलकाता
605.	066028	मि. परिक्षिता दास बालासोर	624.	066333	मि. उमेश कुमार शर्मा हावड़ा
606.	066047	मि. अजय अग्रवाला कोलकाता	625.	066356	मिस. अकांक्षा भलोडिया कोलकाता
607.	066051	मि. राजु मेहता कोलकाता	626.	066365	मि. पंकज कुमार राठी रिसड़ा
608.	066067	मि. प्रतिक चतुर्वेदी हिन्दमोटर	627.	066391	मि. दिनेश कुमार यादव कोलकाता
609.	066077	मि. आसुतोष मोहान्ती केउनझाड़ा	628.	066399	मिस. रंजीता टाटर कोलकाता
610.	066084	मि. सोमित हरिहरिया कोलकाता	629.	066417	मिस. राशी अगरवाल हावड़ा
611.	066107	मि. गोपाल तपाड़िया हिन्दमोटर	630.	066420	मि. संदीप कुमार जैन कोलकाता
612.	066116	मि. राज किशोर प्रसाद कोलकाता	631.	066422	मि. जालेन्द्र पांडियारी भुवनेश्वर
613.	066141	मि. सजल अभिषेक कोलकाता	632.	066445	मि. अमित कुमार खतरी राजगंजपुर
614.	066148	मिस. स्वेता हलन कोलकाता	633.	066446	मि. आकाश कुमार अगरवाल हावड़ा
615.	066153	मि. सत्यजीत दास राउरकेला	634.	066449	मि. विकास पुरोहित बराकर

635.	066488	मि. सुधीर कुमार गिलरा कटक	654.	097567	मि. कोचर शरद लंडन
636.	066538	मि. विशाल अगरवाल कोलकाता	655.	100397	मि. बनर्जी बानी ब्रतो कोलकाता
637.	066540	मि. संजय यादव हिन्दमोटर	656.	105800	मि. राजेन्द्र कुमार साहु भुवनेश्वर
638.	066552	मिस. स्वेता जैन कोलकाता	657.	108774	मि. संदीप कुमार सतपथी भुवनेश्वर
639.	066601	मिस. प्रमिता चटर्जी कोलकाता	658.	115108	मि. सुमन्तो कुमार नायक भुवनेश्वर
640.	070730	मि. मंत्री रमेश चन्द्रा कोलकाता	659.	121719	मि. मंडुला श्रीनिवास राव कोलकाता
641.	075737	मि. राकेश कुमार साह भुवनेश्वर	660.	201400	मि. वेंकटा सुबरामनया वारा प्रसाद सीएच कोलकाता
642.	076141	मिस. बोस जबा कोलकाता	661.	204986	मि. कौशिक एन कोलकाता
643.	078735	मि. पारिक आदि आदि गुवाहाटी	662.	207880	मिस. राजवी पी कोलकाता
644.	080430	मि. बिमल सिंह भुटोरिया कोलकाता	663.	211241	मिस. प्रीथी सिंघांल कोलकाता
645.	088877	मि. गुहा अभिजीत अस्ट्रेलिया	664.	211854	मिस. लीसा धर कोलकाता
646.	093251	मि. चतुर्वेदी अलोक कोलकाता	665.	212875	मि. हारा मोहन साहु भुवनेश्वर
647.	094136	मि. पटनायक राजीव लोचन केउनझाड़	666.	214077	मि. सोनी मेथीव कोलकाता
648.	094284	मि. कार सौरभ कोलकाता	667.	400384	मि. अमित अगरवाल गुवाहाटी
649.	095638	मि. महापात्र रामरंजन भुवनेश्वर	668.	401903	मि. गुप्ता मनीष बनगांइगांव
650.	095652	मि. बिरेश दास भुवनेश्वर	669.	404256	मि. भुरा पंकज कुमार गुवाहाटी
651.	096627	मि. ज्ञानेन्द्र कुमार पांडा कटक	670.	406381	मि. प्रभात कुमार कोलकाता
652.	097047	मि. ढवाला शेखर कोलकाता	671.	502475	मि. पटेल रंजीत सुन्दरगढ
653.	097342	मि. दास अलोक कुमार भुवनेश्वर	672.	506394	मि. निरमल चन्द्रा साहु सिंगतभ

673. 507496	मि. भीम लाल बस्तोला काठमंडु	676. 509854	मि. सोम्या रंजन साहु बड़गड़
674. 509011	मि. मुकेश कुमार पात्रा बरहमपुर	677. 510324	मि. बासु शर्मा होजाई
675. 509799	मि. दीपक शर्मा गैडकोट	678. 510568	मि. अमित कुमार चौधरी दिगबोई

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3 इसिए/4/2/2008-2009: चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा (२) उप-धारा (1) विभाग 20 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों के मृत्यु के कारण उनका नाम अपने सदस्यता रजिस्टर में से दिनांक (जो दिनांक सदस्यों के नाम के साथ लिखा गया) से हटा दिया है :-

क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान	निष्कासन दिनांक	क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान	निष्कासन दिनांक
1. 001434	मि. सिन्हा दिलीप कुमार कोलकाता	11/10/2008	14. 003523	मि. सैन बिस्वा नाथ कोलकाता	29/08/2008
2. 001999	मि. सेन गुप्ता असीम कुमार कोलकाता	04/04/2008	15. 003773	मि. चक्रवर्ती अमल कुमार कोलकाता	12/07/2008
3. 002124	मि. नरियलवाला पेस्टोंजी मंचेरजी कोलकाता	09/08/2008	16. 003846	मि. चौधरी सोमेन्दु नाग कोलकाता	19/02/2008
4. 002126	मि. गांगुली गंगाधर कोलकाता	02/11/2008	17. 004132	मि. मजुन्दार सुनील चन्द्रा बाली	26/02/2008
5. 002295	मि. मेहता सरल कुमार कोलकाता	01/10/2008	18. 004487	मि. राय तापसरंजन कोलकाता	10/08/2008
6. 002329	मि. बनर्जी सतीन्द्र किशोर कोलकाता	18/10/2008	19. 004491	मि. विश्वास जगदीश्वर कोलकाता	30/01/2008
7. 002514	मि. दत्त बलइ चन्द्रा कोलकाता	17/02/2008	20. 004717	मि. ठाकुर राम कृष्णा कोलकाता	14/12/2008
8. 002753	मि. शर्मा सुरज मल कोलकाता	28/02/2008	21. 005263	मि. पाल नन्दा गोपाल कोलकाता	14/10/2008
9. 003116	मि. सेन सुबीर कोलकाता	06/01/2009	22. 005663	मि. सिन्हा भबानी छक्कर कोलकाता	06/04/2008
10. 003203	मि. बासु निहार कुमार कोलकाता	10/12/2007	23. 005861	मि. भट्टाचार्य संतोष भुसन कोलकाता	27/06/2008
11. 003252	मि. बासु प्रवीर कुमार कोलकाता	14/02/2009	24. 005912	मि. दासगुप्ता निलय कोलकाता	14/03/2008
12. 003421	मि. वेंकटेशन तिरुपाटुर स्वामीनाथ कोलकाता	31/05/2008	25. 006423	मि. बासु सुनीलेन्द्र चन्द्रा कोलकाता	12/11/2008
13. 003472	मि. घोष निखील रंजन कोलकाता	16/09/2008	26. 006589	मि. लोढा राजेन्द्र सिंह कोलकाता	04/10/2008

27. 007297	मि. बनर्जी पंकजकान्ती कोलकाता	15/03/2008	38. 050672	मि. दे स्वपन कोलकाता	03/01/2008
28. 008666	मि. राय सुबास चन्द्रा तमलुक	09/01/2008	39. 052243	मि. गोपलन सी एन कोलकाता	12/03/2008
29. 009514	मि. मजुन्दार भवित्रा कुमार कोलकाता	20/01/2009	40. 052480	मि. बगारिया द्वारका प्रसाद कोलकाता	15/07/2007
30. 010126	मि. घोष सुब्रता कोलकाता	17/10/2008	41. 052734	मि. जालान अरुण कुमार डिबरूगढ़	21/12/2008
31. 011180	मि. भट्टाचार्य सरोजेन्द्र नाथ कोलकाता	07/01/2009	42. 052746	मि. भट्टाचार्य कमल कान्ती भाटपाड़ा	30/09/2007
32. 011861	मि. गुहा विश्वजीत कोलकाता	01/07/2008	43. 052899	मि. राय विश्वनाथ कोलकाता	04/01/2008
33. 012753	मि. अग्रवाला अर्जुन लाल कोलकाता	30/11/2007	44. 053204	मि. मुखोपाध्याय अजित कुमार बर्धवान	24/07/2008
34. 012987	मि. बनर्जी काली दास कोलकाता	19/06/2008	45. 053412	मि. चट्टोपाध्याय नारायणदास कोलकाता	12/12/2007
35. 015144	मि. दत्ता नब किशोर कोलकाता	13/04/2008	46. 054085	मि. रक्शीत प्रसुन कोलकाता	07/08/2008
36. 015321	मि. भट्टाचार्य अमलेन्दु कोलकाता	29/08/2007	47. 072464	मि. गोस्वामी सुजीत कुमार कोलकाता	08/01/2009
37. 050633	मि. मुखर्जी गौतम कोलकाता	11/01/2008			

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3 इसिए/4/3/2008-2009: चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा (ब), उप-धारा (1) विभाग 20 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगह करने पर अपने सदस्यता रजिस्टर में से दिनांक (जो दिनांक सदस्यों के नाम के साथ लिखा गया) से हटा दिया है :-

क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान	निष्कासन दिनांक	क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान	निष्कासन दिनांक
1. 002754	मि. मंडल सनत कुमार कोलकाता	01/04/2008	4. 060390	मि. अलाप्पत लुईस फ्रांसीस लिलुया	11/12/2007
2. 002833	मि. विश्वास प्रवीर कुमार कोलकाता	01/04/2008	5. 061799	मि. सोनी विवेक कोलकाता	10/06/2008
3. 011157	मि. दत्ता जयंता कुमार चिंसुरा	01/04/2008	6. 062708	मि. बच्चावत अभित कोलकाता	14/07/2008

टी. कार्तिकेयन
सचिव

दिनांक 15 दिसम्बर 2009

3ईसीए/5/1/2008-2009: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए/04/06/1988-89 दिनांक 24/02/1989, 3ईसीए/04/06/1989-90 दिनांक 02/11/1989, 3ईसीए/04/10/1991-92 दिनांक 23/01/1992, 3ईसीए/ 04/03/1992-1993 दिनांक 22/01/1993, 3ईसीए/ 04/02/1999-00 दिनांक 03/12/1999, 3ईसीए/04/03/2000-01 दिनांक 22/02/2001, 3ईसीए/04/03/2001-02 दिनांक 19/11/ 2001, 3ईसीए/04/03/2002-03, दिनांक 31/03/2003, 3ईसीए/04/02/2003-04 दिनांक 08/09/2004, 3ईसीए/04/03/2004-05 दिनांक 31/01/2005, 3ईसीए/ 04/05/2005-2006 दिनांक 06/04/2006, 3ईसीए/04/04/2006-07, दिनांक 30/11/2006, 3ईसीए/ 04/01/2007-08, दिनांक 15/12/2008, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सुचित किया जाता है की उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे हुई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	पुनरुद्धार दिनांक
1.	005388	मि. साहा जपेन्द्र चन्द्रा एफसीए कोलकाता	01/10/2008
2.	006979	मि. सुराना निरंजन एफसीए जयपुर	01/10/2007
3.	007800	मि. चक्रवर्ती अरुण कुमार एफसीए कोलकाता	01/10/2008
4.	012235	मि. अगरवाल मदन लाल एफसीए कोलकाता	01/10/2008
5.	013351	मि. वेंकटेशन वी एफसीए पोर्टब्लेयर	01/10/2008
6.	013905	मि. बर्भन प्रसान्त कुमार राय एफसीए कोलकाता	01/10/2008
7.	013922	मि. अशोक कुमार बन्धोपाध्याय एफसीए कोलकाता	01/10/2008
8.	014525	मि. चक्रवर्ती दिपांकर एसीए जमशेदपुर	01/10/2004
9.	014863	मि. सेठी वीर कुमार एसीए कोलकाता	01/10/2008
10.	016381	मि. घोष अंजन एफसीए कोलकाता	01/10/2008
11.	017286	मि. मुखोपाध्याय पीजुश कुमार एसीए कोलकाता	01/10/2005

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	पुनरुद्धार दिनांक
12.	037701	मि. वीरामुल्ला भीमा सत्यम एफसीए शिलचर	01/10/2008
13.	049437	मिस. मजुमदार साश्वती एसीए लंडन	01/10/2008
14.	050020	मि. दास सुरेश चन्द्रा एसीए भुवनेश्वर	01/10/2007
15.	050150	मि. रमेश इशहर दास भाटीया एफसीए शारजाह	22/12/2003
16.	050167	मि. चटराज श्यामल बरन एफसीए कोलकाता	01/10/2008
17.	050265	मि. घोष सुरोजीत कुमार एसीए कोलकाता	01/10/2008
18.	050427	मि. कुशल शंकर चौधरी एसीए कोलकाता	01/10/2001
19.	050471	मि. मजुमदार रंजन कुमार एसीए कोलकाता	01/10/1989
20.	050481	मि. तालुकदार सुनीर्मल एसीए मुंबई	01/10/2008
21.	050570	मि. मृनाल कान्ती दास एसीए कोलकाता	01/10/2004
22.	050623	मि. दासगुप्ता अशोक कुमार एसीए कोलकाता	01/10/2005

23.	050777	मि. भंडारी अशोक एसीए कोलकाता	01/10/2001	42.	052078	मि. कोठारी विनोद कुमार एसीए कोलकाता	01/10/2005
24.	050872	मि. देब रतन कुमार एफसीए शिलचर	01/10/2008	43.	052079	मि. शांती मनी एस एसीए दोहा	01/10/2008
25.	050935	मि. मुखर्जी पबीत्रा कुमार एफसीए कोलकाता	01/10/2008	44.	052123	मि. शिवकुमार थंडावन एसीए चेन्नई	09/12/1991
26.	051012	मि. सेन पार्थ एफसीए कोलकाता	01/10/2008	45.	052219	मि. गोपाल कृष्ण एल एफसीए कुवैत सीटी	01/10/2008
27.	051107	मि. जगदीश प्रसाद लोहोती एफसीए कोलकाता	01/10/2006	46.	052259	मि. राय बिजय एफसीए कोलकाता	01/10/2008
28.	051268	मि. गुप्ता संदीप एसीए कोलकाता	01/10/2008	47.	052266	मि. प्रवीण कुमार अग्रवाल एफसीए कोलकाता	01/10/2006
29.	051342	मि. शर्मा ब्रिज मोहन एसीए कोलकाता	01/10/2008	48.	052283	मि. शर्मा गनावरापु पेरला गन्धा एफसीए कोलकाता	01/10/2007
30.	051365	मि. जाजु राधे श्याम एसीए कोलकाता	01/10/2007	49.	052345	मि. झुनझुनवाला राजेश एफसीए कोलकाता	01/10/2008
31.	051432	मि. प्रधान सुब्रतो कुमार एसीए भद्रकाली	01/10/2002	50.	052399	मि. चन्द्रा शेखर जी एसीए सिंगापुर	01/10/1992
32.	051452	मि. जय प्रकाश भगत एसीए आसनसोल	01/10/2004	51.	052456	मि. अग्रवाल सुरेश प्रसाद एफसीए कोलकाता	01/10/2008
33.	051474	मि. चक्रवर्ती कल्याण एसीए कोलकाता	01/10/1992	52.	052485	मि. साव कैलाश नाथ एफसीए किशुमु	01/10/2008
34.	051482	मिस. चट्टोपाध्याय संध्या एसीए कोलकाता	01/10/2008	53.	052541	मि. पाण्डा रमा कान्ता एफसीए कटक	01/10/2008
35.	051686	मि. घटक सुमन्तो एसीए कोलकाता	01/10/2007	54.	052612	मि. बांगुर ओम प्रकाश एसीए कोलकाता	01/10/2008
36.	051825	मि. हरी दिलीप कुमार एफसीए न्यु यार्क	01/10/2008	55.	052697	मि. भीष्म चन्द मिश्रा एफसीए कोलकाता	01/10/2008
37.	051913	मि. पाण्डा बिमल चन्द्रा एफसीए भुवनेश्वर	01/10/2008	56.	052771	मि. शिंघवी अनिल एफसीए जुबेल	01/10/2008
38.	051997	मि. बोरर मूलचन्द एफसीए गुवाहाटी	01/10/2008	57.	052781	मि. शर्मा रामावतार एफसीए कोलकाता	01/10/2008
39.	052000	मि. प्रीतमा दत्ता एसीए कोलकाता	01/10/2004	58.	052827	मि. मोरा बसंत कुमार एफसीए कोलकाता	01/10/2008
40.	052011	मि. जयसवाल बदरी प्रसाद एफसीए कोलकाता	01/10/2008	59.	053124	मि. मनोज कुमार सिंघाल एसीए मुंबई	01/10/1999
41.	052042	मि. अशोक कुमार मोहता एफसीए कोलकाता	01/10/2004	60.	053161	मि. भट्टचार्य अंजन एसीए कोलकाता	01/10/2007

61.	053413	मि. मरोदिया अलोक एसीए कोलकाता	01/10/2008	80.	054390	मि. अजमेरा राजेश एसीए कोलकाता	01/10/2008
62.	053418	मि. दास सुदीप्तो एसीए दुर्बई	01/10/2008	81.	054475	मि. हालदार कल्याण एसीए कोलकाता	08/12/2000
63.	053599	मि. अग्रवाल प्रदीप ज्योती एफसीए कोलकाता	01/10/2008	82.	054493	मि. सिंह जगदीश एसीए कोलकाता	01/10/1992
64.	053643	मि. दिलीप कुमार झाजरिया एफसीए कोलकाता	01/10/2008	83.	054502	मि. रुशतमजी मलेश्रा रुशी बी एसीए कोलकाता	01/10/2008
65.	053713	मि. राव सी वी सुर्यानारायण एसीए मुंबई	01/10/2008	84.	054550	मि. दत्ता सुप्रीयो एफसीए कोलकाता	01/10/2008
66.	053861	मि. सिंघनिया किष्ण एसीए जकारता	01/10/2007	85.	054661	मि. अगरवाल आशुतोष एफसीए कोलकाता	01/10/2008
67.	053886	मिस. गुप्ता कुसुम एसीए कोलकाता	01/10/2008	86.	054816	सीए. अशोक कुमार अगरवाल एफसीए कोलकाता	01/10/2004
68.	053943	मि. सिंह प्रमोद कुमार एसीए धनबाद	01/10/1989	87.	054919	मि. सिंघवी अशोक कुमार एफसीए कोलकाता	01/10/2008
69.	053961	मि. बंधिया संतोष कुमार एसीए कोलकाता	01/10/1988	88.	054968	मि. संजय कुमार गुप्ता एफसीए कोलकाता	01/10/2007
70.	054101	मि. अगरवाल मोहन लाल एफसीए कोलकाता	01/10/2008	89.	055026	मि. सेनगुप्ता सुजोय एसीए न्यु दिल्ली	01/10/2008
71.	054126	सीए. भाष्कर बनर्जी एफसीए कोलकाता	01/10/2007	90.	055156	मि. मुखोपाध्याय अमिताभ एसीए पुने	01/10/2008
72.	054148	मि. बरुवा प्रद्युत कुमार एफसीए गोलघाट	01/10/2005	91.	055187	सीए. वी श्रीधर एसीए कोलकाता	01/10/2001
73.	054192	मि. गौतम चन्द्रा दे एसीए कोलकाता	01/10/1992	92.	055241	मि. हरीहरण आनन्द एसीए सफत	01/10/2005
74.	054220	मि. जातिয়া अरविन्द एसीए कोलकाता	01/10/2008	93.	055259	सीए. हरीश कुमार तोशनीवाल एफसीए कोलकाता	01/10/2006
75.	054310	मि. सरकार अपुरवा कान्ती एसीए नईहटी	01/10/2001	94.	055296	मि. कुमब्त कौशल एसीए कोलकाता	01/10/2008
76.	054333	मि. महेश्वरी संजय एसीए कोलकाता	01/10/2008	95.	055346	मि. कर कल्याण कुमार एसीए कोलकाता	22/12/2003
77.	054336	मि. टंडन विजय एसीए कोलकाता	01/10/2004	96.	055347	मि. अरोरा राजीव एसीए मिसीसोगा	22/12/2003
78.	054341	मि. कोचर अजित एसीए कोलकाता	01/10/2005	97.	055351	मि. सिन्हा तापस कुमार एसीए दिल्ली	01/10/2007
79.	054358	मि. अगरवाल कैलाश कुमार एसीए राजगंजपुर	01/10/2002	98.	055359	मि. तापस कुमार बनर्जी एसीए कोलकाता	01/10/2006

99. 055396	मि. बैद संदीप कुमार एफसीए बेंगलोर	01/10/2008	118. 056203	मिस. खतुका ज्योति एसीए न्यु दिल्ली	01/10/1998
100. 055525	मि. मिश्रा विश्वजीत एफसीए ऑटारिओ	01/10/2006	119. 056218	मि. मुखर्जी नबो कुमार एफसीए कोलकाता	01/10/2008
101. 055562	मि. दास जयदीप एसीए कोलकाता	01/10/2005	120. 056263	मि. गंगोपाध्याय अरुण एसीए कोलकाता	01/10/2008
102. 055616	मि. दासगुप्ता सोमनाथ एसीए मस्कैट	01/10/2008	121. 056277	मि. साहु अजय कुमार एसीए रायपुर	01/10/2008
103. 055663	मि. मुखर्जी जयदीप एसीए कोलकाता	01/10/2008	122. 056291	मि. ह्रुदानन्द कर एसीए हैदराबाद	01/10/2004
104. 055664	सीए. सुदीप्ता घोष एफसीए तमलुक	01/10/2007	123. 056345	मि. राजेश कुमार दिवरा एसीए टोरंटो	01/10/2007
105. 055689	मिस. रीना चौधरी बनोथा एसीए लंडन	01/10/2007	124. 056370	मि. राजेश कुमार साहु एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008
106. 055706	मि. अधिकारी हिमांशु कुमार एफसीए हिन्दमोटर	01/10/2008	125. 056385	मि. राय प्रांतिक एफसीए कोलकाता	01/10/2008
107. 055758	मि. गुहा राय अनिरुधा एसीए कोलकाता	01/10/2008	126. 056486	मि. अगरवाल सुनील कुमार एफसीए चन्दननगर	01/10/2008
108. 055820	मि. सोनार ब्रिज मोहन एसीए कोलकाता	01/10/2007	127. 056502	मि. साहु पबित्रा मोहन एफसीए चेन्नई	01/10/2007
109. 055926	मि. चक्रवर्ती विश्वनाथ एफसीए यलोनाइफ	01/10/2007	128. 056513	मि. भत्ता देबनारायण एसीए कोलकाता	01/10/2008
110. 055942	मि. श्यामल सरकार एफसीए उत्तरपाड़ा	01/10/2008	129. 056523	सीए. बिहारी हरीहर एसीए बेरहामपुर	01/10/2005
111. 056012	मि. स्वपन कुमार गुप्ता एसीए कोलकाता	01/10/2006	130. 056568	मि. सौमित्रा नारायण चौधरी एफसीए हिन्दमोटर	01/10/2008
112. 056066	मि. संजय पंसारी एसीए रोचेस्टर हिलस	22/12/2003	131. 056633	मि. तोशनीवाल ललित एसीए कोलकाता	01/10/2006
113. 056079	मि. जोशी महेन्द्रा कुमार एसीए हावड़ा	01/10/2007	132. 056705	मि. जैन दीपक एसीए कोलकाता	01/10/2008
114. 056107	मि. गुप्ता भाष्कर एसीए कोलकाता	01/10/2008	133. 056723	मिस. सिंह सीमा एसीए ऑटारियो	01/10/2008
115. 056116	मि. सतदल राय एसीए कोलकाता	01/10/2006	134. 056727	मि. कृष्ण विजय एसीए दुबई	01/10/2007
116. 056150	मि. राय अनिरुधा एसीए कोलकाता	01/10/2002	135. 056752	मि. चीरिमार आदित्य एफसीए कोलकाता	01/10/2008
117. 056199	मि. सेनगुप्ता अविजीत एसीए कोलकाता	01/10/2008	136. 056753	मि. मोहन्ता इन्द्रजीत एफसीए गुवाहाटी	01/10/2008

137. 056802	मि. सेनगुप्ता अरिन्दम एसीए	01/10/2007	156. 057581	मि. पाल बिश्वजीत एसीए	01/10/2004
	कोलकाता			हल्दीया	
138. 056819	मि. बोस विजय कुमार एसीए	01/10/2008	157. 057629	मि. चट्टोपाध्याय सुदीप कुमार एसीए	01/10/2007
	दुर्बई			कोलकाता	
139. 056870	मिस. निधी जैन एसीए	01/10/2001	158. 057640	मि. दीपक अगरवाल एफसीए	01/10/2007
	कोलकाता			गेंटोक	
140. 056931	मि. लोहती नवीन कुमार एफसीए	01/10/2008	159. 057712	मि. डागा संदीप एसीए	01/10/2004
	कोलकाता			कोलकाता	
141. 056944	मि. महाराणा प्रतिवा रंजन एफसीए	01/10/2008	160. 057714	मिस. देवरा मनीषा एसीए	01/10/2007
	भुवनेश्वर			टोरंटो	
142. 056962	मि. खेरुलवाला मसुद अली एस एसीए	01/10/2008	161. 057720	मि. सेन गुप्ता अनिरुधा एसीए	01/10/2005
	दर इस सलाम			कोलकाता	
143. 056985	मि. लीडाला कपिल एफसीए	01/10/2008	162. 057738	मि. अगरवाल आनन्द एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			मुंबई	
144. 057019	मि. अतुल श्रीवास्तवा एसीए	01/10/2008	163. 057779	मिस. गुप्ता संगीता एफसीए	01/10/2008
	चेंगलपट्ट			लिस्टासायर	
145. 057061	मि. कोचर दिलीप कुमार एसीए	01/10/2008	164. 057806	मि. अगरवाला रंजन एफसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
146. 057131	मि. झुनझुनवाला सुभाष कुमार एफसीए	01/10/2008	165. 057860	मि. चन्द्र शेखर मोहन्ती एफसीए	01/10/2008
	कोलकाता			पुरी	
147. 057165	मि. राजेश शर्मा एसीए	01/10/2006	166. 057873	मि. तिवारी राकेश कुमार एसीए	01/10/2008
	शिलोंग			नवी मुंबई	
148. 057216	मि. हादा चन्द्रा सेन एसीए	01/10/2008	167. 057888	मि. हजारेका प्रत्युष तपन एफसीए	01/10/2008
	अबु दाबी			गुवाहाटी	
149. 057317	मि. घोष देबाशिश एफसीए	01/10/2008	168. 057914	मि. पाल सौम्या ज्योति एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
150. 057327	मि. मित्रा संदीप कुमार एसीए	01/10/2008	169. 057919	मि. अगरवाल मनोज एसीए	01/10/2008
	बैंगलोर			कोलकाता	
151. 057382	मि. दास सुभरा एसीए	01/10/2008	170. 057945	मि. चौधरी राजेश एसीए	01/10/2008
	लंडन			गुडगांव	
152. 057401	मिस. दास दीपा एफसीए	01/10/2008	171. 057974	मि. बन्धोपाध्याय अंजन एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
153. 057414	मि. दाश चिंतामणी एफसीए	01/10/2008	172. 057987	मि. दमानी महावीर प्रसाद एफसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
154. 057450	मि. मिश्रा निलाद्री प्रसाद एसीए	01/10/2008	173. 057999	मि. पानीग्राही हरेकुष्णा एसीए	01/10/2008
	भुवनेश्वर			भुवनेश्वर	
155. 057507	मि. मुदालियर श्रीनिवास एसीए	08/12/2000	174. 058013	मिस. कपूर दीपा एसीए	01/10/2004
	चेन्नई			दुर्बई	

175. 058045	मिस. तनुजा सिन्हा एसीए	01/10/2007	194. 058653	मि. घोष अरुपेश एफसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
176. 058051	मि. गरोदिया राजेश कुमार एसीए	01/10/2008	195. 058663	मि. सेनगुप्ता विश्वजीत एसीए	01/10/2008
	दुर्गापुर			मुंबई	
177. 058101	मि. मुकुंदन के एसीए	08/12/2000	196. 058669	मि. पटनी मधुप कुमार एसीए	01/10/2005
	कोलकाता			कोलकाता	
178. 058102	मि. राय सब्यसाची एफसीए	01/10/2008	197. 058700	मि. चक्रवर्ती पार्थ एसीए	01/10/2007
	कोलकाता			कोलकाता	
179. 058141	मिस. खैतान रशमी एसीए	01/10/2007	198. 058738	मि. सेन शंकर एसीए	01/10/2007
	कोलकाता			मुंबई	
180. 058182	मि. राणासिंह अनिल कुमार एफसीए	01/10/2008	199. 058757	मिस. पियाली बनर्जी एफसीए	01/10/2008
	भुवनेश्वर			कोलकाता	
181. 058188	मि. चक्रवर्ती पार्थसारथी एसीए	01/10/2008	200. 058813	मि. चन्दक राज कुमार एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			हावड़ा	
182. 058197	मि. महेश्वरी पंकज एसीए	01/10/2008	201. 058830	मि. बन्धोपाध्याय सोमनाथ एसीए	01/10/2008
	मुंबई			बेगुसराय	
183. 058286	मि. सोमानी सुनील एसीए	01/10/2006	202. 058933	मि. परख अजय विक्रम एसीए	01/10/2007
	बेंगलूर			कोलकाता	
184. 058307	मि. सौरभ जैन एसीए	01/10/2007	203. 058956	मि. महेश्वरी राजीव कुमार एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
185. 058311	मि. गुप्ता नवीन एफसीए	01/10/2008	204. 058958	मि. पाधी दिलीप कुमार एसीए	01/10/2005
	कोलकाता			बेरहामपुर	
186. 058420	मिस. बालिया किटी सिमरत एसीए	01/10/2008	205. 058981	मि. जैन प्रमोद कुमार एसीए	01/10/2006
	न्यु दिल्ली			हावड़ा	
187. 058541	मि. श्रीनिवास चिंतादा एफसीए	01/10/2007	206. 059001	मि. खंडेलवाल संतोष एफसीए	01/10/2008
	हैदराबाद			कोलकाता	
188. 058544	मि. पाठक देवेश एफसीए	01/10/2008	207. 059031	मि. सरवर्गी अशोक कुमार एफसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
189. 058547	मि. भट्टाचार्य दिपांकर एफसीए	01/10/2008	208. 059063	मि. खैतान सिद्धार्थ एसीए	01/10/2008
	श्यामनगर			कोलकाता	
190. 058570	मि. मित्रा अमिताभ एसीए	01/10/2008	209. 059064	मि. दानी मितेश एसीए	22/12/2003
	कोलकाता			अहमदाबाद	
191. 058590	मि. होजिफा टी खैरुल्ला एफसीए	01/10/2007	210. 059084	मि. पिनाकी साहा एसीए	01/10/2007
	कोलकाता			मरकैट	
192. 058632	मि. केजरीवाल विवेकानन्द एफसीए	01/10/2008	211. 059085	श्रीमति. मुखर्जी जइता एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			सिंगापुर	
193. 058638	मि. बुबना पंकज एसीए	01/10/2008	212. 059124	मिस. संगीता अगरवाल लहीला एफसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	

213. 059216	मि. संदीप पारसरमका एसीए	01/10/2008	232. 060074	मि. अग्रवाल अनुपम एसीए	22/12/2003
	कोलकाता			रिसड़ा	
214. 059338	मि. सराफ अनिल कुमार एफसीए	01/10/2008	233. 060114	मि. बैश्या मनजीत एसीए	01/10/2004
	कोलकाता			रानीगंज	
215. 059408	मि. मिश्रा निहार रंजन एफसीए	01/10/2008	234. 060135	मि. विवेक सीताराम शर्मा एफसीए	01/10/2008
	जमशेदपुर			कोलकाता	
216. 059418	मि. अमरेन्द्र सरण एसीए	01/10/2007	235. 060143	मि. अगरवाल सुनील कुमार एफसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
217. 059421	मिस. महास्वेता मजुमदार एफसीए	01/10/2008	236. 060159	मि. शराफ श्याम सुन्दर एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
218. 059550	मि. दत्ता जयदीप एफसीए	01/10/2008	237. 060240	मि. भुपल गौतम एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			मुंबई	
219. 059613	मि. मोहान्ती देबासिस एसीए	01/10/2008	238. 060259	मि. मैथिलस शिबु एसीए	01/10/2008
	नवी मुंबई			सहारनपुर	
220. 059614	मि. अक्षय कुमार दे एफसीए	01/10/2008	239. 060276	मि. मालपानी निर्मल कुमार एसीए	01/10/2008
	बालासोर			कोलकाता	
221. 059637	मि. राय रजत एसीए	01/10/2008	240. 060388	मि. राय विवेक प्रगुन एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
222. 059651	मि. प्रेमानन्द पांडा एसीए	01/10/2005	241. 060400	मि. देव सत्यन स्वचाला एसीए	01/10/2007
	सम्बलपुर			भुवनेश्वर	
223. 059769	मि. शर्मा राजीव एसीए	01/10/2008	242. 060431	मि. गौतम भारतीय एसीए	01/10/2007
	हावड़ा			कोलकाता	
224. 059774	मिस. साहाल अंजना एफसीए	01/10/2008	243. 060447	मि. सिन्हा विक्रम एसीए	01/10/2005
	कोलकाता			सिंगापुर	
225. 059846	मिस. गुप्ता संगीता एसीए	01/10/2007	244. 060448	मि. व्यास संत कुमार एसीए	01/10/2007
	कोलकाता			गुड़गांव	
226. 059866	मि. सुरेका विनोद एसीए	01/10/2008	245. 060449	मि. सिंह शिवेन्द्र एसीए	01/10/2005
	बैंगकोक			मुंबई	
227. 059963	मि. जयसवाल सुजीत एफसीए	01/10/2008	246. 060454	मि. अगरवाल संजय एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
228. 059968	मि. अगरवाल अमित एसीए	01/10/2008	247. 060461	मि. सुभाष कुमार बुबना एसीए	01/10/2004
	टोरंटो			हावड़ा	
229. 059973	मि. जैन अजय एसीए	01/10/2008	248. 060493	मिस. गरेवाल दवीन्द्र कौर एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
230. 060050	मि. भट्टाचार्या सुगतो एसीए	01/10/2008	249. 060503	मि. घोष सुरंजन एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			पुणे	
231. 060052	मि. शर्मा प्रसेन्जीत प्रसाद एसीए	01/10/2002	250. 060527	मि. संगनेरिया मनु एसीए	01/10/2007
	गुवाहाटी			कोलकाता	

251. 060547	मि. कमलेश चोकानी एसीए	01/10/2007	270. 061024	मि. बंसल संदीप एसीए	01/10/2007
	आसनसोल			कोलकाता	
252. 060549	मि. सिंगापुरवाला मौज एसीए	01/10/2008	271. 061045	सीए. पुरुषोत्तम बिनानी एसीए	01/10/2007
	रियाध			कोलकाता	
253. 060629	मि. मोहापात्र प्रताप कुमार एसीए	01/10/2007	272. 061072	मि. हजारीका देबोजीत एसीए	01/10/2008
	दुर्गापुर			दुलियाजान	
254. 060630	मि. जैन नीरज एसीए	01/10/2008	273. 061086	मि. बहेली राहुल एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			मुंबई	
255. 060646	मि. पारिक अरुण एसीए	01/10/2008	274. 061106	मि. अगरवाल गिरीश एसीए	01/10/2008
	हैदराबाद			कोलकाता	
256. 060666	मि. केजरीवाल समीर कुमार एसीए	01/10/2008	275. 061150	मि. माइती अनुपम एसीए	01/10/2008
	हावड़ा			भोपाल	
257. 060705	मि. ओम प्रकाश एफसीए	22/12/2003	276. 061157	मि. दास अमबोरिश एसीए	01/10/2008
	समालकोट			कोलकाता	
258. 060718	मि. मित्रा अरुणभा एसीए	01/10/2008	277. 061173	मि. साहु गोपीनाथ एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			भुवनेश्वर	
259. 060761	मि. शिवेन्द्र नाथ अगरवाल एफसीए	01/10/2008	278. 061193	मि. हातिम मौज हुसैन एसीए	01/10/2005
	रिसड़ा			दोहा	
260. 060772	मि. नहाटा राजेश कुमार एसीए	01/10/2001	279. 061266	मि. चक्रवर्ती निलांजन एसीए	01/10/2005
	अंकलेश्वर			कोलकाता	
261. 060802	मि. सुराना विकास एसीए	01/10/2008	280. 061270	मि. शर्मा देबजीत मोहन एसीए	01/10/2007
	पासीर गुडंग			गुवाहाटी	
262. 060826	मि. चौबे संजीव कुमार एसीए	01/10/2008	281. 061300	मिस. चौरोरिया पुजा एसीए	01/10/2008
	टिनसुकिया			कुवैत शिटी	
263. 060836	मि. अगरवाल आनन्द एसीए	01/10/2008	282. 061317	मि. कोठारी पियुष एसीए	01/10/2007
	मुंबई			कोलकाता	
264. 060846	मि. मित्रा फालगुनी एसीए	01/10/2008	283. 061347	मि. जैन निरज एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			गुडगांव	
265. 060862	मि. बसाक पार्थ एसीए	01/10/2008	284. 061358	मि. महापात्र प्रनब कुमार एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			भुवनेश्वर	
266. 060875	मि. भोरा राहुल एसीए	01/10/2008	285. 061360	मि. मोहन्ता मित्रा भानु एसीए	01/10/2004
	कोलकाता			सोलन	
267. 060901	मि. मुकेश अगरवाला एफसीए	01/10/2008	286. 061366	मि. जैन मनोज एसीए	01/10/2005
	दुर्गापुर			न्यु दिल्ली	
268. 060926	मि. दोकानिया विकास कुमार एसीए	01/10/2008	287. 061404	मि. अमित कुमार जैन एफसीए	01/10/2008
	फरीदाबाद			रिसड़ा	
269. 060971	मि. दत्ता प्रोसेनजीत एसीए	01/10/2008	288. 061407	मि. दोकानिया रमाकान्त एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			बेंगलोर	

289. 061409	मि. कौठारी गोपाल एसीए	01/10/2007	308. 061960	मि. दुगर रेखा एसीए	01/10/2008
	रिसड़ा			कोलकाता	
290. 061417	मि. अगरवाला संजय एसीए	01/10/2005	309. 061968	मिस. अरविन्द तिवारी एफसीए	01/10/2008
	गुड़गांव			सिलीगुड़ी	
291. 061448	मि. गुप्ता नितीन गुडु एसीए	01/10/2008	310. 061988	मि. अरविन्द बहेती एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
292. 061449	मि. बासु मंजीर एसीए	01/10/2008	311. 062002	मि. दुर्गा प्रसाद पटनायक एसीए	01/10/2007
	गुड़गांव			भुवनेश्वर	
293. 061484	मि. खंडेलवाल गौरव एसीए	01/10/2005	312. 062063	मि. भट्टाचार्य सुकन्या एसीए	01/10/2008
	शिलचर			कोलकाता	
294. 061495	मि. संजय कुमार अगरवाल एफसीए	01/10/2008	313. 062066	मिस. जोशी उषा एसीए	01/10/2007
	कोलकाता			पुणे	
295. 061514	मि. सिंह अनुप्रीत एसीए	01/10/2008	314. 062069	मि. राय सुभासिस एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			लंडन	
296. 061737	मि. शर्मा प्रकाश एसीए	01/10/2006	315. 062084	मि. भिमानी विशाल एसीए	01/10/2008
	बेंगलोर			कोलकाता	
297. 061746	मि. शर्मा सौरभ एसीए	01/10/2008	316. 062113	मि. हासमी हसन अफरोज एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
298. 061760	मि. पांडे अरविन्द कुमार एसीए	01/10/2005	317. 062117	मि. पाल देबनाथ एसीए	01/10/2008
	बेंगलोर			हावड़ा	
299. 061779	मि. अगरवाल उदित एसीए	01/10/2006	318. 062120	मि. सनवारिया शेखर एसीए	01/10/2004
	कोलकाता			वीलटन	
300. 061789	मि. गुप्ता आनन्द एसीए	01/10/2005	319. 062124	मि. जैन राजेश एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
301. 061841	मि. अमित कुमार अगरवाल एफसीए	01/10/2008	320. 062125	मि. सेनगुप्ता सितांशु एसीए	01/10/2006
	कोलकाता			कोलकाता	
302. 061855	मि. लथ मुकेश एसीए	01/10/2008	321. 062169	मिस. राय चौधरी स्याबन्ती एसीए	01/10/2005
	पुणे			बेंगलोर	
303. 061867	मि. चौधरी अमरीश राज एसीए	01/10/2007	322. 062204	मि. सेनगुप्ता सिलादित्या एसीए	01/10/2008
	बेंगलोर			चिसुरा	
304. 061873	मि. सरकार चन्द्र नाथ एसीए	01/10/2007	323. 062229	मि. लदिया अंजनी कुमार एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			स्टेमफोर्ड	
305. 061889	मि. अगरवाल दीपक कुमार एसीए	01/10/2004	324. 062235	मि. दरगर संजीव एसीए	01/10/2008
	दोहा			कोलकाता	
306. 061901	मि. कोनचदा श्रीनिवास सुबुद्धी एसीए	01/10/2007	325. 062242	मि. पांडा सुसांता कुमार एसीए	01/10/2007
	चैन्नई			वारंगल	
307. 061953	मि. विष्णु कुमार तुल्ल्यान एसीए	01/10/2006	326. 062253	मि. अगरवाल विनय कुमार एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			मुंबई	

327. 062299	मि. झुनझुनवाला विकास	एसीए	01/10/2007	346. 062588	मिस. वी ए तन्वी	एसीए	01/10/2007
	हावड़ा				कोलकाता		
328. 062304	मि. गुप्ता ओम प्रकाश	एसीए	01/10/2008	347. 062596	मि. विश्वल देबांकर	एसीए	01/10/2007
	कोलकाता				कटक		
329. 062313	मि. पट्टनायक समबित	एसीए	01/10/2008	348. 062608	मि. मितल संजय	एसीए	01/10/2006
	भुवनेश्वर				मुंबई		
330. 062319	मि. मेहरा कबिर	एसीए	01/10/2008	349. 062627	मि. दिब्येन्दु नन्दी	एसीए	01/10/2007
	हैदराबाद				कोलकाता		
331. 062328	मि. गुहा सुभराजित	एसीए	01/10/2008	350. 062700	मि. सेनापति प्रफुल्ला कुमार	एसीए	01/10/2008
	हैदराबाद				भुवनेश्वर		
332. 062334	मि. दीपक सौथालिया	एफसीए	01/10/2008	351. 062715	मि. सिंह संजीव कुमार	एसीए	01/10/2008
	सम्बलपुर				कोलकाता		
333. 062340	मि. गुप्ता कौशिक	एसीए	01/10/2008	352. 062739	मि. बंधिया विनीत कुमार	एसीए	01/10/2008
	नवी मुंबई				बेंगलोर		
334. 062346	मि. जयसवाल संजय कुमार	एसीए	01/10/2005	353. 062808	मिस. रचना पहारिया	एसीए	01/10/2007
	पटना				कोलकाता		
335. 062383	मिस. खंडेलवाल श्रुति	एसीए	01/10/2008	354. 062812	मिस. मशकरा रश्मी	एसीए	01/10/2007
	बेंगलोर				बेंगलोर		
336. 062388	मि. हरलालका नेहा	एसीए	01/10/2008	355. 062829	मिस. बागरी स्वेता	एसीए	01/10/2008
	मुंबई				दुबई		
337. 062419	मि. सौरभ मानस घोष	एसीए	01/10/2007	356. 062850	मि. माधोगरिया सतिश	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				बराकर		
338. 062468	मि. अगरवाल अलोक कुमार	एसीए	01/10/2008	357. 062853	मि. अगरवाल आशिस	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				मुंबई		
339. 062470	मि. जयसवाल पंकज	एसीए	01/10/2007	358. 062876	मि. मनीष गोयेंका	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				रिसड़ा		
340. 062483	मि. कलकतावाला मोहम्मद जेड	एसीए	01/10/2007	359. 062890	मि. पोद्दार विकास	एसीए	01/10/2008
	दुबई				कोलकाता		
341. 062485	मि. गोस्वामी सौभिक	एसीए	01/10/2008	360. 062935	मि. अगरवाल मिहिर	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
342. 062537	मि. केडिया आशिस	एसीए	01/10/2008	361. 062938	मि. राय पुशपल	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
343. 062551	मि. बोथरा अजित	एसीए	01/10/2008	362. 062953	मिस. अगरवाल दिप्ती	एसीए	01/10/2008
	गुड़गांव				कोलकाता		
344. 062568	मि. जिया रैहान	एसीए	01/10/2008	363. 062959	मि. दुबे मनोज कुमार	एसीए	01/10/2008
	दुबई				कोलकाता		
345. 062571	मि. केडिया समीर	एसीए	01/10/2004	364. 062963	मि. पारेख अमित	एसीए	01/10/2008
	मुंबई				कोलकाता		

365. 062968	मि. बजाज सुनील कुमार	एसीए	01/10/2008	384. 063468	मि. नितेश कुमार अगरवाल	एसीए	01/10/2007
	कोलकाता				जमुरिया		
366. 063007	मि. चौधरी अनिरुधा	एसीए	01/10/2004	385. 063469	मि. बंसल मितेश कुमार	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				बेंगलोर		
367. 063014	मिस. डोली कोठारी	एसीए	01/10/2005	386. 063482	मि. शर्मा अमित	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
368. 063017	मि. गोयेंका अभिषेक	एसीए	01/10/2007	387. 063493	मि. अग्रवाल राकेश	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				अबु ढाबी		
369. 063021	मि. जेना सौमेन	एसीए	01/10/2008	388. 063495	मि. मुन्द्रा विनीत	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				लागोस		
370. 063024	मि. बादल कुमार उपाध्याय	एसीए	01/10/2007	389. 063540	मि. अगरवाल विकास कुमार	एसीए	01/10/2007
	भुवनेश्वर				कोलकाता		
371. 063038	मि. मुन्द्रा अनुराग	एसीए	01/10/2007	390. 063541	मिस. वाधवा शालीनी	एसीए	01/10/2008
	रिसड़ा				कोलकाता		
372. 063085	मि. खन्ना संदीप	एसीए	01/10/2008	391. 063568	मि. मानु कुमार	एसीए	01/10/2005
	कोलकाता				कोलकाता		
373. 063116	मिस. ममता डागा	एसीए	01/10/2008	392. 063583	मि. गुहा अभिषेक	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				बेंगलोर		
374. 063189	मिस. पिटी प्रियंका	एसीए	01/10/2008	393. 063585	मि. अगरवाल विनीत कुमार	एसीए	01/10/2007
	कोलकाता				बेंगलोर		
375. 063207	मि. अगरवाला प्रकाश	एसीए	01/10/2007	394. 063587	मि. मोहम्मद शेख जावीद	एसीए	01/10/2008
	सिकन्दराबाद				कटक		
376. 063228	मि. आलम तनवीर	एसीए	01/10/2008	395. 063617	मि. पतोडिया समीर	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				हावड़ा		
377. 063274	मि. विशाल पचीसीया	एसीए	01/10/2005	396. 063630	मि. नाथ निखील कुमार	एसीए	01/10/2006
	कोलकाता				दामनजोदी		
378. 063288	मि. मुरारका अभिषेक	एसीए	01/10/2008	397. 063631	मिस. मुखर्जी इन्द्रानी	एसीए	01/10/2008
	कोलकाता				हावड़ा		
379. 063300	मि. गुप्ता राजीव	एसीए	01/10/2008	398. 063634	मि. दुगर योगेन्द्र	एसीए	01/10/2008
	बेंगलोर				कोलकाता		
380. 063301	मि. शर्मा राकेश	एसीए	01/10/2008	399. 063641	मि. लधनिया संजय कुमार	एसीए	01/10/2008
	जयपुर				भुवनेश्वर		
381. 063306	मि. सत्यजीत नायक	एसीए	01/10/2007	400. 063648	मि. जैन प्रमोद	एसीए	01/10/2008
	भद्रक				कोलकाता		
382. 063390	मि. कुमार नवीन	एसीए	01/10/2007	401. 063650	मि. पटेल योगिता	एसीए	01/10/2008
	मरकैट				संता मोनिका		
383. 063433	मि. मिश्रा सुजीत कुमार	एसीए	01/10/2007	402. 063688	मि. सिपानी विकास कुमार	एसीए	01/10/2007
	कोलकाता				चेन्नई		

403. 063689	मि. नवल गारिया सुनित एसीए कोलकाता	01/10/2007	422. 063895	मिस. अगरवाल रेनु एसीए गुड़गांव	01/10/2008
404. 063700	मि. जैन विकास एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008	423. 063937	मि. सुराना सिद्धार्थ राय एसीए कोलकाता	01/10/2007
405. 063708	मि. दत्ता पार्थ एसीए कोलकाता	01/10/2005	424. 063938	मि. कोचर मयंक एसीए कोलकाता	01/10/2007
406. 063727	मि. सुभाजित चौधरी एसीए कोलकाता	01/10/2008	425. 063950	मि. स्वेन रविन्द्र कुमार एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008
407. 063736	मि. वखारिया शेलेश वी एसीए कोलकाता	01/10/2008	426. 063953	मि. महतो अवधेश एसीए मुंबई	01/10/2007
408. 063742	मि. राय अनिल कुमार एसीए बराकर	01/10/2008	427. 063983	मि. माधुर टिबरीवाल एसीए कोलकाता	01/10/2008
409. 063751	मि. लधा निलेश एसीए कोलकाता	01/10/2008	428. 064002	मि. बंसल अरुण एसीए बड़गड़	01/10/2007
410. 063757	मि. ठक्कर विनय एसीए बेंगलोर	01/10/2008	429. 064026	मिस. तोशनीवाल नताशा एसीए कोलकाता	01/10/2007
411. 063758	मि. चटर्जी प्रबल एसीए कटक	01/10/2008	430. 064029	मि. शर्मा अंकुर एसीए बेंगलोर	01/10/2008
412. 063766	मिस. अगरवाल संगीता एसीए कोलकाता	01/10/2008	431. 064034	सीए. रंजन राजीव कुमार एसीए थाने	01/10/2006
413. 063770	मि. सुमित रवि कुमार एसीए न्यु दिल्ली	01/10/2008	432. 064042	मि. माधोगरिया विनय एसीए हावड़ा	01/10/2008
414. 063806	मि. विशाल कुमार भरूका एसीए कोलकाता	01/10/2008	433. 064054	मि. नायक अशोक कुमार एसीए भुवनेश्वर	01/10/2007
415. 063839	मिस. जैयराम अनुराधा एसीए चेन्नई	01/10/2008	434. 064062	मि. चटर्जी अमिताभ एसीए हैदराबाद	01/10/2007
416. 063868	मिस. गुप्ता सुनिता एसीए कोलकाता	01/10/2008	435. 064106	मि. प्रसान्त कुमार राय एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008
417. 063869	मिस. गर्ग नेहा एसीए मुंबई	01/10/2008	436. 064113	मि. चमरिया दीपक एसीए कोलकाता	01/10/2008
418. 063874	मि. सुरज अगरवाल एसीए कोलकाता	01/10/2008	437. 064185	मि. दास अमित कुमार एसीए बेंगलोर	01/10/2008
419. 063881	मि. अगरवाल गोपाल कुमार एसीए हावड़ा	01/10/2008	438. 064191	मि. तांतिया आकाश एसीए कोलकाता	01/10/2008
420. 063884	मि. झुनझुनवाला अमित कुमार एसीए कोलकाता	01/10/2008	439. 064243	मिस. वालिया अमृता एसीए बेंगलोर	01/10/2008
421. 063893	मि. अगरवाल निखील कुमार एसीए कोलकाता	01/10/2008	440. 064269	मि. प्रदीप केडिया एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008

441. 064278	मि. आशिस कुमार सिंह एसीए न्यु दिल्ली	01/10/2008	460. 064585	मि. मनीष अगरवाल एसीए नगदा	01/10/2008
442. 064354	मि. सुनील कुमार अगरवाल एसीए बोलन्नीर	01/10/2008	461. 064623	मि. देवेन्द्र कुमार गोल्छा एसीए औरंगाबाद	01/10/2007
443. 064394	मिस. राप्ती बासु एसीए गुडगाँव	01/10/2008	462. 064639	मिस. ईशा श्रोफ एसीए बेंगलोर	01/10/2007
444. 064404	मि. राजेश कुमार पांडे एसीए कोलकाता	01/10/2008	463. 064649	मि. विवेक पोद्दार एसीए हावड़ा	01/10/2008
445. 064427	मि. नवीन वर्मा एसीए कोलकाता	01/10/2008	464. 064659	मिस. सुनीता दास एसीए कोलकाता	01/10/2007
446. 064437	मि. सुरेन्द्र शर्मा एसीए कोलकाता	01/10/2008	465. 064672	मि. सौरभ जयसवाल एसीए बेंगलोर	01/10/2008
447. 064447	मि. अमित कुमार जजोडिया एसीए हावड़ा	01/10/2007	466. 064692	मि. राम कुमार खेतान एसीए बड़गड़	01/10/2007
448. 064459	मिस. अंतरा पाल एसीए हैदराबाद	01/10/2008	467. 064728	मि. रवि गादिया एसीए कोलकाता	01/10/2008
449. 064478	मि. समित कुमार जेना एसीए कोलकाता	01/10/2008	468. 064743	मि. किष्ण राठी एसीए कोलकाता	01/10/2006
450. 064501	मि. नवल किशोर वर्मा एसीए जमशेदपुर	01/10/2007	469. 064789	मि. संदीप जजोडिया एसीए कोलकाता	01/10/2008
451. 064507	मि. आदित्य मरोदिया एसीए कोलकाता	01/10/2008	470. 064855	मि. अजय शर्मा एसीए कोलकाता	01/10/2007
452. 064508	मि. सुमित बिश्वास एसीए कोलकाता	01/10/2008	471. 064865	मि. राकेश रोशन झां एसीए जमशेदपुर	01/10/2008
453. 064515	मि. अमित जोशी एसीए कोलकाता	01/10/2006	472. 064952	मि. संजय कुमार सोनी एसीए हावड़ा	01/10/2007
454. 064524	मि. अरिन्दम बिश्वास एसीए बेंगलोर	01/10/2008	473. 064956	मिस. प्रीति जैन एसीए हावड़ा	01/10/2008
455. 064550	मि. झाहंवी झा श्यामसुखा एसीए कोलकाता	01/10/2008	474. 064974	मिस. मिमली कुलश्रेष्ठा एसीए पर्थ	01/10/2008
456. 064551	मि. मनोज कुमार श्रीवास्तवा एसीए कोलकाता	01/10/2008	475. 064988	मि. पवन कुमार पेरीवाल एसीए न्यु दिल्ली	01/10/2008
457. 064564	मि. सुभाशिस रथ एसीए लागोस	01/10/2008	476. 065035	मि. अंजनी कुमार उपाध्याय एसीए कोलकाता	01/10/2008
458. 064581	मि. पंकज अगरवाल एसीए कोलकाता	01/10/2008	477. 065044	सीए. मनोज कुमार गुप्ता एसीए कोलकाता	01/10/2007
459. 064582	मि. सौरभ अगरवाल एसीए सिकन्दराबाद	01/10/2008	478. 065061	मि. राजेश कुमार बियानी एसीए कोलकाता	01/10/2008

479. 065063	मि. नारायण रथ एसीए	01/10/2008	498. 065565	मिस. सोभा भंडारी एसीए	01/10/2008
	जयपुर			कोलकाता	
480. 065075	मिस. प्रीतु बैद एसीए	01/10/2008	499. 065578	मि. रवि कुमार शर्मा एसीए	01/10/2008
	हावड़ा			भद्रकाली	
481. 065097	मि. विवेक जैन एसीए	01/10/2008	500. 065620	मि. शिव प्रसाद साहू एसीए	01/10/2007
	बेंडेल			बेरहमपुर	
482. 065151	मि. मनीष जजोदिया एसीए	01/10/2008	501. 065621	मि. हरून रसीद एसीए	01/10/2007
	कोलकाता			कोलकाता	
483. 065152	मि. मनोज अगरवाला एसीए	01/10/2007	502. 065690	मि. सौरभ गोयेंका एसीए	01/10/2008
	मालदा			हावड़ा	
484. 065248	मिस. ममता चोपड़ा एसीए	01/10/2008	503. 065722	सीए. गोपाल कुमार गुप्ता एसीए	01/10/2007
	कोलकाता			कोलकाता	
485. 065266	मि. नवीन खैतान एसीए	01/10/2008	504. 065737	मि. बिजय कुमार अग्रवाल एसीए	01/10/2008
	नयासराय			बिनका	
486. 065278	मिस. सीमा तिवारी एसीए	01/10/2008	505. 065743	मि. एमडी सलाउद्दीन अली एहमद एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			पटना	
487. 065282	मिस. मितु सराफ एसीए	01/10/2008	506. 065770	मिस. दिपाली जयराम एसीए	01/10/2008
	बांकुड़ा			कोलकाता	
488. 065288	मि. समीर अगरवाल एसीए	01/10/2008	507. 065807	मि. गणेश कुमार बंसल एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			मुंबई	
489. 065312	मिस. नूपुर कमानी एसीए	01/10/2008	508. 065862	मि. बिरेन्द्र कुमार महन्तो एसीए	01/10/2008
	कटक			कोलकाता	
490. 065380	मि. दिनेश झुनझुनवाला एसीए	01/10/2007	509. 065865	मि. प्रनय कुमार सुरेका एसीए	01/10/2008
	हावड़ा			कोलकाता	
491. 065383	मि. सुब्रत कुमार पांडा एसीए	01/10/2008	510. 065894	मिस. ममता ओझा एसीए	01/10/2008
	भुवनेश्वर			हल्दिया	
492. 065398	मि. सचिन गुप्ता एसीए	01/10/2007	511. 065947	मि. सौरभ ढंड एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
493. 065414	मि. अमित कुमार जगनानी एसीए	01/10/2007	512. 065963	मि. सुबोध अगरवाल एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
494. 065449	मि. जगबन्धु पात्र एसीए	01/10/2008	513. 065987	मि. राकेश कन्डोइ एसीए	01/10/2008
	भुवनेश्वर			बेंगलोर	
495. 065466	मि. विकास अगरवाल एसीए	01/10/2008	514. 066028	मि. परीक्षिता दास एसीए	01/10/2008
	हावड़ा			भद्रक	
496. 065482	मि. विकास जैन एसीए	01/10/2008	515. 066047	मि. अजय अग्रवाला एसीए	01/10/2008
	सिंगापुर			खडगपुर	
497. 065488	मि. आशिस कुमार खंडेलवाल एसीए	01/10/2008	516. 066051	मि. राजु मेहता एसीए	01/10/2008
	कोलकाता			कोलकाता	

517. 066077	मि. आसुतोष मोहन्ती एसीए कयॉनझर	01/10/2008	536. 086280	मि. नारायण साहु एफसीए भुवनेश्वर	01/10/2007
518. 066084	मि. सोभित छवछारिया एसीए कोलकाता	01/10/2008	537. 090317	मि. राय विश्वा जीवन एसीए भुवनेश्वर	22/12/2003
519. 066116	मि. राज किशोर प्रसाद एसीए बेंगलोर	01/10/2008	538. 093251	मि. चतुर्वेदी अलोक एफसीए कोलकाता	01/10/2008
520. 066141	मि. राजल अभिषेक एसीए कोलकाता	01/10/2008	539. 094284	मि. कर सौरभ एसीए कोलकाता	01/10/2008
521. 066240	मि. जयदीप नसकर एसीए मुंबई	01/10/2008	540. 095078	मि. सुरोजित सिंह एफसीए पंजी	01/10/2004
522. 066252	मि. अभिषेक रंजन सिंह एसीए जमुनिया	01/10/2008	541. 095638	मि. महापात्र रामरंजन एफसीए बरीपदा	01/10/2008
523. 066284	मि. हिमांशु शेखर कबि एसीए कोलकाता	01/10/2008	542. 095652	मि. बिरेश दास एफसीए भुवनेश्वर	01/10/2008
524. 066312	मिस. प्रियंका अगरवाल एसीए हावड़ा	01/10/2008	543. 097047	मि. धवाला शेखर एफसीए कोलकाता	01/10/2008
525. 066313	मि. ऋषि पोदार एसीए मुंबई	01/10/2008	544. 097342	मि. दास अलोक कुमार एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008
526. 066333	मि. उमेश कुमार शर्मा एसीए हावड़ा	01/10/2008	545. 097541	मि. पुरोहित भुवन एसीए वदोदरा	01/10/2006
527. 066356	मिस. अकांक्षा भलोटिया एसीए कोलकाता	01/10/2008	546. 097567	मि. कोचर शरद एसीए मुंबई	01/10/2008
528. 066365	मि. पंकज कुमार राठी एसीए रिसड़ा	01/10/2008	547. 098526	मि. गुप्ता अशोक कुमार एसीए सिलीगुड़ी	01/10/2007
529. 066391	मि. दिनेश कुमार यादव एसीए मुंबई	01/10/2008	548. 100379	मि. बनर्जी बानी ब्रतो एसीए कोलकाता	01/10/2008
530. 066422	मि. जालेन्द्र पाधीयरी एसीए चेन्नई	01/10/2008	549. 105800	मि. राजेन्द्र कुमार साहु एफसीए चेन्नई	01/10/2008
531. 066449	मि. विकास पुरोहित एसीए बराकर	01/10/2008	550. 108774	मि. संदीप कुमार सतपथी एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008
532. 066552	मिस. स्वेता जैन एसीए कोलकाता	01/10/2008	551. 110317	मिस. रूची अगरवाल एसीए लंडन	01/10/2007
533. 075637	मि. दीपक कुमार मोदी एफसीए भद्रकाली	01/10/2006	552. 114642	मि. विक्रम झां एसीए कोलकाता	01/10/2006
534. 076141	मि. बोस जाबा एसीए दुबई	01/10/2008	553. 115108	मि. सुमन्तो कुमार नायक एसीए भुवनेश्वर	01/10/2008
535. 079101	मि. साह भुवनेश एसीए हैदराबाद	01/10/2007	554. 204986	मि. कौशिक एन एसीए हावड़ा	01/10/2008

555. 206029 मि. जोश जोशेफ एफसीए न्यु यार्क	01/10/2004	559. 503917 मि. रजत कुमार समल एसीए मुंबई	01/10/2007
556. 206780 मि. बद्री नारायण सुबुद्धी एसीए मस्कैट	01/10/2007	560. 506394 मि. निर्मल चन्द्र साहु एसीए फरीदाबाद	01/10/2008
557. 400384 मि. अमित अगरवाल एसीए मुंबई	01/10/2008	561. 509854 मि. सोम्या रंजन साहु एसीए बड़गड़	01/10/2008
558. 404256 मि. भुरा पंकज कुमार एसीए गुवाहाटी	01/10/2008	562. 510568 मि. अमित कुमार चौधरी एसीए दिगबोई	01/10/2008

टी. कार्तिकेयन सचिव

3ईसीए/5/2/2008-2009: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए/4/11/1986-87 दिनांक 31.03.1987, 3ईसीए/04/12/1983-84 दिनांक 31/03/1984, 3ईसीए/04/02/1995-96 दिनांक 25/03/1996, 3ईसीए/04/03/1992-1993 दिनांक 22/01/1993, 3ईसीए/04/04/1993-94 दिनांक 01.02.1994, 3ईसीए/04/01/2007-08 दिनांक 15/12/2008, 3ईसीए/04/02/1999-00 दिनांक 03/12/1999, 3ईसीए/04/02/2003-04, दिनांक 08/09/2004, 3ईसीए/04/03/1998-99 दिनांक 12/05/1999, 3ईसीए/04/03.2000-2001 दिनांक 22/02/2001, 3ईसीए/04/03/2001-2002 दिनांक 19/11/2001, 3ईसीए/04/03/2002-03, दिनांक 31/03/2003, 3ईसीए/04/04/2006-07 दिनांक 30/11/2006, 3ईसीए/04/05/2005-06 दिनांक 06/04/2006, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सुचित किया जाता है की उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे हुई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान	पुनरुद्धार दिनांक	क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान	पुनरुद्धार दिनांक
1.	010162 मि. आमाश चन्द्रा भट्टाचार्य एफसीए	01/10/2001	11.	051563 मि. गुप्ता प्रनब कुमार एसीए	10/09/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
2.	010801 मि. भीकम चन्द लम्बोरिया एफसीए	03/09/2008	12.	052026 मि. बन्धोपाध्याय प्रदीप कुमार एसीए	03/11/2008
	कोलकाता			अमलाई	
3.	013330 मि. देवशंकर पुरकायस्था एसीए	13/02/2009	13.	052103 मि. सेनगुप्ता किशोर चिरा रंजन एसीए	26/02/2009
	मुंबई			फोन्टेनब्लियु	
4.	014764 मि. सुशील कुमार सरोगी एफसीए	02/06/2008	14.	052869 मि. वराणसी रोमेश कुमार एफसीए	27/05/2008
	कोलकाता			दर इस सलाम	
5.	018079 मि. हरी हरन वी एफसीए	16/01/2009	15.	054346 मि. तैम्भोय जुजेर एम एसीए	03/06/2008
	बेगलोर			मस्कैट	
6.	050700 मि. घोष समर एसीए	27/08/2008	16.	054492 मि. नागरंजन श्रीराम एसीए	24/04/2008
	कोलकाता			फ्लोरहम	
7.	050763 मि. बासु समर कुमार एसीए	21/05/2008	17.	054558 मि. वर्मा सुनील एसीए	12/12/2008
	कोलकाता			मुंबई	
8.	051207 मि. तन्मय गुहा सरकार एफसीए	27/02/2009	18.	054897 मि. बन्धोपाध्याय सुदीप एसीए	25/04/2008
	कोलकाता			मुंबई	
9.	051309 मि. दास निमाई कुमार एसीए	18/12/2008	19.	057256 मि. राजेश राजकारनीकार एसीए	01/10/2005
	कोलकाता			काठमांडु	
10.	051378 मि. गौर मोहन दास एसीए	22/08/2008	20.	058379 मि. बनर्जी संजय एसीए	22/12/2003
	कोलकाता			सिंगापुर	

21. 058584 मि. राय सोम्योजीत एसीए कोलकाता	19/01/2009	26. 064098 मि. दुबे सत्येन्द्र कुमार एसीए कोलकाता	28/04/2008
22. 058954 मि. सोमानी उमेश एसीए दुबई	15/04/2008	27. 064189 मिस. मंजु गुप्ता एसीए कोलकाता	13/05/2008
23. 059283 मि. बन्धोपाध्याय सुमोदीप एसीए मुंबई	25/04/2008	28. 065372 मि. प्रवीण नेवटीया एसीए रिसड़ा	05/05/2008
24. 063086 मि. मोहनती सत्यव्रत एसीए मुवनेश्वर	01/10/2005	29. 094629 मि. प्रदीप राठी एसीए देवगढ़	01/10/2007
25. 063371 सीए. उमा शंकर कल्याणी एसीए बेगलोर	21/04/2008	30. 500024 मि. बरल उमाकान्ता एसीए कटक	12/01/2009
		31. 506066 मि. अमित राठी एसीए चेन्नई	01/10/2007

टी. कार्तिकेयन
सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2009

3 इसिए/8/1/2008-2009: चाटोई प्राप्त लेखाकार विनियम के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चाटोई प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1988 के धारा 10(1)(iv) (धारा 10(2) (ब)) के साथ पढ़िये उप-धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चाटोई प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों का 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' फिस न देने के कारण दिनांक 01/10/2008 से रद्द कर दिया गया है :-


क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान
1.	002415	मि. पांडे श्री नाथ एफसीए हावड़ा
2.	002635	मि. दास भूपति नाथ एफसीए कोलकाता
3.	004124	मि. भंडारी राज रन छोर चन्द एफसीए कोलकाता
4.	004147	मि. मेहता सुमेर चन्द एफसीए कोलकाता
5.	005533	मि. मंडल गोबर्धन दास एफसीए हुगली
6.	006903	मि. सुरल अरुणभा एफसीए कोलकाता
7.	009006	मि. गुहाठाकुरता रनेन्द्र नाथ एफसीए कोलकाता
8.	011004	मि. राय अभिजीत एसीए कोलकाता
9.	011779	मि. चटर्जी सुब्रत एसीए कोलकाता
10.	012708	मि. मुखर्जी प्रीतम गोपाल एफसीए कोलकाता
11.	050100	मि. चौधरी गौतम हाजरा एसीए कोलकाता
12.	050710	मि. देबांशिस बासु एसीए कोलकाता
13.	051478	मि. रंजीत सेनगुप्ता एफसीए कोलकाता

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान
14.	051551	मि. भार प्रदीप एफसीए कोलकाता
15.	051839	मि. संघवी हिरेन यु एसीए कोलकाता
16.	052314	मि. गुहा भाष्कर एसीए कोलकाता
17.	052617	मि. बनर्जी अंजन एसीए कोलकाता
18.	052879	मि. नन्दी जाहर एसीए ओमान
19.	053169	मि. श्री मोहन हमीरबासिया एफसीए कोलकाता
20.	054420	मि. सिंह संजय कुमार एफसीए कोलकाता
21.	054887	मि. साव जयप्रकाश एसीए कोलकाता
22.	54941	मि. पात्रो पी राजाराव एफसीए मुवनेश्वर
23.	055025	मि. पाल जगन्नाथ कुमार एफसीए कोणनगर
24.	055090	मि. महेश झुनझुनवाला एफसीए कोलकाता
25.	055182	मि. शर्मा सुरेश कुमार एफसीए रिसड़ा
26.	055211	मि. बंसाली नरेशकुमार हिरालाल एफसीए कोलकाता

- | | |
|---|---|
| 27. 055325 मि. सिद्धार्थबनर्जी एसीए
कोलकाता | 45. 057808 मि. अगरवाल मनोज एसीए
कोलकाता |
| 28. 055361 मि. घोष अनिन्दा एसीए
कोलकाता | 46. 057809 मिस. अनुरिता चतर्वेदी एसीए
कोलकाता |
| 29. 055871 मि. विजय कुमार पतोडिया एसीए
हावड़ा | 47. 057893 मि. मोहान्ती हारा प्रसाद एसीए
क्योंनझार |
| 30. 056001 मि. अग्रवाल संजय कुमार एफसीए
हावड़ा | 48. 058128 मि. केडिया अशोक कुमार एसीए
कोलकाता |
| 31. 056055 मि. गांगुली संदीपन एसीए
हावड़ा | 49. 058291 मि. चौधरी अमित एसीए
कोलकाता |
| 32. 056092 मि. सराफ रामानन्द एसीए
कोलकाता | 50. 058479 मिस. गांगुली पारामिता एसीए
शिवपुर |
| 33. 056213 मि. महापात्र धीमान एसीए
कोलकाता | 51. 058776 मि. चटर्जी प्रतिक एसीए
बैदुआबति |
| 34. 056760 मि. घोषाल राजीव एफसीए
कोलकाता | 52. 058913 मि. मनीष कुमार खखोलिया एफसीए
कोलकाता |
| 35. 056771 मि. नाग रुपम एसीए
कोलकाता | 53. 059074 मि. अग्रवाल विनय एसीए
कोलकाता |
| 36. 056817 मि. गांगुली अनिर्बान एसीए
कोलकाता | 54. 059113 मि. दत्ता रविन्द्र नाथ एसीए
कोलकाता |
| 37. 057018 मि. गुप्ता प्रसान्त एसीए
कोलकाता | 55. 059211 मि. अर्नब गोस्वामी एफसीए
कोलकाता |
| 38. 057162 मि. डालमिया राकेश रोशन एसीए
कोलकाता | 56. 059234 मि. दासगुप्ता मनीष एसीए
गुवाहाटी |
| 39. 057264 मि. समझदार बिपलब एसीए
कोलकाता | 57. 059273 मि. ठाकुर पदमा कान्त एफसीए
कोलकाता |
| 40. 057423 मि. गोंयेका दीपक एसीए
कोलकाता | 58. 059422 मि. राय मयंक एसीए
बेंगलोर |
| 41. 057492 मि. इन्द्रनाथ चटर्जी एसीए
कोलकाता | 59. 059428 मि. सगुन तुलस्यान एफसीए
कोलकाता |
| 42. 057544 मि. प्रदीप्ता विश्वास एफसीए
कोलकाता | 60. 059553 मि. पाल सुब्रत एसीए
कोलकाता |
| 43. 057764 मि. आसिस कुमार मिश्रा एफसीए
बेहरामपुर | 61. 059841 मि. पतोडिया सिद्धार्थ एसीए
कोलकाता |
| 44. 057771 मि. तुलसियान मनोज एसीए
मुबई | 62. 059871 मि. मनोज कुमार सिंह एफसीए
कोणनगर |

- | | |
|---|---|
| 63. 059901 मि. राय सुरोजित एसीए
कोलकाता | 81. 062026 मि. कंडोइ चित्रा एसीए
कोलकाता |
| 64. 059980 मि. गुप्ता जयेश एसीए
कोलकाता | 82. 062168 मि. जयसवाल शिल्पी एसीए
हावड़ा |
| 65. 059982 मि. भक्ता तिर्थमय एसीए
कोलकाता | 83. 062259 मि. शशी कुमार एसीए
हावड़ा |
| 66. 060251 मि. बांका विवेक कुमार एसीए
पुरुलिया | 84. 062317 मि. प्रीतम चौधरी एसीए
कोलकाता |
| 67. 060284 मि. चेतन चौधरी एफसीए
कोलकाता | 85. 062457 मि. गुप्ता विनय कुमार एसीए
कोलकाता |
| 68. 060413 मि. सुहासरिया राकेश एसीए
हावड़ा | 86. 062679 मि. बैद विनीत एसीए
कोलकाता |
| 69. 060567 मि. लोयलका केशव कान्त एसीए
रानीगंज | 87. 062748 मिस. भलोटिया मिनाक्षी एसीए
कोलकाता |
| 70. 060858 मि. गोलछा गौतम कुमार एसीए
हावड़ा | 88. 062763 मि. रिशभ जैन एसीए
नहरलगुन |
| 71. 061148 मि. मनीष कुमार एसीए
कोलकाता | 89. 063068 मि. रोय महादेब एसीए
कोलकाता |
| 72. 061483 मि. अगरवाल गोविन्द प्रसाद एसीए
हावड़ा | 90. 063154 मिस. गनेरीवाल आभा एसीए
कोलकाता |
| 73. 061498 मि. जयपुराय जुगल किशोर एसीए
कोलकाता | 91. 063169 मि. जैन प्रदीप एसीए
कोलकाता |
| 74. 061540 मि. समीर गोयेंका एफसीए
कोलकाता | 92. 063524 मि. वर्षनेय इन्द्र प्रकाश एसीए
हावड़ा |
| 75. 061541 मि. विकास गोयेंका एफसीए
कोलकाता | 93. 063533 मि. साहा अभिजीत एसीए
कोलकाता |
| 76. 061558 मिस. भुदोलिया संजुला एसीए
कोलकाता | 94. 063614 मि. प्रमोद डंगेच एसीए
कोलकाता |
| 77. 061624 मि. तोडी सुनील एसीए
कोलकाता | 95. 063931 मि. चौधरी सौगत एसीए
सीलिगुड़ी |
| 78. 061633 मिस. कार देबोलिना एसीए
सिकंदराबाद | 96. 064138 मिस. अगरवाल सारिका एसीए
कोलकाता |
| 79. 061706 मि. संजीव मात्रा एफसीए
तमलुक | 97. 064208 मि. संदीप कुमार पोद्दार एसीए
कोलकाता |
| 80. 061868 मि. अगरवाल नवीन कुमार एसीए
कोलकाता | 98. 064616 मिस. एकता केजरीवाल एसीए
डिबरूगढ़ |

99. 064890 मि. प्रवीण अगरवाला एसीए सीलिगुड़ी	108. 081428 मि. घौष अरूण चन्द एसीए कोलकाता
100. 065193 मि. सुभासिस सरकार एसीए कोलकाता	109. 090884 मि. मोहन्ती तापस रंजन एसीए भुवनेश्वर
101. 065203 मि. राजेश माल एसीए कोलकाता	110. 095745 मि. मेहर गौतम एसीए दोहा
102. 065308 मि. महेश्वर नायक एसीए पुरुलिया	111. 097166 मिस. जैन नीता एसीए कोलकाता
103. 065371 मि. अनिल कुमार दाश एसीए भुवनेश्वर	112. 212455 मि. सिंह रशमी रंजन एसीए भुवनेश्वर
104. 065431 मि. दिलीप कुमार मिश्रा एसीए पारादीप	113. 400744 मिस. नागर वर्षा एसीए कोलकाता
105. 065523 मि. पंकज कुमार अगरवाल एसीए कोलकाता	114. 406250 मि. मधु सुधन सावा एसीए राउरकेला
106. 066237 मि. रंजु मुखोपाध्याय एसीए हुगली	115. 408319 मि. महावीर बैद एसीए कोलकाता
107. 066398 मि. पंकज सिंह चौधरी एसीए काठमांडु	116. 510319 मि. अभया कुमार दाश एसीए कोलकाता


 टी. कार्तिकेयन
 सचिव

3 इसिए/8/2/2008-2009' चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम (III) के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1988 के धारा 10 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों जो 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' रखना नहीं चाहते हैं उनका नाम अपने सदस्यता रजिस्टर में से दिनांक (जो दिनांक सदस्यों के नाम के पास लिखा गया) से हटा दिया है :-

क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान संख्या	रद्द दिनांक
1.	007956 मि. चक्रवर्ती सिद्धेश्वर एफसीए कोलकाता	01/04/2008
2.	012845 मि. अगरवाल शिव कुमार एफसीए कोलकाता	01/04/2008
3.	013972 मि. पतोडिया बिमल किशोर एफसीए कोलकाता	01/04/2008
4.	016300 मि. चटर्जी दिलीप कुमार एफसीए कोलकाता	27/01/2009
5.	016350 मि. गांधी अरुण कुमार एफसीए कोलकाता	01/10/2008
6.	016706 मि. श्याम दासवानी एफसीए कोलकाता	17/05/2008
7.	050569 सीए. बिपलब कुमार साहा एसीए कोलकाता	01/04/2008
8.	050762 मि. बन्धोपाध्याय निर्मल कुमार एफसीए कोलकाता	10/03/2008
9.	050782 मि. सुराना कमल सिंह एफसीए हावड़ा	25/09/2008
10.	050840 मि. अभय मल लोढा एफसीए कोलकाता	19/03/2009
11.	051218 मि. तापस दत्ता एफसीए कोलकाता	20/06/2008
12.	051580 सीए. किर्ती रंजन पात्र कोसाला एफसीए न्यु दिल्ली	01/04/2008

क्रम संख्या	सदस्यता नाम एवं स्थान संख्या	रद्द दिनांक
13.	051787 मि. श्रीनिवासन एन आर एफसीए कोलकाता	31/03/2008
14.	051812 मि. बनिक प्रनब कुमार एफसीए कोलकाता	01/04/2008
15.	052002 सीए. के शेखर एफसीए कोलकाता	01/04/2008
16.	052249 मि. सुमित कुमार दत्त एफसीए कोलकाता	02/03/2009
17.	052924 मि. चौधरी अवधेश कुमार एफसीए कोलकाता	04/08/2008
18.	053153 मि. दीपक घोष एसीए कोलकाता	15/09/2008
19.	053997 मि. शाहा आनन्द कुमार एफसीए कोलकाता	31/12/2008
20.	054074 मि. सरद कमल एफसीए कोलकाता	01/04/2008
21.	054188 मि. लोढा हर्ष वर्धन एफसीए कोलकाता	04/10/2008
22.	054323 मि. चौधरी दीपक कुमार एफसीए कोलकाता	31/12/2008
23.	054620 मि. मेति बिश्वजीत एफसीए कोलकाता	01/01/2008
24.	054621 मि. कपूर दीपक एफसीए विशाखापटनम	29/02/2008

25. 054626	मि. प्रधान अमिय कुमार एफसीए	31/03/2008	43. 058146	मि. सुभासिस कर एफसीए	07/11/2008
	गुवाहाटी			कोलकाता	
26. 054689	मि. अलोक कुमार मुखोपाध्याय एफसीए	19/12/2008	44. 058371	मि. अगरवाल विकास एफसीए	12/03/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
27. 055895	मि. पसारी प्रदीप एसीए	01/04/2008	45. 058478	मि. सिंह गौतम एफसीए	22/08/2008
	मुंबई			राउरकेला	
28. 055946	मि. चक्रवर्ती उत्पल कान्ती एफसीए	01/04/2008	46. 058493	मि. किशोर कुमार सेनापति एफसीए	24/06/2008
	घिसुरा			आगरतला	
29. 056095	मिस. बागची शाश्वती एसीए	01/04/2008	47. 058550	मि. गोयल संजीव कुमार एफसीए	01/04/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
30. 056374	मि. शुक्ला अनिल एफसीए	01/04/2008	48. 058597	मि. भुटोरिया जितेन्द्र एफसीए	01/04/2008
	हुगली			कोलकाता	
31. 056428	मि. निर्दोश कुमार अगरवाल एफसीए	24/03/2008	49. 058664	मि. अगरवाल शिव नाथ एसीए	16/03/2009
	कोलकाता			कोलकाता	
32. 056497	मि. शब्यसाची मल्लिक चौधरी एसीए	07/01/2009	50. 058689	मि. सरोगी मनोज एसीए	17/03/2009
	कोलकाता			कोलकाता	
33. 056575	मि. दत्ता रजत रंजन एफसीए	01/08/2008	51. 058757	मिस. पियाली बनर्जी एफसीए	01/04/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
34. 056586	मि. बहेती चन्द्र मोहन एफसीए	11/11/2008	52. 059002	मि. अलोक तापरिया एफसीए	25/12/2008
	कोलकाता			रिसड़ा	
35. 056712	मि. बंसल दीपक एफसीए	10/03/2008	53. 059201	मि. समित कुमार दास एफसीए	01/04/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
36. 057111	मि. जैन पंकज कुमार एफसीए	31/03/2008	54. 059386	मि. अंशुमान बल एफसीए	05/03/2009
	कोलकाता			कोलकाता	
37. 057251	मि. अगरवाल मनोज कुमार एसीए	13/01/2009	55. 059476	मि. कायन गोविन्द ए सीए	01/04/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
38. 057434	मि. मनोज कुमार बेरीवाला एफसी	20/08/2008	56. 059528	मि. तपन गुप्ता एफसीए	09/06/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
39. 057561	मि. घोष देबब्रता एफसीए	01/01/2009	57. 059627	मि. रंगता आसिस एफसीए	31/12/2008
	कोलकाता			भुवनेश्वर	
40. 057617	मि. अगरवाल दिलीप कुमार एफसीए	10/09/2008	58. 060007	मिस. सराफ सरिता एसीए	31/03/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
41. 057836	मि. जैन संभव कुमार एसीए	23/12/2008	59. 060402	मि. बजाज मनीष कुमार एफसीए	11/12/2008
	कोलकाता			हावड़ा	
42. 058105	मि. नीरज जैसवाल एफसीए	23/02/2009	60. 060405	मिस. दीप्ताक्षी गोरवामी पाल एफसीए	01/11/2008
	कोलकाता			कोलकाता	

61. 060666	मि. केजरीवाल समीर कुमार	एसीए	15/01/2009	78. 062176	मि. राथी नरेश	एसीए	15/01/2009
	हावड़ा				रिसड़ा		
62. 060858	मि. गोलछा गौतम कुमार	एसीए	01/10/2008	79. 062270	मि. दीपक कुमार शर्मा	एसीए	22/12/2008
	हावड़ा				कोलकाता		
63. 060864	मि. आशिष कुमार भुट	एफसीए	09/03/2009	80. 062356	मिस. जालान अंजुला	एसीए	01/04/2008
	हावड़ा				हिन्दमोटर		
64. 061033	मि. गोस्वामी शब्यासाची	एसीए	19/10/2008	81. 062653	मिस. शहवाला चांदनी	एसीए	01/09/2008
	कोलकाता				सीलिगुड़ी		
65. 061068	मि. बंधिया संजय	एसीए	04/03/2009	82. 063095	मि. अग्रवाल रोशन	एसीए	31/03/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
66. 061134	मि. अनिल कुमार जयसवाल	एफसीए	27/11/2008	83. 063117	मि. धार अरुनव	एसीए	25/08/2008
	कोलकाता				अरियालुर		
67. 061210	सीए. विकास मेहरोत्रा	एफसीए	29/01/2009	84. 063195	मि. जिंदल जय प्रकाश	एसीए	30/09/2008
	कोलकाता				हावड़ा		
68. 061218	मि. पांडा चितरंजन	एसीए	01/07/2007	85. 063317	मि. हृषीकेश कुमार	एसीए	01/04/2008
	जोदा				हावड़ा		
69. 061344	मि. मनीष सुरेका	एफसीए	01/04/2008	86. 063566	मि. अगरवाल विकास	एसीए	23/09/2009
	कोलकाता				कोलकाता		
70. 061450	मि. मुकेश कुमार सौथालिया	एफसीए	25/03/2008	87. 063652	मिस. केडिया निमीशा	एसीए	29/09/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
71. 061493	मि. चेतन प्रकाश बगारिया	एफसीए	01/04/2008	88. 063665	मि. शर्मा गिरीश	एसीए	29/09/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
72. 061515	मिस. शायन्तनी दे	एफसीए	19/10/2008	89. 063721	मि. केजरीवाल संदीप	एसीए	29/08/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
73. 061806	मि. लक्ष्मण गुप्ता	एफसीए	11/11/2008	90. 063812	मि. झा सुनील कुमार	एसीए	29/11/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
74. 061838	मि. शुशील कुमार अगरवाल	एफसीए	29/01/2009	91. 063849	मि. देबोर्शी राय	एसीए	01/10/2005
	हावड़ा				कोलकाता		
75. 061881	मि. जुथानी समीर	एसीए	22/09/2008	92. 063883	मि. मनीष तिवारी	एसीए	01/04/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
76. 061935	मिस. निधी अगरवाल	एसीए	02/09/2008	93. 063890	मि. गुप्ता संदीप	एसीए	27/11/2008
	कोलकाता				कोलकाता		
77. 062136	मि. अरविन्द अगरवाल	एफसीए	13/10/2008	94. 063951	मि. मजुन्दार आयन	एसीए	30/12/2008
	कान्ताबंजी				चन्दननगर		

95. 063956	मि. सुनील डालमिया एसीए	01/04/2008	115. 065334	मिस. रीमा जलान एसीए	23/12/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
96. 063992	मि. अगरवाल अनुप कुमार एसीए	12/03/2008	116. 065589	मिस. अंशु दोकानिया एसीए	19/08/2008
	रंगपो			जमशेदपुर	
97. 064040	मिस. गरीमा किला एसीए	25/03/2008	117. 065604	मि. अरुण कुमार नन्दी एसीए	01/04/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
98. 064178	मि. बिनय अग्रवाल एसीए	01/08/2008	118. 065638	मि. रितेश क्यल एसीए	01/04/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
99. 064428	मि. राम भरत यादव एसीए	25/02/2009	119. 065646	मि. दीपक कुमार शर्मा एसीए	01/04/2008
	बर्नपुर			कोलकाता	
100. 064436	मि. सायनदीप चौधरी एसीए	20/03/2008	120. 065655	मिस. अदिती गर्ग एसीए	29/02/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
101. 064491	मि. अमर अगरवाल एसीए	01/03/2008	121. 065721	मिस. संगीता बंसल एसीए	01/10/2008
	रानीगंज			कोलकाता	
102. 064525	मि. उमेश कुमार अगरवाल एसीए	08/08/2006	122. 065738	मि. हरीश पटवारी एसीए	20/01/2009
	हावड़ा			हावड़ा	
103. 064545	मिस. मनीषा कोटेचा एसीए	06/01/2009	123. 065745	मि. प्रशेन्जीत पुहन एसीए	04/07/2008
	कोलकाता			भुवनेश्वर	
104. 064636	मि. संदीप अगरवाल एसीए	25/03/2009	124. 065921	मि. रंजीत गित्तल एसीए	25/03/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
105. 064693	मिस. दीपिका गर्ग एसीए	10/10/2008	125. 065977	मि. शशांक चटोपाध्याय एसीए	03/03/2009
	कोलकाता			कोलकाता	
106. 064747	मि. जयंता मजुमदार एसीए	16/07/2008	126. 066070	मि. अजय कुमार अगरवाल एसीए	06/01/2009
	हावड़ा			कोलकाता	
107. 064821	मि. हितेश कुमार वेगद एसीए	25/03/2008	127. 066075	मिस. प्रीति काबरा एसीए	01/04/2008
	भुवनेश्वर			गुवाहाटी	
108. 064831	मि. पंकज खेमका एसीए	01/04/2008	128. 066105	मि. राजीव कुमार राय एसीए	19/11/2008
	सिलीगुड़ी			कोलकाता	
109. 064902	मि. प्रभात रंजन एसीए	12/12/2008	129. 066602	मि. अलोक झां एसीए	01/04/2008
	हावड़ा			सिंगापुर	
110. 064906	मिस. बंदना खैतान एसीए	30/12/2008	130. 066818	मि. नवल काला एसीए	13/10/2008
	हैदराबाद			कोलकाता	
111. 064970	मि. अबीर लोहारुका एसीए	25/02/2008	131. 066984	सीए. देबजानी सेनगुप्ता एसीए	27/01/2009
	कोलकाता			कोलकाता	
112. 065039	मिस. परमिंदर कौर गांधी एसीए	31/10/2008	132. 066995	सीए. विकास गुप्ता एसीए	11/02/2009
	कोलकाता			कोलकाता	
113. 065123	मि. गिरीधर ढेलिया एसीए	16/09/2008	133. 074570	मि. सेनगुप्ता असीम एसीए	15/09/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
114. 065241	मि. पियुष कुमार लखोटिया एसीए	01/10/2008	134. 094648	मि. नायक रंजीत कुमार एफसीए	16/03/2009
	कोलकाता			कोलकाता	

135. 401703	मि. संजय दिक्षीत एफसीए	01/04/2008	138. 502113	मिस. गोयल स्वाती एसीए	29/12/2008
	कोलकाता			कोलकाता	
136. 408336	मि. विमल जैसवाल एसीए	01/04/2008	139. 508612	मि. राजु प्रधान एसीए	28/09/2007
	कोलकाता			काठमांडू	
137. 500385	मि. बिपलब कुमार साहा एफसीए	01/03/2008			
	कोलकाता				

टी. कार्तिकेयन
सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

नं० 3 सी.सी.ए. (4)(1) / 2008-2009 :- चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों द्वारा प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्धारित शुल्क न जमा करने के कारण दिनांक 01.10.2008 से हटा दिया है।

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
1.	001251	सीए. दत्ता प्राग	लखनऊ
2.	003260	सीए. अगरवाल धरम प्रकाश	लखनऊ
3.	004251	सीए. मदन लाल ए.पी.	रांची
4.	006638	सीए. केदार मनी	देवरिया
5.	008227	सीए. दामिनी कृष्ण रतन	इंदौर
6.	009233	सीए. बैनर्जी उमेश	नोयडा
7.	009499	सीए. मेहरोत्रा सीताराम	गुडगाँव
8.	009857	सीए. नटराजन आर	भोपाल
9.	010804	सीए. हाजरा तिमिर बरन	कोलकाता
10.	011131	सीए. टेकरीवाल प्रेम कुमार	जमशेदपुर
11.	011646	सीए. लाल कैलाश भूशन	नोयडा
12.	012147	सीए. श्रीवास्तव केशव कृष्णा	लखनऊ
13.	012164	सीए. हरीहरम पी	जमशेदपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
14.	012380	सीए. चौधरी संतोष कुमार	बोकारो स्टील सिटी
15.	012493	सीए. सूद अविनाश चंदर	नोएडा
16.	013701	सीए. अगरवाल सरोज कुमारी	लखनऊ
17.	015409	सीए. बंसल विजय कुमार	ब्यावर
18.	015972	सीए. अगीवाल सीताराम	जमशेदपुर
19.	016326	सीए. सिंघवी दौलत चन्द	जोधपुर
20.	016441	सीए. प्रकाश कौशल चन्द	भोपाल
21.	017074	सीए. सिंघवी गनपत	जोधपुर
22.	017078	सीए. सैबाल वीरा	कानपुर
23.	017554	सीए. संतोष कुमार वैद	नोयडा
24.	019828	सीए. झुनझुनवाला प्रमोद कुमार	कानपुर
25.	030712	सीए. जैन तारा चंद	ब्यावर

क्र.सं.	स0	सं0	नाम	स्थान
26.	031382		सीए. गुप्ता हरीश कुमार	जोधपुर
27.	031819		सीए. गोलछा कपूरचंद चंपा लाल	जोधपुर
28.	031997		सीए. सम्पत राज गहलोत	जोधपुर
29.	033103		सीए. मनमोहन	सहडोल
30.	034245		सीए. जैन नीरज ज्ञान चंद	इंदौर
31.	037857		सीए. गुप्ता महेन्द्र कुमार	कोटा
32.	039035		सीए. जैन राजेन्द्रा	जोधपुर
33.	039365		सीए. कुमभट पंकज	जोधपुर
34.	039606		सीए. समीर लाल	जबलपुर
35.	040312		सीए. सलीम मीयाजी	उदयपुर
36.	041138		सीए. पारीक हरीश कुमार	भीलवारा
37.	042813		सीए. शाह राजू जयन्ती लाल	भोपाल
38.	043050		सीए. जानी राजेश	भीलवारा
39.	043117		सीए. सोमानी संजय कुमार	रांची
40.	043435		सीए. सुराना सुरेश	जोधपुर
41.	045051		सीए. संगम भारती	इलाहाबाद

क्र.सं.	स0	सं0	नाम	स्थान
42.	045753		सीए. सोनी विमल किशोर	नागडा
43.	045969		सीए. गोयल नंद किशोर	अजमेर
44.	046912		सीए. जैन राजेन्द्रा कुमार	भीलवारा
45.	047343		सीए. सोनी रूपवंत	उदयपुर
46.	048579		सीए. लाड वंशुधरा एच	इंदौर
47.	049090		सीए. महेशवरी रजनीश	उदयपुर
48.	049514		सीए. मंत्री अनुराग	गुडगाँव
49.	050042		सीए. शारदा मनोज कुमार	अजमेर
50.	050074		सीए. गुप्ता अमोद	मेरठ
51.	050834		सीए. चटोपाध्या सचिन	इलाहाबाद
52.	051344		सीए. राय श्याम सुन्दर	धनबाद
53.	051891		सीए. सिंह प्रमोद कुमार	पटना
54.	051994		सीए. मो0 खली क्वेजमान	धनबाद
55.	052163		सीए. सिंघवी महेन्द्रा कुमार	जोधपुर
56.	052223		सीए. जयसवाल रमेश चन्द	वाराणसी
57.	053652		सीए. जैन विवेक चन्द्रा	लखनऊ

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
58.	053822	सीए. लूथरा सुदीप	लखनऊ
59.	054317	सीए. मोहन्ती सुधांशु शेखर	भिलाई
60.	054500	सीए. वर्मा ज्योति सोनी	जयपुर
61.	055081	सेठिया राजेन्द्रा	बीकानेर
62.	056005	सीए. मंधना ओम प्रकाश	भोपाल
63.	056027	सीए. डवरी रवि शंकर	देवघर
64.	056585	सीए. अखरामका प्रमोद कुमार	जयपुर
65.	056609	सीए. मौर राजेश	जलौर
66.	056816	सीए. अगरवाल राजकुमार	रायपुर
67.	057600	सीए. पैट्रो सीएच मनोज कुमार	भोपाल
68.	057683	सीए. शर्मा नवीन कुमार	गोंडा
69.	058211	सीए. संगीता राठी	लखनऊ
70.	058511	सीए. आर. एस. रमेश	जमशेदपुर
71.	058585	सीए. लखोटिया रोहित	फोरबेसगंज
72.	058897	सीए. जजोडिया प्रतीक	नोयडा

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
73.	059564	सीए. मुखर्जी सुमित	रायपुर
74.	059812	सीए. परख बॉबी	इंदौर
75.	059919	सीए. खेतान मधुकर	नोयडा
76.	060188	सीए. अगरवाल सुधा	भागलपुर
77.	060379	सीए. श्रीवास्तवा विदेक	नई दिल्ली
78.	060492	सीए. यादव रामचन्द्रा प्रसाद	रायपुर
79.	060525	सीए. अमित कुमार सरावगी	खगारिया
80.	060626	सीए. गोलछा मनीष कुमार	फोरबेसगंज
81.	060651	सीए. अमित कुमार व्यास	ब्यावर
82.	060967	सीए. श्राफ विकाश	नोयडा
83.	061059	सीए. वर्मा अंकिता	जमशेदपुर
84.	061278	सीए. मुकुन्द झुनझुनवाला	राँची
85.	061312	सीए. तुलस्यान विकाश कुमार	धनबाद
86.	061477	सीए. त्रिपाठी विभु पदारबिंदा	कटक
87.	061810	सीए. ठाकूर कुमार नाथ	गोरखपुर

क्र.सं.	सं०	सं०	नाम	स्थान
88.	062543		सीए. अगरवाल राज कुमार	बेगूसराय
89.	062714		सीए. शर्मा वैदेही	वैशाली
90.	062803		सीए. परवल मनीषा	बरेली
91.	063056		सीए. डालमीया अंशू कुमार	पटना
92.	063199		सीए. शर्मा महावीर	जोधपुर
93.	063724		सीए. मिश्रा सुदीप	कटक
94.	063875		सीए. चन्द्रा सुरेश	गोरखपुर
95.	064828		सीए. सोहन लाल प्रसाद	नोएडा
96.	065059		सीए. भास्कर गुप्ता	धनबाद
97.	065573		सीए. दीपक कुमार अग्रवाल	रेक्सोल
98.	065895		सीए. विवेक बरनवाल	कोलकत्ता
99.	066043		सीए. विकास जैन	भागलपुर
100.	070097		सीए. दर्जी सुरेश चन्द	शाहडोल
101.	070189		सीए. निर्मल श्याम	इलाहाबाद
102.	070213		खन्ना पंकज	कानपुर

क्र.सं.	सं०	सं०	नाम	स्थान
103.	070489		सीए. गुप्ता सुशील कुमार	कानपुर
104.	070491		सीए. पृथी पाल सिंह	कानपुर
105.	070524		सीए. हर्ष मोहन	अलीगढ़
106.	070531		सीए. प्रभाश चन्द्रा भान्ती	उदयपुर
107.	070534		सीए. प्रेम कुमार जोतवानी	इलाहाबाद
108.	070581		सीए. गुप्ता रवि प्रकाश	इलाहाबाद
109.	070836		सीए. सुनील कुमार	नोयडा
110.	070877		सीए. अगरवाल हेमन्त	इंदौर
111.	070925		सीए. आभिराम वीर	लखनऊ
112.	071029		सीए. अवस्थी शैलेन्द्र कुमार	कानपुर
113.	071038		सीए. कोठारी विनीत	जयपुर
114.	071113		सीए. तलवार सुरेन्द्र कुमार	गाजीयाबाद
115.	071138		सीए. ग्रोवर राकेश कुमार	इलाहाबाद
116.	071147		सीए. रस्तोगी अतुल	कानपुर
117.	071156		सीए. वेद प्रकाश	आगरा

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान	क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
118.	071306	सीए. वच्चानी मनोहर	जयपुर	133.	071985	सीए. गर्ग सुरेन्द्र कुमार	गाजियाबाद
119.	071324	सीए. अशोक प्रकाश मुन्द्रा	जयपुर	134.	072123	सीए. जैन धर्म चन्द	जयपुर
120.	071343	सीए. गर्ग शैलेन्द्र नाथ	हापुड़	135.	072271	सीए. प्रमोद कुमार महेश्वरी	अलीगढ़
121.	071346	सीए. राम राज सोनी	कोलकत्ता	136.	072281	सीए. सिंघवी प्रकाश कुमार	जोधपुर
122.	071358	सीए. भंसाली पारस चन्द	जयपुर	137.	072360	सीए. प्रसून कुमार भट्टाचार्या	हजारीबाग
123.	071377	सीए. शाह गोपाल दास	जोधपुर	138.	072370	सीए. बैराठी दिनेश	जयपुर
124.	071489	सीए. मुजावड़िया कृष्ण गोपाल	इंदौर	139.	072503	सीए. सेठ राजेश	इलाहाबाद
125.	071638	सीए. गुप्ता सुरेश कुमार	भोपाल	140.	072520	सीए. अहूजा धर्मेन्द्र कुमार	मेरठ
126.	071703	सीए. निर्मल कुमार जैन	भीलवारा	141.	072556	सीए. विद्यार्थी राजन	बरेली
127.	071725	सीए. जार्ज निनान अब्राहम	कानपुर	142.	072597	सीए. बन्धिया सुशील	इंदौर
128.	071756	सीए. जैन भूपेन्द्र कुमार	भीलवारा	143.	072711	सीए. दशोरा नवीन प्रकाश	इंदौर
129.	071776	सीए. लोहीया आनन्द प्रकाश	जोधपुर	144.	072791	सीए. पुष्पेन्द्र	इलाहाबाद
130.	071895	सीए. सक्सेना अनिल कुमार	कानपुर	145.	072799	सीए. मोहम्मद इमरान	भोपाल
131.	071915	सीए. पचौरी लव	इलाहाबाद	146.	072838	सीए. सोमानी विजय कुमार	पालीमारवाड़
132.	071941	सीए. शर्मा गोपाल लाल	जयपुर	147.	072842	सीए. जैन अजय कुमार	मुजफ्फर नगर
				148.	072905	सीए. पंडवाल राजेन्द्रा	उदयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
149.	072998	सीए. गंग विनोद कुमार	इंदौर
150.	073223	सीए. मुलिक पुलक राज	देहरादून
151.	073240	सीए. तेहिलियानी विजय कुमार	जयपुर
152.	073269	सीए. प्रदीप कुमार	गाजियाबाद
153.	073328	कृपलानी कैलाश	लखनऊ
154.	073428	सीए. आदर्श कुमार	नोएडा
155.	073436	सीए. मनीष भंडारी	जोधपुर
156.	073446	सीए. तिवारी बलराम	लखनऊ
157.	073468	सीए. गुप्ता सिरिश कुमार	कानपुर
158.	073502	सीए. गुप्ता सुनील कुमार	नई दिल्ली
159.	073677	सीए. जैन शान्ती चंद	जोधपुर
160.	073705	सीए. अनिल कुमार मेहता	जोधपुर
161.	073714	सीए. शर्मा विवेक	आगरा
162.	073719	सीए. शुक्ला शरद	लखनऊ
163.	073725	सीए. दवे अतुल	लखनऊ
164.	073749	सीए. मनोज कुमार गुप्ता	मेरठ
165.	073844	सीए. भसीन नरेन्द्र कुमार	देहरादून

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
166.	073848	सीए. चौधरी प्रनीत कुमार	जयपुर
167.	073860	सीए. डफरीया नितिन कुमार	इंदौर
168.	073861	सीए. खरे सूर्य प्रकाश	बाराबंकी
169.	073952	सीए. कथवाल ओम प्रकाश	जयपुर
170.	073985	सीए. श्रीवास्तवा सुनील कुमार	लखनऊ
171.	074109	सीए. केडिया राजेश कुमार	रायपुर
172.	074127	सीए. इंदरा कुमार	लखनऊ
173.	074130	सीए. राकेश कुमार सिंह	कानपुर
174.	074132	सीए. काबरा संजय	इंदौर
175.	074141	सीए. कियावात अजीत कुमार	इंदौर
176.	074186	सीए. विश्वनाथ वी	पूने
177.	074212	सीए. कुमभट जयदीप	जयपुर
178.	074224	सीए. माधवी मुन्दरा	इंदौर
179.	074235	सीए. करनावत मनोज	देहरादून
180.	074241	सीए. धूत जुगल किशोर	जोधपुर
181.	074415	सीए. बाबू लाल भथर	जोधपुर
182.	074453	सीए. मित्तल दिनेश कुमार	भोपाल

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान	क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
183.	074532	सीए. पंडा हेमन्ता कुमार	सोनभद्र	201.	075614	सीए. दत्ता विश्वनाथ	अनूपपुर
184.	074553	सीए. जैन सुरेश कुमार	उदयपुर	202.	075619	सीए. शाह राज कुमार	इंदौर
185.	074670	सीए. लखोटिया प्रदीप	जयपुर	203.	075633	सीए. बग्गा अजीत सिंह	उज्जैन
186.	074700	सीए. सिंह संजीव कुमार	बोकारो स्टील सिटी	204.	075641	सीए. अगरवाल अनिल	भोपाल
187.	074853	सीए. महाजन राकेश	गाजियाबाद	205.	075670	सीए. मदन गोपाल	भागलपुर
188.	074884	सीए. खंडेलवाल संजीव	इंदौर	206.	075738	सीए. तोड़ी विश्नु दत्त	कच्छ
189.	074889	सीए. लोधा सुनील कुमार	मुम्बई	207.	075739	सीए. राकेश सारस्वत	अहमदाबाद
190.	074916	सीए. बोथरा संजय कुमार	रायपुर	208.	075768	सीए. गुटगुटिया विवेक	धनबाद
191.	074935	सीए. मालपानी संजय	जयपुर	209.	075785	सीए. श्रीवास्तवा राकेश	कानपुर
192.	074997	सीए. अतुल गोपाती	जयपुर	210.	075791	सीए. सिंह अदित्या कुमार	भोपाल
193.	075124	सीए. सक्सेना राजीव कुमार	फतेहगढ़	211.	075805	सीए. भंडारी आशीष	नोएडा
194.	075133	सीए. शर्मा नवीन कुमार	गाजियाबाद	212.	075821	सीए. मिश्रा कमलाकर	दिल्ली
195.	075224	सीए. मेहता संदीप	जोधपुर	213.	075829	सीए. झा परीतोष	बीकानेर
196.	075248	सीए. सुनील कुमार सिंह	कानपुर	214.	075920	सीए. पुतांमबेकार विनीता	इंदौर
197.	075316	सीए. विनीत कुमार	रायपुर	215.	075948	सीए. सुनील कुमार लोहिया	भीलवारा
198.	075360	सीए. चतुर्वेदी राजीव कुमार	लखनऊ	216.	075956	सीए. हुसैनी दारकी	नीमुच
199.	075432	सीए. शर्मा विवेक	जयपुर	217.	075962	सीए. राजेन्द्र सिंह	धोलपुर
200.	075546	सीए. बंशल गिरराज कुमार	गुड़गाँव	218.	075986	सीए. सरवन कुमार पराशर	जयपुर
				219.	076012	सीए. शुक्ला अखिलेश	कानपुर
				220.	076017	सीए. अग्रवाल अनूप कुमार	इलाहाबाद

क्र.सं.	स० सं०	नाम	स्थान
221.	076104	सीए. गुप्ता राजेन्द्रा कुमार	इंदौर
222.	076210	सीए. सिंह गोपेशवर कुमार	नोएडा
223.	076298	सीए. गाबरा मनोज	उदयपुर
224.	076356	सीए. भंडारी राजीव	जोधपुर
225.	076420	सीए. अग्रवाल संजीव कुमार	मुम्बई
226.	076488	सीए. मोर संजय मदनमोहन	जबलपुर
227.	076489	सीए. भटनागर शरद	गाजियाबाद
228.	076501	सीए. मशंद अजय	इंदौर
229.	076566	सीए. भंडारी दीपक	जोधपुर
230.	076569	सीए. टेकचन्दानी जितेन्द्र	जोधपुर
231.	076709	सीए. सबरवाल ज्योति	बहराइच
232.	076774	सीए. दीपक कुमार	नोएडा
233.	076786	सीए. पवेचा अजय	रतलाम
234.	076799	सीए. जैन निर्मल कुमार	जयपुर
235.	076856	सीए. शर्मा गनेश	जयपुर
236.	076946	सीए. जैन सुमेन्द्रा	नोयडा
237.	077053	सीए. शैलेन्द्रा कुमार	बक्शर
238.	077057	सीए. शर्मा रवि	जयपुर
239.	077099	सीए. संजय कुमार	नागपुर
240.	077128	सीए. मुन्द्रा अविनाश	मुम्बई

क्र.सं.	स० सं०	नाम	स्थान
241.	077140	सीए. सिन्हा मनीष कुमार	गाजियाबाद
242.	077195	सीए. बाजपेयी गणेश प्रसाद	वाराणसी
243.	077226	सीए. धानुका मनोज	इंदौर
244.	077244	सीए. शर्मा राहुल	जयपुर
245.	077298	सीए. कपालेश कमल देव	भोपाल
246.	077344	सीए. मेहता रवि	जोधपुर
247.	077416	सीए. जैन अजित कुमार	खरगोन
248.	077457	सीए. अगरवाल अनिल कुमार	लखनऊ
249.	077503	सीए. सिधल दिनेश कुमार	सुमेरपुर
250.	077538	सीए. मुन्धरा महेश कुमार	जोधपुर
251.	077560	सीए. अजीत टी	बैंगलोर
252.	077593	सीए. लीखयानी मनोज	जयपुर
253.	077639	सीए. कौल मल्लिका	इंदौर
254.	077648	सीए. आशीष पुनधीर	जयपुर
255.	077714	सीए. अग्रवाल अमिताभ	अराधिया
256.	077747	सीए. विजय लक्ष्मी	नोएडा
257.	077748	सीए. स्वामीनाथन मैत्रीयी	नोएडा
258.	077759	सीए. गुप्ता दीपिका	देहरादून
259.	077778	सीए. जैन पंकज	उदयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
260.	077947	सीए. अग्रवाल सुशील	भोपाल
261.	077989	सीए. जैन धर्मेन्द्रा	इंदौर
262.	078013	सीए. जैन अजय कुमार	आगरा
263.	078071	सीए. जोशी प्रवीन	उदयपुर
264.	078169	सीए. विश्वास उत्तम कुमार	जमशेदपुर
265.	078262	सीए. गर्ग चारू	मेरठ
266.	078293	सीए. गुप्ता प्रभात	मेरठ
267.	078351	सीए. पारीक अनिल	जयपुर
268.	078355	सीए. मनु आर्यन	अजमेर
269.	078356	सीए. तुलसियान आदित्या	कानपुर
270.	078388	सीए. कूपर प्रगति	कानपुर
271.	078447	सीए. सुधा गुप्ता	जयपुर
272.	078456	सीए. अतुल कुमार	देहरादून
273.	078516	सीए. अगरवाल संजय	बोकारो स्टील सिटी
274.	078557	सीए. दिनकर राजेन्द्रा	जयपुर
275.	078573	सीए. बिहानी गोपाल	जयपुर
276.	078640	सीए. सिंह सुनील कुमार	राँची
277.	078645	सीए. मेहरा सिद्धार्थ	गाजियाबाद
278.	078654	सीए. ग्रोवर नीलिमा	गाजियाबाद
279.	078674	सीए. अग्रवाल धर्मेन्द्र	मुजफ्फर नगर
280.	078693	सीए. शमीम आर. वी.	उदयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
281.	078694	सीए. व्यास कमल किशोर	जोधपुर
282.	078705	सीए. टंडन सौरभ	लखनऊ
283.	078711	सीए. पारीक सुनील कुमार	भीलवारा
284.	078766	सीए. जोशी नीरज	उज्जैन
285.	078813	सीए. गुप्ता अमित	जयपुर
286.	078906	सीए. अरूण पचौरी	जयपुर
287.	078974	सीए. अहमद करीम	इलाहाबाद
288.	079046	सीए. बजाज मोहित	पटना
289.	079055	सीए. नन्दावत हेमन्त कुमार	प्रतापगढ़
290.	079058	सीए. बजौरिया संदीप	राँची
291.	079114	सीए. जैन पवन कुमार	मोदी नगर
292.	079129	सीए. व्यास रमेश	जोधपुर
293.	079184	सीए. राहुल कुमार वशिष्ठ	गुडगाँव
294.	079221	सीए. होतचन्दाने विजय अरजू	जयपुर
295.	079257	सीए. अजय कुमार दधीच	भड़ौच
296.	079325	सीए. तृप्ती विशनोई	जोधपुर
297.	079360	सीए. शर्मा अनिल कुमार	जयपुर
298.	079367	सीए. भट्ट अमित	जयपुर
299.	079380	सीए. विशनोई विभोर	नोएडा

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
300.	079407		सीए. नहाटा रोहित	उदयपुर
301.	079408		सीए. मोदानी आलोक	इंदौर
302.	079546		सीए. उदय भानू अवस्थी	लखीमपुर खीरी
303.	079594		सीए. भोजवानी राजेश	जोधपुर
304.	079620		सीए. विवेक वरशनी	इलाहाबाद
305.	079719		सीए. विजय कुमार अग्रवाल	सरायकेला
306.	079721		सीए. नितिन गर्ग	भोपाल
307.	079739		सीए. मेहता रितुनजय	पाली मरवाड़
308.	079765		सीए. भंडारी राहुल राज	जोधपुर
309.	079779		सीए. बैटरीवाला मुश्ताक अली	इंदौर
310.	079852		सीए. शर्मा नितिन	नई दिल्ली
311.	079891		सीए. शाह रितेश	इंदौर
312.	079913		सीए. अरोड़ा गौरव	नोएडा
313.	079973		सीए. खबिया मीनाक्षी	इंदौर
314.	079999		सीए. ठाकुर संजय कुमार	रामगढ़
315.	080242		सीए. सत्य प्रकाश	लखनऊ
316.	080718		सीए. जैन अरुण कुमार	गाजियाबाद
317.	080803		सीए. खान अली राजा	रामपुर
318.	080965		सीए. गोयल राम कुमार	गाजियाबाद
319.	081426		सीए. कौशिक महावीर प्रसाद	नोएडा

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
320.	081609		सीए. रोहानी अफसर हुसैन	लखनऊ
321.	081721		सीए. राकेश कुमार	नोएडा
322.	082292		सीए. अजय चन्द	नई दिल्ली
323.	082570		सीए. माथूर देवन्द्रा स्वरूप	लखनऊ
324.	082572		सीए. राय मुनीन्द्रा नारायण	पटना
325.	082584		सीए. जैन राकेश कुमार	नोएडा
326.	082756		सीए. शर्मा रमेश चन्द्रा	अजमेर
327.	082820		सीए. सलुजा पुरुषोत्तम लाल	श्रीगंगा नगर
328.	082970		सीए. कौशल बलराम	हरिद्वार
329.	083013		सीए. नरेन्द्र कुमार	जयपुर
330.	083402		सीए. जुनेजा संजीव	नोएडा
331.	083669		सीए. रॉय ओयनझीला	नोएडा
332.	083805		सीए. विशनु कुमार	मथुरा
333.	084062		सीए. माथुर रोकश स्वरूप	शाहजहाँपुर
334.	085394		सीए. चावला राजेश	नोएडा
335.	085926		सीए. दुबलिश संजीव कुमार	गाजियाबाद
336.	086199		सीए. गुप्ता सुबोध	नोएडा
337.	086394		सीए. गुप्ता सीताराम	सवाईमाधोपुर
338.	086719		सीए. संधवी राकेश	जयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
339.	087034	सीए. सिंह गीतिका	नोएडा
340.	087772	सीए. अग्रवाल संतोष	गाजियाबाद
341.	088259	सीए. विक्रम सिंह	नोएडा
342.	088282	सीए. विनोद बाबू	लखनऊ
343.	088978	सीए. चावला अनिल	देहरादून
344.	089136	सीए. सक्सेना अनिल	गाजियाबाद
345.	089440	सीए. अरोड़ा संजीव	नोएडा
346.	089665	सीए. गुप्ता संदीप कुमार	नई दिल्ली
347.	089877	सीए. सेठीया मनोज	गाजियाबाद
348.	090748	सीए. टेकरीवाल राजेश कुमार	दिल्ली
349.	091081	सीए. मेहता अखिलेश	इंदौर
350.	091393	सीए. गुप्ता राम गोपाल	गाजियाबाद
351.	091561	रमाकान्त पारीक	सीकार
352.	091878	सीए. गोयल अनिल कुमार	जोधपुर
353.	092358	सीए. गुप्ता मुकेश कुमार	बुलन्दशहर
354.	092377	सीए. कुमार हरित महेन्द्रा	भिवाड़ी
355.	092563	सीए. मित्तल संजीव	गाजियाबाद
356.	092710	सीए. पुरी पुनीत	नोएडा
357.	092747	सीए. सिंह निर्मल कुमार	बोकारो स्टील सिटी
358.	092870	सीए. पार्वती करन	नोएडा

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
359.	093051	सीए. संडिल्या सुशील कुमार	नई दिल्ली
360.	093558	सीए. राजीव कुमार	गाजियाबाद
361.	093984	सीए. नितिन कुमार	नोएडा
362.	094064	सीए. मिश्रा रोहित	नोएडा
363.	094509	सीए. बी. मृदुला वानी	गाजियाबाद
364.	094531	सीए. विद्या भूशन भरतिया	रॉंची
365.	094617	सीए. मक्कर संदीप	रूड़की
366.	094933	सीए. अगरवाल विशनु	रायगढ़
367.	095626	सीए. नायर विक्रम	नोएडा
368.	095757	सीए. विश्वानाथन वी.	गाजियाबाद
369.	096431	सीए. अग्रवाल आशीष	गाजियाबाद
370.	096537	सीए. महेश्वरी हेमन्त	बैंगलोर
371.	096599	सीए. किरण	नोएडा
372.	096726	सीए. महेश्वरी विपुल कुमार	कासगंज
373.	096837	सीए. राजीव कुमार	पटना
374.	096855	सीए. आदित्य कुमार सिंह	मेरठ
375.	096952	सीए. जैन अनुपम	नोएडा
376.	096963	सीए. प्रधान सुयस कुमार	नोएडा
377.	097254	सीए. हुसैन करार	रॉंची
378.	097401	सीए. मनमोहन कुमार	गाजियाबाद

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
379.	097670	सीए. महाजन राम	गुड़गाँव
380.	098130	सीए. जैन सुनील कुमार	नोएडा
381.	098199	सीए. वैद नितिन	गाजियाबाद
382.	098531	सीए. बंशल दीपक	भिवाड़ी
383.	098628	सीए. गुप्ता जूही	गाजियाबाद
384.	098720	सीए. विरेन्द्र कुमार	गाजियाबाद
385.	099059	सीए. शर्मा अमित	काशीपुर
386.	099066	सीए. सती गणेश प्रसाद	गाजियाबाद
387.	099142	सीए. गौतम नीरज कुमार	पटना
388.	099210	सीए. राजपूत जतिन	नोएडा
389.	099255	सीए. शर्मा सज्जन	रॉयपुर
390.	099290	सीए. सिंह दीपक	एटा
391.	099304	सीए. श्रेष्ठ अरूण	गाजियाबाद
392.	099344	सीए. जैन गौरव	जयपुर
393.	099854	सीए. झा अशोक कुमार	नोएडा
394.	099858	सीए. गुप्ता अमित	जयपुर
395.	101317	सीए. कोठारी रमेश कुमार	उदयपुर
396.	101382	सीए. कमल किशोर गोयल	सूरत
397.	103390	सीए. खत्री मुरलीधर दौलतराम	नोएडा
398.	104850	सीए. कोठारी आलोक कुमार	जयपुर
399.	105109	सीए. अग्रवाल अमित राकेश	नई दिल्ली

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
400.	105361	सीए. विनोद समदानी	भीलवाड़ा
401.	106022	सीए. मनीष कुमार के. त्यागी	देहरादून
402.	106559	सीए. सौरभ कुमार	सीतापुर
403.	106840	सीए. शैलेश बंकतलाल मोदी	पाली
404.	107774	सीए. मित्तल सिद्धार्थ मुकुल	इंदौर
405.	107934	सीए. शर्मा शैलेन्द्रा	उदयपुर
406.	108202	सीए. अग्रवाल जम्बो कुमार	कोटा
407.	109018	सीए. अरविन्द सिंघवी	भीलवाड़ा
408.	109767	सीए. विजय बक्शीराम पालीवाल	नोएडा
409.	110394	सीए. अग्रवाल आनन्द प्रकाश	अजमेर
410.	110692	सीए. शिवम् प्रहलादका	भीलवाड़ा
411.	110695	सीए. जोशी अभिनव	इंदौर
412.	113744	सीए. उमा अग्रवाल	मुम्बई
413.	116243	सीए. शारदा अमित	जबलपुर
414.	116664	सीए. खुराना हेमलता सौरभ	गाजियाबाद
415.	117866	सीए. शर्मा श्याम किशोर लखनऊ	
416.	118654	सीए. गुप्ता अरपित	कोटा
417.	119422	सीए. कंचन विपिन मल्होत्रा	नोएडा

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
418.	120548		सीए. ज्योति महाजन	गाजियाबाद
419.	121685		सीए. नितिन अशोक बधरेचा	रायपुर
420.	121864		सीए. सुरेन्द्र लहोटी	भीलवाड़ा
421.	122346		सीए. श्रीनिवासा सुबाराजू अच्युतनी	जयपुर
422.	123859		सीए. भारत कुमार मिश्रा	लखनऊ
423.	123883		सीए. बबिता अगरवाल	बीकानेर
424.	127327		सीए. अरविन्द खंडेलवाल	चित्तोरगढ़
425.	127423		सीए. संजय कुमार रघुवंशी	इंदौर
426.	200090		सीए. सुरेश बाबू आर.	हैदराबाद
427.	203997		सीए. चोकालिंगम पी. एल.	मुम्बई
428.	204313		सीए. राजेश कुमार पी. वी.	नोएडा
429.	204856		सीए. गणेश रमन अरजुला जी.	नोएडा
430.	205290		सीए. सतीश वी.	पूने
431.	205868		सीए. प्रकाश चंद	उदयपुर
432.	208338		सीए. प्रभाकरन सी.	चेन्नई
433.	210104		सीए. पारूल नेगी	गाजियाबाद
434.	211343		सीए. संदीप शर्मा	जयपुर
435.	212148		सीए. वेंकटा सत्यानरायण जागू	चेन्नई
436.	216746		सीए. अविनाश कुमार लोधा	बैंगलोर

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
437.	400005		सीए. डे कौशिक	भिलाई
438.	400031		सीए. जेजानी अमित कुमार	रॉंची
439.	400040		सीए. भोगालिया देवन्द्रा	जयपुर
440.	400072		सीए. राठी विकास	जयपुर
441.	400073		सीए. खंडेलवाल अशोक कुमार	जयपुर
442.	400092		खट्टर रश्मी	मोदीनगर
443.	400095		सीए. जैन अमित	जयपुर
444.	400118		सीए. कुमार चैतन्य	पटना
445.	400154		सीए. बोहरा नितिन	सजोत सिटी
446.	400168		सीए. कन्हैया लाल शर्मा	जयपुर
447.	400200		सीए. गुप्ता रश्मी	नई दिल्ली
448.	400245		सीए. पारख रितु	जयपुर
449.	400255		सीए. अजयॉंशु बनर्जी	रॉंची
450.	400273		सीए. अग्रवाल विकास जी	इलाहाबाद
451.	400312		सीए. चौधरी अशिमा	गाजियाबाद
452.	400337		सीए. भंडारी मधुर	जयपुर
453.	400351		सीए. भाटिया हरिन्दर	देहरादून
454.	400428		सीए. अनवरउल हबीब	कानपुर
455.	400456		सीए. मिश्रा सुमन	कानपुर
456.	400463		सीए. मनीष सहाय	नई दिल्ली

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
457.	400529	सीए. चौधरी अंजू	नोएडा
458.	400554	सीए. मेहंदीरत्ता श्रेय	सहारनपुर
459.	400586	सीए. मालपानी विकास	जयपुर
460.	400623	सीए. जैन अविनाश	जयपुर
461.	400627	सीए. अमित बजाज	गाजियबाद
462.	400630	सीए. लूथरा अमरदीप सिंह	नोएडा
463.	400651	सीए. बंशल निधि	जयपुर
464.	400660	सीए. मून्ना योगेश	जोधपुर
465.	400670	सीए. अफताब गुल अटारी	उदयपुर
466.	400684	सीए. गुप्ता आनन्द कुमार	कानपुर
467.	400726	सीए. मित्तल पंकज	कोटा
468.	400788	सीए. गहलोत दीपिका	जोधपुर
469.	400790	सीए. सोमानी सुशील कुमार	मुम्बई
470.	400812	सीए. मो. अकरम	जहाँगीरबाद
471.	400855	सीए. मेहता शिल्पा	इंदौर
472.	400858	सीए. शर्मा गौतम	रीवा
473.	400896	सीए. गुप्ता मनीष	बरेली
474.	400979	सीए. भाटिया संध्या कुमार	उदयपुर
475.	401000	सीए. नूर अली कजानी	कानपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
476.	401013	सीए. अग्रवाल उमेश कुमार	जयपुर
477.	401021	सीए. वसीम अब्बास	उदयपुर
478.	401025	सीए. सिंह समपत	जयपुर
479.	401033	सीए. सराफ अंकित	डलटोनगंज
480.	401098	सीए. राकेश कुमार जैन	इंदौर
481.	401123	सीए. महेश्वरी अमित	जयपुर
482.	401140	सीए. अरोड़ा रोहित	कानपुर
483.	401169	सीए. पियूष भित्तल	भरतपुर
484.	401175	सीए. तिवारी अभिषेक	जयपुर
485.	401176	सीए. वर्मा पियूष	मुम्बई
486.	401187	सीए. गोस्वामी देबोब्रतो	कोलकत्ता
487.	401238	सीए. साह अनुराग	गाजियाबाद
488.	401256	सीए. जिन्दल अनुतोष	उदयपुर
489.	401258	सीए. गोयल रोहित कुमार	गुडगाँव
490.	401281	सीए. बाजपेयी वैभव	कानपुर
491.	401310	सीए. आलोक होलानी	उज्जैन
492.	401311	सीए. मैसी अरोहन	मुजफ्फर नगर
493.	401318	सीए. जैन प्रफुल	बैंगलोर
494.	401337	सीए. सदन मुनीश	देहरादून
495.	401342	सीए. अग्रवाल मनीष कुमार	धनबाद
496.	401353	सीए. श्रीवास्तवा प्रबल	भोपाल

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
497.	401377	सीए. मिगलानी अंकुर गोपाल	छिन्दवासा
498.	401384	सीए. अगरवाल रूची	कोटा
499.	401455	सीए. पंडित सुशील	हैदराबाद
500.	401481	सीए. महेश्वरी अंसुल	गाजियाबाद
501.	401490	सीए. चौधरी शिव प्रकाश	भीलवाड़ा
502.	401491	सीए. शिल्पी दास	देहरादून
503.	401493	सीए. अग्रवाल उपेन्द्र कुमार	बोकारो
504.	401494	सीए. मिश्रा अशोक कुमार	मिर्जापुर
505.	401498	सीए. अगरवाल गंगा	राँची
506.	401515	सीए. नवीन कुमार जैन	गाजियाबाद
507.	401523	सीए. विजयवारगीया आशीष	ग्वालियर
508.	401529	सीए. तलेजा अमित	बैंगलोर
509.	401625	सीए. लेखवानी राज कुमार	भोपाल
510.	401684	सीए. जितेन्द्रा कुमार वर्मा	आगरा
511.	401798	सीए. मेहता अमित	किशनगढ़
512.	401801	सीए. गगनदीप सिंह	देहरादून
513.	401816	सीए. हरशद कुमार शाह	वाराणसी
514.	401958	सीए. मंत्री अभिषेक	अजमेर
515.	401984	सीए. महाजन अखिल	गाजियाबाद
516.	402001	सीए. सोनथालिया किरन	जयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
517.	402011	सीए. मुकेश कुमार चौधरी	अजमेर
518.	402014	सीए. शर्मा आशीष	अलवर
519.	402023	सीए. बरीयावल बसील	जोधपुर
520.	402034	सीए. बंशल अमित कुमार	जबलपुर
521.	402102	सीए. खंडेलवाल शिल्पी	अलवर
522.	402123	सीए. मेहता अनिमेष	बीकानेर
523.	402181	सीए. प्रजापति दिनेश कुमार	हरिद्वार
524.	402196	सीए. अत्री आलोक	जयपुर
525.	402204	सीए. अग्रवाल आलोक	दुर्ग
526.	402224	सीए. मित्तल महेश	कोटा
527.	402228	सीए. प्रवीन कुमार	पटना
528.	402256	सीए. जैन प्रवीन	जोधपुर
529.	402271	श्री गुप्ता परेश	जयपुर
530.	402296	सीए. जैन नीरजा	जयपुर
531.	402318	सीए. महेश्वरी विकास कुमार	कैकरी
532.	402338	सीए. श्रीवास्तव दिगविजय दर्शन	इंदोर
533.	402341	सीए. अगरवाल योगेश	गुडगाँव
534.	402366	सीए. अत्री इमतियाज अहमद	उदयपुर
535.	402396	सीए. मल्होत्रा मोनिका	जयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
536.	402416	सीए. भट्टी कृष्ण कुमार	बुलन्दशहर
537.	402426	सीए. पाण्डेय ब्रजेश	दिल्ली
538.	402429	सीए. श्रेया संजीव	कानपुर
539.	402459	सीए. अग्रवाल अभय	कानपुर
540.	402466	सीए. पटवारी मनीष	जयपुर
541.	402471	सीए. सिंघल मयूरी	भरतपुर
542.	402483	सीए. हिमान्यु रमन	पीलीभीत
543.	402518	सीए. गर्ग सौरभ कुमार	गुडगाँव
544.	402570	सीए. हिमान्यु मित्तल	मेरठ
545.	402572	सीए. गोयल दीपक	अलवर
546.	402596	सीए. ग्यावली मनोज कुमार	लखनऊ
547.	402598	सीए. कुलकरनी रिसीकेश	इंदौर
548.	402604	सीए. भोई सुनील कुमार	रायपुर
549.	402615	सीए. हीरावत गौरव	जयपुर
550.	402657	सीए. अग्रवाल ओम प्रकाश	जयपुर
551.	402665	सीए. कृष्ण चन्नी	जयपुर
552.	402672	सीए. वेराडिया भूपेन्द्र	बैंगलोर
553.	402723	सीए. कोठारी शिखा जयन्त	भोपाल
554.	402726	सीए. राठी अशोक कुमार	दिल्ली

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
555.	402766	सीए. मंत्री मनीष	अजमेर
556.	402795	सीए. जैन अमित	भीलवाड़ा
557.	402803	सीए. मोदी अजय	मधुपुर
558.	402825	सीए. सक्सेना सुनील कुमार	ढोलपुर
559.	402831	सीए. सिंह मुकेश कुमार	बोकारो स्टील सिटी
560.	402839	सीए. दधीच अशीष	नई दिल्ली
561.	402866	सीए. हबलानी सुशील	इंदौर
562.	402912	सीए. सेठीया विकास	मुम्बई
563.	402956	सीए. विजय मुकेश	जयपुर
564.	402988	सीए. टापरिया विनय कुमार	जयपुर
565.	402999	सीए. आलम नायर	राँची
566.	403024	सीए. कंचल अजय कुमार	टोंक
567.	403077	सीए. जैन अमित कुमार	गदरवारा
568.	403083	सीए. बड़जात्या सुरेन्द्र	इंदौर
569.	403100	सीए. मारु पुनीत	इंदौर
570.	403122	सीए. पलासिया कतबुद्दीन	उदयपुर
571.	403123	सीए. अग्रवाल हरीश शिवदास	मानावर
572.	403148	सीए. चन्द्रा चन्दन	जयपुर
573.	403156	सीए. पुरोहित संजय	फलोडी

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
574.	403160	सी.ए.	जैन शरद	इंदौर
575.	403178	सी.ए.	गौतम मनीष	जयपुर
576.	403182	सी.ए.	शाह मौसम	बाडनगर
577.	403195	सी.ए.	शर्मा ओम प्रकाश	उदयपुर
578.	403198	सी.ए.	जरखंडी राहुल आनन्द	वाराणासी
579.	403226	सी.ए.	टंडन मोहित कुमार	जयपुर
580.	403247	सी.ए.	फरजाना हुसैन	रतलाम
581.	403263	सी.ए.	पटीदार भीमराज	धर
582.	403281	सी.ए.	अस्थाना अंकुर	बीकानेर
583.	403330	सी.ए.	पलसानीया विकास	रायपुर
584.	403337	सी.ए.	जयरथ वरुण	नोएडा
585.	403340	सी.ए.	पुनिया विनोद	होशियारपुर
586.	403344	सी.ए.	जैन मीतू	गोरखपुर
587.	403357	सी.ए.	मुन्द्रा अनुराग कुमार	पाली मारवार
588.	403404	सी.ए.	सहगल सुमित	गाजियाबाद
589.	403408	सी.ए.	अगरवाल आशुतोष	ऋषिकेश
590.	403410	सी.ए.	गुप्ता शिल्पा	मेरठ
591.	403416	सी.ए.	बदलानी दिलीप कुमार	गोरखपुर
592.	403422	सी.ए.	गुप्ता गौरव	मेरठ
593.	403425	सी.ए.	दोशी रोहित	धर

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
594.	403427	सी.ए.	मंगलानी अनिल	कानपुर
595.	403435	सी.ए.	सिंधी सुधांशु	जोधपुर
596.	403444	सी.ए.	यादव दिशा	जयपुर
597.	403454	सी.ए.	जीरैनी हेमन्त	जयपुर
598.	403462	सी.ए.	महेशवरी रमेश	उदयपुर
599.	403468	सी.ए.	जैन अभिनेश	बैंगलोर
600.	403476	सी.ए.	भार्गवा मोही	जयपुर
601.	403505	सी.ए.	खुराना अतिरक्ष	जयपुर
602.	403553	सी.ए.	विजय शर्मा	रतलाम
603.	403622	सी.ए.	सक्सेना आशीष कुमार	अलीगढ़
604.	403628	सी.ए.	जैन प्रवीन	उदयपुर
605.	403639	सी.ए.	वर्मा संजीव कुमार	कानपुर
606.	403643	सी.ए.	पाण्डेय अद्या कुमार	कानपुर
607.	403670	सी.ए.	अग्रवाल अमित	कुमायूँ
608.	403672	सी.ए.	वहेटी राजीव	जोधपुर
609.	403676	सी.ए.	अरोड़ा आशीष	लखनऊ
610.	403690	सी.ए.	मनीष जैन	सहारनपुर
611.	403722	सी.ए.	पियुष कुमार	इलाहाबाद
612.	403732	सी.ए.	श्रीवास्तव रितेश	लखनऊ
613.	403748	सी.ए.	अग्रवाल शिखा	कानपुर
614.	403756	सी.ए.	समर अनिल	उदयपुर

क्र.सं.	स० सं०	नाम	स्थान
615.	403814	सीए. बानो शहनाज	जयपुर
616.	403816	सीए. अरोड़ा गौतम	इंदौर
617.	403833	सीए. अरोड़ा अनुज	आगरा
618.	403840	सीए. शर्मा मनीष कुमार	जयपुर
619.	403841	सीए. गोयल मुकेश	जयपुर
620.	403882	सीए. भंडारी अभिषेक	जोधपुर
621.	403884	सीए. गुप्ता सौरभ	अलवर
622.	403886	सीए. नवनीत कुमार राय	मऊ
623.	403888	सीए. चंडाक निर्मल	जोधपुर
624.	403935	सीए. शर्मा श्रुति	जयपुर
625.	403951	सीए. सक्सेना अर्चित	दिल्ली
626.	403989	सीए. अगरवाल रुचित	आगरा
627.	404005	सीए. महेश चंद	अलवर
628.	404060	सीए. धाकर महेन्द्रा सिंह	जयपुर
629.	404075	सीए. माथुर अपूर्व	पाली भरवार
630.	404103	सीए. गोयल मेघना	सिकन्दराबाद
631.	404142	सीए. जैन पायल	जोधपुर
632.	404145	सीए. बुधिया साकेत	कोरबा
633.	404149	सीए. जिंदल मुकुल कुमार	हापुड़
634.	404155	सीए. सिंह विनीत	गाजियाबाद
635.	404156	सीए. कुड़वारवाला इनिसिया	उदयपुर

क्र.सं.	स० सं०	नाम	स्थान
636.	404175	सीए. गाडिया सुलभा	रतलाम
637.	404177	सीए. नीमा अंकित	इंदौर
638.	404208	सीए. जैन अभिषेक	पटना
639.	404226	सीए. शारदा निर्मल कुमार	बीकानेर
640.	404230	सीए. गुप्ता रूचि	जयपुर
641.	404254	सीए. निशांत अग्रवाल	बाँसवारा
642.	404264	सीए. मनचन्दा निधि	नई दिल्ली
643.	404278	सीए. जाधव विजय कुमार	रायपुर
644.	404302	सीए. मनेरियाकर आदित्य गुडगाँव माधव	
645.	404317	सीए. खंडेवाल राहुल	नई दिल्ली
646.	404392	सीए. गुप्ता अभिषेक	जयपुर
647.	404397	सीए. बंशल अनिल	उदयपुर
648.	404436	सीए. गुप्ता मनोज	जयपुर
649.	404441	सीए. गुप्ता हेमन्त	नोएडा
650.	404584	सीए. अमित	जयपुर
651.	404597	सीए. हर्षित अगरवाल	जयपुर
652.	404605	सीए. श्रीमल आशीष	उदयपुर
653.	404614	सीए. गुलाटी सुमित	लखनऊ
654.	404627	सीए. गोयल नवीन	जयपुर
655.	404649	सीए. अगरवाल महिमा	अजमेर
656.	404665	सीए. राजीव कुमार तिवारी	दिल्ली

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
657.	404736	सीए. दीपक भाटिया	इंदौर
658.	404737	सीए. गुप्ता सोमित कुमार	रुड़की
659.	404750	सीए. अगरवाल अमित	गाजियाबाद
660.	404757	सीए. जैन प्रवीन	किशनगढ़
661.	404763	सीए. अजमेरा सचिन	जयपुर
662.	404783	सीए. अग्रवाल रिकू	भिलाई
663.	404809	सीए. अनेजा मोहित	गाजियाबाद
664.	404835	सीए. जैन अपेक्षा	आगरा
665.	404866	सीए. सारदा सौरभ	मुम्बई
666.	404890	सीए. निधी मनीष राठी	देवास
667.	404917	सीए. शाह हिमांशु	मुम्बई
668.	404929	सीए. सुदान जसविन्दर सिंह	देहरादून
669.	404946	सीए. गुप्ता अंशुल	अलवर
670.	404959	सीए. आर्या ऋषि	गाजियाबाद
671.	404985	सीए. कोठारी निखिल	जयपुर
672.	404999	सीए. खुशबू सूर्या	भीलवाड़ा
673.	405013	सीए. जैन सौरभ	कोटा
674.	405027	सीए. बापना विरेन्द्र सिंह	मुम्बई
675.	405079	सीए. अग्रवाल रितेश कुमार	गिरिडीह
676.	405080	सीए. बाबेल जितेश	नई दिल्ली
677.	405087	सीए. केजरीवाल निधि	कोटा

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
678.	405093	सीए. जैन साक्षी	नई दिल्ली
679.	405115	सीए. रस्तोगी रजत	राँची
680.	405230	सीए. हैदर अरकयूम	रायपुर
681.	405327	सीए. मयराज हुसैन मुहिब	उदयपुर
682.	405345	सीए. आशीष कुमार सुराना	रोनी
683.	405350	सीए. संजय सिंह बधेल	कानपुर
684.	405351	सीए. मीनू भदोरिया	कानपुर
685.	405364	सीए. गोपाल नवानधर	जोधपुर
686.	405366	सीए. पवन अग्रवाल	छतरपुर
687.	405367	सीए. प्रियंका जैन	हरिद्वार
688.	405378	सीए. पंकज कुमार सिंह	इलाहाबाद
689.	405391	सीए. रोशन मून्द्रा	जोधपुर
690.	405405	सीए. जतिन विजयवारगिया	मुम्बई
691.	405408	सीए. अभिनन्दन लोधा	जयपुर
692.	405415	सीए. पल्लवी बंका	जयपुर
693.	405419	सीए. विशाल मनचंदा	छतरपुर
694.	405423	सीए. गौरव लुनावत	रतलाम
695.	405436	सीए. रुचि बोहरा	सोजात सिटी
696.	405438	सीए. मनीष गर्ग	नई दिल्ली
697.	405447	सीए. राविन कक्कड़	इलाहाबाद

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
698.	405452		सीए. सुचिता पी. मित्तल	मुम्बई
699.	405459		सीए. पवन कुमार बंग	जयपुर
700.	405505		सीए. सुधांशू गोयल	अजमेर
701.	405506		सीए. विभा चौधरी	भीलवाड़ा
702.	405572		सीए. अनूप वर्मा	इंदौर
703.	405595		सीए. मनीष कोठारी	जयपुर
704.	405662		सीए. रजित महेन्द्रा तिललानी	रतलाम
705.	405663		सीए. लक्ष्मी कान्त उपाध्याय	उदयपुर
706.	405672		सीए. ललित कुमार गर्ग	जयपुर
707.	405698		सीए. सचिच्चानंद पचोरी	भोपाल
708.	405713		सीए. सुरेन्द्र कुमार	बोकारो
709.	405734		सीए. अक्षत कपूर	नई दिल्ली
710.	405778		सीए. संजय लालवानी	भोपाल
711.	405781		सीए. वरुण सिंधी	पूने
712.	405786		सीए. फहीम अहमद	कानपुर
713.	405791		सीए. सौरभ गुप्ता	कानपुर
714.	405818		सीए. पियूष अग्रवाल	नीमुच
715.	405820		सीए. आशीष पी. भंडारी	जोधपुर
716.	405830		सीए. आशीष कुमार खंडेलवाल	मुम्बई

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
717.	405850		सीए. विवेक दरगार	मुम्बई
718.	405885		सीए. यश मेहता	जयपुर
719.	405905		सीए. परमानन्द जयसवाल	गोरखपुर
720.	405941		सीए. दिवप्रीत कौर	सहारनपुर
721.	405957		सीए. विकास जैन	जयपुर
722.	405962		सीए. नितेश कलान्तरी	चित्तौड़गढ़
723.	406003		सीए. प्रवीण उपाध्याय	थाणे
724.	406028		सीए. राकेश कुमार सिंह	वाराणसी
725.	406040		सीए. कपिल पचौरी	जयपुर
726.	406041		सीए. मोहित खंडेलवाल	मुम्बई
727.	406046		सीए. आलोक गुप्ता	इंदौर
728.	406052		सीए. प्रगति जैन	जयपुर
729.	406054		सीए. शिल्पा जयथालिया	इंदौर
730.	406071		सीए. प्रीती मिश्रा	जयपुर
731.	406093		सीए. शिप्रा त्रिवेदी	मुम्बई
732.	406100		सीए. हेमन्त कुमार जैन	शिवपुरी
733.	406115		सीए. अभिनव सिंघल	जयपुर
734.	406143		सीए. ललित जैन	मुम्बई
735.	406154		सीए. जिनेश अगरवाल	दिल्ली
736.	406157		सीए. निकिता पोददार	इंदौर
737.	406193		सीए. सुनीता अगरवाल	भुवनेश्वर
738.	406228		सीए. तरुण गर्ग	मेरठ

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
739.	406242	सीए. निखिल केजरीवाल	कोटा
740.	406296	सीए. गरिमा जैन	कोटा
741.	406309	सीए. अनुपम सोमानी	जयपुर
742.	406338	सीए. नीरज टंडन	लखनऊ
743.	406345	सीए. अदित्य केडिया	हनुमानगढ़ टाउन
744.	406373	सीए. राज कुमार गुप्ता	मऊ
745.	406402	सीए. शरद लालवानी	जोधपुर
746.	406412	सीए. रवि रंजन	पटना
747.	406422	सीए. अनुश्री कोठारी	जयपुर
748.	406424	सीए. पराग अगरवाल	मेरठ
749.	406427	सीए. शिखा सराफ	मुम्बई
750.	406428	सीए. गीतिका राजदेव	उदयपुर
751.	406446	सीए. गोकुल इन्दानी	इंदौर
752.	406472	सीए. मनीष गुगलिया	रतलाम
753.	406475	सीए. ललित कुमार जैन	देई
754.	406527	सीए. मनीष अरोड़ा	पाली मरवाड़
755.	406598	सीए. राहुल जैन	जयपुर
756.	406609	आशुतोष बगाड़िया	जयपुर
757.	406611	सीए. साकेत सोमानी	हैदराबाद
758.	406644	सीए. कुमार वरुण साहू	वाराणसी
759.	406670	सीए. योगेश कुमार अग्रवाल	जयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
760.	406742	सीए. शिप्रा लोधा	मुम्बई
761.	406776	सीए. विजय अजमेरा	जयपुर
762.	406833	सीए. विमल हिरवानी	कोटा
763.	406860	सीए. गगन चावला	लखनऊ
764.	406897	सीए. रामजी ठाकुर	झांसी
765.	406900	सीए. शीलू जैन	जयपुर
766.	406917	सीए. कौशतुभ कुमार मित्तल	जयपुर
767.	406920	सीए. मनीष मोटवानी	जयपुर
768.	406933	सीए. राहुल मारवाल	मोदीनगर
769.	406949	सीए. नगेन्द्र बिजारनिया	जयपुर
770.	406971	सीए. दिलीप कुमार	देवगढ़
771.	407003	सीए. चेतन चंद्रमोहन वैद्य	जबलपुर
772.	407010	सीए. बकुल गोयल	आगरा
773.	407051	सीए. निशान्त अगरवाल	मुरादाबाद
774.	407056	सीए. आदिति गुलाटी	नई दिल्ली
775.	407064	सीए. कमल बजाज	मेरठ
776.	407077	सीए. अर्जुन सिंह अन्जाना	मंदसौर
777.	407088	सीए. दीपक मुथा	जोधपुर
778.	407115	सीए. अनिल रघुवंशी	खरगोन
779.	407124	सीए. अखिल भंडारी	जोधपुर
780.	407139	सीए. राजीव कुमार दुबे	मुम्बई

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
781.	407152	सीए. धीरेन्द्र त्यागी	गाजियाबाद
782.	407173	सीए. धीरज विजय	जयपुर
783.	407178	सीए. अखिल कुमार गुप्ता	गुड़गाँव
784.	407190	सीए. हर्ष कुमार सचदेवा	इलाहाबाद
785.	407197	सीए. दीपक मेहता	उदयपुर
786.	407200	सीए. पूनम अग्रवाल	आगरा
787.	407215	सीए. स्वेता जयसवाल	राँची
788.	407271	सीए. सोनम बहेटी	इंदौर
789.	407272	सीए. माँन्डवी सनवार	मुम्बई
790.	407305	सीए. अभिलाषा जैन	भीलवाड़ा
791.	407312	सीए. वैभव भगत	कानपुर
792.	407331	सीए. केदार प्रसाद सिंघल	इंदौर
793.	407346	सीए. प्रीति पटवा	इंदौर
794.	407361	सीए. मृगंक सिन्हा	गाजियाबाद
795.	407401	सीए. विनय नरसिम्हन	इंदौर
796.	407404	सीए. प्रवीन जयसवाल	रायपुर
797.	407409	सीए. विश्रॉत शुक्ला	लखनऊ
798.	407411	सीए. अमित सोनी	इंदौर
799.	407419	सीए. प्रशांत बिसेन	रायपुर
800.	407427	सीए. रूचि जैन	झाँसी
801.	407441	सीए. भुपेन्द्र कुमार गुप्ता	जयपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
802.	407488	सीए. अजय गोयल	मुम्बई
803.	407527	सीए. पूजा चौहान	भोपाल
804.	407537	सीए. धर्मकीर्ति जैन	भीलवाड़ा
805.	407558	सीए. अंकित टोंगिया	जयपुर
806.	407578	सीए. मानसी अगरवाल	गाजियाबाद
807.	407699	सीए. नारायण संतोष अम्यंकर	बिलासपुर
808.	407731	सीए. आशुतोष बजाज	देहरादून
809.	407757	सीए. रूचि बापना	उदयपुर
810.	407760	सीए. अभिनव मेहरोत्रा	इलाहाबाद
811.	407771	सीए. विनोद लुंधानी	कानपुर
812.	407798	सीए. विपिन बोहरा	सोजात सिटी
813.	407821	सीए. ममता जैन	बालाघाट
814.	407856	सीए. गुलशन जैन	जयपुर
815.	407867	सीए. सुशान्त कुमार	पटना
816.	407878	सीए. पुनीत कुमार बजोरीया	चुरू
817.	407887	निमेश कुमार सारस्वत	काशीपुर
818.	407891	सीए. अजीत छाजेर	जयपुर
819.	407903	सीए. नरेन्द्र सिंह	जयपुर
820.	407928	सीए. दीपक कुमार नरनोलिया	जमशेदपुर
821.	407937	सीए. संजय अग्रवाल	मथुरा
822.	407944	सीए. नूतन भारती	बैंगलौर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
823.	407947	सीए. सुमित बेहल	इंदौर
824.	407953	सीए. पंकज शर्मा	धनबाद
825.	407957	सीए. संजीव व्यास	जोधपुर
826.	407986	सीए. नवनीत कुमार अस्वा	भीलवाड़ा
827.	408012	सीए. हिमांशु विजय	कोटा
828.	408028	सीए. कैलाश चंद्रा गोयल	बैंगलोर
829.	408064	सीए. अनूप कुमार मिश्रा	सीतापुर
830.	408084	सीए. ललित कुमार कालरा	बदायूँ
831.	408097	सीए. सोमा चटर्जी	राँची
832.	408141	सीए. धीरज रनसारिया	जयपुर
833.	408152	सीए. रिचा कपूर	मुम्बई
834.	408168	सीए. नवीन लोहिया	जोधपुर
835.	408183	सीए. करमवीर सिंह कौरव	भोपाल
836.	408199	सीए. विशाल छिब्बर	देहरादून
837.	408213	सीए. रुचिता सावा	जमेशदपुर
838.	408224	सीए. मनीषा गुप्ता	राँची
839.	408235	सीए. मनीष अग्रवाल	जयपुर
840.	408244	सीए. चन्द्रेश सयानी	जबलपुर
841.	408250	प्रबुद्ध नारायण त्रिपाठी	अम्बिकापुर
842.	408258	सीए. कमलेश मुरोठिया	चित्तौरगढ़
843.	408281	सीए. कुलदीप कुमार कटारिया	ग्वालियर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
844.	408285	सीए. कृष्ण कुमार	जयपुर
845.	408288	सीए. सिद्धिका सैफी	उदयपुर
846.	408294	सीए. राकेश कुमार बंशल	भादरा
847.	408304	सीए. प्रीतपाल सिंह विलखू	जमशेदपुर
848.	408327	सीए. भगवान अग्रवाल	जोधपुर
849.	408370	सीए. अंजलि मेहता	अजमेर
850.	408373	सीए. नितेश जैन	जयपुर
851.	408374	सीए. पूजा जैन	जयपुर
852.	408398	सीए. अमरेन्द्र सिंघवी	जोधपुर
853.	408400	सीए. ऋषि तिवारी	लखनऊ
854.	408401	सीए. अंजलि श्रीवास्तव	कानपुर
855.	408422	सीए. प्रतीमा शारदा	बारमेर
856.	408423	सीए. महेश कुमार गोयल	जयपुर
857.	408448	सीए. योगेश कुमार चतुर्वेदी	मथुरा
858.	408465	सीए. विकास पटेल	जोधपुर
859.	408546	सीए. आशीष द्विवेदी	पीतम्पुर
860.	408559	सीए. विकास नहटा	व्यावर
861.	408564	सीए. संजय कुमार जैन	इंदौर
862.	408581	सीए. अमित साही माथुर	देहरादून
863.	408629	सीए. वर्षा मुन्दा	भीलवाड़ा
864.	408647	सीए. अकील शर्माफ	उन्नाव

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
865.	408662	सीए. तरुण कुमार यादव	मधुबानी
866.	408663	सीए. सन्योगीता सिंह	इंदौर
867.	408682	सीए. सुरती चितलागीया	मुम्बई
868.	408683	सीए. सुनील शर्मा	जयपुर
869.	408690	सीए. गौरव गुप्ता	गुडगाँव
870.	408699	सीए. रिकी राजदेव	भोपाल
871.	408747	सीए. राजीव शर्मा	पटना
872.	408774	सीए. मनोज कुनवार राठौर	जयपुर
873.	408776	सुनैना शेखावत	जयपुर
874.	408869	सीए. अमित सिंह	पूने
875.	409005	सीए. पंकज गर्ग	रुड़की
876.	409053	सीए. अजय कुमार	देवगढ़
877.	500030	सीए. रविनीत कौर	दिल्ली
878.	500092	सीए. मदन अर्जुन	नोएडा
879.	500587	सीए. संजीत कुमार	दरभंगा
880.	500852	सीए. कोहली पंकज	बीकानेर
881.	501019	सीए. अग्रवाल अपूर्व	नोएडा
882.	501022	सीए. जैन राहुल	जबलपुर
883.	501150	सीए. सौरभ बंशल	नई दिल्ली
884.	501175	सीए. विजय कुमार अग्रवाल	रायपुर
885.	501207	सीए. राजीव कुमार	हरिद्वार

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
886.	501299	अजय कुमार गप्ता	अलमोड़ा
887.	501318	शिखर उत्कर्ष	हरिद्वार
888.	501459	सीए. शर्मा अविन्द कुमार	नोएडा
889.	501632	सीए. निधि अगरवाल	गाजियाबाद
890.	501913	सीए. सिंह हरि	जयपुर
891.	502261	सीए. कुलदीप चौहान	गाजियाबाद
892.	502302	सीए. खुराना सौरभ	गाजियाबाद
893.	502496	सीए. रंगेनकर समीर	नोएडा
894.	502631	सीए. लाल स्मिता	नोएडा
895.	502632	सीए. विनय भूषन	गाजियाबाद
896.	502802	सीए. सर्वेश कुमार	गाजियाबाद
897.	502804	सीए. अहमद इमरान	मोतीहारी
898.	502912	सीए. अमित हरीत	भिवाड़ी
899.	502923	सीए. शर्मा दिनेश कुमार	नोएडा
900.	502927	सीए. अग्रवाल मयंक कुमार	गाजियाबाद
901.	502998	सीए. पंसारी निशांत	दरभंगा
902.	503254	सीए. गुप्ता नितिन	इटवा
903.	503413	सीए. मित्तल मेघना	कोटा
904.	503589	सीए. जिन्दल अभिषेक	ब्यावर
905.	503652	सीए. नरेन्द्र पाल सिंह	बोकारो स्टील सिटी
906.	503877	सीए. बलवंत कुमार	गाजियाबाद

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान	क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
907.	504285	सीए. कश्यप मनीष	जयपुर	925.	507671	सीए. तरुण कुमार	सुगौली
908.	504761	सीए. अश्वनी कुमार	हमीरपुर	926.	507946	सीए. संजय कुमार राय	गाजीपुर
909.	504845	सीए. पाण्डे संजय कुमार	लखनऊ	927.	508012	सीए. धनश्याम झा	गुड़गाँव
910.	504859	सीए. महाजन प्रवीन	अलवर	928.	508572	सीए. मनोज कुमार	हाथरस
911.	505625	सीए. गयावली विपुल	देहरादून	929.	508843	सीए. अमोल अगरवाल	बैंगलोर
912.	505654	सीए. थापा रितु	देहरादून	930.	509288	सीए. राकेश भंडारी	नोएडा
913.	505675	सीए. अगरवाल रवि	नोएडा	931.	509337	सीए. शरद सक्सेना	गाजियाबाद
914.	505695	सीए. जैन मीनाक्षी	गाजियाबाद	932.	509466	सीए. तुहीन चतुर्वेदी	लखनऊ
915.	505754	सीए. गुप्ता रवि भूषन प्रसाद	पुरनिया	933.	509798	सीए. रितु मदन	नोएडा
916.	505804	सीए. सिंह यशस्वी	सतना	934.	509823	सीए. नितेश्वर सिंह	गाजियाबाद
917.	505913	सीए. मिश्रा विभूति भूषन	नोएडा	935.	510029	सीए. अंकित महेश्वरी	हाथरस
918.	506173	सीए. गौरव पॉल	गाजियाबाद	936.	510083	सीए. पूनम	गाजियाबाद
919.	506324	सीए. निमिश अग्रवाल	दिल्ली	937.	510246	सीए. हेमन्त कुमार गुप्ता	नई दिल्ली
920.	506658	सीए. विशाल जैन	दिल्ली	938.	510260	सीए. चंद भूषन	रामगढ़
921.	506826	सीए. विशाल अरोड़ा	लखनऊ	939.	510305	सीए. निर्भय शंकर गुप्ता	फिरोजाबाद
922.	507020	सीए. सलभ सिंघल	गाजियाबाद	940.	510347	सीए. अभिषेक माथुर	कल्यान
923.	507137	सीए. शिवा चन्द्रा श्रेष्ठा पुरुषोत्तम	उदयपुर	941.	510565	सीए. सुधा गुप्ता	मुम्बई
924.	507355	सीए. पुरुषोत्तम कुमार सिंह	अलवर	942.	510848	सीए. अनीता पाहुजा	बरेली
				943.	511299	सीए. विनोद कुमार भूयान	अस्का

नं० 3सी.सी.ए. (4)(2)/2008-2009— चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों द्वारा प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों के नाम मृत्यु हो जाने के कारण उनके आगे दी गयी दिनांक से हटा दिया है।

क्र. सं. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
1.	000980 सी.ए. रंगनैकर गंगाधर विश्वपंत	इंदौर	12.01.2008
2.	001030 सी.ए. सत्यनारायण के.एम.	लखनऊ	04.04.2008
3.	001637 सी.ए. चन्द्र प्रकाश हीरालाल	इंदौर	24.09.2008
4.	001669 सी.ए. मिश्रा श्री कृष्णा	वाराणसी	04.03.2009
5.	003069 सी.ए. पुंजवत गणेशलाल सज्जनलाल	उदयपुर	08.02.2009
6.	003476 सी.ए. लक्ष्मी नारायण प्रसाद	पटना	10.12.2008
7.	003565 दुबे विजय प्रकाश	कन्नौज	20.10.2006
8.	005355 सी.ए. उज्जल कुमार गुप्ता	पटना	22.02.2009
9.	005368 सी.ए. कंजिका विल जोसफ जॉन	नोएडा	24.01.2008
10.	008799 सी.ए. जैन चन्द्र प्रकाश	गाजियाबाद	02.12.2008
11.	008987 सी.ए. गुप्ता ग्यान चन्द	जयपुर	13.03.2008
12.	009261 सी.ए. चुग मन मोहन सिंह	सहारनपुर	02.04.2008

क्र. सं. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
13.	012008 सी.ए. गुलाटी योगेश	कानपुर	01.02.2009
14.	013538 सी.ए. गुप्ता श्री कृष्णा	भोपाल	30.10.2008
15.	014461 सी.ए. हरधन माजी	धनबाद	05.03.2008
16.	014515 सी.ए. डागा मोंगी लाल	सतना	08.01.2009
17.	016415 सी.ए. जैन सुभाष चंद	शिवपुरी	13.12.2008
18.	070314 सी.ए. जैन पवन कुमार	अलवर	29.07.2008
19.	070387 सी.ए. अगरवाल हरी शंकर	आगरा	27.04.2008
20.	071906 सी.ए. चन्दर मोहन	पिलखुआ	10.01.2009
21.	072085 सी.ए. कार अरुण कुमार	पटना	18.07.2008
22.	073843 सी.ए. मुन्द्रा ब्रिज मोहन	रायपुर	23.07.2008
23.	074353 सी.ए. अगरवाल महेन्द्रा कुमार	जयपुर	15.10.2008
24.	075935 सी.ए. गर्ग महेश	जोधपुर	24.03.2009
25.	076202 सी.ए. कश्यप संजीव	जोधपुर	16.08.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
26.	076731 सी.ए. चौहान अनिल कुमार	इंदौर	10.12.2008
27.	402375 सी.ए. अशिष कुमार	भोपाल	15.02.2009

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
28.	402834 सी.ए. कपूर नितिन	लखनऊ	17.04.2008

(टी कार्तिकेयन)
सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2009

नं० 3सी.सी.ए. (5)(1)/2008-2009 :- चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की अधिसूचना नम्बर 3सी.सी.ए.(4)(1)/2004-2005 दिनांक 27.11.2004, 3सी.सी.ए.(4)(1)/2005-2006 दिनांक 7.11.2005, 3सी.सी.ए.(4)(1)/2006-2007 दिनांक 16.10.2006, 3सी.सी.ए.(4)(1)/2007-2008 दिनांक 30-10.07, 3सी.सी.ए.(4)(1)/2008-2009 दिनांक 15-04-2009, के संदर्भ में चार्टर्ड लेखाकार विनियम सन् 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
1.	002567 सी.ए. साह गोविन्द प्रसाद, एफसीए	पटना	01.10.2007
2.	008227 सी.ए. दमाजी कृष्णा रतन, एसीए	इन्दौर	01.10.2007
3.	009499 सी.ए. मेहरोत्रा सीताराम, एसीए.	गुडगांव	01.10.2008
4.	009783 सी.ए. श्रीकान्त दवे, एसीए	कानपुर	01.10.2006
5.	010750 सी.ए. सुरेखा विमल कुमार, एफसीए.	मिर्जापुर	01.10.1999
6.	010804 सी.ए. हाजरा तिमिर बरन, एफसीए.	कोलकाता	01.10.2008
7.	012147 सी.ए. श्रीवास्तव केशव कृष्णा, एफसीए.	लखनऊ	01.10.2008
8.	012380 सी.ए. चौधरी सन्तोष कुमार, एसीए	बी.एस.सिटी	01.10.2008
9.	014016 सी.ए. तुषारेन्दु गुप्ता, एसीए	जमशेदपुर	01.08.1982

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
10.	015409 सी.ए. बंसल विजय कुमार, एफसीए.	ब्यावर	01.10.2008
11.	016326 सी.ए. सिंघवी दौलत चंद, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008
12.	017554 सी.ए. सन्तोष कुमार वैद्य, एफसीए	नोएडा	01.10.2008
13.	019828 सी.ए. झुनझुनवाला प्रमोद कुमार, एफसीए.	कानपुर	01.10.2008
14.	030443 सी.ए. शाह विनय कुमार, एसीए	इन्दौर	01.10.1996
15.	031382 सी.ए. गुप्ता हरीश कुमार, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008
16.	031819 सी.ए. गोलचा कपूर चांद चंपालाल, एफसीए.	जोधपुर	01.10.2008
17.	031997 सी.ए. समपत राज गहलोत, एफसीए.	जोधपुर	01.10.2008
18.	034245 सी.ए. जैन नीरज ज्ञान चांद, एसीए	इन्दौर	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
19.	038027	सीए. सुधीर कुमार जैन, एसीए	मुम्बई	01.10.1993	33.	052223	सीए. जयसवाल रमेश चन्द, एफसीए	वाराणसी	01.10.2008
20.	039365	सीए. कुम्हट पंकज, एसीए	जोधपुर	01.10.2008	34.	052518	सीए. देवाशीष राय, एसीए	पानीपत	09.12.1991
21.	042813	सीए. शाह राजू जयन्तीलाल, एफसीए	भोपाल	01.10.2008	35.	053822	सीए. लूथरा सुदीप, एसीए	लखनऊ	01.10.2008
22.	042997	सीए. संचेती शैलेन्द्र, एसीए	जोधपुर	01.10.2004	36.	054166	सीए. अमित सेन, एसीए	भिलाई	01.10.2007
23.	043050	सीए. जैन राजेश, एफसीए	भिलवासा	01.10.2008	37.	055081	सीए. सेथिया राजेन्द्र, एफसीए	बीकानेर	01.10.2008
24.	043117	सीए. सोमानी संजय कुमार, एसीए	रांची	01.10.2008	38.	056027	सीए. डावरी रवि शंकर, एफसीए	देवघर	01.10.2008
25.	043435	सीए. सुराना सुरेश, एसीए	जोधपुर	01.10.2008	39.	056585	सीए. अखरमका प्रमोद कुमार, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
26.	044621	सीए. भन्साली प्रभात, एसीए	जोधपुर	08.12.1997	40.	056651	सीए. अग्रवाल गोपाल, एफसीए	थाने	01.10.2004
27.	048579	सीए. लाड वसुन्धरा एच., एफसीए	इन्दौर	01.10.2008	41.	056816	सीए. अगरवाल राजकुमार, एफसीए	रायपुर	01.10.2008
28.	049090	सीए. महेश्वरी रजनीश, एसीए	उदयपुर	01.10.2008	42.	057683	सीए. शर्मा नवीन कुमार, एसीए	गोन्डा	01.10.2008
29.	050074	सीए. गुप्ता आमोद, एफसीए	मेरठ	01.10.2008	43.	058585	सीए. लखोटिया रोहित, एसीए	फोर्ब्सगंज	01.10.2008
30.	050420	सीए. सराफ उमेश कुमार, एसीए	नोएडा	01.10.2007	44.	058985	सीए. धन्द अनूप, एसीए	इन्दौर	01.10.2005
31.	051419	सीए. सोमनाथ गंगोपाध्याय, एफसीए	अंगुल	01.10.2007	45.	059812	सीए. प्रकाश बॉबी, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
32.	051891	सीए. सिंह प्रमोद कुमार, एफसीए	पटना	01.10.2008	46.	059952	सीए. अग्रवाल अमित, एसीए	मुजफ्फरपुर	01.10.2006

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
47. 060379	सीए. श्रीवास्तव विवेक, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
48. 060525	सीए. अमित कुमार सारावगी, एफसीए	खगरिया	01.10.2008
49. 061268	सीए. मटालिया मनीष, एसीए	नोएडा	01.10.2007
50. 061278	सीए. मुकुन्द झुनझुनवाला, एफसीए	रौंछी	01.10.2008
51. 061312	सीए. तुलस्यान विकाश कुमार, एसीए	धनबाद	01.10.2008
52. 061477	सीए. त्रिपाठी बीभू पदाराविन्दा, एसीए	कटक	01.10.2008
53. 061810	सीए. ठाकुर कुमार नाथ, एसीए	गोरखपुर	01.10.2008
54. 062316	सीए. राकेश कुमार चौबे, एसीए	भागलपुर	01.10.2006
55. 062803	सीए. प्रवल मनीषा, एसीए	बरेली	01.10.2008
56. 062960	सीए. केडिया राकेश, एसीए	सिकन्दराबाद	01.10.2007
57. 063056	सीए. डालमिया अन्शू कुमार, एसीए	पटना	01.10.2008
58. 063199	सीए. शर्मा महावीर, एसीए	जोधपुर	01.10.2008
59. 063670	सीए. अगरवाल विनीत, एसीए	गुड़गांव	01.10.2005
60. 063724	सीए. मिश्रा सुदीप, एसीए	कटक	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
61. 064642	सीए. मृनाल सोमानी, एसीए	बोकारो स्टील सिटी	01.10.2007
62. 065059	सीए. भास्कर गुप्ता, एसीए	धनबाद	01.10.2008
63. 065139	सीए. अभिषेक कुमार, एसीए	कोलकाता	01.10.2007
64. 070048	सीए. रावत सुरेश के, एसीए	सिंगरौली	01.10.2006
65. 070097	सीए. दारजी सुरेश चंद, एसीए	शाहडोल	01.10.2008
66. 070213	सीए. खन्ना पंकज, एफसीए	कानपुर	01.10.2008
67. 070452	सीए. मदनलाल छाजेर, एसीए	मुम्बई	01.10.1995
68. 070581	सीए. गुप्ता रविप्रकाश, एफसीए	इलाहाबाद	01.10.2008
69. 070836	सीए. सुनील कुमार, एफसीए	नोएडा	01.10.2008
70. 070871	सीए. मुखोपाध्याय सामिध, एसीए	पूने	01.10.2007
71. 070940	सीए. भंसाली अरविन्द, एफसीए	जोधपुर	01.10.2004
72. 071080	सीए. अगरवाल शैलेन्द्र स्वरूप, एफसीए	लखनऊ	18.12.1997
73. 071103	सीए. सत्यवीर सिंह दागर, एफसीए	जयपुर	22.12.2003
74. 071147	सीए. रस्तोगी अतुल, एफसीए	कानपुर	01.10.2008
75. 071250	सीए. सेठ संजय, एफसीए	कानपुर	01.10.2004

क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
76. 071292	सीए. मेहरा युवराज कुमार, एफसीए	नवी मुम्बई	01.10.2007	89. 072218	सीए. बम्ब प्रकाश चन्द, एसीए	मुम्बई	01.10.1998
77. 071343	सीए. गर्ग शैलेन्द्र नाथ, एफसीए	हापुर	01.10.2008	90. 072271	सीए. प्रमोद कुमार महेश्वरी, एसीए	अलीगढ़	01.10.2008
78. 071346	सीए. राम राज सोनी, एफसीए	कोलकाता	01.10.2008	91. 072281	सीए. सिंघवी प्रकाश कुमार, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008
79. 071377	सीए. शाह गोपालदास, एसीए	जोधपुर	01.10.2008	92. 072393	सीए. गोयल सुरेन्द्र कुमार, एफसीए	जयपुर	22.12.2003
80. 071393	सीए. सिन्हा सुधीर कुमार, एफसीए	पटना	01.10.2005	93. 072413	सीए. अशोक सोनी, एसीए	नई दिल्ली	01.10.1989
81. 071486	सीए. अश्वनी कुमार, एफसीए	दिल्ली	01.10.2005	94. 072520	सीए. आहूजा धर्मेन्द्र कुमार, एफसीए	मेरठ	01.10.2008
82. 071756	सीए. जैन भूपेन्द्र कुमार, एफसीए	भिलवाड़ा	01.10.2008	95. 072556	सीए. विद्यार्थी राजन, एफसीए	बरेली	01.10.2008
83. 071776	सीए. लोहिया आनन्द प्रकाश, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008	96. 072597	सीए. बन्धिया सुशील, एफसीए	इन्दौर	01.10.2008
84. 071895	सीए. सक्सेना अनिल कुमार, एफसीए	कानपुर	01.10.2008	97. 072791	सीए. पुष्पेन्द्र, एफसीए	इलाहाबाद	01.10.2008
85. 071941	सीए. शर्मा गोपाल लाल, एफसीए	जयपुर	01.10.2008	98. 072838	सीए. सोमानी विजय कुमार, एफसीए	पाली मारवार	01.10.2008
86. 071977	सीए. अग्रवाल आनन्द कुमार, एफसीए	सिकन्दराबाद	01.10.2007	99. 072905	सीए. पन्डवाल राजेन्द्र, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
87. 072019	सीए. घोष अमिताभ, एफसीए	भोपाल	01.10.2005	100. 072991	सीए. मनमोहन बंसल, एफसीए	जोधपुर	22.12.2003
88. 072082	सीए. राम शुक्ल, एसीए	शामली	01.10.2002	101. 072993	सीए. हरमेश कुमार बवेजा, एफसीए	जोधपुर	01.10.2006

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
102. 073677	सीए. जैन शान्ति चन्द, एसीए	जोधपुर	01.10.2008
103. 073721	सीए. प्रेम कुमार अग्रवाल, एसीए	कानपुर	01.10.2007
104. 073725	सीए. दवे अतुल, एफसीए	लखनऊ	01.10.2008
105. 073834	सीए. राजेश चपलोट, एफसीए	उदयपुर	01.10.2006
106. 073844	सीए. भसीन नरेन्द्र कुमार, एफसीए	देहरादून	01.10.2008
107. 073848	सीए. चौधरी प्रनीत कुमार, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
108. 073860	सीए. डफरिया नितिन कुमार, एफसीए	इन्दौर	01.10.2008
109. 073873	सीए. जैन सुरेश कुमार, एसीए	नवलगढ़	22.12.2003
110. 074088	सीए. खुरादिया रतनलाल, एफसीए	उदयपुर	01.10.2002
111. 074130	सीए. राकेश कुमार सिंह, एसीए	कानपुर	01.10.2008
112. 074139	सीए. श्रीवास्तव शतमन्यु, एसीए	कानपुर	01.10.2001
113. 074186	सीए. विश्वनाथ वी, एफसीए	पूने	01.10.2008
114. 074235	सीए. कर्नावत मनोज, एफसीए	देहरादून	01.10.2008
115. 074241	सीए. धूत जुगल किशोर, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
116. 074251	सीए. चौहान धनराज, एसीए	जोधपुर	08.12.2000
117. 074415	सीए. बाबूलाल भतर, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008
118. 074453	सीए. मित्तल दिनेश कुमार, एफसीए	भोपाल	01.10.2008
119. 074532	सीए. पन्डा हेमन्त कुमार, एसीए	सोनभद्र	01.10.2008
120. 074536	सीए. सिंघवी दिनेश, एफसीए	जयपुर	01.10.2006
121. 074553	सीए. जैन सुरेश कुमार, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
122. 074688	सीए. हेमन्त खाबिया, एफसीए	भोपाल	01.10.2007
123. 074700	सीए. सिंह संजीव कुमार, एसीए	बोकारो स्टील सिटी	01.10.2008
124. 074760	सीए. शुक्ला सुनील एम, एसीए	इन्दौर	01.10.2005
125. 074853	सीए. महाजन राकेश, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
126. 074875	सीए. पुखराज सध वैष्णव, एसीए	नोएडा	01.10.1992
127. 074884	सीए. खण्डेलवाल संजीव, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
128. 074889	सीए. लोधा सुनील कुमार, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
129. 074916	सीए. बोथरा संजय कुमार, एफसीए	रायपुर	01.10.2008

क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
130. 074947	सीए. यादव संजय, एसीए	दिल्ली	01.10.1999	143. 075619	सीए. शाह राजकुमार, एफसीए	इन्दौर	01.10.2008
131. 074950	सीए. राघव मिश्रा, एसीए	मुम्बई	01.10.1993	144. 075640	सीए. सोनी पवन कुमार, एफसीए	कोटा	01.10.2006
132. 074959	सीए. चौधरी विनोद, एसीए	लखनऊ	01.10.2007	145. 075714	सीए. गुप्ता अतुल कुमार, एफसीए	जबलपुर	01.10.2006
133. 074957	सीए. अतुल गोपाती, एफसीए	जयपुर	01.10.2008	146. 075725	सीए. अजमेश नवीन, एफसीए	भिलवारा	01.10.2004
134. 075124	सीए. सक्सेना राजीव कुमार, एफसीए	फतेहगढ़	01.10.2008	147. 075738	सीए. टोडी विष्णुदत्त, एसीए	कच्छ	01.10.2008
135. 075133	सीए. शर्मा नवीन कुमार, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008	148. 075739	सीए. राकेश सरस्वत, एफसीए	अहमदाबाद	01.10.2008
136. 075248	सीए. सुनील कुमार सिंह, एफसीए	कानपुर	01.10.2008	149. 075768	सीए. गुटगुटिया विवेक, एसीए	धनबाद	01.10.2008
137. 075316	सीए. विनीत कुमार, एसीए	रायपुर	01.10.2008	150. 075785	सीए. श्रीवास्तव राकेश, एफसीए	कानपुर	01.10.2008
138. 075360	सीए. चतुर्वेदी राजीव कुमार, एफसीए	लखनऊ	01.10.2008	151. 075791	सीए. सिंह आदित्य कुमार, एफसीए	भोपाल	01.10.2008
139. 075432	सीए. शर्मा विवेक, एफसीए	जयपुर	01.10.2008	152. 075805	सीए. भन्डारी आशीष, एसीए	नोएडा	01.10.2008
140. 075439	सीए. वर्मा पंकज, एसीए	भोपाल	01.10.1996	153. 075821	सीए. मिश्रा कमलाकर, एफसीए	दिल्ली	01.10.2008
141. 075546	सीए. बंसल गिरिराज कुमार, एसीए	गुडगांव	01.10.2008	154. 075829	सीए. झा परितोष, एफसीए	बिकानेर	01.10.2008
142. 075571	सीए. अग्रवाल बचनेश कुमार, एसीए	जयपुर	01.10.2005	155. 075875	सीए. वैद्य नरेन्द्र, एफसीए	भोपाल	01.10.2006
				156. 075920	सीए. पुन्ताम्बेकर विनीता, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
				157. 075956	सीए. हुसैनी दैरिकी, एसीए	नीमुच	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
158.	076017	सीए. अग्रवाल अनूप कुमार, एफसीए	इलाहाबाद	01.10.2008
159.	076104	सीए. गुप्ता राजेन्द्र कुमार, एफसीए	इन्दौर	01.10.2008
160.	076277	सीए. अविनाश भार्गव, एफसीए	बिकानेर	01.10.2006
161.	076311	सीए. प्रदीप धूत, एसीए	कन्नोड	01.10.2006
162.	076420	सीए. अग्रवाल संजीव कुमार, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
163.	076488	सीए. मोर संजय मदनमोहन, एसीए	जबलपुर	01.10.2008
164.	076709	सीए. साम्भवाल ज्योति, एफसीए	बहराइच	01.10.2008
165.	076719	सीए. ज्ञानवर दिनेश चन्द्र, एसीए	इन्दौर	01.10.2002
166.	076771	सीए. भटनागर विनीत, एसीए	रेनूकोट	01.10.2007
167.	076774	सीए. दीपक कुमार, एफसीए	नोएडा	01.10.2008
168.	076780	सीए. मुखोपाध्याय सैकत, एसीए	गुड़गांव	01.10.2007
169.	076786	सीए. पवेचा अजय, एसीए	रतलाम	01.10.2008
170.	076799	सीए. जैन निर्मल कुमार, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
171.	076926	सीए. सुनील कुमार वर्मा, एफसीए	इन्दौर	01.10.2006

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
172.	076946	सीए. जैन सुमेन्द्र, एसीए	नोएडा	01.10.2008
173.	076983	सीए. राजेन्द्र अग्रवाल, एफसीए	थाने	01.10.2005
174.	077099	सीए. संजय कुमार, एसीए	नागपुर	01.10.2008
175.	077128	सीए. मुन्ना अविनाश, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
176.	077185	सीए. रजित मल्होत्रा, एसीए	नोएडा	01.10.2004
177.	077195	सीए. बाजपई गनेश प्रसाद, एफसीए	वाराणसी	01.10.2008
178.	077220	सीए. शुक्ला संजीव, एसीए	कानपुर	01.10.2004
179.	077226	सीए. धनुका मनोज, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
180.	077244	सीए. शर्मा राहुल, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
181.	077263	सीए. मंगलिया ललित सिंह, एसीए	गुवाहाटी	08.12.2000
182.	077322	सीए. पारख राजेश, एसीए	जोधपुर	22.12.2003
183.	077457	सीए. अग्रवाल अनिल कुमार, एफसीए	लखनऊ	01.10.2008
184.	077503	सीए. सिंघल दिनेश कुमार, एफसीए	सुमेरपुर	01.10.2008
185.	077538	सीए. मुन्धरा महेश कुमार, एसीए	जोधपुर	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
186.	077560	सीए. अजीत टी, एसीए	बैंगलोर	01.10.2008
187.	77648	सीए. आशीष पुन्धिर, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
188.	077748	सीए. स्वामीनाथन मैथुरेयी, एसीए	नोएडा	01.10.2008
189.	077751	सीए. शरोहा तुशन्कुर, एसीए	मेरठ	01.10.2007
190.	077759	सीए. गुप्ता दीपिका, एफसीए	देहरादून	01.10.2008
191.	077778	सीए. जैन पंकज, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
192.	077838	सीए. हजरा श्रीरूपा, एसीए	पूने	22.12.2003
193.	077989	सीए. जैन धर्मेन्द्र, एफसीए	इन्दौर	01.10.2008
194.	078013	सीए. जैन अजय कुमार, एफसीए	आगरा	01.10.2008
195.	078030	सीए. बनर्जी अनूप कुमार, एसीए	जमशेदपुर	01.10.2006
196.	078031	सीए. अरेन्दर कुलदीप कौर, एसीए	जमशेदपुर	01.10.2006
197.	078055	सीए. गर्ग शरद कुमार, एसीए	आगरा	01.10.2005
198.	078129	सीए. शर्मा मनोज कुमार, एसीए3	जयपुर	01.10.2006
199.	078293	सीए. गुप्ता प्रभात, एफसीए	मेरठ	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
200.	078351	सीए. पारीक अनिल, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
201.	078355	सीए. मानू आर्यन, एसीए	अजमेर	01.10.2008
202.	78372	सीए. सेथी सोनिया, एसीए	देहरादून	01.10.2004
203.	078432	सीए. मुनीश कुमार मित्तल, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2002
204.	078447	सीए. सुधा गुप्ता, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
205.	078572	सीए. शर्मा अनिल कुमार, एफसीए	हैदराबाद	01.10.2007
206.	078612	सीए. अग्रवाल विनीत, एसीए	भिलाई	01.10.2007
207.	078640	सीए. सिंह सुनील कुमार, एसीए	राँची	01.10.2008
208.	078694	सीए. व्यास कमल किशोर, एसीए	जोधपुर	01.10.2008
209.	078699	सीए. कवात्रा संजय, एसीए	भोपाल	01.10.2005
210.	078705	सीए. टंडन सौरभ, एफसीए	लखनऊ	01.10.2008
211.	078741	सीए. गुप्ता प्रवीन, एफसीए	ग्वालियर	01.10.2007
212.	078754	सीए. ब्रिजेश कुमार, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2007
213.	078766	सीए. जोशी नीरज, एसीए	उज्जैन	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
214.	078838	सीए. गर्ग विकास, एफसीए	बुलन्दशहर	01.10.2007	229.	079380	सीए. विश्नोई विभोर, एसीए	नोएडा	01.10.2008
215.	078906	सीए. अरुण पचोरी, एफसीए	जयपुर	01.10.2008	230.	079391	सीए. योगेश कुमार, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2007
216.	078970	सीए. श्रीवास्तव मनीसा, एसीए	रायपुर	01.10.2007	231.	079403	सीए. मनोहर लाल पालीवाल, एसीए	जोधपुर	08.12.2000
217.	078978	सीए. गुप्ता सुधीर, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2007	232.	079421	सीए. जयसवाल मनीष कुमार, एफसीए	बैंगलोर	01.10.2007
218.	079004	सीए. सेठ नेविल्ले, एसीए	गुडगांव	01.10.2007	233.	079433	सीए. सचिन त्यागी, एफसीए	मेरठ	01.10.2006
219.	079024	सीए. पोद्दार संदीप, एसीए	कोलकाता	22.12.2003	234.	079446	सीए. सुनील रावत, एफसीए	जयपुर	01.10.2007
220.	079029	सीए. सिंघई मोनिका, एसीए	जबलपुर	01.10.2004	235.	079457	सीए. पाण्डेय शिवाशीष, एसीए	अजमेर	01.10.2007
221.	079098	सीए. विक्रम कुमार भुत्रा, एसीए	अजमेर	01.10.2007	236.	079546	सीए. उदय भानु अवस्थी, एफसीए	लखीमपुर खेरी	01.10.2008
222.	079129	सीए. व्यास रमेश, एसीए	जोधपुर	01.10.2008	237.	079581	सीए. टंडन रुचि, एसीए	लखनऊ	01.10.2007
223.	079184	सीए. राहुल कुमार वशिष्ठ एफसीए	गुडगांव	01.10.2008	238.	079594	सीए. भोजवानी राजेश, एसीए	जोधपुर	01.10.2008
224.	079257	सीए. अजय कुमार दधिच, एफसीए	भारूच	01.10.2008	239.	079620	सीए. विवेक वर्शनी, एफसीए	इलाहाबाद	01.10.2008
225.	079287	सीए. ठाकुर विवेक, एसीए	इन्दौर	01.10.2005	240.	079719	सीए. विजय कुमार अग्रवाल, एफसीए	सिरायकेला	01.10.2008
226.	079325	सीए. तृप्ति विश्नोई, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008	241.	079721	सीए. नितिन गर्ग, एफसीए	भोपाल	01.10.2008
227.	079338	सीए. बहेटी शम्भू एसीए	मुम्बई	22.12.2003	242.	079794	सीए. सुनील कुमार जैन, एफसीए	जयपुर	01.10.2006
228.	079367	सीए. भट्ट अमित, एसीए	जयपुर	01.10.2008					

क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
243. 079852	सीए. शर्मा नितिन, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008	256. 082707	सीए. ईसी सेबस्तियन, एफसीए	पटना	01.10.2004
244. 079913	सीए. अरोरा गौरव, एसीए	नोएडा	01.10.2008	257. 082820	सीए. सलूजा परशोत्तम लाल, एफसीए	श्रीगंगानगर	01.10.2008
245. 079974	सीए. शुक्ला ऋषि, एसीए	इन्दौर	01.10.2007	258. 083031	सीए. गोयल अरविन्द, एफसीए	जयपुर	01.10.1998
246. 079999	सीए. ठाकुर संजय कुमार, एसीए	रामगढ़	01.10.2008	259. 083402	सीए. जुनेजा संजीव, एफसीए	नोएडा	01.10.2008
247. 080904	सीए. कंसल उमेश, एफसीए	नई दिल्ली	01.10.2007	260. 083669	सीए. रॉय ओइन्द्रिला, एसीए	नोएडा	01.10.2008
248. 080965	सीए. गोयल राम कुमार, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008	261. 084062	सीए. माथुर राकेश स्वरूप, एफसीए	शाहजहांपुर	01.10.2008
249. 081204	सीए. पॉल सुनिर्मल, एसीए	चेन्नई	01.10.1996	262. 085926	सीए. दुब्लिश संजीव कुमार, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
250. 081426	सीए. कौशिक महावीर प्रसाद, एफसीए	नोएडा	01.10.2008	263. 086199	सीए. गुप्ता सुबोध, एफसीए	नोएडा	01.10.2008
251. 081609	सीए. रूहानी अफसर हुसैन, एसीए	लखनऊ	01.10.2008	264. 086719	सीए. संघवी राकेश, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
252. 081663	सीए. अभय कुमार भार्गव, एफसीए	कानपुर	01.10.1996	265. 087297	सीए. राठी शिवरतन, एसीए	सिकर	01.10.2007
253. 082292	सीए. अजया चन्द, एफसीए	नई दिल्ली	01.10.2008	266. 087579	सीए. कंकन आशीष, एसीए	गुडगांव	01.10.2007
254. 082572	सीए. राय मुनीन्द्र नारायण, एफसीए	पटना	01.10.2008	267. 088259	सीए. विक्रम सिंह, एफसीए	नोएडा	01.10.2008
255. 082584	सीए. जैन राकेश कुमार, एफसीए	नोएडा	01.10.2008	268. 088772	सीए. राजेन्द्र कुमार, एफसीए	नोएडा	01.10.2007
				269. 088997	सीए. महेश चन्द्र, एफसीए	विद्युत नगर	01.10.2007

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
270.	089425	सीए. सोमानी अनुज कुमार, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2005
271.	089665	सीए. गुप्ता सदीप कुमार, एफसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
272.	090061	सीए. अरोरा संजीव, एफसीए	नोएडा	01.10.2007
273.	091219	सीए. तेल कपिल के, एसीए	नोएडा	01.10.1996
274.	091364	सीए. वर्मा संजय, एसीए	नई दिल्ली	18.12.2000
275.	091561	सीए. रमाकान्त पारीक, एसीए	सिकर	01.10.2008
276.	091878	सीए. गोयल अनिल कुमार, एफसीए	जोधपुर	01.10.2008
277.	092747	सीए. सिंह निर्मल कुमार, एसीए	बोकारो स्टील सिटी	01.10.2008
278.	092780	सीए. गोविन्दा राव बलगा, एसीए	पान्डीचेरी	01.10.2007
279.	093116	सीए. मनीष गुप्ता, एसीए	बरेली	01.10.2007
280.	093206	सीए. मुखर्जी सान्तनु, एसीए	पटना	01.10.2006
281.	093337	सीए. जदिया सन्तोष कुमार, एफसीए	रामपुर	01.10.2006
282.	094624	सीए. गोयल अमित, एफसीए	इलाहाबाद	01.10.2007
283.	095757	सीए. विश्वनाथन वी, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
284.	096537	सीए. महेश्वरी हेमन्त, एफसीए	बैंगलोर	01.10.2008
285.	096599	सीए. किरन, एसीए	नोएडा	01.10.2008
286.	096726	सीए. महेश्वरी विपुल कुमार, एफसीए	कासगंज	01.10.2008
287.	096837	सीए. राजीव कुमार, एसीए	पटना	01.10.2008
288.	097401	सीए. मनमोहन कुमार, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
289.	097456	सीए. कृष्णन एनवी, एसीए	दिल्ली	01.10.2007
290.	097736	सीए. गुप्ता अजय, एसीए	मुम्बई	01.10.2005
291.	097945	सीए. वी महेश्वर, एसीए	नोएडा	01.10.2007
292.	098130	सीए. जैन सुनील कुमार, एसीए	नोएडा	01.10.2008
293.	098157	सीए. संजय कुमार, एसीए	रायगढ़	01.10.2007
294.	098362	सीए. गुप्ता मनीष, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2004
295.	098531	सीए. बंसल दीपक, एसीए	भिवाड़ी	01.10.2008
296.	099059	सीए. शर्मा अमित, एसीए	काशीपुर	01.10.2008
297.	099290	सीए. सिंह दीपक, एसीए	एटा	01.10.2008
298.	099977	सीए. पटेलिया प्रीती, एसीए	नोएडा	01.10.2007

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
299.	101057	सी.ए. शाह नितेश कुमार, एफसीए	इन्दौर	01.10.2005
300.	101382	सी.ए. कमल किशोर गोयल, एसीए	सूरत	01.10.2008
301.	103335	सी.ए. प्रशान्त चतुर्वेदी, एसीए	मुम्बई	01.10.2005
302.	104850	सी.ए. कोठारी आलोक कुमार, एफसीए	जयपुर	01.10.2008
303.	105429	सी.ए. बिरला प्रकाश, एसीए	मुम्बई	22.12.2003
304.	106022	सी.ए. मनीष कुमार वी त्यागी, एफसीए	देहरादून	01.10.2008
305.	106104	सी.ए. अग्रवाल सन्दीप कुमार, एफसीए	बरन	01.10.2007
306.	106784	सी.ए. संजय राठी, एसीए	नवी मुम्बई	01.10.2007
307.	106977	सी.ए. भण्डारी प्रवीन टी, एसीए	इन्दौर	01.10.2007
308.	107774	सी.ए. मित्तल सिद्धार्थ मुकुल, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
309.	108202	सी.ए. अग्रवाल जम्बू कुमार, एफसीए	कोटा	01.10.2008
310.	108862	सी.ए. विशाल एस जैन, एसीए	भोपाल	01.10.2005
311.	110692	सी.ए. शिवम प्रहलादका, एसीए	भिलवारा	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
312.	111321	सी.ए. जैन संजय कुमार, एसीए	राजनन्दगांव	01.10.2007
313.	111935	सी.ए. हिरेश सोन्थलिया, एसीए	मुम्बई	01.10.2007
314.	112576	सी.ए. चिरंजीव अजमेरा, एसीए	पूने	01.10.2004
315.	113744	सी.ए. उमा अग्रवाल, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
316.	114991	सी.ए. जगेंद्रिया अनिल कुमार, एसीए	मुम्बई	01.10.2006
317.	116243	सी.ए. शारदा अमित, एसीए	जबलपुर	01.10.2008
318.	116664	सी.ए. खुराना हेमलता सौरभ, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
319.	117264	सी.ए. पुन्गलिया कनन, एसीए	चित्तौड़गढ़	01.10.2007
320.	119422	सी.ए. कंचन विपिन मल्होत्रा, एसीए	नोएडा	01.10.2008
321.	120548	सी.ए. ज्योति महाजन, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
322.	121292	सी.ए. यशपाल कमलाप्रसाद अग्रवाल, एसीए	जयपुर	01.10.2007
323.	121685	सी.ए. नितिन अशोक बघरेचा, एसीए	रायपुर	01.10.2008
324.	127423	सी.ए. संजय कुमार रघुवंशी, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
325.	200090	सी.ए. सुरेश बाबू आर, एसीए	हैदराबाद	01.10.2008

क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
326. 205290	सीए. सतीश वी, एसीए	पूने	01.10.2008	341. 400428	सीए. अनवारूल हबीब, एफसीए	कानपुर	01.10.2008
327. 205868	सीए. प्रकाश चन्द, एफसीए	उदयपुर	01.10.2008	342. 400456	सीए. मिश्रा सुमन, एसीए	कानपुर	01.10.2008
328. 208338	सीए. प्रभाकरन सी, एसीए	चेन्नई	01.10.2008	343. 400463	सीए. मनीष सहाय, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
329. 211399	सीए. जयकृष्णन के, एसीए	नोएडा	01.10.2004	344. 400573	सीए. कन्डोई कमल, एसीए	गुडगांव	01.10.2007
330. 212148	सीए. वेंकटा सत्यनारायणा जागू, एसीए	चेन्नई	01.10.2008	345. 400627	सीए. अमित बजाज, एफसीए	गांजियाबाद	01.10.2008
331. 216721	सीए. गोपाला कृष्णा साकामुरी, एसीए	हैदराबाद	01.10.2007	346. 400630	सीए. लुथरा अमरदीप सिंह, एसीए	नोएडा	01.10.2008
332. 400005	सीए. डी.कौशिक, एसीए	भिलाई	01.10.2008	347. 400645	सीए. सक्सेना शोभित, एसीए	भोपाल	01.10.2006
333. 400040	सीए. बुगलिया देवेन्द्र, एसीए	जयपुर	01.10.2008	348. 400726	सीए. मित्तल पंकज, एसीए	कोटा	01.10.2008
334. 400154	सीए. बोहरा नितिन, एसीए	सोजत सिटी	01.10.2008	349. 400764	सीए. जगेतिया रामसहाय, एसीए	भिलवारा	22.12.2003
335. 400168	सीए. कन्हैया लाल शर्मा, एफसीए	जयपुर	01.10.2008	350. 400775	सीए. श्रीवास्तव रोहित, एसीए	गुडगांव	01.10.2007
336. 400182	सीए. सिंह पृथ्वीराज, एसीए	गुडगांव	01.10.2007	351. 400790	सीए. सोमानी सुशील कुमार, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
337. 400200	सीए. गुप्ता रश्मी, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008	352. 400795	सीए. जैन अरिजय कुमार, एसीए	गुडगांव	01.10.2006
338. 400255	सीए. अजयंगशू बनर्जी, एफसीए	राँची	01.10.2008	353. 400818	सीए. गुप्ता आशीष कुमार, एसीए	बुन्दी	22.12.2003
339. 400377	सीए. अजमेरा धीरज, एसीए	जयपुर	01.10.2007	354. 400898	सीए. खत्री समीर, एसीए	नोएडा	01.10.2007
340. 400410	सीए. गुप्ता जुगमीलाल, एसीए	वलसाड	22.12.2003	355. 401001	सीए. मलानी आशीष, एसीए	इन्दौर	01.10.2007

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
356.	401021	सी.ए. वसीम अब्बास, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
357.	401025	सी.ए. सिंह सम्पत, एसीए	जयपुर	01.10.2008
358.	401056	सी.ए. अग्रवाल रिषी, एसीए	मुम्बई	01.10.2007
359.	401091	सी.ए. जैन जायेष, एसीए	जोधपुर	01.10.2007
360.	401098	सी.ए. राकेश कुमार जैन, एफसीए	इन्दौर	01.10.2008
361.	401123	सी.ए. महेशवरी अमित, एसीए	जयपुर	01.10.2008
362.	401140	सी.ए. अरोरा रोहित, एसीए	कानपुर	01.10.2008
363.	401169	सी.ए. पियूष मित्तल, एफसीए	भरतपुर	01.10.2008
364.	401176	सी.ए. वर्मा पियूष, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
365.	401238	सी.ए. साहा अनुराग, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
366.	401242	सी.ए. सोमानी विनोद, एसीए	जयपुर	01.10.2007
367.	401256	सी.ए. जिन्दल अनूतोष, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
368.	401258	सी.ए. गोयल रोहित कुमार, एसीए	गुडगांव	01.10.2008
369.	401310	सी.ए. आलोक होलानी, एफसीए	उज्जैन	01.10.2008
370.	401311	सी.ए. मस्सी अरोहन, एसीए	मुजफ्फरनगर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
371.	401318	सी.ए. जैन प्रफुल, एसीए	बैंगलोर	01.10.2008
372.	401337	सी.ए. सादना मुनीष, एसीए	देहरादून	01.10.2008
373.	401342	सी.ए. अग्रवाल मनीष कुमार, एसीए	धनबाद	01.10.2008
374.	401353	सी.ए. श्रीवास्तव प्रबल, एसीए	भोपाल	01.10.2008
375.	401423	सी.ए. रघुवंशी दिव्या, एसीए	भोपाल	01.10.2007
376.	401455	सी.ए. पंडित सुशील, एसीए	हैदराबाद	01.10.2008
377.	401490	सी.ए. चौधरी शिव प्रकाश, एसीए	भिलवारा	01.10.2008
378.	401493	सी.ए. अग्रवाल उपेन्द्र कुमार, एसीए	बोकारो	01.10.2008
379.	401502	सी.ए. गुप्ता सजल, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2007
380.	401515	सी.ए. नवीन कुमार जैन, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
381.	401529	सी.ए. तलेजा अमित, एसीए	बैंगलोर	01.10.2008
382.	401571	सी.ए. झुनझुनवाला मुकेश कुमार, एसीए	हरीनगर	01.10.2007
383.	401611	सी.ए. सकलेचा प्रवीन कुमार, एसीए	इन्दौर	01.10.2007
384.	401712	सी.ए. चौधरी अदिति, एसीए	गुडगांव	01.10.2007

क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
385. 401801	सीए. गगनदीप सिंह, एफसीए	देहरादून	01.10.2008	399. 402224	सीए. मित्तल महेश, एसीए	कोटा	01.10.2008
386. 401816	सीए. हरशद कुमार शाह, एफसीए	वाराणसी	01.10.2008	400. 402241	सीए. पिपाडा तृष्णा, एसीए	इन्दौर	01.10.2004
387. 401884	सीए. सुनील श्रीवास्तव, एसीए	शिकोहाबाद	01.10.2007	401. 402245	सीए. बोथरा राजेश, एसीए	बिकानेर	01.10.2007
388. 401910	सीए. कामरा राजीव, एसीए	उदयपुर	01.10.2004	402. 402256	सीए. जैन प्रवीणा, एसीए	जोधपुर	01.10.2007
389. 401930	सीए. चतुर्वेदी मोहित एन, एसीए	थाने	01.10.2007	403. 402271	सीए. गुप्ता परेश, एसीए	जयपुर	01.10.2008
390. 401932	सीए. मजुमदार राहुल, एसीए	उदयपुर	01.10.2005	404. 402289	सीए. जैन मनीष, एसीए	मुम्बई	01.10.2007
391. 401990	सीए. नाचरानी महेश, एसीए	रायपुर	01.10.2006	405. 402318	सीए. महेश्वरी विकास कुमार, एसीए	केकरी	01.10.2008
392. 402001	सीए. सोन्थालिया किरण, एसीए	जयपुर	01.10.2008	406. 402338	सीए. श्रीवास्तव दिग्विजय दर्शन, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
393. 402002	सीए. रावत प्रहलाद दास, एसीए	कोबरा	01.10.2007	407. 402341	सीए. अग्रवाल योगेश, एसीए	गुडगांव	01.10.2008
394. 402014	सीए. शर्मा आशीष, एसीए	अलवर	01.10.2008	408. 402396	सीए. मल्होत्रा मोनिका, एसीए	जयपुर	01.10.2008
395. 402062	सीए. शाव दीपक कुमार, एसीए	मुम्बई	01.10.2006	409. 402401	सीए. खत्री पंकज, एसीए	नागौर	01.10.2007
396. 402100	सीए. गुप्ता आशीष, एसीए	जयपुर	01.10.2006	410. 402406	सीए. निखिल अग्रवाल, एसीए	इन्दौर	01.10.2007
397. 402102	सीए. खन्डेलवाल शिल्पी, एसीए	अलवर	01.10.2008	411. 402426	सीए. पाण्डेय बृजेश, एसीए	दिल्ली	01.10.2008
398. 402181	सीए. प्रजापति दिनेश कुमार, एसीए	हरिद्वार	01.10.2008	412. 402429	सीए. श्रिया संजीव, एसीए	कानपुर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
413.	402448	सीए. जैन वैभव, एसीए	जयपुर	01.10.2006
414.	402449	सीए. पुन्नीर अभिषेक सिंह, एसीए	जयपुर	01.10.2005
415.	402471	सीए. सिंघल मयूरी, एसीए	भरतपुर	01.10.2008
416.	402518	सीए. गर्ग सौरभ कुमार, एसीए	गुडगांव	01.10.2008
417.	402570	सीए. हिमान्शु मित्तल, एफसीए	मेरठ	01.10.2008
418.	402604	सीए. भोई सुनील कुमार, एसीए	रायपुर	01.10.2008
419.	402606	सीए. दंगायाच नवीन, एसीए	जयपुर	01.10.2007
420.	402615	सीए. हिरावत गौरव, एसीए	जयपुर	01.10.2008
421.	402657	सीए. अग्रवाल ओमप्रकाश, एसीए	जयपुर	01.10.2008
422.	402672	सीए. बर्दिया भूपेन्द्र, एसीए	बैंगलोर	01.10.2008
423.	402726	सीए. राठी अशोक कुमार, एसीए	दिल्ली	01.10.2008
424.	402825	सीए. सक्सेना सुनील कुमार, एसीए	ढोलपुर	01.10.2008
425.	402839	सीए. दधिच आशीष, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
426.	402846	सीए. महेश्वरी जयकिशन, एसीए	जामनगर	01.10.2004
427.	402866	सीए. हबलानी सुशील, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
428.	402912	सीए. सेथिया विकास, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
429.	402930	सीए. अग्रवाल नमन, एसीए	लखनऊ	01.10.2007
430.	403083	सीए. बड़जात्या सुरेन्द्र, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
431.	403122	सीए. पलसिया कुतुबुद्दीन, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
432.	403140	सीए. श्रीमल शरद, एसीए	थाने	01.10.2007
433.	403178	सीए. गौतम मनीष, एसीए	जयपुर	01.10.2007
434.	403182	सीए. शाह मोसम, एफसीए	बारनगर	01.10.2008
435.	403184	सीए. गांधी दीपक, एसीए	मिलवारा	01.10.2007
436.	403190	सीए. हरलालका विकास कुमार, एसीए	लदनुन	01.10.2007
437.	403195	सीए. शर्मा ओमप्रकाश, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
438.	403198	सीए. जारखण्डी राहुल आनन्द, एसीए	वाराणसी	01.10.2008
439.	403227	सीए. श्वेता मन्दोवारा, एसीए	उदयपुर	01.10.2007

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
440.	403263	सीए. पटिदार भीमराज, एफसीए	धार	01.10.2008
441.	403316	सीए. मसन्द रितेश, एसीए	लखनऊ	01.10.2007
442.	403330	सीए. पलसनिया विकास, एफसीए	रायपुर	01.10.2008
443.	403337	सीए. जयस्थ वरून, एसीए	नोएडा	01.10.2008
444.	403340	सीए. पुनिया विनोद, एसीए	होशियारपुर	01.10.2008
445.	403378	सीए. जैन मुकुल, एसीए	जयपुर	01.10.2005
446.	403387	सीए. शर्मा अमित, एसीए	भिलवारा	01.10.2007
447.	403408	सीए. अग्रवाल आशुतोष, एसीए	रिषीकेश	01.10.2008
448.	403416	सीए. बदलानी दिलीप कुमार, एसीए	गोरखपुर	01.10.2008
449.	403427	सीए. मंगलानी अनिल, एसीए	कानपुर	01.10.2008
450.	403444	सीए. यादव दिशा, एसीए	जयपुर	01.10.2008
451.	403462	सीए. महेश्वरी रमेश, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
452.	403468	सीए. जैन अभिनेश, एसीए	बैंगलोर	01.10.2008
453.	403505	सीए. खुराना अन्तरिक्ष, एसीए	जयपुर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
454.	403553	सीए. विजय शर्मा, एसीए	रतलाम	01.10.2008
455.	403622	सीए. सक्सेना आशीष कुमार, एसीए	अलीगढ़	01.10.2008
456.	403628	सीए. जैन प्रवीन, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
457.	403643	सीए. पाण्डेय आद्य कुमार, एसीए	कानपुर	01.10.2008
458.	403670	सीए. अग्रवाल अमित, एसीए	कुमारघुबी	01.10.2008
459.	403722	सीए. पियूष कुमार, एसीए	इलाहाबाद	01.10.2008
460.	403752	सीए. मिश्रा अंशुमान, एसीए	पूने	01.10.2007
461.	403756	सीए. समर अनिल, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
462.	403810	सीए. पराशर राहुल, एसीए	वाराणसी	01.10.2007
463.	403816	सीए. अरोरा गौतम, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
464.	403833	सीए. अरोरा अनुज, एसीए	आगरा	01.10.2008
465.	403840	सीए. शर्मा मनीष कुमार, एसीए	जयपुर	01.10.2008
466.	403841	सीए. गोयल मुकेश, एसीए	जयपुर	01.10.2008
467.	403882	सीए. भण्डारी अभिषेक, एसीए	जोधपुर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
468.	403888	सीए. चन्दक निर्मल, एसीए	जोधपुर	01.10.2008	482.	404208	सीए. जैन अभिषेक, एसीए	पटना	01.10.2008
469.	403903	सीए. जैन राकेश कुमार, एसीए	जयपुर	01.10.2007	483.	404224	सीए. कासलीवाल सौरभ, एसीए	उज्जैन	01.10.2006
470.	403926	सीए. मनीष कुमार, एसीए	मुम्बई	01.10.2006	484.	404226	सीए. सारदा निर्मल कुमार, एसीए	बिकानेर	01.10.2008
471.	403989	सीए. अग्रवाल रुचित, एसीए	आगरा	01.10.2008	485.	404254	सीए. निशान्त अग्रवाल, एसीए	बंसवारा	01.10.2008
472.	404005	सीए. महेश चन्द, एसीए	अलवर	01.10.2008	486.	404263	सीए. विशाल मंगल, एसीए	जयपुर	01.10.2007
473.	404022	सीए. अग्रवाल राधा किशन, एसीए	जयपुर	01.10.2007	487.	404264	सीए. मंचंदा निधि, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
474.	404049	सीए. पटेल ज्ञानेन्द्र कुमार, एसीए	नवी मुम्बई	01.10.2007	488.	404278	सीए. जधाव विजय कुमार, एसीए	रायपुर	01.10.2008
475.	404069	सीए. चौधरी अखिलेश, एसीए	इन्दौर	01.10.2006	489.	404294	सीए. गुप्ता स्ताहिवाबाद नितिन, एसीए	स्ताहिवाबाद	01.10.2007
476.	404142	सीए. जैन पायल, एसीए	जोधपुर	01.10.2008	490.	404302	सीए. मानेरिकर अदिति माधव, एसीए	गुडगांव	01.10.2008
477.	404145	सीए. बुधिया साकेत, एसीए	कोरबा	01.10.2008	491.	404317	सीए. खण्डेलवाल राहुल, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
478.	404149	सीए. जिन्दल मुकुल कुमार, एसीए	हापुर	01.10.2008	492.	404334	सीए. वाघ सन्तोष, एसीए	इन्दौर	01.10.2005
479.	404155	सीए. सिंह विनीता, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2008	493.	404392	सीए. गुप्ता अभिषेक, एसीए	जयपुर	01.10.2008
480.	404175	सीए. गदिया सुलभा, एसीए	रतलाम	01.10.2008	494.	404397	सीए. बंसल अनिल, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
481.	404204	सीए. खुटेटा सुरभि, एसीए	जयपुर	01.10.2007	495.	404627	सीए. गोयल नवीन, एसीए	जयपुर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
496.	404665	सीए. राजीव कुमार तिवारी, एसीए	दिल्ली	01.10.2008	510.	404929	सीए. सुदन जसविन्दर सिंह, एसीए	देहरादून	01.10.2008
497.	404696	सीए. अग्रवाल पंकज, एसीए	मुम्बई	01.10.2007	511.	404992	सीए. सिंह ज्ञानेश प्रताप, एसीए	थाने	01.10.2006
498.	404736	सीए. दीपक भाटिया, एसीए	इन्दौर	01.10.2008	512.	404999	सीए. खुशबू सुरिया, एसीए	भिलवारा	01.10.2008
499.	404750	सीए. अग्रवाल अमित, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2008	513.	405013	सीए. जैन सौरभ, एसीए	कोटा	01.10.2008
500.	404753	सीए. नागर रानी, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2007	514.	405027	सीए. बपना वीरेन्द्र सिंह, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
501.	404757	सीए. जैन प्रवीन, एसीए	किशनगढ़	01.10.2008	515.	405080	सीए. बबेल जीतेश, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
502.	404763	सीए. अजमेरा सचिन, एसीए	जयपुर	01.10.2008	516.	405093	सीए. जैन साक्षी, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
503.	404780	सीए. विजय अंकिता, एसीए	अजमेर	01.10.2007	517.	405115	सीए. रस्तोगी रजत, एसीए	राँची	01.10.2008
504.	404831	सीए. मनोज हबलानी, एसीए	इन्दौर	01.10.2007	518.	405230	सीए. हैदर अबू धाबी आरकम, एसीए	अबू धाबी	01.10.2008
505.	404836	सीए. जैन ललित, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2007	519.	405350	सीए. संजय सिंह बघेल, एसीए	कानपुर	01.10.2008
506.	404866	सीए. सारदा सौरभ, एसीए	मुम्बई	01.10.2008	520.	405351	सीए. मीनू भदौरिया, एसीए	कानपुर	01.10.2008
507.	404890	सीए. निधि मनीष राठी, एसीए	देवास	01.10.2008	521.	405364	सीए. गोपाल नवन्धर, एसीए	जोधपुर	01.10.2008
508.	404915	सीए. जगेतिया सोनल, एसीए	इन्दौर	01.10.2006	522.	405399	सीए. संजय कुमार शर्मा, एसीए	जयपुर	01.10.2007
509.	404917	सीए. शाह हिमान्यू, एसीए	मुम्बई	01.10.2008	523.	405405	सीए. जतिन विजय बर्जिया, एसीए	मुम्बई	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक	क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
524. 405423	सी.ए. गौरव लुनावत, एसीए	रतलाम	01.10.2008	539. 405781	सी.ए. वरुन खिंही एसीए	पूने	01.10.2008
525. 405438	सी.ए. मनीष गर्ग, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008	540. 405818	सी.ए. पियूष अग्रवाल, एसीए	नीमुच	01.10.2008
526. 405439	सी.ए. उमाकान्त, एसीए	श्रीगंगानगर	01.10.2007	541. 405830	सी.ए. आशीष कुमार खण्डेलवाल, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
527. 405447	सी.ए. रविन कक्कर, एसीए	इलाहाबाद	01.10.2008	542. 405850	सी.ए. विवेक दरगार, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
528. 405452	सी.ए. सुचिता पी मित्तल, एसीए	मुम्बई	01.10.2008	543. 405905	सी.ए. परमानन्द जायसवाल, एसीए	गोरखपुर	01.10.2008
529. 405459	सी.ए. पवन कुमार बंग, एसीए	जयपुर	01.10.2008	544. 405941	सी.ए. दिवप्रीत कौर, एसीए	संहारनपुर	01.10.2008
530. 405463	सी.ए. मनोज कुमार तोतला, एसीए	जयपुर	01.10.2007	545. 405962	सी.ए. नितेश कलन्तारी, एसीए	चित्तोरगढ़	01.10.2008
531. 405468	सी.ए. किशोर हबलानी, एसीए	इन्दौर	01.10.2007	546. 406003	सी.ए. प्रवीन उपाध्याय, एसीए	थाने	01.10.2008
532. 405505	सी.ए. सुधान्यु गोयल, एसीए	अजमेर	01.10.2008	547. 406028	सी.ए. राकेश कुमार सिंह, एसीए	वाराणसी	01.10.2008
533. 405506	सी.ए. विभा चौधरी, एसीए	भिलवारा	01.10.2008	548. 406041	सी.ए. मोहित खण्डेलवाल, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
534. 405514	सी.ए. सन्देश राथी, एसीए	गुलाबपुरा	01.10.2006	549. 406046	सी.ए. आलोक गुप्ता, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
535. 405572	सी.ए. अनूप वर्मा, एसीए	इन्दौर	01.10.2008	550. 406054	सी.ए. शिल्पा जयथलया, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
536. 405698	सी.ए. सच्चिदानन्द पचोरी, एसीए	भोपाल	01.10.2008	551. 406115	सी.ए. अभिनव सिंघल, एसीए	जयपुर	01.10.2008
537. 405734	सी.ए. अक्षत कपूर, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008	552. 406143	सी.ए. ललित जैन, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
538. 405778	सी.ए. संजय लालवानी, एसीए	भोपाल	01.10.2008				

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
553.	406154	सीए. जिनेश अग्रवाल, एसीए	दिल्ली	01.10.2008	568.	406527	सीए. मनीष अरोरा, एसीए	पाली मरवार	01.10.2008
554.	406191	सीए. चितवान केजरीवाल, एसीए	कानपुर	01.10.2006	569.	406609	सीए. आशुतोष बगादिया, एसीए	जयपुर	01.10.2008
555.	406193	सीए. सुनीता अग्रवाल, एसीए	भुमनेश्वर	01.10.2008	570.	406611	सीए. साकेत सोमानी, एसीए	हैदराबाद	01.10.2008
556.	406199	सीए. परीक्षित सिंह भाटी, एसीए	मुम्बई	01.10.2008	571.	406670	सीए. योगेश कुमार अग्रवाल, एसीए	जयपुर	01.10.2008
557.	406228	सीए. तरुन गर्ग, एसीए	मेरठ	01.10.2008	572.	406686	सीए. सन्दीप डी पुरोहित, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2007
558.	406345	सीए. आदित्य केडिया, एसीए	हनुमानगढ़ टाउन	01.10.2008	573.	406742	सीए. शिप्रा लोधा, एसीए	मुम्बई	01.10.2008
559.	406365	सीए. सुमन्ता रॉय, एसीए	कोलकाता	01.10.2007	574.	406833	सीए. विमल हिरवानी, एसीए	कोटा	01.10.2008
560.	406373	सीए. राज कुमार गुप्ता, एसीए	मऊ	01.10.2008	575.	406860	सीए. गगन चावला, एसीए	लखनऊ	01.10.2008
561.	406412	सीए. रवि रंजन, एसीए	पटना	01.10.2008	576.	406897	सीए. रामजी ठाकुर, एसीए	झांसी	01.10.2008
562.	406424	सीए. पराग अग्रवाल, एसीए	मेरठ	01.10.2008	577.	406900	सीए. शीलू जैन, एसीए	जयपुर	01.10.2008
563.	406427	सीए. शिखा सराफ, एसीए	मुम्बई	01.10.2008	578.	406920	सीए. मनीष मोटवानी, एसीए	जयपुर	01.10.2008
564.	406439	सीए. आशीष शर्मा, एसीए	जयपुर	01.10.2007	579.	406933	सीए. राहुल मरवाल, एसीए	मोदीनगर	01.10.2008
565.	406450	सीए. मितेश्वर महाजन, एसीए	जयपुर	01.10.2007	580.	406949	सीए. नागेन्द्र बिजरनिया, एसीए	जयपुर	01.10.2008
566.	406472	सीए. मनीष गुगलिया, एसीए	रतलाम	01.10.2008	581.	406971	सीए. दिलीप कुमार अग्रवाल, एसीए	देवगढ़ (उड़ीसा)	01.10.2008
567.	406475	सीए. ललित कुमार जैन, एसीए	देई	01.10.2008					

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
582.	407003	सीए. चेतन चन्द्र मोहन वैद्य, एसीए	जबलपुर	01.10.2008
583.	407010	सीए. बकुल गोयल, एसीए	आगरा	01.10.2008
584.	407026	सीए. संजय कपडी, एसीए	भोपाल	01.10.2007
585.	407056	सीए. अदिति गुलाटी, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
586.	407074	सीए. मोहम्मद हसन जैदी, एसीए	लखनऊ	01.10.2007
587.	407098	सीए. महेश जैसलमेरिया, एसीए	अहमदाबाद	01.10.2007
588.	407115	सीए. अनिल रघुवंशी, एसीए	खारगोन	01.10.2008
589.	407152	सीए. धीरेन्द्र त्यागी, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
590.	407153	सीए. विशाल विजय, एसीए	मैंगलोर	01.10.2007
591.	407167	सीए. हिमान्यू खण्डेलवाल, एसीए	मुम्बई	01.10.2007
592.	407172	सीए. गोपाल कृष्णन मुन्ना, एसीए	जयपुर	01.10.2007
593.	407173	सीए. धीरज विजय, एसीए	जयपुर	01.10.2008
594.	407178	सीए. अखिल कुमार गुप्ता, एसीए	गुडगांव	01.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
595.	407190	सीए. हर्ष कुमार सचदेवा, एसीए	इलाहाबाद	01.10.2008
596.	407200	सीए. पूनम अग्रवाल, एसीए	आगरा	01.10.2008
597.	407215	सीए. श्वेता जायसवाल, एसीए	राँची	01.10.2008
598.	407256	सीए. विश्वजीत कुमार ठाकुर, एसीए	दिल्ली	01.10.2007
599.	407271	सीए. सोनम बहेटी, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
600.	407296	सीए. प्रशान्त परीमाल, एसीए	लखनऊ	01.10.2007
601.	407305	सीए. अभिलाषा जैन, एसीए	भिलवारा	01.10.2008
602.	407312	सीए. वैभव भगत, एसीए	कानपुर	01.10.2008
603.	407317	सीए. गौरव जैन, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2007
604.	407346	सीए. प्रीती पटवा, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
605.	407409	सीए. विश्रान्त शुक्ला, एसीए	लखनऊ	01.10.2008
606.	407411	सीए. अमित सोनी, एसीए	इन्दौर	01.10.2008
607.	407427	सीए. रुचि जैन, एसीए	झांसी	01.10.2008
608.	407438	सीए. नवीन सिंघवी, एसीए	मर्तासिटी	01.10.2007
609.	407441	सीए. भूपेन्द्र कुमार गुप्ता, एसीए	जयपुर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
610.	407537	सीए. धर्म कीर्ति जैन, एसीए	भिलवारा	01.10.2008
611.	407581	सीए. द्वारका प्रसाद अजमेर प्रजापति, एसीए		01.10.2007
612.	407731	सीए. आशुतोष बजाज, एसीए	देहरादून	01.10.2008
613.	407757	सीए. रूचि बपना, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
614.	407760	सीए. अभिनव मेहरोत्रा, एसीए	इलाहाबाद	01.10.2008
615.	407771	सीए. विनोद लुधियानी, एसीए	कानपुर	01.10.2008
616.	407794	सीए. अभिषेक सक्सेना, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2007
617.	407821	सीए. ममता जैन, एसीए	बालाघट	01.10.2008
618.	407867	सीए. सुशान्त कुमार, एसीए	पटना	01.10.2008
619.	407878	सीए. पुनीत कुमार बजोरिया, एसीए	चुरु	01.10.2008
620.	407887	सीए. निमेश कुमार सरस्वत, एसीए	काशीपुर	01.10.2008
621.	407937	सीए. संजय अग्रवाल, एसीए	मथुरा	01.10.2008
622.	407944	सीए. नूतन भारती, एसीए	बैंगलोर	01.10.2008
623.	408012	सीए. हिमान्यू विजय, एसीए	कोटा	01.10.2008
624.	408064	सीए. अनूप कुमार मिश्रा, एसीए	सीतापुर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
625.	408141	सीए. धीरज रानासरिया, एसीए	जयपुर	01.10.2008
626.	408199	सीए. विशाल छिब्र, एसीए	देहरादून	01.10.2008
627.	408224	सीए. मनीषा गुप्ता, एसीए	राँची	01.10.2008
628.	408235	सीए. मनीष अग्रवाल, एसीए	जयपुर	01.10.2008
629.	408244	सीए. चन्द्रेश सयानी, एसीए	जबलपुर	01.10.2008
630.	408250	सीए. प्रबुद्ध नारायण त्रिपाठी, एसीए	अम्बिकापुर	01.10.2008
631.	408258	सीए. कमलेश मुरोतिया, एसीए	चित्तौरगढ़	01.10.2008
632.	408285	सीए. कृष्ण कुमार, एसीए	जयपुर	01.10.2008
633.	408304	सीए. प्रितपाल सिंह विल्खू, एसीए	जमशेदपुर	01.10.2008
634.	408373	सीए. नितेश जैन, एसीए	जयपुर	01.10.2008
635.	408374	सीए. पूजा जैन, एसीए	जयपुर	01.10.2008
636.	408398	सीए. अमेन्द्र सिंघवी, एसीए	जोधपुर	01.10.2008
637.	408400	सीए. ऋषि तिवारी, एसीए	लखनऊ	01.10.2008
638.	408422	सीए. प्रतिमा शारदा, एसीए	बास्मर	01.10.2008
639.	408423	सीए. महेश कुमार गोयल, एसीए	जयपुर	01.10.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
640.	408448	सीए. योगेश कुमार चतुर्वेदी, एसीए	मथुरा	01.10.2008	654.	501299	सीए. अजय कुमार गुप्ता, एफसीए	अल्मोड़ा	01.10.2008
641.	408546	सीए. आशीष द्विवेदी, एसीए	पीथमपुर	01.10.2008	655.	501397	सीए. जैन राहुल, एसीए	जयपुर	01.10.2007
642.	408581	सीए. अमित सहाय माथुर, एसीए	देहरादून	01.10.2008	656.	501459	सीए. शर्मा अरविन्द कुमार, एसीए	नोएडा	01.10.2008
643.	408647	सीए. आकिल शराफ, एसीए	उन्नाव	01.10.2008	657.	501495	सीए. शशी शंकर, एसीए	मधुबनी	01.10.2006
644.	409005	सीए. पंकज गर्ग, एसीए	रुरकी	01.10.2008	658.	501632	सीए. निधि अग्रवाल, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
645.	500030	सीए. रवनीत कौर, एसीए	दिल्ली	01.10.2008	659.	502261	सीए. कुलदीप चौहान, एफसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
646.	500092	सीए. मदन अर्जुन, एसीए	नोएडा	01.10.2008	660.	502407	सीए. गुप्ता अमित, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2007
647.	500332	सीए. खुराना समीर, एसीए	बैंगलोर	01.10.2007	661.	502646	सीए. मुनीष जैन, एफसीए	देहरादून	01.10.2007
648.	500471	सीए. राय अविनाश कुमार, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2006	662.	502709	सीए. प्रसाद प्रभात कुमार, एसीए	गुडगांव	01.10.2006
649.	500587	सीए. संजीत कुमार, एसीए	दरभंगा	01.10.2008	663.	502721	सीए. आर्य आनन्द, एसीए	गुडगांव	01.10.2004
650.	501035	सीए. गोयल जितेन्द्र, एसीए	भरतपुर	01.10.2007	664.	503254	सीए. गुप्ता नितिन, एसीए	इटवा	01.10.2008
651.	501150	सीए. सौरभ बंसल, एफसीए	नई दिल्ली	01.10.2008	665.	503413	सीए. मित्तल मेघना, एसीए	कोटा	01.10.2008
652.	501175	सीए. विजय कुमार अग्रवाल, एफसीए	रायपुर	01.10.2008	666.	503454	सीए. जैन विशाल, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2007
653.	501207	सीए. राजीव कुमार, एफसीए	हरिद्वार	01.10.2008	667.	504285	सीए. कश्यप मनीष, एसीए	जयपुर	01.10.2008
					668.	504761	सीए. अश्वनी कुमार, एसीए	हमीरपुर	01.10.2008

क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
669. 504845	सीए. पाण्डेय संजय कुमार, एसीए	लखनऊ	01.10.2008	679. 507020	सीए. सलभ सिंघल, एसीए	गाजियाबाद	01.10.2008
670. 505456	सीए. देवन निशान्त, एसीए	गुडगांव	01.10.2007	680. 507671	सीए. तरून कुमार, एसीए	सुगौली	01.10.2008
671. 505625	सीए. ग्यावली बिपुल, एसीए	देहरादून	01.10.2008	681. 508012	सीए. घनश्याम झा, एसीए	गुडगांव	01.10.2008
672. 505754	सीए. गुप्ता रवि भूषण प्रसाद, एसीए	पूर्निया	01.10.2008	682. 509277	सीए. राजेश कुमार पाण्डेय, एसीए	पटना	01.10.2007
673. 505804	सीए. सिंह यशस्वी, एसीए	सतना	01.10.2008	683. 509298	सीए. रितू यादव, एसीए	नोएडा	01.10.2007
674. 506038	सीए. टीना सिंघल, एसीए	देहरादून	01.10.2007	684. 509798	सीए. रितू मदन, एसीए	नोएडा	01.10.2008
675. 506324	सीए. निमिश अग्रवाल, एसीए	दिल्ली	01.10.2008	685. 510029	सीए. अंकित महेश्वरी, एसीए	हाथरस	01.10.2008
676. 506412	सीए. रवि डागा, एसीए	जोधपुर	01.10.2007	686. 510246	सीए. हेमन्त कुमार गुप्ता, एसीए	नई दिल्ली	01.10.2008
677. 506658	सीए. विशाल जैन, एसीए	दिल्ली	01.10.2008	687. 510347	सीए. अभिषेखा माथुर, एसीए	कल्याण	01.10.2008
678. 506771	सीए. कमल बहादुर पच्चई, एसीए	सोनभद्र	01.10.2007	688. 510565	सीए. सुधा गुप्ता, एसीए	मुम्बई	01.10.2008

(टी. कार्तिकेयन)
सचिव

3सी.सी.ए. (5)(2)/2008-2009 चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की अधिसूचना नं. 3 सी.सी.ए. (4) (1) / 2000-2001 दिनांक 02-02-2001, 3सी.सी.ए.(4) (1)/2004-2005 दिनांक 27-11-2004, 3सी.सी.ए. (4) (1)/2005-2006 दिनांक 07-11-2005, 3सी.सी.ए.(4) (1)/2006-07 दिनांक 16-10-2006, 3सी.सी.ए.(4) (1)/2007-2008 दिनांक 30-10-2007, 3सी.सी.ए. (4) (1)/2008-2009 दिनांक 15-04-2009, 3सी.सी.ए.(4) (1) /99-2000 दिनांक 12-01-2000, 3सी.सी.ए.(4) (2)/2002-2003 दिनांक 29-11-2002, 3सी.सी.ए.(4) (5)/97-98 दिनांक 17-01-1998. के संदर्भ में चार्टर्ड लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र.सं.	सदस्यता नाम संख्या	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	सदस्यता नाम संख्या	स्थान	दिनांक
1.	007373	सीए. श्री गोपाल गर्ग, एफसीए	जयपुर 26.05.2008	13.	074375	सीए. विनोद सिंह, एफसीए	नवी मुम्बई 24.07.2008
2.	013856	सीए. जितेन्द्र कुमार नागपाल एसीए,	गुड़गांव 06.08.2008	14.	074607	सीए. संदीप कुमार, एफसीए,	बंगलौर 30.04.2008
3.	020611	सीए. रवि शंकर के एफसीए,	हैदराबाद 14.07.2008	15.	074699	सीए. बपना विनोद कुमार, एसीए,	गुड़गांव 27.03.2009
4.	049251	सीए. रूंगटा जगदीश जी, एसीए	देवरिया 11.12.2008	16.	075371	सीए. अनिल सक्सेना, एसीए,	मथुरा 05.01.2009
5.	057353	सीए. मुखोपाध्याय अनिरबन एफसीए,	नोएडा 07.05.2008	17.	075914	सीए. सुनील चन्द एफसीए,	जयपुर 14.11.2008
6.	063343	सीए. नवीन कुमार चौबे, एसीए	भागलपुर 01.10.2007	18.	077177	सीए. मिश्रा रवि, एफसीए,	जयपुर 29.04.2008
7.	071226	सीए. अशोक कुमार जैन, एफसीए	जोधपुर 15.04.2008	19.	077226	सीए. धानुका मनोज, एसीए,	इन्दौर 24.03.2008
8.	071696	सीए. मनोज बहादुर, एसीए	मुम्बई 04.07.2008	20.	077822	सीए. राय प्रवीण, एसीए,	न्यू दिल्ली 30.04.2008
9.	072740	सीए. राजीव सिंघी, एसीए,	मऊ 21.04.2008	21.	078269	सीए. अग्रवाल अजय, एसीए,	भिलाई 14.05.2008
10.	073631	सीए. साबू मनोज, एफसीए,	जयपुर 18.09.2008	22.	079178	सीए., पावा जीनू, एसीए,	नोयडा 06.05.2008
11.	074006	सीए. शर्मा अनिल कुमार, एफसीए	गाजियाबाद 09.06.2008	23.	079799	सीए. राठी मनोज कुमार, एसीए,	पोखरण 14.10.2008
12.	074021	सीए. जैन राजेन्द्र कुमार, एसीए,	जोधपुर 26.12.2008				

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
24.	082031	सीए. अग्रवाल सुभाष सी, एफसीए	नोयडा	04.07.2008
25.	083832	सीए. सुशील कुमार, एफसीए,	दिल्ली	07.05.2008
26.	086753	सीए. डालमिया संदीप कुमार एफसीए	मुम्बई	27.10.2008
27.	110111	सीए. राकेश जैन, एसीए	मुम्बई	17.07.2008
28.	401226	सीए. शर्मा अब्बास, एसीए	मुम्बई	31.07.2008
29.	402656	सीए. पुनीत वेद, एसीए	इन्दौर	22.04.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
30.	402713	सीए. जैन अंकुश, एसीए	कोटा	16.04.2008
31.	403912	सीए. मुनदरा दिनेश कुमार, एसीए	चितौडगढ़	13.05.2008
32.	404027	सीए. भारती रोहित, एसीए	सहारनपुर	06.01.2009
33.	405144	सीए. टटेर सुशील, एसीए	व्यावर	28.04.2008
34.	406093	सीए. शिप्रा त्रिवेदी, एसीए	मुम्बई	01.10.2008

(Handwritten signature)

(टी. कार्तिकेयन)
सचिव

नं० 3 सी.सी.ए. (5)(3)/2008-2009 :- चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की अधिसूचना नम्बर 3 सी.सी.ए. (4) (1)/2006/2007 दिनांक 16-10-2006, 3 सी.सी.ए. (4) (1)/2007-2008 दिनांक 30-10-2007, 3 सी.सी.ए. (4) (1)/2008-2009 दिनांक 15-04-2009, के सन्दर्भ में चार्टर्ड लेखाकार विनियम सन् 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र.सं.	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
संख्या				संख्या			
1.	011646 सी.ए. लाल कैलाश भुसुन, एसीए.	नोयडा	01.10.2008	12.	091944 सी.ए. अग्रवाल आनन्द कुमार, एसीए.	दिल्ली	01.10.2006
2.	055844 सी.ए. सिंह रंजीत कुमार, एफसीए	हैदराबाद	01.10.2007	13.	097670 सी.ए. महाजन राम, एसीए	गुडगांव	01.10.2008
3.	060703 सी.ए. डेबोरता संकेत, एसीए	मुम्बई	01.10.2005	14.	098531 सी.ए. बंसल दीपक, एसीए	भिवाडी	01.10.2007
4.	065573 सी.ए. दीपक कुमार अग्रवाल, एसीए	रक्सील	01.10.2008	15.	105109 सी.ए. अग्रवाल अमित राकेश, एसीए	दिल्ली	01.10.2008
5.	072928 सी.ए. कपूर दिनेश, एसीए	नई दिल्ली	01.10.1995	16.	400109 सी.ए. सारदा संदीप कुमार, एसीए	जयपुर	01.10.2006
6.	072998 सी.ए. गंग विनोद कुमार, एसीए	इन्दौर	01.10.2008	17.	400312 सी.ए. चौधरी आशिमा, एसीए	गजियाबाद	01.10.2008
7.	074652 सी.ए. वर्मा राजेश कुमार, एसीए	गुडगांव	01.10.2007	18.	400386 सी.ए. महेश्वरी कल्पेश, एसीए	जोधपुर	01.10.2007
8.	075955 सी.ए. गंगर दीन बन्धु, एफसीए	भिलवारा	01.10.2007	19.	401337 सी.ए. सदमा मुनीश, एफसीए	देहरादून	01.10.2007
9.	078516 सी.ए. अग्रवाल संजय, एफसीए	बोकारो स्टील सिटी	01.10.2008	20.	402619 सी.ए. आनन्द पाटनी, एसीए	हरदा	01.10.2007
10.	079407 सी.ए. नहाटा रोहित, एसीए	उदयपुर	01.10.2008	21.	402742 सी.ए. जैन कपिल, एसीए	चेन्नई	01.10.2007
11.	082879 सी.ए. गिरीशचन्द्र बदनी, एसीए	ब्यावर	01.10.1993	22.	402918 सी.ए. गुप्ता सुनील, एसीए	अलवर	01.10.2006

S.No.	M.R.N.	Name	Date
23.	403123	सीए. अग्रवाल हरीश शिवदास, एसीए	मनवाड 01.10.2007
24.	403148	सीए. चन्द्रा चंदन, एसीए	जयपुर 01.10.2008
25.	403269	सीए. देशपाण्डे पंकज, एसीए	इन्दौर 01.10.2007
26.	404154	सीए. अग्रवाल राम किशन, एसीए	जयपुर 01.10.2007
27.	404614	सीए. गुलाटी सुमित, एसीए	लखनऊ 1.10.2008
28.	404743	सीए. कोलवाल गौरव, एसीए	जयपुर 01.10.2005
29.	405662	सीए. रजित महेन्द्रा विष्ट्यानी एसीए	रतलाम 01.10.2008
30.	406093	सीए. शिप्रा त्रिवेदी, एसीए	मुम्बई 01.10.2008
31.	406734	सीए. प्रतीक सिन्हा, एसीए	मुम्बई 01.10.2007
32.	406823	सीए. योगेश नागदा, एसीए	उदयपुर 01.10.2007

S.No.	M.R.N.	Name	Date
33.	407077	सीए. अर्जुन सिंह अंजना, एसीए	मुम्बई 01.10.2008
34.	407419	सीए. प्रशान्त बिसेन, एसीए	रायपुर 01.10.2008
35.	407488	सीए. अजय गोयल एसीए	मुम्बई 01.10.2008
36.	408682	सीए. श्रुति चितलंगिया, एसीए	मुम्बई 01.10.2008
37.	408690	सीए. गौरव गुप्ता एसीए	गुडगांव 01.10.2008
38.	408774	सीए. मनोज कनवार, राठौर एसीए	जयपुर 01.10.2008
39.	500852	सीए. कोहली पंकज, एसीए	बीकानेर 01.10.2008
40.	503877	सीए. बलवन्त कुमार, एसीए	गजियाबाद 01.10.2008
41.	508843	सीए. अमोल अगरवाल, एसीए	बंगलौर 01.10.2008
42.	511299	सीए. विनोद कुमार भुयान, एसीए	अस्का 01.10.2008

(टी0 कार्तिकेयन)
सचिव

नं० 3सी.सी.ए. (8)(1)/2008-2009— चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम 10(1) खण्ड-3 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गयी तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं ।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
----------	----------------	-----	-------	--------

1. 008951 सी.ए. प्रेम प्रकाश, इन्दौर 01.04.2008
एफसीए
2. 015972 सी.ए. अगीवाल जीताराम, एसीए जमशेदपुर 03.03.2008
3. 016828 सी.ए. नागोरी चित्तौर— 10.12.2008
निरंजन लाल, गढ़
एफसीए
4. 025884 सी.ए. आनन्द कुमार दामानी इन्दौर 01.01.2009
एफसीए
5. 034567 सी.ए. विजयवर्गीया इन्दौर 09.03.2009
कौशल किशोर,
एफसीए
6. 035392 सी.ए. शर्मा अशोक भोपाल 12.08.2008
कुमार ओमकारमल,
एफसीए
7. 042040 सी.ए. नुवल भीलवारा 01.04.2008
दिनेश कुमार,
एफसीए
8. 045555 सी.ए. तोषनीवाल सतना 03.03.2008
कैलाश चन्द्र,
एफसीए
9. 046702 सी.ए. स्वामीनाथन नोएडा 08.05.2008
वारागुर कृष्णामुर,
एसीए

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
----------	----------------	-----	-------	--------

10. 050108 सी.ए. शर्मा प्रभु भीलवारा 01.04.2008
दयाल, एफसीए
11. 059964 सी.ए. अग्रवाल नोएडा 09.06.2008
(बसंत कुमार एसीए
12. 064655 सी.ए. अमित कुमार रामगढ़ 13.06.2008
अगरवाल, एसीए
13. 071104 सी.ए. अगरवाल सतना 22.01.2009
बसन्त कुमार,
एफसीए
14. 071444 सी.ए. रस्तोगी नोएडा 07.07.2008
राकेश कुमार,
एफसीए
15. 071457 सी.ए. खेतावत भोपाल 01.09.2008
विजय, एफसीए
16. 071761 सी.ए. अग्रवाल कानपुर 09.03.2009
राजेश, एफसीए
17. 072496 सी.ए. झाला इन्दौर 09.03.2009
भवानी सिंह,
एफसीए
18. 073129 सी.ए. राजीव कानपुर 01.11.2008
मावकिन, एफसीए
19. 073364 सी.ए. राठी नई 16.05.2007
विक्रम, एफसीए दिल्ली

क्र. सं. सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सं. सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
20. 073748	सीए. गुप्ता संजीव, एफसीए	मेरठ	04.03.2009	33. 076699	सीए. शरण गोविन्द, एफसीए	नई दिल्ली	18.12.2008
21. 073948	सीए. वाही संजय, एफसीए	लखनऊ	31.03.2008	34. 077154	सीए. तरफदार ज्योति रंजन, एफसीए	कानपुर	01.07.2008
22. 074184	सीए. छिब्र शामी, एसीए	ओटारियो	22.09.2008	35. 077171	सीए. अनिल कुमार अगरवाल, एफसीए	कानपुर	30.09.2008
23. 074233	सीए. मंत्री चन्दर प्रकाश, एफसीए	भीलवारा	01.04.2008	36. 077253	सीए. शर्मा राजीव, एफसीए	आगरा	29.12.2008
24. 075446	सीए. मोदी मुनीष एसीए	जयपुर	06.03.2009	37. 077357	सीए. शुक्ला सौरभ, एफसीए	रायपुर	18.11.2008
25. 075481	सीए. अगरवाल अनुप कुमार, एफसीए	कानपुर	16.08.2008	38. 077364	सीए. अगरवाल सन्दीप कुमार, एसीए	बरेली	18.03.2009
26. 075705	सीए. झा नन्द कुमार, एफसीए	बोकारो	13.01.2009	39. 077436	सीए. अगरवाल मनोज, एसीए	अलवर	01.03.2009
27. 076001	सीए. केडिया शशीकान्त, एफसीए	कानपुर	17.03.2009	40. 077515	सीए. खण्डेलवाल दिनेश, एफसीए	जयपुर	26.10.2008
28. 076185	सीए. मुकेश कुमार बगरिया, एसीए	इन्दौर	10.08.2009	41. 077641	सीए. महेश्वरी सुमन, एफसीए	अजमेर	02.02.2008
29. 076245	सीए. अगरवाल शरद कुमार, एसीए	कुच	06.06.2008	42. 077646	सीए. गुप्ता सुभाष चन्द्र, एफसीए	जयपुर	13.06.2008
30. 076262	सीए. गुप्ता अजय कुमार, एफसीए	आगरा	01.07.2008	43. 077892	सीए. दीपक कुमार केड़ावत, एफसीए	जयपुर	01.04.2008
31. 076312	सीए. अगरवाल विपुल, एसीए	गुडगांव	01.04.2008	44. 078633	सीए. मित्तल राजेश कुमार, एसीए	गाजियाबाद	17.03.2009
32. 076568	सीए. मेहता मनीष, एफसीए	इन्दौर	11.08.2008				

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
45.	078740 सीए. गुप्ता विवेक, जयपुर एफसीए		31.03.2008
46.	078775 सीए. बाजपेयी चन्द्र किशोर, एफसीए	बांदा	01.04.2008
47.	078921 सीए. अग्रवाल अतुल कुमार, एफसीए	अलीगढ़	01.03.2009
48.	078951 सीए. जिन्दल सुरभि सेन, एफसीए	मेरठ	15.05.2008
49.	079003 सीए. शाह विकास, एफसीए	इन्दौर	01.06.2008
50.	079315 सीए. जितेन्द्र अरोरा, एफसीए	मेरठ	25.08.2008
51.	079429 सीए. विजय राजेश, एफसीए	जयपुर	30.10.2008
52.	079646 सीए. भोजवानी प्रमोद कुमार, एफसीए	भोपाल	17.06.2008
53.	079813 सीए. विशाल गुप्ता, एफसीए	फरुखाबाद	01.04.2008
54.	079839 सीए. अतुल गुप्ता, एफसीए	कानपुर	31.03.2008
55.	085954 सीए. अवस्थी कमल, एफसीए	रायबरेली	23.06.2008
56.	089113 सीए. छाबरा दीपक, एफसीए	नोएडा	16.01.2009
57.	091180 सीए. गोयल आशीष, एसीए	गाजियाबाद	01.04.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
58.	093264 सीए. पुनीत सैम, एफसीए	नोएडा	04.03.2009
59.	095579 सीए. महेश्वरी संजय, एफसीए	गाजियाबाद	01.03.2009
60.	098105 सीए. भरद्वाज विनोद, एसीए	पटना	13.08.2008
61.	113259 सीए. आशा गौरव महेश्वरी, एसीए	जयपुर	12.09.2008
62.	118667 सीए. जैन पीयूष कुमार, एसीए	नवी-मुम्बई	05.10.2008
63.	124101 सीए. विनीता चौधरी, एसीए	उदयपुर	19.05.2008
64.	400063 सीए. विजय पाटीदार, एफसीए	धार	10.01.2009
65.	400065 सीए. नवीन परासर, एफसीए	गुडगांव	04.07.2008
66.	400114 सीए. कपिल जैन, एफसीए	इन्दौर	18.03.2009
67.	400257 सीए. गिरधारी सिंह, एसीए	जयपुर	01.09.2008
68.	400421 सीए. सहदेव रोहित, एसीए	कानपुर	22.09.2008
69.	400434 सीए. अमित रंजन, एफसीए	कोलकाता	04.02.2009
70.	400436 सीए. जय भूषण एसीए	लखनऊ	04.08.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
71.	400450	सीए. निगम विवेक, एसीए	लखनऊ	07.07.2008
72.	400461	सीए. प्रभु दयाल अग्रवाल, एफसीए	जयपुर	01.04.2008
73.	400576	सीए. सुनील कुमार कंछल, एफसीए	जयपुर	01.09.2008
74.	400593	सीए. नितिन सेठी, एफसीए	जयपुर	31.03.2008
75.	400677	सीए. निर्मल कुमार अगरवाल, एफसीए	जयपुर	02.02.2009
76.	400718	सीए. राजेन्द्र कुमार जैन, एफसीए	रायगढ़	01.04.2008
77.	400734	सीए. जैन मनीष, एसीए	उज्जैन	22.04.2008
78.	400888	सीए. संजीव कुमार अग्रवाल, एफसीए	कानपुर	07.10.2008
79.	400941	सीए. कपूर विपुल, नोएडा एसीए	नोएडा	07.12.2007
80.	400990	सीए. निशान्त गुप्ता, एफसीए	जयपुर	13.10.2008
81.	401025	सीए. सिंह सम्पत, एसीए	जयपुर	01.04.2008
82.	401183	सीए. अमरीश खण्डेलवाल, एफसीए	इन्दौर	01.04.2008

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
83.	401273	सीए. गोरवानी कविता, एसीए	जयपुर	01.10.2008
84.	401287	सीए. राजीव जैन, एसीए	जयपुर	01.04.2008
85.	401332	सीए. अमित गुप्ता, एफसीए	सिंगापुर	16.12.2008
86.	401450	सीए. नव्या एफसीए	नोएडा	01.07.2008
87.	401510	सीए. मुन्द्रा सुनील थाने कुमार, एसीए	मुन्द्रा	23.03.2009
88.	401545	सीए. मोहम्मद शकील खान, एफसीए	राजसमन्द	26.12.2008
89.	401551	सीए. अनिल बन्सल, एफसीए	नोएडा	02.01.2009
90.	401601	सीए. अरोरा रीतेश, एसीए	लखनऊ	31.03.2008
91.	401618	सीए. रुंगटा जया, एसीए	दिल्ली	01.04.2008
92.	401619	सीए. अगरवाल ब्रिज गोपाल, एसीए	लखनऊ	25.03.2008
93.	401641	सीए. अंकुर बंसल, एफसीए	आगरा	25.09.2008
94.	401646	सीए. मिलेन्द्र कुमार तिवारी, एफसीए	जबलपुर	04.05.2008
95.	401678	सीए. रजनीश गुप्ता, एफसीए	धिलासपुर	12.05.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
96. 401719	सीए. कंसल आदर्श कुमार, एसीए	मेरठ	11.02.2009
97. 401777	सीए. महेश्वरी गौरव, एसीए	गाजिया- बाद	27.04.2008
98. 401847	सीए. अनिल कुमार जैन, एफसीए	टोंक	26.03.2008
99. 401966	सीए. सक्सेना मनमोहन कुमार, एसीए	चंदौसी	26.05.2008
100. 402000	सीए. सुमित बड़वानी, एफसीए	रायपुर	24.02.2009
101. 402046	सीए. राजगरहिया रांची रचना, एसीए	रांची	01.04.2008
102. 402090	सीए. करुणा भनसाली, एफसीए	दिल्ली	22.06.2008
103. 402093	सीए. जसलीन कौर भसीन, एफसीए	रांची	01.03.2009
104. 402126	सीए. मुनोत दिनेश कुमार, एसीए	पाली	01.12.2008
105. 402150	सीए. सौरभ मेहरोत्रा, एफसीए	लखनऊ	16.06.2008
106. 402590	सीए. गहलोत श्वेता, एसीए	जोधपुर	31.03.2008
107. 402796	सीए. गुप्ता वनिता, एसीए	जयपुर	09.03.2009

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
108. 402818	सीए. शर्मा चन्द्र मोहन, एसीए	जयपुर	15.04.2008
109. 402829	सीए. सक्सेना देवर्षि, एसीए	जयपुर	01.02.2008
110. 402913	सीए. मित्तल पवन, एसीए	इन्दौर	21.02.2009
111. 402961	सीए. सोनी सनन्द कुमार, एसीए	केकरी	31.03.2008
112. 402998	सीए. मंगल अतिश, एसीए	मीरा रोड	28.09.2008
113. 403059	सीए. गुप्ता गौरव कुमार, एसीए	कोटा	03.05.2008
114. 403121	सीए. भण्डारी मनीष, एसीए	उदयपुर	12.03.2008
115. 403421	सीए. बोरडिया कमल कुमार, एसीए	भीलवारा	01.04.2008
116. 403462	सीए. महेश्वरी रमेश, एसीए	उदयपुर	15.03.2008
117. 403497	सीए. भण्डारी अनिल कुमार, एसीए	भीलवाडा	03.07.2008
118. 403553	सीए. विजय शर्मा, एसीए	स्तलाम	26.03.2008
119. 403607	सीए. मनीष गुप्ता, एसीए	कानपुर	16.12.2008

क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक	क्र. सदस्यता सं. संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
120. 403894	सीए. लाठ शान्तनु, एसीए	लखनऊ	01.04.2008	132. 404602	सीए. कृष्णानी प्रकाश कुमार, एसीए	जयपुर	20.12.2008
121. 404018	सीए. पूनम सिक्का, एसीए	कोटा	30.06.2008	133. 404712	सीए. देवधर रवीन्द्र, एसीए	मुम्बई	01.07.2008
122. 404047	सीए. अगरवाल रामेश्वर प्रसाद, एसीए	जयपुर	26.12.2008	134. 404725	सीए. शर्मा कैलाश, एसीए	जयपुर	01.05.2008
123. 404104	सीए. मंगरुलकेर शान्तनु विष्णूपत, एसीए	नागपुर	06.12.2008	135. 404738	सीए. खटेर अंकुर, एसीए	जयपुर	01.04.2008
124. 404119	सीए. वखरैया पिकेश कुमार, एसीए	इन्दौर	05.11.2008	136. 404765	सीए. पंकज कुमार गुप्ता, एसीए	देहरादून	02.09.2008
125. 404175	सीए. गडिया सुलभा, एसीए	रतलाम	25.03.2008	137. 404900	सीए. मनीष जैन, एसीए	अलवर	01.04.2008
126. 404303	सीए. पूर्णिमा काबरा, एसीए	मुम्बई	20.04.2008	138. 404948	सीए. सिद्धार्थ सुभाष सेठी, एसीए	दुर्ग	15.03.2008
127. 404328	सीए. हेडा महेश कुमार, एसीए	अजमेर	20.03.2008	139. 404998	सीए. डारडा विनीत, एसीए	भीलवाडा	02.03.2009
128. 404345	सीए. व्यास पारितोष, एसीए	इन्दौर	01.06.2008	140. 405137	सीए. नीलम शर्मा, एसीए	उदयपुर	18.06.2008
129. 404394	सीए. अगरवाल नरेन्द्र कुमार, एसीए	जयपुर	05.09.2008	141. 405179	सीए. महेश्वरी प्रशान्त, एसीए	कानपुर	27.02.2009
130. 404430	सीए. गर्ग लवलेश, एसीए	आगरा	27.10.2008	142. 405271	सीए. सचिन गुप्ता, एसीए	हापुड	01.04.2008
131. 404505	सीए. हेमन्त एओले, एसीए	छिंदवाडा	22.08.2008	143. 405273	सीए. ओष्टवाल आशीष, एसीए	उदयपुर	01.01.2009

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
144.	405323	सीए. श्रवण गोयल	रांची	01.05.2008
145.	405335	सीए. दिलीप दास, एसीए	गाजियाबाद	26.03.2008
146.	405358	सीए. विनीत पटेल, एसीए	रायपुर	30.10.2008
147.	405389	सीए. राजेश्वर तेलंग, एसीए	ग्वालियर	31.12.2008
148.	405399	सीए. संजय कुमार शर्मा, एसीए	जयपुर	23.08.2008
149.	405429	सीए. प्रवीण कुमार शर्मा, एसीए	जोधपुर	15.07.2008
150.	405467	सीए. निखिल टण्डन, एसीए	रुद्रपुर	01.12.2008
151.	405535	सीए. निवेदिता पोद्दार, एसीए	कोटा	10.10.2008
152.	405745	सीए. मुदित कुमार अग्रवाल, एसीए	वाराणसी	13.04.2008
153.	405746	सीए. अमित अगरवाल, एसीए	ग्वालियर	01.05.2008
154.	405765	सीए. विपिन कुमार श्रीवास्तव, एसीए	लखनऊ	16.03.2008
155.	405838	सीए. कुलदीप महेश्वरी, एसीए	मुम्बई	10.08.2008

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
156.	405857	सीए. रोहित पटेलिया, एसीए	दिल्ली	01.08.2008
157.	405933	सीए. समीर अगरवाल, एसीए	कानपुर	02.01.2009
158.	405942	सीए. हेमन्त कुमार, एसीए	सतना	20.03.2009
159.	405976	सीए. मोहित कुमार, एसीए	लखनऊ	19.01.2008
160.	405980	सीए. विपिन कुमार, एसीए	आगरा	13.03.2009
161.	406011	सीए. सुदीप पन्त, एसीए	लखनऊ	25.03.2008
162.	406021	सीए. मनीष गोयल, एसीए	बरेली	27.11.2008
163.	406060	सीए. कौशलेन्द्र पाण्डेय, एसीए	कानपुर	01.12.2008
164.	406073	सीए. संजय कुमार मुंठाडा, एसीए	वाराणसी	01.12.2008
165.	406179	सीए. शिव कुमार गुप्ता, एसीए	चोमू	01.04.2008
166.	406206	सीए. मुकेश कुमार जैन, एसीए	दुर्ग	02.03.2009
167.	406277	शान्तुन मनी सिंह, एसीए	मेरठ	11.06.2007
168.	406324	सीए. विकास कुमार बंसल, एसीए	इन्दौर	05.01.2009

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
169. 406330	सीए.	रुपेश शर्मा, एसीए	मेरठ	23.01.2009
170. 406473	सीए.	स्वाती सिंह एसीए	जयपुर	01.04.2008
171. 406576	सीए.	वैभव शर्मा, एसीए	जयपुर	01.05.2008
172. 406678	सीए.	भावना मांगलिक, एसीए	कानपुर	01.09.2008
173. 406725	सीए.	विवेक बाजपेई, एसीए	कानपुर	01.04.2008
174. 406733	सीए.	मनीष अगरवाल, एसीए	कानपुर	28.03.2008
175. 406831	सीए.	नमिता जैन, एसीए	जयपुर	01.04.2008
176. 406904	सीए.	प्रमोद अगरवाल, एसीए	आगरा	26.03.2008
177. 407046	सीए.	आशीष अनिल गुप्ता, एसीए	इन्दौर	21.07.2008
178. 407049	सीए.	दीपक सिंह एसीए	मुरादाबाद	01.04.2008
179. 407061	सीए.	कुलदीप अगरवाल, एसीए	उदयपुर	01.04.2008
180. 407104	सीए.	कपिल बंसल, एसीए	श्रीगंगा— नगर	17.01.2009
181. 407217	सीए.	अनुराधा जैन, एसीए	जयपुर	01.10.2008


क्र. संख्या	सदस्यता	नाम	स्थान	दिनांक
182. 407258	सीए.	रचना मित्तल, एसीए	जमशेद— पुर	01.03.2008
183. 407284	सीए.	नवीन जैन, एसीए	जयपुर	01.04.2008
184. 407306	सीए.	संदीप कुमार, एसीए	संगरिया	25.08.2008
185. 407356	सीए.	जुगल किशोर, एसीए	जयपुर	25.03.2008
186. 407420	सीए.	हरीश अरोरा, एसीए	गुडगांव	22.05.2008
187. 407497	सीए.	तिप्ती यादव, एसीए	ग्वालियर	23.10.2008
188. 407502	सीए.	सौरभ अगरवाल, एसीए	कानपुर	01.04.2008
189. 407552	सीए.	अभिषेक शर्मा, एसीए	जयपुर	02.02.2009
190. 407600	सीए.	सुमित कुमार, एसीए	पटना	20.01.2009
191. 407712	सीए.	शिखा पाण्डेय, एसीए	रांची	03.09.2008
192. 407745	सीए.	अशोक जैन, एसीए	ग्वालियर	05.07.2008
193. 408121	सीए.	आशु जैन, एसीए	मेरठ	01.04.2008
194. 408175	सीए.	आशुतोष साहू, एसीए	इलाहाबाद	24.08.2008
195. 408189	सीए.	मनोज कुमार शर्मा, एसीए	सीकर	02.05.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
196. 408285	सीए. कृष्ण कुमार, एसीए	जयपुर	01.04.2008
197. 408373	सीए. नितेश जैन, एसीए	जयपुर	28.05.2008
198. 408454	सीए. अमित जोशी, एसीए	रांची	23.06.2008
199. 408496	सीए. शिखर अगरवाल, एसीए	नई दिल्ली	23.06.2008
200. 408587	सीए. नेहा महेश्वरी, एसीए	भीलवारा	19.03.2009
201. 408643	सीए. श्रवण कुमार शर्मा, एसीए	जमशेदपुर	07.07.2008
202. 408712	सीए. ईशान अगरवाल, एसीए	मुम्बई	01.04.2008
203. 408716	सीए. विवेक अगरवाल, एसीए	नई दिल्ली	12.06.2008
204. 408717	सीए. सुनील महेन्द्र, एसीए	मेरठ	22.05.2008
205. 408728	सीए. रोहन गुप्ता, एसीए	इलाहाबाद	02.07.2008
206. 408745	सीए. आस्था रंगन, एसीए	रसलवाईमाह	01.04.2008
207. 408756	सीए. शान् जैन, एसीए	देहरादून	25.02.2009
208. 408767	सीए. अन्तरा पौल, एसीए	रांची	14.10.2008

क्र. संख्या	सदस्यता नाम	स्थान	दिनांक
209. 408781	सीए. दुर्गेश कुमार तिवारी, एसीए	कोलकाता	01.04.2008
210. 408787	सीए. सन्दीप कुमार बिन्दल, एसीए	जयपुर	13.08.2008
211. 408897	सीए. सिद्धार्थ अरोरा, एसीए	नई दिल्ली	08.03.2008
212. 408909	सीए. कपिल जैन, एसीए	रुरकी	21.07.2008
213. 408922	सीए. हितेश कुमार अगरवाल, एसीए	आगरा	01.08.2008
214. 409108	सीए. प्रियंका समदानी, एसीए	भीलवारा	28.07.2008
215. 409125	सीए. नितिन मेहरोत्रा	मुम्बई	30.06.2008
216. 409146	सीए. राजकुमार जैन, एसीए	सवाय-माधोपुर	26.12.2008
217. 409187	सीए. पायल जैन, एसीए	उदयपुर	01.10.2008
218. 409294	सीए. सौरभ अगरवाल, एसीए	गुड़गांव	29.08.2008
219. 409304	सीए. जाग्रति मालवीय, एसीए	जबलपुर	09.03.2009
220. 409356	सीए. विक्रम कुमार, एसीए	शेवोगंज	19.01.2009
221. 409368	सीए. सौरभ गुप्ता, एसीए	लखनऊ	30.01.2009

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
222.	409377	सीए. दिव्य किरन बंसल, एसीए	हरिद्वार	05.12.2008
223.	409459	सीए. सावन गडिया, एसीए	नोएडा	02.12.2008
224.	409503	सीए. दीपक गर्ग, एसीए	मोरेना	10.11.2008
225.	409525	सीए. विकास श्रीवास्तवा, एसीए	जबलपुर	10.02.2009
226.	409714	सीए. रविश कुमार अरोरा, एसीए	लखनऊ	12.01.2009
227.	409743	सीए. कुसुम भारती, एसीए	सहारनपुर	07.02.2009
228.	409872	सीए. योगेश कुमार वर्मा, एसीए	मोदी-नगर	01.01.2009
229.	500291	सीए. राजेश कुमार, एसीए	गाजियाबाद	11.09.2008
230.	501291	सीए. मोहित मनचन्दा, एफसीए	कानपुर	16.12.2008
231.	504353	सीए. जैन सन्दीप, एसीए	दिल्ली	03.01.2009

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान	दिनांक
232.	505428	सीए. ऋषि देव, एसीए	रायगढ़	31.12.2008
233.	507121	सीए. सुनीता यादव, एसीए	टीकम-गढ़	29.12.2008
234.	507404	सीए. मोहिषि झाँ, एसीए	नोएडा	01.07.2008
235.	509237	सीए. अमित वर्मा, एसीए	नवी-मुम्बई	01.04.2008
236.	509318	सीए. अंकुर अग्रवाल, एसीए	गाजिया-अग्रवाल	01.04.2008
237.	509573	सीए. रोहित कुमार भलोटिया, एसीए	रायगढ़	29.12.2008
238.	509602	सीए. अभिषेक कुमार, एसीए	रांची	17.12.2008
239.	510633	सीए. डी निरंजन कुमार, एसीए	धनबाद	14.08.2008
240.	510707	सीए. गौरव सिंह खुराना, एसीए	दिल्ली	02.03.2009
241.	511053	सीए. सन्दीप कुमार गर्ग, एसीए	हापुर	11.11.2008
242.	511609	सीए. विष्णु कुमार, एसीए	भरतपुर	28.11.2008


 (टी. कार्तिकेयन)
 सचिव

नं० 3सी.सी.ए. (8)(2)/2008.2009 - रेगुलेशन 10(1) खण्ड-4 जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अधिनियम के 10(2)(बी) के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर, 2008 से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
1.	002755	सी.ए. शर्मा शंकर लाल, एफसीए	मुम्बई
2.	009239	सी.ए. ओम प्रकाश रैंगटा, एफसीए	इन्दौर
3.	10651	सी.ए. जैन सतेन्द्र कुमार, एफसीए	जबलपुर
4.	011925	सी.ए. लड़्ढा रामनिवास, एफसीए	भिलवाड़ा
5.	020883	सी.ए. राज कुमार धीवी एसीए	जयपुर
6.	035861	सी.ए. नगोरी गौतम कुमार इंदौर एफसीए	
7.	038846	सी.ए. बिलानी राधा मनोहर, एफसीए	भोपाल
8.	041334	सी.ए. नरेडूडी रवी कुमार, एफसीए	भिलवाड़ा
9.	041406	सी.ए. पोद्दार विवेक, एफसीए	मुम्बई
10.	043660	सी.ए. मेहता राकेश, एसीए	लखनऊ
11.	045313	सी.ए. गुप्ता सीमा मुरारी लाल, एसीए	अलवर
12.	050847	सी.ए. गर्ग रमेश चन्द्र, एफसीए	किशनगढ़
13.	054145	सी.ए. अग्रवाल राजेन्द्र, एफसीए	रायपुर
14.	054911	सी.ए. चौधरी श्री नारायण एफसीए	हरद्वार

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
15.	055599	सी.ए. राज नारायण नरोन, एफसीए	बी देवघर
16.	056561	सी.ए. खेतान पंकज, एफसीए	गोरखपुर
17.	057272	सी.ए. अग्रवाल विकास, एफसीए	रायपुर
18.	057496	सी.ए. सिंह अजीत कुमार, एसीए	भिवाड़ी
19.	059136	सी.ए. सोनथलिया दिनेश कुमार, एफसीए	रीवा
20.	061489	सी.ए. मों अकरामुल हक, एसीए	समस्तीपुर
21.	061798	सी.ए. केडिया आनन्द एसीए	पुर्निया
22.	063264	सी.ए. मस्कारा अर्चना एसीए	बेगुसराय
23.	065606	सी.ए. उत्तम कुमार भटवाल, एसीए	मधुपुर
24.	070352	सी.ए. गोपाल कृष्ण, एफसीए	नोयडा
25.	070570	सी.ए. नरेन्द्र कुमार जैन, एफसीए	उदयपुर
26.	070949	सी.ए. मुद्गल विमल कान्त, एफसीए	लखनऊ
27.	070984	सी.ए. गुप्ता जितेन्द्र कुमार, एफसीए	गाजियाबाद

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान	क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
28.	071353	सी.ए. ज्योति कुमार जैन, एसीए	नोयडा	45.	074530	सी.ए. जैन नरेश कुमार, एसीए	कोटा
29.	071522	सी.ए. बपना अनिल कुमार, एफसीए	जयपुर	46.	074697	सी.ए. अग्रवाल कृष्णकान्त, एसीए	सहिबाबाद
30.	071714	सी.ए. मंगल अशोक, एफसीए	भीलवाड़ा	47.	074833	सी.ए. गुप्ता मुकेश, एफसीए	अलवर
31.	071735	सी.ए. उत्तम कुमार कपूर, एफसीए	इंदौर	48.	074903	सी.ए. पंजवानी अनिल, एफसीए	जयपुर
32.	072247	सी.ए. बिल्लानी मनोहर एफसीए	भोपाल	49.	074957	सी.ए. रघुवंशी संदीप, एफसीए	जामनगर
33.	072591	सी.ए. अग्रवाल श्री कुमार, एफसीए	बरेली	50.	075044	सी.ए. त्रेहान राजन, एसीए	गोरखपुर
34.	072902	सी.ए. अग्रवाल शंकर लाल, एफसीए	बांसवारा	51.	075231	सी.ए. जिन्दल जयन्ती लाल, एफसीए	लखनऊ
35.	073072	सी.ए. अग्रवाल संजीव, एफसीए	कानपुर	52.	075489	सी.ए. मोहम्मद मोसीन, एफसीए	मेरठ
36.	073253	सी.ए. परवेज अहमद, एसीए	कानपुर	53.	075576	सी.ए. जैन पूरन माल, एसीए	इंदौर
37.	073814	सी.ए. राजेश कुमार, एफसीए	पटना	54.	075746	सी.ए. खंडेलवाल मुकेश कुमार, एफसीए	इंदौर
38.	073881	सी.ए. राजेश बोहरा, एफसीए	हरद्वारा	55.	075879	सी.ए. उपाध्याय अशीष कुमार, एसीए	लखनऊ
39.	073912	सी.ए. चोपाड़ा ललित कुमार, एफसीए	रायपुर	56.	075978	सी.ए. मेहरोत्रा राजीव, एसीए	गजियाबाद
40.	073986	सी.ए. फेरवानी महेश कुमार, एफसीए	इंदौर	57.	076011	सी.ए. गोयल ब्रजेश, एसीए	अजमेर
41.	074202	सी.ए. गुप्ता महेश चन्द, एफसीए	भरतपुर	58.	076114	सी.ए. जैन विकास, एफसीए	गजियाबाद
42.	074259	सी.ए. पमनानी विशन कुमार, एसीए	जयपुर	59.	076284	सी.ए. ब्रजेश कुमार, एफसीए	पटना
43.	074446	सी.ए. अग्रवाल नितेश, एसीए	नोयडा	60.	076394	सी.ए. दुबे मृदुल, एसीए	लखनऊ
44.	074524	सी.ए. नरेन्द्र कोठारी, एफसीए	जोधपुर	61.	076415	सी.ए. पोद्दार कपिल, एसीए	भरतपुर

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
62.	076435	सी.ए. बजाज मनोज, एसीए	जयपुर
63.	076556	सी.ए. गुप्ता विजय कुमार, एसीए	जयपुर
64.	076733	सी.ए. अग्रवाल गोपाल कृष्ण, एफसीए	बारमेर
65.	076835	सी.ए. अग्रवाल हेमन्त कुमार, एफसीए	जयपुर
66.	077142	सी.ए. सिंह अजय प्रताप, एफसीए	कानपुर
67.	077181	सी.ए. वर्मा प्रेम नारायण, एफसीए	भोपाल
68.	077327	सी.ए. जैन संजीव कुमार, एसीए	दुर्ग
69.	077487	सी.ए. गुप्ता संतोष कुमार, एफसीए	कानपुर
70.	077536	सी.ए. अग्रवाल जितेन्द्र कुमार, एफसीए	बारमेर
71.	077564	सी.ए. सारिन महेन्द्र, एसीए	इंदौर
72.	077756	सी.ए. नरुला पुनीत, एसीए	नयीडा
73.	077765	सी.ए. भार्गव पियूष, एफसीए	लखनऊ
74.	077951	सी.ए. अग्रवाल प्रमोद, एफसीए	जयपुर
75.	078072	सी.ए. मनोज कुमार, एफसीए	हजारीबाग
76.	078077	सी.ए. जैन कमल कुमार, एसीए	जयपुर
77.	078156	सी.ए. बाम्बे भारत एफसीए	कंकरोली
78.	078342	सी.ए. मन्धनया सुनील कुमार, एफसीए	भोपाल

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
79.	078661	सी.ए. बोत्रा आशीष अशोक कुमार, एसीए	जबलपुर
80.	078695	सी.ए. ठक्कर जस्मीना, एफसीए	जमशेदपुर
81.	079037	सी.ए. सकारिया बाबी, एफसीए	रायपुर
82.	079119	सी.ए. मनीश कुमार नरायणीवाल, एफसीए	भदानी मंडी
83.	079222	सी.ए. कनसल सुनील एसीए	जयपुर
84.	079244	सी.ए. हरीश साहनी एफसीए	मेरठ
85.	079326	सी.ए. भट्टनागर अवनीश, एसीए	गजियाबाद
86.	079384	सी.ए. सिंही अमित, एफसीए	भोपाल
87.	079422	सी.ए. बेनगानी उमेश कुमार, एसीए	नागौर
88.	079652	सी.ए. गुप्ता स्वेता, एसीए	मेरठ
89.	079713	सी.ए. त्यागी विकास, एसीए	गजियाबाद
90.	079878	सी.ए. अग्रवाल मनीश, एसीए	मथुरा
91.	079968	सी.ए. पट्टना ब्रिजेश, एफसीए	आगरा
92.	080957	सी.ए. महेश्वरी राम स्वरूप, एफसीए	बरेली
93.	082974	सी.ए. बंसल विष्णु दत्त, एफसीए	न्यू दिल्ली
94.	085035	सी.ए. चमन प्रकाश, एफसीए	नैनीताल
95.	085223	सी.ए. शिव कुमार, एफसीए	नोयडा

क्र.सं.	सं०	सं०	नाम	स्थान	क्र.सं.	सं०	सं०	नाम	स्थान
96.	085859		सी.ए. गुप्ता उमेश कुमार, एफसीए	नैनीताल	113.	095913		सी.ए. भट्ट रवि कान्त, एसीए	बनारसी
97.	085915		सी.ए. गुरमुख सिंह, एसीए	दिल्ली	114.	096204		सी.ए. दीपक यादव, एफसीए	बरेली
98.	087460		सी.ए. कनसल सुनील कुमार, एफसीए	गजियाबाद	115.	096233		सी.ए. महेश्वरी संजय, एफसीए	लखनऊ
99.	087808		सी.ए. वढहेरा राजेश, एफसीए	दिल्ली	116.	096500		सी.ए. गोयल ग्ररीश कुमार, एफसीए	नयोडा
100.	088533		सी.ए. गुफरान अहमद, एफसीए	आगरा	117.	096604		सी.ए. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, एसीए	रीवा
101.	089246		सी.ए. राजीव कुमार, एफसीए	गजियाबाद	118.	097388		सी.ए. दिव्या, एफसीए	काशीपुर
102.	089473		सी.ए. अग्रवाल शिव शंकर, एफसीए	दिल्ली	119.	097794		सी.ए. अग्रवाल पवन, एसीए	आगरा
103.	089900		सी.ए. टापरिया अतुल, एसीए	गजियाबाद	120.	098796		सी.ए. गुप्ता विशाल, एसीए	नोयडा
104.	089930		सी.ए. वैष आलोक कुमार, एफसीए	लखनऊ	121.	099820		सी.ए. नितिन अग्रवाल, एसीए	नोयडा
105.	091784		सी.ए. सिंह प्रेमपाल, एफसीए	फिरोजाबाद	122.	109334		सी.ए. शमिता राठी, एसीए	पुने
106.	092782		सी.ए. भंसाली विक्रान्त, एसीए	जयपुर	123.	110405		सी.ए. विवेक जैन, एफसीए	भीलवाड़ा
107.	093172		सी.ए. अग्रवाल राजीव कुमार, एसीए	गजियाबाद	124.	112430		सी.ए. गुंजन जैन, एसीए	बीवर
108.	093815		सी.ए. गर्ग दिनेश कुमार, एफसीए	बरेली	125.	112704		सी.ए. अगल अनिल एसीए	इंदौर
109.	094411		सी.ए. कोचार प्रशांत, एफसीए	देहरादून	126.	116334		सी.ए. विनीत किशोर, एसीए	पटना
110.	094417		सी.ए. महेश्वरी सुनीता, एफसीए	जयपुर	127.	126810		सी.ए. गोविन्द बंसल, एसीए	भोपाल
111.	095084		सी.ए. शूद रोहित एसीए	नोयडा	128.	400052		सी.ए. गोयल दीपक, एसीए	अलवर
112.	095824		सी.ए. वर्शनेय कौशल किशोर, एफसीए	भोदीनगर	129.	400151		सी.ए. अमित कुमार गुप्ता, एफसीए	मेरठ
					130.	400153		सी.ए. बंसल भारत एसीए	गजियाबाद
					131.	400165		सी.ए. चौबे रोली, एसीए	नई दिल्ली

क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान	क्र.सं.	स०	सं०	नाम	स्थान
132.	400169		सी.ए. विभाकर विनय, एसीए	रांची	151.	401737		सी.ए. अग्रवाल मनीश कुमार, एसीए	जयपुर
133.	400249		सी.ए. अशोक कुमार जिन्दल, एफसीए	जयपुर	152.	401881		सी.ए. चंदक नितेश कुमार, एसीए	नोयडा
134.	400267		सी.ए. मनीषा कोठारी, एसीए	नोयडा	153.	401889		सी.ए. गुप्ता सौरभ एसीए	गजियाबाद
135.	400476		सी.ए. गुप्ता वरून, एसीए	देहरादून	154.	401928		सी.ए. अग्रवाल दीपा, एसीए	आगरा
136.	400495		सी.ए. गोयल गौतम, एसीए	कानपुर	155.	401994		सी.ए. करम चंदानी नरेन्द्र, एसीए	जोधपुर
137.	400514		सी.ए. अरून रत्नावत, एफसीए	उदयपुर	156.	402151		सी.ए. रूपेश कुमार, एसीए	जमशेदपुर
138.	400539		सी.ए. विदासारिया अनुपम, एसीए	इंदौर	157.	402206		सी.ए. कामक्षी सिन्हा, एसीए	जमशेदपुर
139.	400650		सी.ए. माथुर रिचा, एसीए	जयपुर	158.	402220		सी.ए. आर मोहन, एसीए	गजियाबाद
140.	400740		सी.ए. जजोडिया यशपाल, एसीए	बियावर	159.	402285		सी.ए. अग्रवाल गुंजन, एसीए	लखनऊ
141.	400929		सी.ए. मनीश सरुप्रिया, एफसीए	उदयपुर	160.	402701		सी.ए. बम्बानी संदीप, एसीए	आगरा
142.	400948		सी.ए. गजेन्द्र देव गौतम, एफसीए	अलीगढ़	161.	402779		सी.ए. गुप्ता हितेन्द्र कुमार, एसीए	कोटा
143.	401008		सी.ए. राहुल गुप्ता, एसीए	डोलपुर	162.	402780		सी.ए. भागतुला आनन्द शालनी, एसीए	कटनी
144.	401076		सी.ए. गुप्ता भावेश, एसीए	कानपुर	163.	402942		सी.ए. दीपक कुमार, एसीए	बाँदा
145.	401330		सी.ए. किरन चपरवाल, एसीए	इंदौर	164.	402966		सी.ए. अरोरा सौरभ, एसीए	भोपाल
146.	401460		सी.ए. वशु अमिताभ, एसीए	लखनऊ	165.	402989		सी.ए. भार्गव गुंजन एसीए	गजियाबाद
147.	401484		सी.ए. अनुशी कौशल, एफसीए	आगरा	166.	403117		सी.ए. सोगानी अनुराग, एसीए	इंदौर
148.	401631		सी.ए. लिनिका सिंह, एफसीए	कानपुर	167.	403194		सी.ए. सिंघई नीरज, एफसीए	भोपाल
149.	401658		सी.ए. बालमुकुंद लड्डा, एसीए	उदयपुर	168.	403367		सी.ए. जैन गौरव एसीए	कोटा
150.	401723		सी.ए. शक्ति सिंह शेखावत, एफसीए	जयपुर					

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान	क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
169.	403524	सी.ए. कोठारी दिलीप एफसीए	उदयपुर	189.	405599	सी.ए. प्रकाश तारावत्त, एसीए	चित्तौड़गढ़
170.	403584	सी.ए. टंडन पुनीत, एसीए	कानपुर	190.	405615	सी.ए. समरजीत मित्रा, एसीए	रायपुर
171.	403654	सी.ए. गुप्ता ईशा एसीए	कानपुर	191.	405689	सी.ए. प्रवीन कनौडिया, एसीए	उदयपुर
172.	403680	सी.ए. ब्रजेश कुमार, एसीए	पालामऊ	192.	405768	सी.ए. प्रियंका अग्रवाल, एसीए	बंगलौर
173.	404004	सी.ए. अरोरा अनिल कुमार, एसीए	जोधपुर	193.	406025	सी.ए. पायल गोयल, एसीए	गुडगाँव
174.	404078	कुं. महेश्वरी सुनीता एसीए	इंदौर	194.	406106	सी.ए. अमित कुमार जैन, एसीए	जयपुर
175.	404266	कुं. शर्मा एसीए	जयपुर	195.	406233	सी.ए. आशीष अनिल चतुरमोहता, एसीए	बालाघाट
176.	404409	सी.ए. लोधा अशीष एसीए	उदयपुर	196.	406312	सी.ए. बमसी कृष्ण सुधाकर दासा, एससीए	नोयडा
177.	404521	सी.ए. सौरभ जैन, एसीए	लखनऊ	197.	406534	सी.ए. श्रुति गर्ग, एसीए	कानपुर
178.	404629	सी.ए. पंकज अग्रवाल, एसीए	पटना	198.	406683	सी.ए. गापोल कृष्ण गुप्ता, एसीए	नोयडा
179.	404805	सी.ए. विशाल कुमार एसीए	चंदौसी	199.	406971	सी.ए. दिलीप कुमार, अग्रवाल, एसीए	दवेगड़ (और)
180.	404885	सी.ए. सहारन, सुवेश, एसीए	जयपुर	200.	407198	सी.ए. हुजेफा अली रामपुरवाला, एसीए	नीमच
181.	404937	सी.ए. गौर सुधांशु, एसीए	मेरठ	201.	407221	सी.ए. संजीव कुमार गुप्ता, एसीए	कोलकाता
182.	405037	सी.ए. लोहिया विनीता, एसीए	जोधपुर	202.	407323	सी.ए. पंकज कुमार एस रंका, एसीए	उदयपुर
183.	405076	सी.ए. आरिन वैभव, एसीए	नोयडा	203.	407358	सी.ए. तनीशा बगार, एसीए	भीलवाड़ा
184.	405392	सी.ए. प्रीति गौतम, एसीए	बंगलौर	204.	407477	सी.ए. तुषार पाण्डेय, एसीए	इलाहाबाद
185.	405445	सी.ए. वेदबरात, एसीए	छतरपुर	205.	407604	सी.ए. राजेन्द्र प्रसाद, एसीए	मऊ
186.	405479	सी.ए. अंकिता शरद बंसल, एसीए	बंगलौर	206.	407733	सी.ए. नितिन पाटोडी एसीए	इंदौर
187.	405562	सी.ए. सुभल गर्ग, एसीए	इटवा	207.	407926	सी.ए. आशीष जैन, एसीए	जयपुर
188.	405592	सी.ए. अरून गुप्ता, एसीए	भोपाल				

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
208.	407931	सी.ए. नितेश रस्तोगी, एसीए	ऋषिकेश
209.	407966	सी.ए. सनी खन्ना, एसीए	गजियाबाद
210.	408003	सी.ए. विक्रम दोषी, एसीए	उदयपुर
211.	408126	सी.ए. अमित कुमार अग्रवाल, एसीए	भिलाई
212.	408179	सी.ए. रूबी गुप्ता, एसीए	धनबाद
213.	408270	सी.ए. अंजु शर्मा, एसीए	गजियाबाद
214.	408519	सी.ए. बसीम महमूद खान, एसीए	भोपाल
215.	408873	सी.ए. सचिन अग्रवाल, एसीए	बरेली
216.	408921	सी.ए. मेहश मंडोवारा, एसीए	मुम्बई
217.	408957	सी.ए. प्रियंका मिश्रा, एसीए	कानपुर
218.	409011	सी.ए. विजय कुमार ठक्कर, एसीए	इंदौर
219.	502007	सी.ए. कोटारी अनिल कुमार, एसीए	चुरू

क्र.सं.	सं०	नाम	स्थान
220.	502171	सी.ए. प्रवीन कुमार, एसीए	नई दिल्ली
221.	503901	सी.ए. गजेन्द्र कुमार सिंह, एसीए	समस्तीपुर
222.	504078	सी.ए. मो० नासिर हुसैन, एसीए	दरभंगा
223.	504554	सी.ए. मित्तल अमित मोहन, एसीए	मथुरा
224.	506416	सी.ए. कैलाश गोयल, एसीए	बंगलौर
225.	506929	सी.ए. वरुन विरमानी, एसीए	गजियाबाद
226.	507571	सी.ए. धीरेन्द्र शर्मा, एसीए	नोयडा
227.	510127	सी.ए. संदीप बच्चावट, एसीए	फलोडी
228.	510337	सी.ए. सुमित गौतम मिश्रा, एसीए	गजियाबाद

(टी कार्तिकेयन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

वि०अ०आ० (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम, 2009

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वि०अ०आ० निम्नवत् विनियम बनाता है,

नामत:

1. संक्षिप्त नाम, उपयोजन तथा प्रारंभ

- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम वि०अ०आ० (विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 है ।
- 1.2 यह सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक सभी कालेजों तथा भारत के विश्वविद्यालयों से पहले सही सम्बद्ध कालेजों पर लागू होंगे जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा निगमित किया गया हो ।
- 1.3 यह तुरंत प्रभाव से लागू होंगे ।

1 परिभाषाएं : इन विनियमों में : —

- 2.1 "सम्बद्धता" तथा इसके व्याकरणिक रूपभेदों में किसी कालेज के संबंध में, किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कालेज को मान्यता प्रदान करना, उसके साथ इस प्रकार के कालेज का सहयोजन, इस प्रकार के कालेज को विश्वविद्यालय राज्य विशेषाधिकारों प्रदान करना शामिल है ।
- 2.2 "कालेज" का अर्थ किसी संस्थान से है, चाहे वह इस प्रकार के या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो 12 वर्षों के स्कूली पाठ्यक्रम के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा

इस प्रकार का अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए और अध्ययन कार्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस प्रकार की अर्हता प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु सक्षमकारी मान्यता प्रदान की गई हो।

2.3 “आयोग” का अर्थ वि०अ०आ० अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

2.4 “पाठ्यक्रम” का अर्थ है एक इकाई जिसमें एक अध्ययन कार्यक्रम शामिल होता है;

2.5 “कार्यक्रम”/“अध्ययन कार्यक्रम” का अर्थ वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है;

2.6 “सांविधिक”/“विनियामक निकाय” का अर्थ है एक निकाय जिसका गठन उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में मानकों की स्थापना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा किया गया हो, जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (डीसीआई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) आदि।

2.7 “छात्र” का अर्थ एक व्यक्ति जिसे एक विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन हेतु दाखिल दिया जाता है।

3. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्ड:

3.1 सम्बद्धता प्राप्त करने का इच्छुक प्रस्तावित कालेज, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अपेक्षाओं अथवा इनमें से किसी के भी संबंध में संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित अपेक्षाएं, जो भी अधिक हो, को पूरा करेगा:—

- 3.1.1 अविवादित स्वामित्व तथा यदि यह महानगरों में स्थित है, तो कब्जे की भूमि 2 एकड़ से कम भूमि न हो तथा अन्य क्षेत्रों के मामले में यह 5 एकड़ से कम न हो।
- 3.1.2 प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अन्य भवन के साथ-साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट त्वरित शैक्षणिक तथा अन्य स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास स्थान होना चाहिए तथा वि०अ०आ०/सांविधिक/संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरूप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कालेज में निर्मित सभी भवन निशक्त अनुकूल होने चाहिए।
- 3.1.3 संकायों, लेक्चर/संगोष्ठी कक्षों, ग्रंथागारों तथा प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त शैक्षणिक भवन होना चाहिए, जहां लेक्चर/संगोष्ठी कक्ष/ग्रंथालय में प्रति छात्र कम से कम 15 वर्ग फुट का स्थान तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिए।
- 3.1.4 शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या विश्वविद्यालय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।
- 3.1.5 केन्द्र/राज्य लो०नि०वि० द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनिवार्य सेवाओं जैसे जल, विद्युत, संवातन, शौचालय, सीवर आदि के लिए पर्याप्त सिविल सुविधाएं;
- 3.1.6 कम से कम 1000 पुस्तकों का एक ग्रंथालय, अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक विषय के अलग-अलग शीर्षक पर 100 पुस्तकें, इनमें से जो भी अधिक हो, ताकि पाठ्यक्रम तथा संदर्भ-पुस्तकों, दोनों को शामिल किया जा सके, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा वि०अ०आ० द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा भी होनी चाहिए;

- 3.1.7 प्रत्येक उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा यथा विहित आवश्यक प्रयोगशाला उपस्कर होने चाहिए।
- 3.1.8 एक बहुउद्देश्य काम्प्लेक्स/एक प्रेक्षागृह तथा खेल-कूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्णित लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक 'कामन रूम' तथा पृथक छात्रावास;
- 3.1.9 भाषण/संगोष्ठि कक्षों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालय, संकाय कक्षों तथा प्रशासनिक स्टॉफ सहित प्राचार्य के कक्षों के लिए और बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स/प्रेक्षागृह, सामान्य कक्षों तथा छात्रावास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त फर्नीचर;
- 3.1.10 विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एक यथोचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय।
- 3.2 यदि कालेज राज्य सरकार द्वारा न चलाया जा रहा हो, तो
- 3.2.1 इसका प्रबंधन यथोचित रूप से गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा;
- 3.2.2 यह विश्वविद्यालय को संतुष्ट करेगा कि कालेज को कम से कम तीन वर्षों तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध है। विशिष्ट रूप से, 15 लाख रुपए प्रति कार्यक्रम की अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से कालेज के नाम पर स्थायी कायिक निधि के सृजन तथा उसके रख-रखाव का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, यदि कालेज का प्रस्ताव केवल मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य में कार्यक्रम चलाने का है तो जैसाकि संगत सांविधिक/विनियामक निकाय में विहित है अथवा 35 लाख रुपए प्रति कार्यक्रम, यदि इसका पेशेवर कार्यक्रम की पेशकश करने का विचार है तो इसी राशि की न्यूनतम तीन वर्षों की 'लॉक इन' अवधि की सावधि जमा जो कालेज तथा विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए, करवायी जानी चाहिए। इससे प्राप्त ब्याज का कालेज द्वारा अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं

को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से उपयोग किया जा सकता है;

3.2.3 कालेज विश्वविद्यालय को एक वचन भी देगा कि इसके पास सतत् और कार्यकुशल ढंग से कार्य करने के लिए इसके अपने स्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय है।

3.3 पंजीकृत सोसायटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरूप मामलों में इस शर्त के अध्यधीन मौजूदा उपलब्ध इमारत में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियम के तहत पूरा किया गया है तथा कालेज पैरा 4.4.6 तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक कालेज को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने पर कालेज की अस्थायी सम्बद्धता का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि कालेज स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

3.4 किसी कालेज का प्रस्ताव करने वाली पंजीकृत सोसायटी/न्यास एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा:—

3.4.1 केवल उन विषयों को पढ़ाया जाएगा तथा केवल उन्हीं संकायों में केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को चलाया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसे सम्बद्ध किया गया है तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धक की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के समुचित शैक्षणिक निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.2 अधिनियम के सभी उपबंधों, परिनियम तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के सभी अध्यादेश, नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा।

- 3.4.3 समय-समय पर सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करना।
- 3.4.4 इस प्रभाव तक कि वि०अ०आ० द्वारा यथा विहित शिक्षण पदों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवाशर्तों, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि०अ०आ० के परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों के अनुरूप होगी तथा कालेज द्वारा आरंभ किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा कालेज में छात्र-शिक्षक अनुपात वि०अ०आ० मानदण्डों के अनुसार होगा;
- 3.4.5 इस प्रभाव तक कि शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाँफ को नियमित रूप से वि०अ०आ०/केन्द्र/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय-समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा;
- 3.4.6 इस प्रभाव तक कि शिक्षण व गैर शिक्षा स्टाँफ के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित योग्यता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।
- 3.4.7 इस प्रभाव तक कि कालेज को सम्बद्धन प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए शिक्षकों पर अर्हता संबंधी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा शिक्षण स्टाँफ में सभी परिवर्तनों तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जोकि विश्वविद्यालय को सम्बद्धन प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।
- 3.4.8 इस प्रभाव तक कि छात्रों पर प्रभारित किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय-समय पर वि०अ०आ० के मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।
- 3.4.9 इस प्रभाव तक कि कालेज, वि०अ०आ० द्वारा मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षक द्वारा तथा उनकी ओर से कोई

प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता हो।

3.4.10 इस प्रभाव तक कि कोई भी कालेज किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक दाखिल नहीं करेगा।

3.4.11 इस प्रभाव तक कि कालेज विश्वविद्यालय की पिछली अनुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को समाप्त नहीं होगा।

3.4.12 इस प्रभाव तक कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए शैक्षणिक तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर कालेज द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

3.4.13 इस प्रभाव तक कि वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा विनियामकों/आदेशों के तहत रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित सभी रजिस्ट्रों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा;

3.4.14 इस प्रभाव तक कि कालेज, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को वि०अ०आ०/विश्वविद्यालयों/सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के संबंध में कालेज के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर को बनाए रखने के लिए वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा जो भी निदेश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए सभी कार्यवाहियां करेगा।

4. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

- 4.1 नए कालेज को आरंभ करने के लिए तथा इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थान तथा पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 4.2 यदि आवेदक एक सोसायटी/न्यास है, तो यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत या न्यास अधिनियम अथवा कोई भी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम के तहत आवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।
- 4.3 सरकार/सोसायटी/न्यास, जिसका कालेज आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा जो अपने आपको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहता है और जिसके क्षेत्राधिकार में कालेज पड़ता है वह विनिर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय को विहित प्ररूप में विश्वविद्यालय के कुल-सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट में विहित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए।
- 4.4 आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए:—
 - 4.4.1 सोसायटी/न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित;
 - 4.4.2 भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र;
 - 4.4.3 संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र;
 - 4.4.4 आवेदक के नाम में पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज;
 - 4.4.5 सरकार द्वारा कालेज आरंभ करने के लिए सोसायटी/न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का ब्यौरा।

- 4.4.6 पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा;
- 4.4.7 प्रस्तावित कालेज के लिए पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कालेज के लिए भूमि को चिह्नित किया गया हो;
- 4.4.8 खंड 3.2.2 के तहत यथा विनिर्दिष्ट चिह्नित कायिक निधि के साक्ष्य के साथ निधियों की अद्यतन स्थिति तथा संगत बैंक खातों की ब्यौरा।
- 4.4.9 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें निम्नवत् ब्यौरा दिया गया हो:—
- (क) शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव सहित सोसायटी/न्यास की पृष्ठभूमि; इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा; इसके आरंभ होने से सामाजिक धर्माथ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है;
- (ख) समय-वार कालेज की विकास योजना, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों/अनुसंधान आरंभ किए जाने के संबंध में पहले 10 वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जिसमें छात्र सुविधाएं, जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल हैं, के विकास के लिए स्तर-वार समय अनुसूची।
- (ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान;
- (घ) संकाय नियुक्ति, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने तथा विकास के संबंध में नीति;
- (ङ) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा;
- (च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के वित्तपोषण तथा प्रचालनात्मक व्यय का स्रोत; और
- (छ) संसाधन संबंधी अनुमान तथा उपयोग अनुसूची।

- 4.5 विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा संतोषजनक पाए जाने पर और आवेदन प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर आशय का पत्र जारी करेगा ताकि अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सभी आवश्यकताओं के वास्तविक स्त्यापन के लिए तीन माह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जा सके।
- 4.6 कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय कालेज का निरीक्षण कराएगा जिसमें निम्नवत् शामिल होंगे:—
- 4.6.1 प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ;
- 4.6.2 कालेज विकास परिषद् का डीन/विश्वविद्यालय का समकक्ष शिक्षाविद्;
- 4.6.3 सरकार के उच्च शिक्षा विकास का एक प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक के स्तर से नीचे का न हो; और
- 4.6.4 लोनिवि/केलोनिवि से एक अभियन्ता जोकि अधिशासी अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो।
- कुलपति द्वारा यथा नामित किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जोकि प्रोफेसर के स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।
- 4.7 अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण समिति की रिपोर्ट विधिवत् रूप से भर कर तथा सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपने उचित निकायों के माध्यम से रिपोर्ट संसाधित करेगा तथा कालेज को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगा; तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।
- 4.8 कालेज में उपलब्ध अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय कालेज में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लेगा।
- 4.9 सिंडिकेट/विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान किए जाने या न किए जाने के बारे में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

- 4.10 कालेज के अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में अस्थायी सम्बद्धता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर इन विनियमों में उपबंधित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
- 4.11. यदि विश्वविद्यालय किसी कारण के चलते कालेज को सम्बद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह सम्बद्धता प्राप्त करने के संबंध में शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता को लिखित में दर्ज करेगा, यदि बाद में कालेज शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, परन्तु यह पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की तिथि से छह माह तक आवेदन नहीं कर सकता है।

5. स्थायी सम्बद्धता के लिए पात्रता मानदण्ड

- 5.1 कालेज को समय-समय पर विश्वविद्यालय/वि०अ०आ०/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किए हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए जाने चाहिए।
- 5.2 कालेज द्वारा विनियमों में निर्धारित भवनों का निर्माण कार्य तथा सभी अवसंरचनात्मक/सुविधाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।
- 5.3 सभी शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक स्टॉफ को वि०अ०आ०/सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार (सरकारी कालेज के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त) पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
- 5.4 कालेज में मानदण्डों के अनुसार विधिवत् रूप से गठित कालेज परिषद् होनी चाहिए।

6. स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

- 6.1 जो कालेज स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता हो, उसे अस्थायी सम्बद्धता के पांच वर्ष पूरे करने पर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क सहित प्ररूप में आवेदन करना चाहिए।
- 6.2 स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, विनियमों में दी गई अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जैसी ही होगी।
- 6.3 यदि विश्वविद्यालय कालेज को स्थायी सम्बद्धता प्रदान न किए जाने का निर्णय लेता है, तो इस प्रकार की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, तत्पश्चात् यदि कालेज शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो कालेज पूर्व में किए गए आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से छह माह पश्चात् पुनः आवेदन कर सकता है।

7. अध्ययन के नए कार्यक्रमों को जोड़ने हेतु आवेदन करने की पात्रता

- 7.1 विश्वविद्यालय द्वारा नया कार्यक्रम जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव पर केवल उच्च शिक्षा हेतु सुविधाओं का समान वितरण सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा, ऐसा विशेषरूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे क्षेत्र जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया हैं, अविकसित, ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के बाद ही किया जाएगा।
- 7.2 मौजूदा स्नातकपूर्व कालेज के स्तर को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकपूर्व कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा किए जाने के बाद तथा विनियम के अनुसार प्रस्तावित भवन, योग्य संकाय

तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से सृजन किए जाने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

- 7.3 नया कार्यक्रम जोड़ने के लिए अथवा मौजूदा कार्यक्रम का स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नयन करने के प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क भी साथ लगा होना चाहिए।
- 7.4 अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने तथा कालेज में मौजूदा कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्रक्रिया, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विनियमों में विहित प्रक्रिया के समान ही होगी।

8. सम्बद्धता समाप्त करना


- 8.1 यदि जांच करने पर कालेज, अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबंधों या नियमों और विनियमों अथवा वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सांविधिक/संबंधित विनियामक निकाय के अन्य निदेशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्बद्धता की किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है या इस प्रकार आचरण करता है जोकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो सम्बद्धता के माध्यम से कालेज को प्रदान किए विशेषाधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है या उसमें आशोधन किया जा सकता है।
- 8.2 यदि कोई सम्बद्ध कालेज करना बंद कर देता है अथवा किसी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है तो कालेज को प्रदत्त सम्बद्धता इस प्रकार की अस्तित्वहीनता, स्थानांतरण पर हस्तांतरण, जैसा भी मामला हो, स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया कालेज माना जाएगा।

विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

- 8.3 विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कालेज की जांच करवा सकता है तथा कालेज को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान कर, वि०अ०आ० अधिनियम की धारा (12 क) (4) के तहत इस प्रकार के कालेज को इस प्रकार के विनिर्दिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और कालेज की सम्बद्धता वि०अ०आ० अधिनियम की धारा (12 क) (5) के तहत समाप्त मानी जाएगी।
- 8.4 अगर विश्वविद्यालय कालेज की सम्बद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय कालेज के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/सरकार यह कर्तव्य होगा कि वे उचित ढंग से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।
9. घटिया कालेजों को सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय तथा आयोग के विनियमों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालयों/कालेजों के असफलता होने पर शास्तियां
- 9.1 यदि कोई विश्वविद्यालय किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करता है जो विनियमों के अनुसार सम्बद्धता की शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या अगर विश्वविद्यालय, वि०अ०आ० अधिनियम के संगत उपबंधों का उल्लंघन कर सम्बद्धता प्रदान करता है तो आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो जिसमें विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को बंद

करना तथा / अथवा आयोग द्वारा वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत अनुरक्षित सूची से विश्वविद्यालय का नाम हटाना शामिल है ।

- 9.2 यदि कोई कालेज जिसे धारा 12 (च) के तहत शामिल किया गया हो और जो वि०अ०आ० की धारा 12 (ख) के तहत अनुदान प्राप्त कर रहा हो, उसे विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो, जिसमें कालेज को दिए जाने वाले अनुदान को बंद करना तथा / अथवा आयोग द्वारा वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2 (च) और / तथा (ख) के तहत कालेजों की सूची से उक्त कालेज का नाम हटाना शामिल है ।


(आर० के० चौहान)
सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 12th January 2010

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/(128)/2010—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Western India Regional Council at Gandhidham with effect from December 16, 2009.

The Branch shall be known as Gandhidham Branch of the Western India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Gandhidham City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Gandhidham.

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 1. Anjar | 3. Kandla | 5. Adipur | 7. Bhachau |
| 2. Kutch | 4. Bhuj | 6. Mundra | |

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Western India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

3SCA(4)/1/2008-2009 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 1st October 2008 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1	001479	MR. VARADARAJAN T R	31	008785	MR. IQBAL M O H
2	001898	MR. SHANKARA SRIKANTIA	32	008967	MR. THOMAS XAVIER KYNADI
3	002003	MR. NARASIMHAN R	33	009290	MR. GOPALAKRISHNAN D
4	002738	MR. KURPAD GUNDAPPA SRIRAM	34	009557	MR. NARAYANAN L
5	003021	MR. BASAVAPURNAIAH CHALASANI	35	009717	MR. RAVANAN G
6	003136	MR. RADHAKRISHNAMURTHY G V	36	009720	MR. DHURVA RAO M T
7	003504	MR. KRISHNAN N	37	010519	MR. CHANDRAMOULI N
8	003716	MR. ANANTHARAMAN B	38	010564	MR. SUBRAMANIAN R
9	003934	MR. METHERATE DEVASIA JOSEPH	39	010898	MR. GOPALAKRISHNAN E D
10	004091	MR. JACOBTHOMAS KALLARAKAL	40	011196	MR. VIJAYAKUMAR
11	004572	MR. NAGABHUSHANA RAO V	41	011217	MR. KUMARANATHAN J
12	004629	MR. SANKARAN R	42	011791	MR. ANANTHANARAYANAN P R
13	004802	MR. GANAPATHY P R	43	011805	MR. LAKSHMI NARSIMHA RAO GUDUR
14	004873	MR. TARAPOREVALA N M	44	011969	DR. RAJAGOPALAN A V
15	005240	MR. LAKSHMANASWAMI U	45	012278	MR. VENKATARAMAN V R
16	005683	MR. VENUGOPALAN E S	46	012292	MR. RAJAGOPALAN S V
17	006027	MR. CHELLAPPAN PL	47	012792	MR. NADARAJAN SENGAMALAI
18	006083	MR. BALAKRISHNAN C K	48	013091	MR. SEETHARAMAN S
19	006399	MR. BHASKARAN J	49	013239	MR. KRISHNAN R S
20	006575	MR. KRISHNASWAMY C S	50	013554	MR. VASUDEVAN P K
21	006954	MR. ANNAMALAI M	51	014084	MR. PANCHAPAKESAN ANANTHARAYAN
22	007007	MR. DHANDAPANI S S	52	014165	MR. KUPPA VENKATA SUBRAMANYA SASTRY
23	007307	MR. RAJAGOPALAN A S	53	014224	MR. SHAMANNA NANJAPPA
24	007676	MR. NARASIMHAN R A	54	014434	MR. SUBRAMANIAN T S
25	007694	MR. RAMAKRUSHNA RAJHA T R K	55	014542	MR. PARTHASARATHY S
26	007898	MR. JOHN A G	56	014553	MR. ANANDIAH SETTY R V
27	007991	MR. KRISHNAMURTHY R	57	015079	MR. MADHVESHA P
28	008271	MR. PONNUSAMY P K	58	015463	MR. PRASAD P V S R
29	008315	MR. JAGANNATHAN S T	59	015766	MR. PRAKASH KUMAR M J
30	008383	MR. RAMADAS S	60	015902	MR. VENKATARAMAN R

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
61	016232	MR. MADMANNAYA VITTALA	101	019562	MR. SHANKAR S
62	016311	MR. NACHIAPPAN MR	102	019581	MR. CHANDRASEKARAN M S
63	016330	MR. CHANNABASAPPA R H	103	019598	MR. BALASUBRAMANIAN K
64	016359	MR. JAMES THOMAS	104	019625	MR. VARKEY K V
65	016459	MR. NAYAK SUKUMAR	105	019647	MR. CHANDRAIAH CHETTY P
66	016490	MR. MADAN MOHAN MURTHI V	106	019678	MR. GUNDU RAO B R
67	016751	MR. RADHAKRISHNAN M	107	019679	MR. RAMESH TADEPALLI
68	017239	MR. MAHADEVAN S	108	019689	MR. SANKARANARAYANAN T S
69	017378	MR. KUMAR V R	109	019755	MR. MOHAN G
70	017771	MR. KRISHNA NARAYAN	110	019786	MR. RAVI KUMAR K
71	017882	MR. VENKATRAMANI R	111	019861	MR. SUNDARAM K
72	018051	MR. BHARATHAN K	112	020022	MR. RAMAKRISHNAN V
73	018087	MR. KRISHNA KUMAR C	113	020076	MR. SANKAR K
74	018100	MR. VISHNU MOHAN MEENAVALLI	114	020133	MR. NARAYANA RAO K
75	018105	MR. NEEROJI RAO N A	115	020146	MR. ARCHIBALD MAXIM JOSEPH D SOUZA
76	018181	MR. BALA KUMAR V	116	020179	MR. SETHURAMAN V
77	018218	MR. DANIEL P T	117	020245	MR. DAVID KAMATH
78	018283	MR. SUBRAMANIAN G	118	020292	MR. RAMANATHAN H
79	018386	MR. BALASUBRAMANIAN M	119	020374	MR. REGGI VERGHESE C
80	018502	MR. RAVINDRAN R	120	020406	MR. SOMASEKHARAN N
81	018547	MR. ACHUTHA KUDVA N	121	020420	MR. RAJARETNAM G
82	018614	MR. SATYANARAYANA I V	122	020574	MR. VISWANATH M
83	018659	MR. GUHARROY ASHISH KUMAR	123	020735	MR. NARAYANA BHAT M
84	018684	MR. BALARAMAN V N	124	020746	MR. KATTAMURI MADHUSUDHANA RAO
85	018822	MR. GOPALAKRISHNAN S	125	020764	MR. SRIVATHSAN C S
86	018847	MR. CHINNASWAMY S	126	020788	MR. SUBRAMANI L
87	018854	MR. MUTHIAH K	127	020897	MR. ALAGAPPAN VR
88	018874	MR. MURALIDHAR SARDA J K	128	020979	MR. RAGHUPATHY D
89	018877	MR. ABDUL HALEEM MOHAMED IBRAHIM	129	021003	MR. BAGRI SHREE MOHAN
90	018880	MR. RAMA MURTHY S L	130	021018	MR. SRIHARI V
91	019004	MR. RAMACHANDRAIAH C	131	021067	MR. SRINATH B
92	019057	MR. ALAGAPPAN V R	132	021086	MR. CHARI T V T
93	019098	MR. UMESH S S	133	021124	MR. SURESH R
94	019155	MR. MUKUNTHAN D	134	021170	MR. YADUNATH V N
95	019240	MR. SURESH PAI K	135	021203	MR. SHAMSUDEEN A
96	019350	MR. RAGHAVAN V	136	021268	MR. PRASANNA H T V
97	019443	MR. VENKATESWARAN M	137	021274	MR. GOVINDARAJAN S
98	019454	MR. THOMAS K J	138	021287	MR. VINAYAGA SETHURAM S
99	019464	MR. RAMAKRISHNA Y V	139	021294	MR. ABRAHAM CHERIAN
100	019515	MR. RAVI S	140	021309	MR. SRINIVASAN A

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
141	021311	MR. VATSARAMAN V	181	023379	MR. KUMAR S
142	021312	MR. ASHOK KUMAR B	182	023407	MR. RAMASUBRAMANIAN G
143	021501	MR. KASINADHUNI VENKATESWARA RAO	183	023411	MR. PRAKASH B V S
144	021538	MR. NANDA KUMAR R	184	023416	MR. VENKATARAMAN NIVARTHI K
145	021560	MR. GNANANANDA PRASAD S	185	023479	MR. RAMESH M
146	021582	MR. NAGESWARA RAO K	186	023552	MR. RAMAKRISHNAN N
147	021662	MR. SASTRY A B P S	187	023567	MR. NAVEENA CHANDRA T
148	021708	MR. VENKATA RADHA KRISHNAIAH S V	188	023611	MR. MATHEW SANICHAN M
149	021779	MR. MUKHTAR ALI SAJANLAL	189	023700	MR. GANESAN N
150	021859	MR. RAJASEKARAN M	190	023730	MR. AGADI VIJAYAKUMAR M
151	021912	MR. KOTESWARA RAO N	191	023911	MR. NAGESWARAN A
152	021921	MR. RAGUNATHAN T	192	023963	MR. MUTHU N K
153	021975	MR. CHANDRASEKAR S	193	024035	MR. RAMACHANDRA RAO A
154	021983	MR. BHAVNANI T RAMESH	194	024069	MR. NASSER MOHAMMED M H
155	022000	MR. OUSEPH P S	195	024137	MR. SRINIVASAN S
156	022096	MR. RAVICHANDRAN N	196	024145	MR. BALASUBRAMANIAN M
157	022241	MR. SREE KRISHNA MURTHY M	197	024155	MR. TOM MATHEW A
158	022289	MR. RAKESH SUD	198	024160	MR. RANGAN N KANNAN
159	022570	MR. PURNACHANDU G	199	024209	MR. ANANTHARAMAN P V
160	022683	MR. RAMARAJ N	200	024251	MR. BHAKTAVATSALA REDDY S
161	022717	MR. SURESH KUMAR H	201	024253	MR. LAKSHMI PRASAD GOWRA
162	022734	MR. RANGANADHAM P V	202	024297	MR. JAYACHANDRAN K V
163	022747	MR. NARASIMHAN W K	203	024328	MR. MUKILAN D
164	022833	MR. MATHEW T SIMON	204	024332	MR. RATNASEKAR P
165	022847	MR. KUMAR K	205	024356	MR. VAIKUNTAM T S
166	022852	MR. CHANTHU MENON C M	206	024376	MR. SOUNDAPPAN S
167	022870	MS. RAJESWARI E	207	024385	MR. ARUMUGAM V M
168	022894	MR. MADHUSUDHAN RAO G	208	024496	MR. NANDA KUMAR C
169	022905	MR. BALA SUBRAHMANYA SARMA V V	209	024520	MR. VALSAN N
170	022954	MR. PUNNOOSE JACOB	210	024528	MR. SAJU PETER
171	022966	MR. AMARANATH A M	211	024610	MR. SEKAR K
172	023018	MR. VETRIVEL N	212	024657	MR. SUBRAMANYAM V S V
173	023070	MR. RAGHAVENDRAN R P	213	024774	MR. GANAPATHY P
174	023113	MS. NIRMALA D	214	024806	MR. KURUVILLACHAN P J
175	023145	MR. GOPINATHAN K	215	024914	MR. JAIN SUDHEER CHAND
176	023321	MR. BALAJI J	216	024958	MR. SATHYANARAYANA PRASAD R K
177	023323	MR. RAJHENDHIRUN K C S	217	024959	MR. MALOLAN P N
178	023345	MR. SHARMA G K A P	218	025021	MR. MOHIUDDIN MD
179	023352	MR. THOMAS VARUGHESE P	219	025044	MR. SAMPATH KUMAR K
180	023362	MR. PRABHAKAR SEKHA R K	220	025053	MR. GIRIDHAR Y

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
221	025057	MR. VENKATARAMAN R	261	026615	MR. ANAND K
222	025063	MR. RAVEENDRA REDDY CH	262	026640	MR. SATEESH BABU D
223	025141	MR. SIMON PHILIP	263	026674	MR. PALANIVELU K
224	025172	MS. VASANTHI RAMESH	264	026697	MR. MEKA NARENDRA PRASAD
225	025200	MR. RAVI SANKAR N	265	026699	MR. MURALIDHARAN V
226	025216	MR. RAMESH GUPTA S	266	026794	MR. SANKAR S
227	025236	MR. GUNASEKHARA REDDY G	267	026851	MR. GOVIND PANI
228	025282	MR. SANKAR T S	268	026926	MR. RAHIMAN SAB P
229	025308	MS. ARUNA K	269	026944	MR. LINGARAJU R
230	025314	MR. RAMESH K S	270	026946	MR. VENKATA SUBRAHMANYAM V
231	025441	MR. ANIL R MALLA	271	026962	MR. SANIL VARGHESE
232	025509	MR. RAMESH KRISHNAMACHARI S	272	027048	MR. JOY VARGHESE
233	025515	MR. BHAT BALAJI V	273	027072	MR. NAGESWARA RAO K
234	025590	MR. BADARI PRASAD M	274	027099	MR. GANESH R
235	025689	MR. RAMESH KUMAR V	275	027131	MR. RADHA KRISHNAN K
236	025740	MS. AKKARAJU TANUJA RAO	276	027157	MS. MERIN A PAUL
237	025765	MR. MAMMEN KOSHY	277	027165	MR. VADIRAJ C S
238	025777	MR. RAGHUNATHAN A R	278	027195	MR. MOHAN KUMAR M
239	025787	MR. KUMAR L N SURESH	279	027201	MR. MURALI MOHAN K S
240	025847	MR. GOPALKRISHNAN P	280	027202	MR. THOMAS T C
241	025945	MR. ATHREYA B A	281	027212	MR. BALAJI R
242	025960	MR. PRAKASH N	282	027237	MR. TIRUPATHAIAH CHOWDARY CH
243	025967	MR. VISHWANATHAM R	283	027286	MR. AMBALPADY SHRINIVAS ACHARYA K
244	025970	MR. SIVASHANKAR B	284	027309	MR. SAJI MATHEW
245	025986	MR. MUKUNDAN R	285	027333	MR. KRISHNAMOORTHY R
246	026026	MR. SHAH NAWAZ A	286	027450	MR. RADHA SRI KRISHNA RAO A
247	026092	MR. RAMA CHANDRA MRUTHY R S	287	027493	MR. JOHN K VARGHESE
248	026153	MR. MAHENDER KUMAR M	288	027506	MR. NARAYANAN T
249	026227	MR. SAILEKH RAJ G	289	027507	MR. RAJA NANDAKUMAR
250	026294	MR. VIKRAM RAMCHANDRA	290	027645	MR. BADARINATH RAO
251	026305	MR. GOVARDHANA REDDY A	291	027803	MR. RAJENDRA KUMAR C
252	026398	MS. MEENAKUMARI VENKATESWARAN	292	027814	MR. SANKARA RAO D
253	026417	MR. KRISHNAN S	293	027830	MR. HARI KRISHNAN N
254	026423	MR. CHACKO I C	294	027864	MR. RAM BABU CH
255	026471	MR. MURALIDHARAN V	295	027867	MR. UDAYA SANKARA RAO M
256	026497	MR. RAMAKRISHNAN N	296	027870	MR. NAGARAJAN RAMNATH
257	026507	MR. VEERARAGHAVULU CH	297	027873	MR. COELHO A G F
258	026518	MR. RAMAN M	298	027937	MR. GANAPATHI KRISHNAN S
259	026527	MR. MANI R	299	027989	MR. SRINIVASAN P R
260	026542	MR. NARAYAN DAS BANG	300	028002	MR. RAGHAVENDRA RAO N

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
301	028059	MR. MAHABALESH B K	341	029543	MR. SATYAJEET BOLAR
302	028131	MR. BALACHANDRAN NAIR B	342	029551	MR. GUMMADI VENKATESWARA RAO
303	028135	MR. RADHAKRISHNAN AL	343	029583	MR. CHANDER S
304	028148	MR. VENKATASUBRAMANIAN R	344	029587	MS. KAMALA K
305	028161	MR. MATHEW VARGHESE	345	029649	MR. UTHAMAN K
306	028177	MR. JUDE KISHORE S	346	029653	MR. ARUNA KUMAR M S N V S
307	028184	MR. SUDHIR BHANSALI	347	029669	MR. GIREESH K
308	028202	MR. SURYANARAYANAN K	348	029719	MS. RAADHIKA SUDHIR
309	028207	MR. GOPAL K	349	029759	MR. BALASUBRAMANIAN A K
310	028268	MR. NARAYANA RAO G	350	029776	MR. GIRIDHAR MAMIDI
311	028275	MR. RAMESH K	351	029912	MR. CHANDRAMOULI L
312	028449	MR. SRINIVAS RAO K	352	029927	MR. SHANKAR L C
313	028468	MR. NILAKANTAN J	353	029931	MR. BASTIN LEO R
314	028609	MR. GANESH SHARMA B	354	029985	MR. GIRIDHAR V V
315	028610	MS. RADHIKA CHANDRAMOULI	355	030150	MR. VIJAYARAGHAVAN K S
316	028675	MR. VARADHARAJAN S	356	030158	MR. MEHTA DURGESH NALINKANT
317	028691	MR. SUNDARAM S M	357	030309	MR. GANAPATHY R
318	028695	MR. VIDYASHANKAR V	358	030659	MR. HEMACHANDRAN S
319	028707	MS. RADHA RAVI	359	031197	MR. KANNAN M
320	028823	MS. TAPATI GHOSE	360	031392	MR. PHILIP GEORGE
321	028845	MR. RAVI VISWANATH N	361	031739	MR. GHURKA BRIJKISHOR KALURAM
322	028897	MR. RAMASUBRAMANIAN C	362	032021	MR. RAMESH A BHAT
323	028901	MS. MALA SRINIVASAN	363	032615	MR. HARIGOVIND C
324	028965	MR. JITENDRA BABU M	364	033443	MR. VASUDEVAN R
325	028983	MR. SUBRAMANIAM S	365	034346	MR. PARANJPE GIRISH S
326	029015	MR. SHAJI MATHEW	366	035465	MR. BALAKRISHNAN S
327	029040	MR. VILINA PRAKASH K V	367	035956	MR. SARKER DEV RONOJIT
328	029059	MR. LALITHA KUMAR M V	368	036741	MS. UMA ANANTHA
329	029146	MR. ANAND B	369	036969	MR. IYER SHANKAR RAMANATHAN
330	029270	MR. BALAJI A G	370	038668	MR. RAVIKUMAR RAMANAN
331	029341	MR. JAMAL MYDEEN M A	371	038851	MR. SHANKAR KUPPUSWAMY
332	029345	MS. UMA MENON	372	039640	MR. MADHU KUMAR BALASUBRAMANIAN
333	029400	MR. KRISHNAMOORTHY NAIDU P	373	041429	MR. ABRAHAM THOMAS
334	029402	MR. THIRUMAVALAVAN S G	374	042096	MR. PANKAJ MALIK
335	029458	MR. GANESH K	375	042228	MR. JOSHI PRAYAAG AVINASH
336	029487	MR. SATHYAMOORTHY D	376	042948	MR. KASINATHAN GURUMURTHY
337	029499	MR. KANNAN S	377	043567	MR. THIRUMALAI V
338	029517	MR. HEJMADI DHEERAJ RAMACHANDRA	378	043696	MR. MOHAN DAS T R
339	029522	MR. SUNIL R SHENOY K	379	043812	MR. MANIKANTAN V
340	029531	MR. SRINIVAASRAJAGOPAL	380	044677	MR. MURALI S

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
381	044694	MR. RAMAKRISHNA K	421	060071	MR. RAMJEE SHANKAR
382	044809	MR. THULASI KUMAR M K	422	060119	MR. PAIDISSETTY SURESH
383	044816	MR. ARVIND DINKAR SHARMA	423	060256	MR. JAIN SAURABH
384	046112	MS. RAO MAMATHA HARIDAS	424	060619	MR. ARNAB PAL
385	046651	MR. CHANDRA MOHAN S	425	060737	MR. MUKHERJEE SOURAV
386	047147	MS. LATHA V	426	061119	MRS. SETH SHUCHI
387	048901	MR. DARIYAW SINGH RAJ P	427	061251	MR. SUBRAMANIAM K
388	049262	MS. PRABHAVATHI V	428	061284	CA. SATISH KUMAR GANTA
389	049901	MR. ROHIT PRAKASH	429	061285	MR. KEJRIWAL DINESH
390	049984	MR. AGGARWAL SANJAY RAGHUNATH	430	061361	MR. BASU DIPANJAN
391	050294	MR. ASHIM KUMAR DEY BHOWMICK	431	061574	CA. RAVI KANT AGARWAL
392	050507	MS. SUDESHNA MUKHERJEE	432	061796	MR. GUTGUTIA RAVI
393	050993	MR. NAGOJI SATHASIVAM	433	062094	MS. KRISHNAN APARNA
394	051024	MR. ARINDAM GUHA	434	062273	MR. NANGALIA AMIT KUMAR
395	053685	MR. SUNIL V J GEORGE	435	062407	MS. BONICK PRIYANKA
396	055283	MR. MISRA ALOK CHANDRA	436	062695	MS. FITKARIWALA SUPRIYA
397	055732	MR. GANESH V S	437	063145	MR. JAIN RAHUL
398	055850	MS. REENA JOSEPH	438	063272	MR. BAJLA AMIT KUMAR
399	056000	MR. KALYAN KUMAR GHOSH	439	063633	MS. GUHA THAKURTA SRABANTI
400	056103	MS. MOOKHERJEE SUTAPA	440	063642	MR. LOYALKA MANISH
401	056386	MR. PALANISWAMY C	441	063688	MR. SIPANI BIKASH KUMAR
402	056648	MR. MURALI BALARAMAN	442	064003	MR. AGRAWAL NITESH
403	057361	MR. BANERJEE SUKANTA	443	064961	CA. CHANDRA BAID
404	057431	MS. SOOD MAMTA BRAHMPRAKASH	444	065024	CA. PUNIT KUMAR AGARWAL
405	057509	MR. ANAND MALOO	445	065625	CA. KRISHNA JALAN
406	057604	MR. RAJDIP DATTA	446	066058	CA. MANAB NAG
407	057746	MR. DHAR JAYDIP	447	066600	CA. SANJAY SHUKLA
408	057780	MR. KESHAN SUMIT	448	072451	MR. THRINADHA MURTHY T
409	057804	MS. AARTI MALHOTRA	449	076571	MR. SHIREESH JAIN
410	057894	MS. BAID JAYA	450	078594	MS. ANITA SHIREESH JAIN
411	058070	MR. SUBRAMANIAM R V	451	079704	MR. ARORA ATUL
412	058153	MR. SEN DEEP	452	082667	MR. SRIDHAR M K
413	058230	MR. PANDA DEBARCHAN	453	084335	MR. BAJRACHARYA RATNA RAJ
414	058641	MR. PODDAR VIKAS	454	084546	MR. RAMANI R
415	058708	MR. KUMAR GHANSHYAM	455	084771	MS. JAYALAKSHMI P
416	059024	MR. SUVA AGARWAL	456	084971	MR. RAMESH P
417	059132	MR. SINHA AVEEK	457	086307	MR. SUBHAS CHANDRA ADIVEPPA BALIGAR
418	059353	MR. TIWARI KAMAL	458	086800	MR. SANDEEP GUPTA
419	059626	CA. AJAY TIBRWAL	459	086983	MR. VENKATA SUBRAMANIAN S
420	059680	MR. SEHGAL MANISH	460	087237	MR. DINESH KUMAR AGRAWAL

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
461	087530	MR. CYRIAC MATHEW	501	114230	MR. SAROJ KUMAR KHUNTIA
462	087760	MR. BAKHRI SANJAY KUMAR	502	114258	MRS. UNNATI VIRAL SHAH
463	088929	MR. RANGARAJAN S	503	115144	MS. REMYA K LAXMAN
464	089371	MR. SRIVASTAVA SAURABH KUMAR	504	115926	MR. HARSHVARDHAN RAICHANDBHAI LUNIA
465	089521	MR. KESHAVDAS	505	117132	MR. PAUL SAMUEL ROBERTS
466	091841	MR. AIER JAGADISON KRISHNAMURTY	506	117669	MRS. PRIYA THAKUR
467	091994	MR. BAWEJA RAJNISH SINGH	507	119194	MS. AKSHATA SUDHAKAR GHARODE
468	092971	MR. JACOB PHILIP	508	119718	MR. TANVEER ALI MOINUDDIN MIRANJI
469	093039	MS. KOTAMRAJU UMASREE	509	120342	MR. ANAND MANOHAR NAIK
470	093142	MR. SINGH MAHENDER	510	200002	MR. BALAKRISHNAN H
471	093159	MR. GANAPATHY SUBRAMANIAM R	511	200010	MR. RENGANATHAN A S
472	093291	MS. GANAPATHIRAJU KOWSALYADEVI	512	200013	MR. RAMASAMY B
473	094788	MS. ADVANI NEERU	513	200077	MR. MURALI N
474	097556	MR. MISHRA ANAND	514	200093	MR. SATYANARAYANA MURTHY P
475	097697	MR. HARIHARA PRASAD P G	515	200173	MR. SIBICHEN JOSEPH
476	099099	MR. JAIDEV K	516	200175	MR. BALASUBRAMANIAN R
477	099837	MR. SINGHANIA MANISH	517	200225	MR. SURESH K
478	099844	MS. GOSWAMI RUCHI	518	200280	MR. ABRAHAM THOMAS
479	099941	MS. PADMAGIRISAN JAYASHREE	519	200328	MR. ANJANEYULU REDDY JONNALA
480	100112	MR. NATARAJAN S	520	200381	MS. USHA S
481	100137	MS. VAISHALI PANDHARINATH PATIL	521	200416	MR. AJIT NARAYAN ERADY
482	100505	MR. HAZZARAPU PREM KUMAR	522	200418	MR. SRINIVAS RAO J
483	100739	MR. KUTTIYIL ABRAHAM VERGHESE	523	200432	MR. KUPPUSAMY R
484	101157	MS. DAMODARE MEDHA GAJANAN	524	200441	MR. LALEN THOMAS
485	101267	MR. DESAI ASEEM MAYUR	525	200481	MR. SRIKANTH S
486	102357	MR. MITTAL DEEPAK	526	200521	MR. NARENDRA JAIN
487	102747	MR. ASHOK KUMAR CHHAJER	527	200548	MR. PAULOSE V A
488	103433	MR. NIGUDKAR AJAY AVINASH	528	200582	MR. GEORGE CHERIAN
489	103703	MS. LAL MEGHNA K	529	200587	MR. BHARANI KUMAR P
490	104424	MS. CHARULATA SONI	530	200598	MS. RADHA PILLUTLA
491	104551	MRS. HETAL PARAG MODI	531	200636	MR. PHANINDER NATH P S
492	106326	MS. ROSHAN HOSHANG NANAVATI	532	200719	MR. RAMACHANDRAN A
493	108479	MS. SHARMA SANGITA JUGAL KISHOR	533	200737	MR. DEEPAK NATRAJ RAMAMURTHI
494	108580	MR. ADAM SAYED	534	200771	MS. ANINDITA MUKHERJEE
495	110105	MS. SHILPA OMPRAKASH MAHESHWARI	535	200860	MR. VISVANATHAN S
496	110298	MS. ASHA PRASANNA	536	200863	MR. GURUMOORTHY K
497	111413	MR. HARIHARAN GANESAN	537	200897	MR. RIYAZ AHMED S
498	112692	MR. SAI SUNIL VENUGOPAL PANGANAMAMULA	538	200898	MR. BALASUBRAMANIAN S
499	113490	MR. VIKAS MAHESH ROONGTA	539	200899	MR. SURYANARAYANA REDDY K
500	113905	MR. SUNIL BAJAJ	540	200922	MR. VINOD JOSEPH TELLIS

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
541	200925	MR. RAVICHANDRAN N R	581	202203	MR. NAGESHAPPA B
542	200941	MR. SREEDHAR L	582	202215	MR. BOMMIREDIPALLI RAMAKRISHNA SUBRAHMANYAM
543	200943	MR. MURALI NARAYANAN V R	583	202220	MR. JAGANNATHAN R
544	200978	MR. PRAKASH S	584	202246	MR. VAIKUNTANATH K B
545	201015	MR. DESHPANDE BALACHANDRA BHIMARAO	585	202260	MR. RAVULA SRIDHAR RAO
546	201037	MR. SUDHIR K P	586	202279	MR. SRIRAM G
547	201059	MS. VIJAYAVALLI C S	587	202281	MR. VENGATANARAYAN
548	201091	MR. SAKTHI VEL R	588	202284	MR. VENKATARAMAN P N
549	201123	MR. SUMITRA NANDAN SRIVATSA K	589	202294	MR. BADRINATH P
550	201176	MS. ANITHA GOPINATH	590	202336	MR. GANESH BABU M
551	201203	MR. SANTHOSH MATHEW	591	202341	MR. SRIRAM S
552	201215	MS. SUMATHI R D	592	202358	MR. SRIKUMAR S
553	201232	MR. FABIAN SINCLAIRE HOLT	593	202546	MR. RAVICHANDRAN T R
554	201257	MR. SURESH A	594	202549	MR. KAMBHOJI RAJA MOHAN SETTY
555	201312	MR. RAMKUMAR R	595	202584	MR. UMASANKAR RAO P
556	201374	MR. RAMESH BABU K	596	202606	MR. THIYAGA THURAIVAN S
557	201411	MR. SHERRING THEKEKKARA	597	202676	MR. ASHWATH A
558	201450	MR. VEERA BHADRAJEE M V S	598	202719	MR. ANANDAN K R
559	201472	MS. INDIRA VENUGOPAL	599	202786	MS. CHITRA H
560	201517	MR. RAMCHANDRA JOSHI B	600	202814	MR. RAVICHANDRAN V V
561	201518	MS. SUBALAKSHMI K	601	202845	MR. RAM KUMAR CHILUKURI
562	201573	MR. SUDHARSON V	602	202910	MR. HENRY SUDHAKAR
563	201617	MS. JYOTHI R N	603	202914	MR. VENKATESAN K S
564	201676	MR. ARVIND L	604	202985	MR. SUNDARA RAJAN P B
565	201687	MS. SMITA B VITHLANI	605	202988	MR. RAMKUMAR S
566	201690	MR. BINOD HARIHARAN SHANKAR	606	202994	MR. BALAJI MAHASHABDHE K
567	201738	MR. JEBACHANDRAN S PARANJOTHI	607	203003	MR. SELVAMANI K P L
568	201787	MR. PRADEEP KUMAR JAIN	608	203171	MR. SUBRAMANIAM M
569	201844	MR. RAGHU RAM PRASAD V	609	203232	MR. SRINIVASULU MUPPA
570	201850	MR. MARELLA VENKATA UMAPATHI RAO	610	203242	MR. RATNAKAR BANDARU
571	201885	MR. BENJAMIN P T	611	203254	MR. NARAYANAN S
572	201911	MR. JOLLY GEORGE	612	203256	MS. BINDU C KURIAKOSE
573	201949	MR. HAJA BATHURALI A S	613	203291	MR. RAMESH DUGGIRALA
574	202033	MR. SRIRAM P V	614	203295	MS. DEEPA S CHANDRIE
575	202049	MR. JOSEPH P JOSEPH	615	203359	MR. VARADRAJAN G
576	202053	MR. PRASAD NEKKADAPU V S L	616	203378	MR. ANAND RAO T V
577	202098	MR. GOPAL B	617	203388	MR. GOVARDHAN APKARI
578	202160	MR. DHARMALA VENKATA RAMANA MURTHY	618	203396	MR. SHAFIULLA SINGANAMALA
579	202184	MR. KRISHNA MANI R	619	203418	MR. SANTOSH SHETTY
580	202191	MR. MAGANTI CHANDRA MOULI SARMA	620	203426	MS. JAINSAMMA KURIAN

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
621	203448	MR. WESLEY VIJAYA KUMAR I	661	204587	MR. SRINIVASA RAO M
622	203453	MR. VEERARAGHAVA REDDI NALLAMILLI	662	204609	MR. BALASUBRAMANIAN V B
623	203460	MR. RAJESH SRIPADA	663	204613	MR. SREENIVASULU B
624	203521	MR. VENKATA SATYA RAM KUMAR SUNKARI	664	204668	MR. PRASANNA PAI S
625	203585	MR. JOHN JOSEPH	665	204680	MR. SRIDHAR S
626	203593	MS. KAMINI SHAH	666	204686	MR. ANJALIAH BODAPATI
627	203640	MR. JAYAGANDHAN D	667	204687	MR. GARAPATI VEERA VENKATA SATYANARAYANA
628	203642	MS. SHOBHA RUPANAGUNTA	668	204743	MR. SADAGOPAN R
629	203646	MR. PRASHANT MADHAV SHANBHAG	669	204755	MR. KRISHNA REDDY A
630	203664	MR. RANGANATHAN S	670	204769	MS. ARCHANA SRINIVASAN
631	203672	MR. ANANTHAN N R	671	204799	MR. KUMAR G
632	203673	MR. DINESH SINGH	672	204880	MR. UNNIKRISHNAN B
633	203688	MS. RAJYA LAKSHMI V	673	204926	MR. GOKULAKRISHNAN B
634	203691	MR. RAJAGOPAL A	674	204968	MR. JALLURI PRAVEEN
635	203725	MR. SRIKRISHNAN P	675	205007	MR. KOMARAVOLU MADHUSUDHANA RAO
636	203730	MR. KRISHNAN T	676	205040	MR. GANESH S
637	203820	MR. MUKESH BUBNA	677	205087	MR. SATYANARAYANA VENKATA SIVA JILLA
638	203837	MR. NAGA BHAVANNARAYANA SWAMY CH	678	205115	MR. VIJAYA KUMAR BUDDI
639	203838	MS. KANCHANA S	679	205228	MS. BHUWANESHWARI K
640	203871	MR. VENKATESH G S	680	205246	MS. ARTI MIMANI
641	203878	MR. LAKSHMI KANTH GHATTY	681	205275	MS. KANTHIMATHI G
642	203903	MS. MEENAKSHI R	682	205303	MR. BALASUBRAMANIAN R
643	203942	MR. SRINIVASAN V	683	205371	MS. BERYL NISHA REBELLO
644	203955	MR. PRABHAKAR VEERAVALLI	684	205400	MR. UNNIKRISHNAN P
645	203968	MR. TEJOMURTULA RAMOJI	685	205405	MR. RAVI KUMAR N
646	203977	MR. VENKATESAN S	686	205407	MR. VENUGOPALA B
647	204012	MR. RAMACHANDRAN K	687	205419	MR. RANGANATHA ACHAR K
648	204143	MR. SEBY JOHN C	688	205471	MR. ARVIND CHANDRAN
649	204181	MS. GIRIJA SUNDARAM	689	205502	MS. LISA JOSHY
650	204197	MR. BALAJI P	690	205532	MR. RAJ KUMAR CHEBROLU
651	204217	MS. SUGHANYA P	691	205538	MS. JEENA OOMMEN
652	204225	MR. TATAVARTHI SURESH	692	205542	MR. SESHAPHANI SETTY S
653	204227	MR. JOSEPH PHILIP	693	205558	MR. PRASAD S V B
654	204248	MR. GOPALAKRISHNAN E	694	205572	MR. VAIDYANATHAN S
655	204261	MR. CHIRANJEEVI RAO P V K	695	205580	MR. UMAKANTH N
656	204284	MR. OM PRAKASH B R	696	205586	MR. KANNAN P V
657	204295	MS. BHARATHI K	697	205605	MR. PARAS KUMAR P
658	204316	MR. SANKARAREDDY P	698	205621	MR. SIVASHENBAGAM K
659	204405	MR. BHALAAJI M	699	205646	MS. SUDHA RANI K
660	204468	MR. CHIDAMBARAM M	700	205649	MR. NORI SHYAM SUNDER

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
701	205663	MR. GANESH T	741	206615	MS. SHENOY ROOPA VITTALDAS
702	205677	MR. THYAHARAJAN J	742	206643	MS. HARITHA V
703	205680	MR. RADHAKRISHNAN M	743	206675	MS. DEVI PUSHPA PERUMAL
704	205683	MR. JUZER S	744	206736	MR. RAMANATHAN J
705	205687	MR. HENRY I	745	206746	MS. DEVI SUDHA K N
706	205708	MR. SRIRAM J	746	206750	MR. GEORGE NINAN
707	205766	MR. VENKATESH V	747	206767	MR. SUBASH V
708	205815	MR. LAKSHMI NARASIMHA SASTRY K	748	206789	MR. KANNEGANTI RANGA RAO
709	205832	MS. TARA GOPALKRISHNAN	749	206842	MR. GIRIDAS D
710	205851	MR. NAGESHWAR RAO R V	750	206853	MR. HARIKUMAR T
711	205887	MR. VENKAT RAAMAN R	751	206856	MR. CHUNDURU ANANTA KRISHNA CHAITANYA
712	205892	MR. VELAYUDHAM J	752	206857	MR. SUBRAHMANYAM P
713	205948	MR. THANKACHAN K J	753	206859	MR. GANESH K C
714	205969	MR. PRAKASH K	754	206877	MR. SANJAY M ROY
715	205986	MR. MANOJ S	755	206891	MR. PHANINDRA NICHANAMETLA
716	205991	MR. RAMKUMAR S V	756	206895	MS. REVATHY BALAJI
717	206044	MR. SHRIKANT S	757	206901	MR. PRABU R
718	206053	MR. SUBRAHMANYAM A V K	758	206911	MS. SUKANYA R
719	206073	MR. SANKA VISWESWARA RAO	759	206917	MR. RAVI SANKAR SARMA K
720	206086	MR. BALIGA SANJAY VISHWANATH	760	206920	MR. SATHYA PRAMOD Koushik
721	206110	MR. MEHUL SURESH SHAH	761	206927	MS. VIDHYA P
722	206123	MR. SABU JOSEPH	762	206965	MR. KURUPATI UGENDRA
723	206147	MR. NARAYANASAMY S	763	206972	MR. SURESH R
724	206156	MR. MAHESH K	764	206976	MR. SUDARSAN B
725	206298	MR. CHANDRAMOULY V	765	206992	MR. DESIKAN N
726	206303	MS. VANI SHREE G	766	207020	MR. BALAJI K
727	206324	MR. SANJEEV A	767	207032	MR. VEERA VENKATA SATISH GOTTIPATI
728	206325	MR. PACKIARAJ M	768	207074	MR. ROJI GEORGE
729	206353	MR. ROYMON JOSEPH	769	207119	MR. SHRIDHAR SAMPATH
730	206359	MR. KETAN SHAH	770	207134	MR. ARAVIND BABU GORRELA
731	206400	MRS. VASUNDRA JIWAN GUJARATHI	771	207161	MR. SAJEEV KUMAR S
732	206426	MR. NAGAMBIKA PRASAD S V	772	207193	MR. RAGHU VENKATESAM
733	206429	MR. BALAJI VARMA PUSAPATI	773	207220	MR. PRASANTH P
734	206452	MR. VISHWANATH K S	774	207266	MR. VENKITACHALAM G
735	206499	MR. NIJU ABRAHAM	775	207281	MR. SUSHEEL SABOO
736	206504	MR. SAI GANESH K	776	207286	MS. PRATHA RADHA MADHAVI
737	206509	MR. KALYANARAMAN R	777	207287	MR. POORNACHANDRA RAO KASUKURTHI
738	206518	MS. PRABHA B	778	207290	MS. BABALUSHA ESTHER PAUL
739	206521	MS. GEETHA RAMAKRISHNAN	779	207323	MR. NARASIMHA MURTHY K M
740	206539	MR. BONNY MATHEW	780	207364	MR. ANIL KUMAR M V

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
781	207365	MR. KOTHURI SREEDHAR	821	208478	MR. NATARAJAN S
782	207439	MR. RUPESH R	822	208486	MR. AJAI THOMAS
783	207458	MR. NARASIMHAN N	823	208536	MR. PRAKASH P
784	207462	MR. RAMAKRISHNAN N	824	208541	MR. GANDIKOTA VIDYADHAR
785	207482	MR. RAMESH A R	825	208543	MR. VAMANA SHENOY V
786	207486	MS. KAUSER ISMAIL	826	208577	MR. VEERAPANENI MURALI KRISHNA
787	207507	MS. MIRA P V	827	208583	MR. VENU GOPAL B
788	207518	MR. GOPI RAJ S	828	208623	MR. MATHEW JOSE
789	207601	MS. ANEETHA S	829	208636	MR. MOHAMED ADNAN OOMER SALT
790	207630	MR. SKEERAM VISHWANATH A	830	208647	MR. NANDA KUMAR N
791	207683	MR. GURURAJ V	831	208650	MR. MASTAN RAO T
792	207729	MS. JAYA RAMASWAMY	832	208663	MR. SNEHAN G OLIKARA
793	207737	MR. RAJESH PRABHU C	833	208666	MS. PADMAVATI ADDALA
794	207747	MR. VENKATESWARAN V	834	208718	MR. MADHU KUMAR M S
795	207791	MS. RAJSHRI R	835	208748	MR. SRIHARI MADALA
796	207815	MR. DORESWAMY P	836	208750	MR. BINU M G
797	207823	MR. DAMODAR S	837	208764	MR. PRAVEEN KUMAR K
798	207833	MR. AVINASH P MODI	838	208796	MR. RAHUL K
799	207857	MR. VIKRAM PRABAKAR L	839	208802	MS. CHITRA VANAMALI
800	207882	MR. CHANDRAN R	840	208804	MR. PARAMESWARAN P N
801	207903	MR. MANIKANDAN V P	841	208806	MS. SAJNA KURUVILLA
802	207949	MR. ANNAMBHOTLA ATCHUT KIRAN	842	208809	MR. ARAVINDAN S
803	208000	MR. ANANDAN E A	843	208870	MR. NAGESH KUMAR MANGOLLU
804	208034	MR. RADHA KRISHNAN SEETHARAMAN	844	208876	MR. NARSINGAM B
805	208046	MR. MEERAN SHAH	845	208886	MS. PRIYA SRINIVASAN
806	208086	MR. RADESH KRISHNA S	846	208909	MR. KOTNI PAIDI RAJU
807	208095	MS. MADHAVI B	847	208943	MR. SHIBU NINAN
808	208103	MR. ANAND KUMAR P	848	208948	MS. SRIDEVI K
809	208104	MR. ABHIJEET K	849	209028	MR. RAJESH K S
810	208144	MR. CHITHIRAI ALIAS BABU A	850	209031	MR. SWAMINATHAN M
811	208159	MR. SATHYANARAYANAN K	851	209058	MS. RAJALAKSHMI N
812	208213	MS. SELLVA PARVATHI B	852	209088	MS. PARVATHAVARTHINI S
813	208222	MR. SATISH KURPAD	853	209100	MR. NAGABUSHANA REDDY V
814	208227	MS. RITU AGARWAL	854	209118	MR. SABARINATH G N
815	208228	MR. SUMANTH KUMAR K	855	209121	MR. PULAVARTHI N V K KISHORE
816	208254	MR. RAMAKRISHNAN V	856	209135	MR. SUNDARA RAJESH A
817	208321	MR. RAVI R T	857	209140	MR. HARI KISHEN S
818	208334	MR. CHANDAPPA S S	858	209144	MR. RAJKUMAR P
819	208448	MR. SAMBAMOORTHY N	859	209154	MR. SETHURAMAN S
820	208451	MR. RAJEEV A	860	209178	MR. PANKAJ KUMAR BAFNA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
861	209186	MR. PAVAN KUMAR P	901	209966	MR. RAJASEKARAN P
862	209187	MS. AMITHA PRABHU	902	209983	MR. NARAYANA HEGDE
863	209225	MR. ANURAG RATHI	903	210063	MR. RAM KUMAR S
864	209231	MS. KAVITHA R HEGDE	904	210080	MR. SAJAN BABU C
865	209264	MS. USHMA SHAH	905	210081	MR. PANKAJ KUMAR JAIN B
866	209277	MR. VENKATA HANUMA UDAYKANTH DEVARAJ	906	210110	MR. SURESH KUMAR P
867	209285	MR. SABU C S	907	210115	MR. SANTHOSH L
868	209288	MR. YOONUS AVANI VEEDU	908	210137	MR. VIKASH SUREKA
869	209316	MR. SUSHIL KUMAR K S	909	210153	MS. MANVI KELA
870	209349	MR. HAREESH B	910	210173	MR. HARISHKUMAR M
871	209353	MR. SANJAY B	911	210192	MR. RAMPRASAD U
872	209361	MR. BIHAT SHIVASWAMI SHANKAR	912	210203	MS. BATHULA V K DURGA
873	209378	MR. THIMMA REDDY TURPUSEEMA	913	210230	MR. SATHEESH KUMAR R
874	209383	MR. GANESH KUDVA N	914	210239	MS. ARCHANA PURUSHOTHAM
875	209406	MR. JAVEED ASHFAQUE AJANI	915	210300	MR. GOWRI SHANKAR K
876	209409	MR. SATHYA BANGAURU SETTY BANDARU	916	210318	MR. BALAJI N
877	209423	MS. SRIVIDYA S	917	210327	MR. PRASAD P A
878	209426	MR. KISHORE KUMAR BHOJANAPALLI	918	210347	MR. ANANTHA PRABHU T R
879	209440	MS. ANJELAADEVI D	919	210361	MR. ANIL KUMAR
880	209508	MR. LAKSHMINARAYANAN N	920	210366	MR. VEERA VENKATA RAJU VETSA
881	209512	MS. ANUPAMA KRISHNAMURTHY	921	210380	MS. ANUSUYA CHAMAN
882	209524	MR. JOHNMOM XAVIER	922	210418	MR. CHAITANYA C S
883	209525	MS. MINAKSHI G	923	210450	MR. SAKARAY LAMBADAY ERESHI RAO
884	209572	MR. NARAYANAN R	924	210464	MR. SHANKAR A M
885	209623	MS. JAYASHREE JAGADISH	925	210481	MR. SUBHASH GUPTA VALIVETI
886	209653	MR. GIRISH PODDAR	926	210489	MR. KRISHNAPRASAD B
887	209689	MS. HEMA SANKARAN	927	210493	MR. PRADEEP GOPALKRISHNAN
888	209719	MR. BIJU JOHN	928	210509	MR. JAGATHA BHASKAR
889	209734	MR. ARUN KUMAR M K	929	210510	MR. BRIJESH RAI K
890	209736	MS. DIANALAXMI G	930	210516	MR. GURUMURTHY R
891	209785	MS. SHEFALI N S	931	210591	MR. VINODH KUMAR S
892	209788	MS. KADAMBARI N NANAIH	932	210592	MR. KHALID IQBAL
893	209797	MR. RAVI KUMAR K	933	210596	MR. VEERAJAH EDARA
894	209808	MR. KRISHIKESH P	934	210599	MS. APARNA M
895	209874	MR. YOGESH NARAYANAN SUNDARAM	935	210637	MR. HARVESH KUMAR MARWAHA
896	209875	MR. VENKATA RAMANAN K G	936	210640	MS. RENUKA BALIGA
897	209892	MR. AVINASH LODHA	937	210663	MR. KALYAN CHAKRAVARTHY MACHIRAJU
898	209893	MR. GOPI R	938	210664	MS. SINDHUJA V V
899	209898	MR. MOHAMMED AFZAL KHAN	939	210674	MS. RAKHEE N PANCHAGATTI
900	209899	MR. JOLLY T T	940	210681	MR. SRINIVASAN B

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
941	210712	MR. VINOD KUMAR V	981	211651	MR. RAMA KIRAN A
942	210714	MR. MANISH ASTHANA	982	211653	MR. IWAN OZWELED SEQUEIRA
943	210783	MR. SIDHARTH R KAILAS	983	211670	MR. VINAY MOHAN
944	210784	MR. VASUDEVA VITHAL I	984	211694	MR. ROBIN MOSES RAJ G
945	210863	MR. VIVEK VASUDEVAN	985	211703	MR. BADRINATH R
946	210937	MR. PERLA SUDHEER	986	211712	MR. KIRAN KUMAR THOTA
947	210938	MR. JAYA SANKAR PERLA	987	211763	MR. ATUL V SARMA
948	210947	MS. VEENADHARI SOMISETTI S	988	211776	MR. KARTIKEYA V KASINADHUNI
949	210960	MR. SUDHAKAR I	989	211877	MS. VAISHNAVI R
950	210991	MR. RANJITH B	990	211914	MR. KARTIK BALASUBRAMANIAN
951	211003	MR. NATARAJ V	991	211940	MR. SUBRAMANI P
952	211046	MS. JAYANTHI CHANDRASEKAR	992	211948	MR. TIRUMALA D RAGHAVA
953	211059	MS. SUKRUTHI VENKATESH	993	211953	MR. UDAY BHASKAR N
954	211071	MS. KAVETI SRI RAMANI SAILAJA	994	211958	MS. THERESA MARGARET S D P
955	211081	MS. LALITHA S	995	211990	MR. VIJESH K R
956	211108	MR. SUNDARESAN V	996	212035	MR. SUNIL JAIN
957	211150	MR. THRIVIKRAM REDDY CHINTALA	997	212046	MS. MATHANGI K
958	211164	MR. RAMANADHA BABU PALLAPOTU	998	212063	MR. VASUDEVAN K R
959	211168	MR. BALAGOPAL G	999	212084	MR. MURALI MOHAN RAO MOKKAPATI
960	211218	MS. PRIYA RAMACHANDRAN	1000	212093	MR. DEEPAK B
961	211224	MR. SRIHARI KOTTHURI	1001	212095	MS. MINIMOLE SAJAN
962	211230	MS. DEENA JACOB	1002	212141	MR. SRIKANTH R
963	211251	MR. SRINIVASAN S	1003	212143	MS. RAMA S
964	211262	MR. JAYA KIRAN KARTHIK P	1004	212144	MR. JAMI SATESU
965	211291	MR. PANDIAN K	1005	212163	MS. RAJA RAJESHWARI S
966	211323	MR. KAMOJHALA RAMAKRISHNA	1006	212167	MR. SRI RAMA NAGA RAJU CHINTALAPUDI
967	211342	MR. BIPIN KOSHY THOMAS	1007	212214	MR. SUNIL SHANKARAN
968	211415	MR. AYYAPPAN S U	1008	212216	MR. SURESH S
969	211416	MR. SANTOSH KUMAR B	1009	212224	MS. SASHIKALA K
970	211420	MR. BALAGANGADHARAN S	1010	212234	MR. PRABHU KARUNAKAR SUNKARA
971	211423	MS. CHITRA RAMASWAMY	1011	212237	MR. SUNILKUMAR JAIN
972	211444	MR. ARAVIND R	1012	212333	MR. SRIDHARA M G
973	211462	MR. GOKUL TAPADIA	1013	212369	MR. AKELLA SHREE RAM VAMSI
974	211498	MR. STEPHEN GNANASEKARAN S	1014	212373	MS. ARATHI S
975	211504	MR. NARENDRA KUMAR M	1015	212375	MR. VISHNU V
976	211543	MS. VASUDHA S	1016	212390	MR. SASIKUMAR V
977	211575	MR. SRINIVAS K	1017	212420	MR. MUNIPALLI GAYATRI DINAKAR
978	211583	MR. JANARDHANA PRASAD C	1018	212422	MR. PRAMOD K P
979	211587	MR. BALAKRISHNAN V	1019	212426	MS. RADHIKA M
980	211645	MR. SRINIVASA RAO VEMPATI	1020	212430	MR. KIRAN KUMAR KAZA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1021	212440	MS. ARUNA N	1061	213092	MR. KUMAR REDDY P S
1022	212464	MS. SUJATHA P	1062	213095	MS. SHEETAL KUMBHAT
1023	212465	MR. IMANDI LAKSHMIKANTH	1063	213122	MR. PATRA RABI KRISHNA
1024	212476	MS. LAKSHMI PATTABI RAMAN	1064	213128	MR. SREEJITH N V
1025	212488	MR. VENKATESH V R	1065	213130	MR. SANDEEP M
1026	212491	MR. SURESH SWARNA	1066	213144	MS. KARTHIKA G
1027	212494	MR. RAMKUMAR K	1067	213158	MR. KARTHIK C P
1028	212498	MS. SHILPA N R	1068	213180	MR. CHALAPATHI V V S
1029	212500	MR. ARTHI NATHAN	1069	213190	MR. MURALI KRISHNA V
1030	212502	MR. GURUMURTHY V	1070	213227	MS. KALAI SELVI R
1031	212509	MR. SRIRAM K	1071	213321	MR. MAHESH TUMMEPALLY
1032	212552	MR. MUKESH PHALOR	1072	213323	MR. STEEPHEN JOY
1033	212567	MR. JOSU DEVASIA	1073	213334	MR. SURENDRA TADIKAMALLA
1034	212581	MS. SANDHYA G	1074	213336	MR. DEEPAK M D
1035	212583	MS. MAHALAKSHMI V S	1075	213366	MR. HARIHARA SUBRAMANIAN G
1036	212595	MR. TANVEER AHMED S	1076	213387	MR. RAJEEV BHANDARI
1037	212630	MR. NATARAJAN H	1077	213393	MS. ANJALI PRABHU
1038	212649	MR. LAKSHMI NARAYANAN D	1078	213432	MR. VENKATA RAMANA RAO NEERELLA
1039	212708	MS. TASHINA KRISHNIAH	1079	213444	MR. CHANDRASEKHAR S
1040	212713	MR. MADHUSUDHAN RAO V	1080	213471	MR. THARIK P
1041	212717	MR. KARTHIK BALASUBRAMANIAN	1081	213494	MR. MURALI MOHAN RAJU REDDYCHERLA
1042	212736	MR. KISHORE KUMAR REDDY D	1082	213504	MS. PRATIBHA S LALWANI
1043	212757	MR. SATISH KUMAR JAIN KALA	1083	213515	MR. NAVEEN KUMAR N P
1044	212761	MR. SUDHAKAR ORUGANTI	1084	213528	MR. KIRAN KUMAR T
1045	212762	MR. NOORULLAH BASHA S M	1085	213547	MR. SATHISH M G
1046	212789	MR. HARISH K S	1086	213570	MR. KANCHETI PRAVEEN KUMAR
1047	212814	MR. RAMAKRISHNAN M B	1087	213576	MR. SHAJI M
1048	212825	MR. GOPALAKRISHNAN R V	1088	213615	MR. KANNAPPAN K N
1049	212833	MR. SRIKANTH R	1089	213620	MR. SAI GOPAL PATRO CH
1050	212878	MR. ARUNKUMAR R	1090	213643	MR. PRASAD GOVINDARAY BHAT
1051	212968	MS. NITHIYAA D	1091	213661	MS. HEMAMALINI S
1052	212997	MS. SHWETHA NAGARAJ	1092	213669	MR. MOHAMED SAMEER P
1053	213008	MR. SAIRAM VADDAVALLI	1093	213690	MR. RAMANARAYANAN G
1054	213020	MS. ANJU MATHEW	1094	213709	MS. JANSY MEJELA MARY S
1055	213026	MR. KRISHNANAND NAYAK	1095	213797	MS. SARADHA G
1056	213030	MR. VARA PRASAD G N S	1096	213799	MR. DHAVEJI C V V R A S
1057	213071	MR. VENKATA PHANI RAJ KUMAR A	1097	213807	MR. PRAMOD KUMAR M
1058	213072	MR. VENKATA SURESH BABU BUDE	1098	213811	MS. ANUSHA R JAIN
1059	213086	MR. VISHAL SISODIA	1099	213837	MS. RAMYA V
1060	213091	MR. SHAHANI RAVI	1100	213847	MR. BONELA NARASINGA RAO

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1101	213852	MR. SATHISH KUMAR R	1141	214622	MR. PRASHANT JAIN
1102	213869	MR. VIKRAM ASHOK SARAF	1142	214623	MR. RAJESH ACHARYA
1103	213892	MR. BALAJI P	1143	214659	MS. SHARADA C V
1104	213919	MR. HARISH H	1144	214664	MS. NIRANJANA RAMAN
1105	213923	MR. SHIVRAM R	1145	214665	MS. KRISHNA PRIYA D
1106	213930	MS. SREEPRIYA R	1146	214667	MR. ESHWAR SUNDERAJ
1107	213931	MR. SUJIT B	1147	214671	MS. SHOBANA G
1108	213943	MR. SHARUL JAIN	1148	214682	MR. SIVAKUMAR G
1109	213952	MR. SRINIVAS DUGGAMPUDI	1149	214685	MR. ASHWATH G BHAT
1110	213964	MS. PAPPU LAKSHMI SIREESHA	1150	214687	MR. SRIRAM S
1111	213975	MR. KRANTHI PRASAD AMBATIPUDI	1151	214728	MR. SUNDARAY SADANANDA
1112	213985	MR. KHASEEM SAB AKBAR SAB NOORBASH	1152	214753	MS. PAYAL NANDY
1113	214002	MS. SADHANA SUREKA	1153	214790	MR. SRIVATSA
1114	214044	MR. SUDHEER SATYAPAL S	1154	214796	MS. DEEPTHI Y C
1115	214059	MS. SHREEVIDYA K	1155	214797	MR. PRAVEEN C G
1116	214081	MR. NAISON LOUIS	1156	214877	MR. MADHUSUDAN R
1117	214083	MR. RAVI KUMAR CHENNUPATI	1157	214934	MR. VENKATA NAVEEN LALAM
1118	214120	MR. BADEY HIMA VENKATA NARESH	1158	214939	MR. BESTO VARGHESE
1119	214141	MR. KISHORE ALEX	1159	214970	MR. VINOTH KUMAR G
1120	214143	MR. VINOD R	1160	214974	MR. ADITYA NARENDRA
1121	214147	MR. SURYA CHANDRA SEKHAR MALLA	1161	214975	MS. KAVITHA V
1122	214149	MR. BALA VENKATA SUBRAHMANYAM CHINNI	1162	215015	MR. GOWTHAMAN A M
1123	214255	MR. ANIL KUMAR KONERU	1163	215041	MS. KRISHNA KRUPA SONCHHATRA
1124	214268	MR. SUNIL B	1164	215081	MR. TONY DAVIS
1125	214286	MR. PATRO SUNIL KUMAR	1165	215140	MR. RAVI KUMAR V
1126	214297	MR. ARAZ ANWAR ALI S	1166	215155	MR. GINO PAUL
1127	214397	MR. RAGHAVENDRA N	1167	215161	MS. VENU MADHAVI CHERUKURI
1128	214425	MR. RAGHAVENDRA G V	1168	215188	MR. NANDU C P
1129	214456	MR. SENTHIL KUMAR V M	1169	215228	MR. RAJEESH KHANNA C
1130	214510	MR. SRIRAM PHANESWAR K	1170	215240	MR. RAJA SEKHAR ITHA
1131	214542	MR. RAKESH B	1171	215257	MR. SATHYENDRA BHAT K
1132	214551	MS. TULASI MADDINENI	1172	215265	MS. SUSMITHA RATNAM
1133	214559	MR. SRINIVASA A	1173	215274	MR. RAVI BOKAM
1134	214561	MS. JAYASHREE P	1174	215320	MR. RAMABABU ADEPU
1135	214562	MR. SRINIVAS V	1175	215334	MR. ARAJI VISHWANATH CHANDRAKANT
1136	214572	MR. GIRISH B	1176	215340	MR. VENKATARAGHAVAN S
1137	214593	MR. VIKRAM KANKARIA A	1177	215379	MR. JATIN BATRA
1138	214615	MR. VIJAY A M	1178	215381	MR. DUGAR ASHIT JAGAT SINGH
1139	214617	MR. RAMESH N	1179	215474	MR. GANESH KUMAR J
1140	214619	MS. VINEETA RAVINDRANATH	1180	215475	MR. SUDHAKAR ARLAGADDA

S NO	MRN	MEMBER NAME
1181	215508	MR. JOHN PASHA SHAIK
1182	215515	MR. RAVI KUMAR K
1183	215532	MR. HARI BABU PINNAKA
1184	215560	MR. SYAMPRASAD P G
1185	215576	MR. SUNIL KUMAR P
1186	215581	MR. VIVEK B IYER
1187	215607	MR. RAGHAVA CHARY T
1188	215611	MR. SENTHILKUMAR B
1189	215658	MR. RADHAMANI K
1190	215693	MR. VIKRAMA PRIYA VAMSI M
1191	215694	MR. ARUN A
1192	215729	MR. VANITHA MARGRETTE
1193	215750	MR. TOMY JOSEPH
1194	215754	MR. SANTOSH V
1195	215759	MR. SUNIL KUMAR M
1196	215760	MR. SREEDHARA A
1197	215773	MR. DANUNJAYA A
1198	215778	MR. PADMAVATHI S
1199	215781	MR. PRABHAT KUMAR TALASU
1200	215806	MR. MURALIDHARA RAO VADDI
1201	215813	MR. ANANTA CHARANA SAHOO
1202	215831	MR. KARTHIK NARAYANAN P R
1203	215845	MR. HEMA JOSHI
1204	215884	MR. SRIRAM M BHAT
1205	215886	MR. RAMESH BABU MURIKI
1206	215889	MR. SATHISH G
1207	215904	MR. GOWRI K
1208	215964	MR. SUDHA C
1209	215994	MR. DAS PRIYARANJAN
1210	216004	MR. ACHANTA RAMA NAGA UPENDRA
1211	216006	MR. VENKATA CHANDRA SEKHAR ALLURI
1212	216025	MR. VADLAMANI RAMA PRASAD
1213	216029	MR. CHUNDURU RAGHAVENDRA KOUNDINYA
1214	216052	MR. JITENDRA KUMAR GOUR
1215	216054	MR. RAVINDRA K
1216	216089	MR. SANTOSH T V
1217	216117	MR. CHETAN PRAKASH S PIRGAL
1218	216130	MR. DINESH KUMAR AGRAWAL
1219	216146	MR. ANUSHA RAGHUNATHAN
1220	216177	MR. GOKULDAS PAI H

S NO	MRN	MEMBER NAME
1221	216202	MR. DEVARASETTY KIRAN KUMAR
1222	216204	MR. ANAND M
1223	216215	MR. SRIHARI G
1224	216219	MR. SIVA SANKAR REDDY SANAM REDDY
1225	216226	MR. ACHARYA DIPTENDU KUMAR
1226	216261	MS. RENY PAUL
1227	216271	MR. SUBBA RAO UNNAM
1228	216296	MR. MINS MATHEW
1229	216340	MR. BIJI JOSEPH
1230	216372	MR. PRAVEEN JAIN
1231	216382	MR. AMPURAN J K
1232	216388	MR. SUJIT POKHAREL
1233	216434	MS. NEHA MEHTA
1234	216451	MR. MURALIDHAR NANDURI
1235	216504	MR. VINOD KUMAR S
1236	216505	MS. SANGEETHA R
1237	216553	MR. GIRISH C S
1238	216599	MR. KARTHIK KOLLURI
1239	216654	MS. SHILPA S MALHOTRA
1240	216669	MR. KARTHIK T
1241	216671	MR. RAMESH C S
1242	216677	MR. AJAYA KUMAR RAUTARAY
1243	216709	MR. KRISHNA MOHAN U
1244	216715	MR. SRINIVASA RAO APPANA
1245	216721	MR. GOPALA KRISHNA SAKAMURI
1246	216722	MS. KALPANA G
1247	216724	MR. VISHESH RAJARAM R
1248	216730	MR. JAGADISHA S R
1249	216743	MS. SHARMILA RANI N
1250	216748	MS. DIMPLE CHAUDHURY
1251	216765	MR. KURUVILLA MATHEW
1252	216775	MR. SRINIVASA RAO KOLASANI
1253	216776	MR. ASHOK NAIR
1254	216794	MR. RAJNISH DAHAL
1255	216796	MR. JOSE J MEKKALATH
1256	216804	MR. CHRISTY C CHANDY
1257	216814	MR. SIVAKUMAR G
1258	216815	MS. CHAITRA K MISHRA
1259	216821	MR. PRASADA RAO MARASU
1260	216843	MR. NISCHAY SARAF

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1261	216852	MR. SACHIN DATTATRAY SANU	1301	217984	MR. KOTESWARA RAO PASUMARTI
1262	216863	MS. SARSWATI ADHIKARI	1302	218009	MR. VIVEK N RAGGAV
1263	216869	MR. MATHEW VARGHESE PARAKKATT	1303	218019	MS. VIDYA Y
1264	216880	MS. SREE VIDYA LAKSHMI K	1304	218074	MR. MEHUL LALITH KUMAR
1265	216881	MR. VENKATA NAGA PRASAD MUVVALA	1305	218130	MS. THASNM BANU S F
1266	216913	MR. PRADEEP THOMAS	1306	218145	MR. ANANTH PRASAD B R
1267	216958	MR. PUNIT KUMAR MEHTA	1307	218214	MS. KAMATH LAKSHMI DAYANAND
1268	217007	MR. RAJASEKHARA REDDY EADA	1308	218251	MR. SRIRAJAGANAPATHY S
1269	217012	MR. JAGANNATH PRASAD MOHAPATRO	1309	218258	MR. SATHYANARAYANA C S
1270	217032	MS. PREETHI J	1310	218334	MS. SUCHARITHA B
1271	217068	MR. RAJKUMAR RAO B S	1311	218350	MS. SRAVANTHI V D N
1272	217118	MR. AJU SCARIA	1312	218386	MS. VANITHA A V
1273	217142	MS. KIRTHI H S	1313	218476	MS. VISHNU PRIYA L R
1274	217211	MS. LAKSHMI KRISHNAN	1314	218583	MR. VENKATA SIVIAH TALLURI
1275	217219	MS. VANAJAKSHI C	1315	218599	MS. APARNA AMMANNAYA
1276	217237	MR. DHARMA RAO A	1316	218611	MR. DIGY MATHEW
1277	217268	MR. KRISHNARAJ S	1317	218635	MS. HASEENA PARVEEN SHAIK
1278	217295	MR. VANJINATHAN M	1318	218685	MR. AMIT KUMAR BAJAJ
1279	217300	MR. PADMANABHA N	1319	218704	MR. ADITHYA P
1280	217325	MR. GORAV GUPTA R	1320	218705	MR. ASHOK KALYAN TAVVA
1281	217348	MR. RAJESH K	1321	218823	MR. SHIVADARSHAN S ANKALKOTI
1282	217419	MR. RADHAKRISHNAN R	1322	218824	MR. DILIP RADHAKRISHNAN
1283	217432	MR. LAXMI NARSIMHA MURTHY R	1323	218834	MR. BALA KRISHNA GALIPELLI
1284	217483	MR. VIDAYA KUMAR CH	1324	218872	MR. MAHAVEER JAIN M
1285	217509	MS. NEERAJA R	1325	218982	MR. SAHU SUDHAKAR
1286	217515	MS. KAMATH POORNIMA SRINIVAS	1326	218990	MR. CINESH JOSEPH
1287	217520	MR. SADASHIVA N T	1327	219006	MS. VASAVI L
1288	217636	MR. ABHAY KIRTI	1328	219013	MS. SARITHA B
1289	217645	MS. VENKATA KIRANMAI N	1329	219031	MR. RAVI SANKAR
1290	217652	MS. SHAMIMA NASHRIN	1330	219066	MR. RAGHURAMAN K L
1291	217658	MS. AMNIK TALWAR	1331	219107	MS. MAMTA OMPRAKASH BAGADIA
1292	217661	MR. JOHN PONVELIL PHILIP	1332	219112	MR. PANDITHURAI J
1293	217714	MR. SACHIN S SHAH	1333	219127	MS. DIVYA B
1294	217722	MR. PANDU E	1334	219141	MS. MADHURIMA S
1295	217775	MR. KHAJA KARIMULLA SHAIK	1335	219148	MS. MANISHA V AGARWAL
1296	217776	MR. VIJAYA BHASKAR DESU	1336	219211	MS. VISHAKHA MOHANDAS PAI
1297	217860	MS. KRIPA G	1337	219222	MS. TEJAL KAUSHIK GOR
1298	217883	MR. UDAYA KUMAR REDDY KOVURU	1338	219249	MR. DEEPAK KUMAR
1299	217886	MR. TEJAS J SHAH	1339	219270	MR. SEBI GEORGE
1300	217938	MR. MANOHARAN J	1340	219308	MR. SUNIL POKHREL

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1341	219368	MR. PETER FERNANDES	1381	220380	MR. ABHIJIT PRAHARAJ
1342	219373	MR. RAMA KRISHNAJI GUPTA KUNCHAM	1382	220391	MR. SHAKEEL SCHEMNAD
1343	219452	MR. NAVNEETH ACHARYA	1383	220406	MR. GAURAV KHANNA
1344	219462	MR. SHEBANAND SANGAT	1384	220419	MS. NIKHIL MITTAL
1345	219470	MR. GANIPINENI SAMBASIVA RAO	1385	220493	MR. RATAN BABU V
1346	219505	MR. PANKAJ TAYAL	1386	220603	MR. MADHAN KUMAR J
1347	219560	MR. RAHUL N V	1387	220608	MR. SRIDHAR MIRIYAMPALLI
1348	219575	MR. PRADEEP KUMAR G	1388	220666	MR. MALLESHAM J
1349	219618	MR. ARUN KARTHIK S	1389	220679	MR. MALLA REDDY BUTUKURI
1350	219654	MS. RANJITHA S N	1390	220790	MS. SHANU JAIN
1351	219710	MR. AANAND MANDELIA	1391	220798	MS. MADALI MAYURA RAJENDRA
1352	219713	MR. SRINIVAS C G	1392	220823	MR. ASHWIN DINAKARAN
1353	219748	MR. RAJA SOMASEKHAR GUPTA	1393	220826	MS. SHREYA JAIN
1354	219779	MS. SUNAYNA TAMRAKAR	1394	220830	MR. SAMEER P B
1355	219808	MR. SRIPAL D	1395	220831	MR. BHASKAR S Y N
1356	219821	MR. SUNIL KUMARA M	1396	220832	MR. RAVI BABU CHALLA
1357	219845	MR. SURENDRA MOTAMARRI N V	1397	220898	MR. CHAITANYAKUMAR K
1358	219870	MR. RAJU R	1398	220900	MR. UDAYA KUMAR S
1359	219906	MR. SURESH RAJ KHAKUREL	1399	220988	MS. ANJANA R
1360	219913	MS. LAVANYA S	1400	220989	MR. SHESHU BABU D
1361	219963	MR. ADITHYA U G	1401	221020	MS. WANISHREE NAIDU C
1362	220010	MR. MURALI KRISHNA BONAGIRI	1402	221034	MR. KANAKARA J N
1363	220035	MR. MUKESH GUPTA	1403	221040	MR. RAGHAVENDRA B SHETAR
1364	220037	MR. MOHIT KHADOLIA	1404	221066	MR. AMARESHWAR G
1365	220082	MR. VIPUL BIYANI	1405	221147	MR. LOKESH K V
1366	220102	MR. VISHAL S NARANG	1406	221157	MS. SHIVAGAMI N
1367	220147	MR. PRASHANTH KUMAR S	1407	221237	MR. SEBASTIAN PHILIP
1368	220159	MR. HARINATH BABU K	1408	401261	MR. SANJIV KUMAR
1369	220175	MR. KIRAN SHANBOUGH	1409	402577	MR. MIGLANI JITENDRA
1370	220236	MS. MANGALA A V	1410	402697	MR. AGRAWAL ANAND
1371	220253	MS. KALAIVANI G	1411	402737	MS. CHANDRASEKHARAN RASHMI
1372	220262	MR. SRINIVASA RAO DOKI	1412	403243	MR. AGRAWAL DEVENDRA
1373	220313	MR. RAJESHKUMAR K	1413	403398	MR. VERMA SANDEEP
1374	220317	MR. HARANADH BABU KANAMARLAPUDI	1414	404042	MS. JAISINGH DEEPTI
1375	220345	MR. DIVAKAR PRADYUMNA K	1415	404076	MR. KUKKAR GAURAV
1376	220352	MS. SASIKALA P	1416	404387	MR. MALPANI VIJAY
1377	220357	MS. GAYATHRI KAMESH	1417	404630	MRS. KAJAL DAGA
1378	220359	MR. SUBBA RAO KAPUGANTI	1418	404658	MS. ADITI JAIN
1379	220360	MR. JANAK KUMAR BARAL	1419	405209	MR. AGARWAL RAJ KUMAR
1380	220361	MS. SREEDEVI R	1420	406078	CA. RAJAT AGRAWAL

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1421	406368	CA. RAVI KANT	1431	506343	MR. NARENDRA KUMAR
1422	406454	CA. SEEMA KEDIA	1432	506595	MS. DIMPY SHARMA
1423	407034	CA. VINAYAK RAMCHANDRA LELE	1433	509364	MR. DIP NARAYAN SAH
1424	408602	CA. ANIK KUMAR VIJAY	1434	510128	MR. MOHD ABDUL MOID
1425	500963	MR. BAID SUNIL	1435	510335	MR. MOHAN RAO RAJANA
1426	501193	MS. GOWDA DIVYA	1436	510527	MR. SATISH TIRUMELA
1427	502201	MS. BANERJEE ISHITA	1437	510543	MS. NIHARIKA THAKUR
1428	504647	MR. BHASIN ASHISH	1438	511021	MR. TRINADH K
1429	505376	MS. IVATURI MADHURI	1439	511035	MR. RAMESH R
1430	505620	MR. GOYAL VIKAS	1440	511257	MR. CALAPPA K M

(T KARTHIKEYAN)

SECRETARY

Chennai-600034, the 30th November 2009

3SCA(4)/2/2008-2009 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on Account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:-

S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE
1	000795	MR. KURUVILLA P J	17/09/2008	21	009593	MR. SIVARAMAN V	15/05/2008
2	000874	MR. NATARAJAN CHITTUR ANANTHAKRISHNA AYYAR	15/07/2008	22	009658	MR. HEBLE BHIMASHANKAR MASNAPPA	10/09/2008
3	001079	MR. RAMIAH H	06/02/2008	23	010370	MR. ALLA LAKSHMAYYA	17/03/2008
4	001339	MR. VIRABHADRA RAO KOTA	16/05/2008	24	011032	MR. SUDHIR RAO YELLORE	27/09/2008
5	001607	MR. GOPALKRISHNA RAO P	01/08/2008	25	011120	MR. ARAVINDAKSHA MENON A	22/12/2008
6	002099	MR. VARADARAJAN SADAGOPAN	26/06/2008	26	011266	MR. AIYAPPAN V	15/04/2008
7	002138	MR. DORAISWAMI N R	09/10/2008	27	011882	MR. ALAGAPPAN S	21/02/2008
8	003174	MR. KINI ULLAL MADHAVA	26/07/2008	28	012905	MR. RAJAN A	26/10/2008
9	003695	MR. RAMANATHAN C	07/10/2008	29	013012	MR. JAIN MANGILAL BHAWRILAL	10/10/2007
10	003893	MR. GANGADHARAN N L	01/04/2008	30	013780	MR. NAHATA VIJAY CHAND	12/01/2008
11	004485	MR. SUBBARAMAN M N	18/04/2008	31	013844	MR. KRISHNA RAU U	12/07/2008
12	004930	MR. THANGAVADIVEL S	14/10/2008	32	014176	MR. MATHEW T C	20/01/2009
13	005073	MR. RAJAGOPALAN P	29/04/2008	33	014482	MR. VISWANATHAN V	30/01/2008
14	005671	MR. JAYARAM HARI	04/05/2008	34	014533	MR. HARENDRAN K P	12/03/2007
15	006439	MR. KRISHNAMOORTHY D	20/02/2009	35	015265	MR. SHANMUGAM N	30/12/2008
16	006549	MR. SITA RAM RAO G	10/12/2008	36	015806	MR. MANIAN M S	24/07/2008
17	006619	MR. PUNNEN PULIKODE JACOB	25/11/2004	37	016031	MR. RAJ MOHANDAS SHETTY K	10/02/2008
18	006901	MR. ANANTHARAMAN V	16/06/2008	38	016226	MR. JAGANNATHAN PADMANABHAN	26/11/2007
19	008115	MR. RAMACHANDRAN P H	29/10/2008	39	018197	MR. MEYYAPPAN N	08/11/2008
20	009510	MR. JOHN JOSEPH	15/07/2008	40	018665	MR. SURYA VARA PRASAD VARAHABHATLA	19/01/2009

S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE
41	018674	MR. ANILKUMAR VITHLANI B	23/06/2008	56	026829	MR. PETER C V	02/08/2007
42	019384	MR. CHELLAPPA P R	11/05/2008	57	027578	MR. PRASAD B	03/03/2008
43	019543	MR. ABRAHAM C P	17/10/2008	58	028190	MR. VENKATA RAO K	23/01/2009
44	019722	MR. CHACKO RAJAN VARGHESE	15/08/2008	59	030385	MR. RAJU BELLIE	26/01/2008
45	020178	MR. RAMAKRISHNAN V	11/12/2006	60	050625	MR. BRAHMA SANJIT	14/09/2008
46	020900	MR. ALAGARSAMI G	01/02/2008	61	072275	MR. MYNENI MOHAN MURALI	30/12/2007
47	021988	MR. POORNALINGAM A	21/12/2007	62	200761	MR. BASTY GIRIDHAR SHENOY	10/12/2008
48	022107	MR. CHETTY T G S N	14/09/2008	63	201565	MR. VIJAY KUMAR B KATTI	07/11/2008
49	023811	MR. VEERA BRAHMENDRA RAO A	23/07/2007	64	206530	MR. GANESH K R	19/04/2008
50	023876	MR. RAMANARAYANAN S	07/08/2008	65	207261	MR. GANESH E	11/08/2008
51	024097	MR. MADHAVA DAS C	23/02/2008	66	207307	MR. KURIAN THOMAS	15/10/2008
52	026086	MR. KISHORE KUMAR Y	06/12/2008	67	214948	MR. JAYAPRADEEP K M	31/10/2007
53	026551	MR. MAHESHWARI R C	04/11/2008	68	217208	MR. ILAVARASAN S	25/02/2008
54	026581	MR. DATTATRAYA GANPATRAO PATIL	01/04/2008	69	218060	MR. VENI STHITAPRAJNA	10/02/2008
55	026698	MR. RAJU A G	17/09/2008				

(T. KARTHIKEYAN)
SECRETARY

3SCA(4)/3/2008-2009 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:-

S.NO.	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE
1	012545	MR. VASU S	31/03/2009
2	018292	MR. RAMANATHAN K	31/03/2008
3	025992	MR. NATARAJAN D	27/06/2008

T. KARTHIKEYAN
Secy.

3SCA(8)/1/2008-2009: In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from 1st October 2008, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S NO	MRN	MEMBER NAME
1	001279	MR. SUNDHARESAN S S FCA
2	003009	MR. RATNAM R N FCA
3	004065	MR. SUBRAMANIAN V ACA
4	006287	MR. SUNDARA BABU Y FCA
5	009042	MR. SATHYANARAYANA T N FCA
6	010116	MR. SRINIVASAN A V FCA
7	010241	MR. THOMAS LAZARUS FCA
8	010308	MR. KASTURI RANGAN A ACA
9	010320	MR. GOVINDA RAJU N V FCA
10	010915	MR. RAMAN T H FCA
11	011241	MR. SANKARAKUMARASWAMY T C FCA
12	011734	MR. RATHI NAND KISHORE FCA
13	012330	MR. SRIDHARA B H FCA
14	014753	MR. PARAMASIVAN T FCA
15	015514	MR. SANKAR T R ACA
16	018213	MR. RAGHUPATHI K ACA
17	018234	MR. NARSING RAO I FCA
18	018366	MR. SUBBA RAO V V K ACA
19	018590	MR. SAMBASIVA RAO NANDIRAJU FCA
20	018676	MR. SHAILESH CHANDRA FCA
21	018691	MR. SRIRAMAN J FCA
22	018762	MR. ZIAUDDIN A M ACA
23	019054	MR. JAYAKUMAR R FCA
24	019107	MR. VENKATESH KUMAR R ACA
25	019121	MR. SURYANARAYANA T FCA

S NO	MRN	MEMBER NAME
26	019341	MR. SANTHANA GOPALAN K S FCA
27	019563	MR. KRISHNAMURTHY V FCA
28	019600	MS. BAGYALAKSHMI SHANKAR ACA
29	019656	MR. RAVI D FCA
30	019750	MR. NAGARAJAN R FCA
31	020036	MR. NARAYANAN NAMBIAR N R ACA
32	020051	MR. DILIP KUMAR S FCA
33	020134	MR. NADARAJAN S FCA
34	020198	MR. SUBBARATNAM P ACA
35	020433	MR. JAYADEVA B R FCA
36	020868	MR. NATARAJAN K FCA
37	021060	MS. MALATHI M K ACA
38	021317	MR. THOMAS A GEORGE FCA
39	021468	MR. ARUMUGA VELAN S FCA
40	021618	MR. CHENGALRAYULU G FCA
41	021690	MR. ANTONY ISAAC ACA
42	021769	MR. GOMATHISANKAR V R FCA
43	021934	MR. PREM KUMAR M ACA
44	021965	MR. SANTHANAM T R FCA
45	022145	MR. ARUNAGIRESWARA IYER V ACA
46	022297	MR. SHYAM SUNDER SHARMA FCA
47	022533	MR. GUNASEKARAN R FCA
48	022539	MR. MURALIDHARAN R ACA
49	022921	MR. RADHAKRISHNAN A R FCA
50	023175	MR. RAJAN P B FCA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
51	023339	MR. ACHIAH N D ALIAS LOKESH FCA	81	028662	MS. SUSEELA MAHESH FCA
52	023380	MR. SRIDHAR N FCA	82	028970	MR. RAMAMOORTHY N FCA
53	023619	MR. DILIP PRALHADRAO HITTINGHALLI ACA	83	029393	MR. ASHOK G ACA
54	023874	MR. SRIDHAR G FCA	84	029438	MS. BHARATHI SHAH FCA
55	023964	MR. CHANDRAMOULI A FCA	85	031400	MR. MUTHIAH K FCA
56	024820	MR. ANANDHAN E FCA	86	035521	MR. SUDEV MADHAV RAO FCA
57	024826	MR. SATHIYAPIRIYAN G FCA	87	037830	MR. SUBRAMANIAM SRIDHAR ACA
58	025016	MR. VENKATARAMAN S FCA	88	038695	MS. JAYASHREE BALAKUMAR ACA
59	025056	MS. MALATHI RAGHUNATH FCA	89	041715	MR. NARAYANA RAO B R S FCA
60	025276	MR. RAVICHANDRAN S FCA	90	051284	MR. SHARMA DIWAKAR FCA
61	025440	MR. RAMANI J R V ACA	91	053991	MR. DEY PALASH KUMAR FCA
62	025445	MR. CHENNUPATI CHANDRASEKHARARAO ACA	92	056675	MR. CHOWDHARY RAVI KUMAR FCA
63	025641	MR. MOHAN J FCA	93	058905	MS. NAHATA PRATIBHA ACA
64	025908	MR. SRIRAMAN V FCA	94	059518	CA. CHITRA APARNA Y ACA
65	025944	MR. BALAKRISHNA SHABARAYA K FCA	95	059575	MRS. VIDYA SANJAY ACA
66	026115	MR. CHANDRAMOORTHY K FCA	96	060378	MR. SANTOSH MAHESHWARI FCA
67	026236	MR. VENKATESH KOTESHWAR N FCA	97	060769	CA. SOUVA BHUNIA FCA
68	026249	MR. SATISH KUMAR V FCA	98	072258	MR. SESHAGIRI RAO I FCA
69	026560	MR. DEEPAK KAPOOR FCA	99	076660	MR. BHATNAGAR SANJAY ACA
70	026763	MR. SHAJEE JOSE ACA	100	077162	MS. VIDYA BHASKAR SUBRAMANIAN FCA
71	026776	MR. RIYAAZ AHAMED KHAN P FCA	101	080120	MR. NILAKANTAN S FCA
72	027140	MR. SIVA PRASAD K ACA	102	080143	MR. RAGHUNATHAN K ACA
73	027256	MR. NARAYANA RAO K FCA	103	081164	MR. BHASKARAKRISHNA B V S FCA
74	027552	MR. ASHOK R FCA	104	081370	MR. NARAYANASWAMY G FCA
75	027564	MR. SURESH KUMAR B S ACA	105	081612	MR. NAGARAJ H S ACA
76	027622	MR. THOMAS JOSEPH ACA	106	083622	MR. GONSALVES DEV ANTHONY ACA
77	027691	MR. SHANKARASA VENKOSA LADWA FCA	107	083902	MR. NAIR GIRISH FCA
78	027842	MS. RAJALAKSHMI R ACA	108	094124	MR. MAHESHWARI GAURAV ACA
79	028241	MR. RAM PRASAD D ACA	109	094947	MR. CHOPRA KAMAL SINGH FCA
80	028362	MR. GOPALA DESIKAN K ACA	110	101101	MR. KANNAN N S RAMALINGAM IYER ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
111	102527	MR. KHATRI JAMIL AHMED USMAN ACA
112	105098	MRS. SHACHI MAHESHWARI ACA
113	106520	MR. PARAG CHINTAMANI LAWATE ACA
114	107100	MS. SRIDEVI SRIKANTH ACA
115	115192	MS. SMITHA SHASHIKUMAR ACA
116	119332	MS. JULIE RITESH SHAH ACA
117	200016	MR. KARTHIK R ACA
118	200167	MR. RANGARAJ K P ACA
119	200364	MS. BHOOMA G ACA
120	200405	MR. GOPAL J ACA
121	200559	MR. ANANTHA PADMANABHA ALSE A FCA
122	200612	MR. MANOHAR S ACA
123	200684	MR. MATHEW JOSEPH FCA
124	200722	MR. SEBASTIAN MATHEW ACA
125	200828	MR. KRITHIVASAN R ACA
126	200887	MR. HARI KRISHNAN G FCA
127	200983	MR. SAJJAN RAJ JAIN P ACA
128	201082	MR. SUBRAMANIAN G ACA
129	201115	MR. PAULY STANLY PAYYAPPILLY ACA
130	201274	MR. SATYANARAYANA P FCA
131	201474	MR. SREEKUMAR M ACA
132	202304	MR. RUTHURUSAMY R ACA
133	202453	MR. SALEEM P V FCA
134	202520	MR. CHINNAPPAN A FCA
135	202643	MR. DHARMENDER VARADA ACA
136	202646	MS. GAYATHRI N FCA
137	202702	MS. ARUNA DAGA FCA
138	202762	MR. PRADEEP C ACA
139	202798	MR. VENKATARAMANAN J FCA
140	202873	MS. VASIREDDY LAKSHMI FCA

S NO	MRN	MEMBER NAME
141	202968	MR. SURESH K ACA
142	203211	MR. KOTTAKOTA SURESH KUMANDAN FCA
143	203324	MS. MAHALAKSHMI K FCA
144	203340	MR. MURUGESAN N FCA
145	203573	MS. SCYNTHIA SHERYL LOBO ACA
146	203620	MR. KISHAN RAO PUTHLI FCA
147	203980	MR. APPA RAO MYNENI FCA
148	204336	MR. VENKATESH M S FCA
149	204451	MR. YELLA SRINIVASA SESA SAI BABU FCA
150	204558	MR. VENKATA SUBBA RAO POOSARLA ACA
151	204599	MR. VENKITESHWARA PRABHU R ACA
152	204993	MR. POTHEN K VARGHESE FCA
153	205082	MR. BALAJI R FCA
154	205108	MR. MATHEWS V ABRAHAM FCA
155	205271	MR. ASHOK ARUNKUMAR RAO ACA
156	205511	MR. VENKATRANGAM K ACA
157	205864	MR. SANDEEP DESHPANDE FCA
158	205926	MS. ANU VINOJO JOHN ACA
159	206144	MS. KARUNYA GANDAVARAPU FCA
160	206167	MR. GIRISH A P ACA
161	206317	MS. ZEYONA ANN JOSE FCA
162	206371	MR. CHIVUKULA VENKATA PATTABHI RAMA SARMA ACA
163	206465	MR. PAVAN K ACA
164	206515	MR. SUBRAMANIAM S FCA
165	206645	MR. PRASAD D S ACA
166	206690	MR. SATYA PRAKASH V ACA
167	206993	MR. ARJUN SOMASEKHARA ACA
168	207039	MR. SURESH KUMAR R FCA
169	207042	MS. ARUNA P FCA
170	207111	MR. SATYANARAYANA V V FCA

S NO	MRN	MEMBER NAME
171	207283	MS. MAYALAKSHMY N S FCA
172	207414	MR. KUMAR J S FCA
173	207745	MS. RANJANI VIJAYARAGHAVAN ACA
174	207888	MR. SIVARAMAKRISHNAN T P ACA
175	207935	MR. DIPU J THOMAS ACA
176	207958	MS. KAVITHA D FCA
177	208101	MR. PRADEEP K ACA
178	208137	MR. MATHEW STEPHEN K ACA
179	208191	MS. ARUNA M FCA
180	208218	MR. PAVAN R ACA
181	208235	MR. NAGENDRA BABU B ACA
182	208317	MR. SUNDARRAJAN D ACA
183	208373	MR. BELAVENDIRAN V ACA
184	208386	MR. SYLESH BABU O V ACA
185	208399	MR. HAJA MOHIDEEN S ACA
186	208458	MR. RAMA KRISHNA D ACA
187	208554	MR. SAI KEERTHI CHANDER D FCA
188	208819	MR. SADASHIVA MARAKALA H FCA
189	209019	MR. SHAM BALLAL K R ACA
190	209032	MS. DEEPA VARGHESE ACA
191	209188	MS. VANDANA NAWAL ACA
192	209359	MS. AUGUSTINA BALACHANDRAN ACA
193	209489	MS. ANITHA MERLYN D'SILVA ACA
194	209491	MS. NITHYA P ACA
195	209631	MS. DEEPA S ACA
196	209728	MR. VELUMANI A ACA
197	209765	MS. DEEPA RAO ACA
198	209815	MS. MEERA S RAMAN ACA
199	209885	MR. SONY ABRAHAM ACA
200	210207	MR. BALAJI SUBRAMANIAN S ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME
201	210233	MR. SAJAN JOSE ACA
202	210243	MS. KIRTIMALINI NILEKAR ACA
203	210266	MR. RAJESH P B FCA
204	210309	MR. SATYANARAYANA BARU ACA
205	210316	MR. BAIJU K ACA
206	210462	MR. EASWARDAS V ACA
207	210569	MS. PRAVEENA BHANDARI ACA
208	210586	MR. KANCHI VARADA RAJU PANCHADI ACA
209	210687	MR. MURALI KRISHNA J S ACA
210	210814	MR. PHANI KUMAR K V ACA
211	210973	MR. KALYAN CHAKRAVARTHY M ACA
212	210999	MR. PRATISH PHILIP FCA
213	211178	MR. SATHISH KUMAR N ACA
214	211195	MS. ANITHA VITTAL ACA
215	211198	MR. BOBY VARGHESE ACA
216	211280	MR. VENKATESWARLU BATHINI ACA
217	211650	MR. ASWIN G MEHTA ACA
218	211674	MS. SUDHA MURTHY V ACA
219	211722	MS. SUCHITRA ANIL MENON ACA
220	211912	MR. SIREESH S ACA
221	211979	MS. VIJAYA LAKSHMI P ACA
222	212013	MR. VASUKI H S ACA
223	212056	MR. RAGHAVENDRA D ACA
224	212098	MR. VENKATESWARA RAO T FCA
225	212195	MR. RAPHY A J ACA
226	212461	MS. VANITHA G ACA
227	212585	MR. VENKATA RAMESH BABU NUNNA FCA
228	212756	MR. PARAMESHA S R ACA
229	212863	MR. HUNAGUND MALLIKARJUN PARAPPA ACA
230	212891	MR. CHETAN KUMAR LUNKAR R ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
231	212895	MR. KALANGI KRISHNA VARA PRASAD ACA	270	217414	MR. AMITH ACA
232	212921	MR. GONUGUNTA MURALI ACA	271	217465	MR. VENU VISWANATH VARANASI ACA
233	213034	MR. SURESH D M ACA	272	217510	MR. BALAJI R ACA
234	213063	MR. GIRISH KUMAR ACA	273	217551	MR. ROHAN JOHN A D'SOUZA ACA
235	213219	MS. LALITHA S ACA	274	217565	MR. ANIL KUMAR S ACA
236	213324	MS. RAJALAKSHMI C ACA	275	217696	MR. SANJEEVA REDDY MEDIKONDA ACA
237	213612	MR. JAYAKRISHNA P ACA	276	217786	MR. CHETHAN J ACA
238	213895	MR. PETLURU AMARNATH REDDY ACA	277	217844	MR. RAJENDRA KOIRALA ACA
239	213901	MR. NALAVADI SUNIL SAMBAJI ACA	278	218082	MR. KIRAN SUBEDI ACA
240	213958	MR. GANACHARI SURESH NAGAPPA ACA	279	218279	MR. SRIRAM KUMAR KASYAP PELLURI ACA
241	214015	MR. KALESHWAR PRASAD Y N ACA	280	218319	MR. SAJEEV KUMAR B ACA
242	214109	MR. HABEEB MOHAMMED A H ACA	281	218459	MR. NAVEEN K R ACA
243	214264	MR. PUROHIT RAJEEV HANAMANT RAO ACA	282	218585	MR. BALAKRISHNA VARNA B ACA
244	214323	MS. DEEPTHI M ACA	283	218728	MS. VARSHA BHANDARI S ACA
245	214442	MR. SUJITH ANTONY ACA	284	218960	MR. KARTHIK MALLADI ACA
246	214629	MR. RAJESHA G ACA	285	219003	MR. GOPALA KRISHNA S PAI ACA
247	214901	MR. SHIVANANDA KUMAR G ACA	286	219033	MR. GURU SANTHANAM G ACA
248	215212	MR. ASHRAF VALAPPIL ACA	287	219146	MR. VINODKUMAR O K ACA
249	215287	MS. JAYANTHI S ACA	288	219267	MR. NARAYANAN V ACA
250	215549	MR. DINAKAR Y R ACA	289	219271	MR. LAKSHMI SANKAR T V ACA
251	215659	MR. SESHAGIRI G ACA	290	219420	MR. MITHUN S J D'SOUZA ACA
252	215738	MS. MADHAVI AGARWAL ACA	291	219455	MR. PARANJOTHI S ACA
253	215768	MR. KRISHNAMURTHY SHIBARAYA ACA	292	219526	MR. AMIT KUMAR TRIPATHY ACA
254	215900	MS. GAYATHRI R ACA	293	219635	MR. RAJENDRA GADDE ACA
255	216119	MS. SONAL DISAWAL ACA	294	219805	MS. YASHIKA AHLUWALIA ACA
256	216228	MR. DILIP R ACA	295	220086	MS. LAKSHMI V S ACA
257	216258	MS. NIRUPA J SRINIVAS ACA	296	220179	MR. ARPIT KOTHARI ACA
258	216509	MR. SURESH GOPAL PATIL ACA	297	220476	MR. BHASKARA PRASAD K ACA
259	216681	MR. SAJEEV P V ACA	298	220496	MR. SANTHOSH KUMAR PATNANA ACA
260	216683	MR. LAXMI NARSINGA RAO M ACA	299	220502	MS. PANIGRAHI SWAGATIKA ACA
261	216726	MR. CHANDRASEKARAN P ACA	300	401433	MS. AGARWAL SWEETY ACA
262	216792	MR. YAW TSAI CONNEL CHEN ACA	301	402141	MS. JAIN RASHMI ACA
263	216828	MR. SHEKHAR PAREKH ACA	302	403913	MS. AGRAWAL MEGHA ACA
264	216845	MR. HARINADHA REDDY T ACA	303	500489	MR. MAHIPAL VINAY KUMAR FCA
265	216882	MR. ARIHANT BARDIA S ACA	304	500509	MR. SRINIVASA REDDY K ACA
266	217059	MS. CHITRA C ACA	305	501789	MS. ANURADHA B S ACA
267	217165	MR. KILARI SREENIVASA RAO ACA	306	504211	MS. GUPTA JYOTSNA ACA
268	217240	MS. PADMINI PAI B H ACA	307	506856	MR. RITESH SHANKAR GUPTA ACA
269	217275	MR. KARTHIK G ACA			

(T KARTHIKEYAN)
SECRETARY

3SCA(8)/2/2008-2009: In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
1	002258	MR. SWAMINATHAN KRISHNAMURTI FCA	01/04/2008	26	020228	MR. NACHIYAPPAN V FCA	01/01/2009
2	004442	MR. SEVVAL VASUDEVAN PADMANABHAN FCA	01/04/2008	27	021136	MR. SINGARAVADIVELAN S FCA	01/04/2008
3	004629	MR. SANKARAN R FCA	15/02/2008	28	022523	MR. SRINIVASAN N ACA	01/04/2008
4	005326	MR. SUBRAMANIAN NAMPOOTHIRI C N FCA	01/04/2008	29	023462	MR. MALLIKARJUNA M FCA	01/05/2008
5	007064	MR. VENKATARAMAN N K FCA	01/04/2008	30	023938	MR. GEORGE P ABRAHAM FCA	01/11/2007
6	007109	MR. NARAYAN RAO P N FCA	17/11/2008	31	023947	MR. CHANDRASEKHAR V FCA	23/01/2009
7	011661	MR. THIRUMALAI S FCA	01/07/2008	32	025060	MR. SRIRAM R FCA	11/07/2008
8	013219	MR. SUBRAMANIAN N FCA	19/08/2008	33	025508	MR. HARISH DWARAKANATHAN FCA	25/09/2008
9	013677	MR. KRISHNAMURTHY K V FCA	01/04/2008	34	026574	MR. SEKARAN N ACA	16/12/2007
10	013844	MR. KRISHNA RAU U FCA	01/01/2008	35	026702	MR. RAGHU S FCA	01/01/2008
11	014518	MR. SOUNDARARAJAN S ACA	01/04/2008	36	026903	MR. SEKAR T N FCA	17/09/2008
12	016034	MR. PANNALAL JAIN S FCA	23/01/2009	37	027054	MR. VENKATESHWARAN N ACA	01/04/2008
13	017858	MR. VISWANATHAN SINGHIKULAM RAMAYYA FCA	01/04/2008	38	027081	MR. RAMAKRISHNAN S ACA	26/06/2008
14	018082	MR. SRINIVASAN SESHAN FCA	01/04/2008	39	027108	MR. PRASAD I FCA	01/04/2008
15	018305	MR. NAHAR CHAMPALAL FCA	31/03/2008	40	027367	MR. MURALIDHARAN K M FCA	01/04/2008
16	018409	MR. GANAPATHY SUBRAMANIAN V FCA	01/04/2008	41	027411	MR. STARLING JOSHWA PACHIKARA FCA	16/08/2008
17	018449	MR. ANANTHA NARAYANAN V FCA	01/04/2008	42	027479	MR. GURUSHANKAR PRASAD N FCA	20/02/2008
18	018650	MR. SESHADRI N R FCA	01/04/2008	43	027616	MR. PURNACHANDRA PRASAD Y ACA	22/01/2008
19	018864	MR. RADHAKRISHNAN V FCA	01/04/2008	44	027618	MR. BALAJI N V FCA	01/09/2008
20	018972	MR. SUNDAR RAJAN J ACA	01/04/2008	45	027782	MR. CHANDRA SEKHAR K ACA	01/10/2008
21	019381	MR. GEORGE VARGHESE FCA	01/06/2008	46	027844	MR. SUBBA RAO A V FCA	12/02/2009
22	019704	MR. PRASANNA VENKATESAN S ACA	01/04/2008	47	028213	MR. VIJAYAKUMAR D FCA	07/08/2008
23	019955	MR. GURUSWAMY R FCA	01/04/2008	48	028384	MR. PRABAKAR B FCA	15/04/2008
24	020185	MR. SURESH BABU S FCA	01/04/2008	49	028759	MR. SRIDHAR A V ACA	04/03/2009
25	020192	MR. OM PRAKASH MEDA FCA	01/04/2008	50	028837	MR. SCARIA THOMAS FCA	09/01/2009

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
51	029112	MR. SRIDHAR K FCA	07/01/2008	81	111544	MRS. SAROJ PRAVESH KASAT ACA	27/09/2008
52	029124	MR. DHARWAD GURURAJACHAR FCA	01/04/2008	82	119213	MRS. LEENA SACHIN KAMAT ACA	01/04/2008
53	029541	MR. KUMAR SANKAR R FCA	19/03/2008	83	122935	MR. SUNIL CHANDRAKANT HUKKERI ACA	01/04/2008
54	029559	MR. GANESH H FCA	06/11/2008	84	200636	MR. PHANINDER NATH P S FCA	15/01/2008
55	029632	MS. BHAVANI MAHESH KUMAR FCA	01/09/2008	85	200879	MR. SREE RAMACHANDRA MURTHY CH FCA	01/07/2007
56	029648	MR. ANAND L FCA	02/04/2007	86	201007	MR. GOPA KUMAR S ACA	29/02/2008
57	032403	MR. SOMANI LAXMINARAYAN RAMJEEVAN ACA	31/03/2008	87	201106	MR. SURESHA C H ACA	31/03/2008
58	032813	MR. SRINIVAS V ACA	14/03/2008	88	201697	MR. PARTHASARATHY R ACA	01/04/2008
59	035278	MR. SRIKANTH P S FCA	18/09/2008	89	201797	MR. VIJAY KUMAR M P FCA	11/10/2007
60	037463	MR. VIJAYANAGAR MUKUND PADMANATH ACA	01/03/2009	90	202043	MR. SREENIVASULU J FCA	01/04/2008
61	044726	MS. SHUBHA GANESH FCA	01/11/2008	91	202052	MR. RAMANATHAN M S FCA	25/08/2008
62	047481	MS. MENON MINI BHASKARAN ACA	16/09/2008	92	202203	MR. NAGESHAPPA B FCA	11/03/2009
63	050088	MR. SATYANARAYANA MURTHY K V FCA	17/11/2008	93	202287	MR. VIVEKANAND NEKKANTI FCA	19/04/2007
64	051176	MR. SAINI GHAN SHYAM DASS FCA	19/05/2008	94	202479	MS. SAUMYA S FCA	29/02/2008
65	052552	MR. VASU RAVIRAJ ACA	01/09/2008	95	202764	MR. ANANTHA NARAYANA T FCA	24/09/2008
66	052657	MR. MATHEW MATHAI ACA	08/01/2008	96	202857	MR. RAGHOTHAMAN S ACA	31/10/2008
67	054753	MR. RAMNATH V P FCA	18/08/2008	97	202921	MR. VAASEN V ACA	18/02/2008
68	056721	MR. GHOSH SWARUP ACA	02/03/2009	98	203028	MR. KANNA BOOPATHY K G ACA	13/05/2008
69	056998	MR. GUHA DEBASIS ACA	16/12/2008	99	203090	MS. AMURTHAVALLI S FCA	30/09/2008
70	060965	MR. RUNGTA YUGAL KISHOR FCA	01/04/2008	100	203133	MR. SATYANARAYANA MURTY T N K ACA	18/12/2008
71	062267	MR. AGRAWAL PANKAJ KUMAR FCA	27/03/2008	101	203541	MS. THULASI B ACA	29/12/2008
72	072258	MR. SESHAGIRI RAO I FCA	24/12/2008	102	203882	MR. THOMAS K MATHEW FCA	12/08/2008
73	074558	MR. RAVI JAIN FCA	01/04/2008	103	204070	MR. DEEPAK CHAND BHANSALI FCA	29/08/2008
74	075282	MR. GOEL VIVEK KUMAR ACA	21/04/2008	104	204292	MR. JAGAN P ACA	10/01/2009
75	078206	MRS. GUPTA NIDHI FCA	01/04/2008	105	204301	MR. SRINIVASULU JONNALAGADDA FCA	31/03/2008
76	088971	MS. JANAKI S ACA	25/06/2008	106	204309	MR. VENKATA NAGA PRASAD GUPTA V ACA	28/08/2008
77	089208	MR. RAJAN L FCA	26/06/2008	107	204312	MR. ABHINANDAN REDDY FCA	31/05/2008
78	094680	MR. KRISHNAKUMAR S ACA	18/06/2008	108	204333	MR. MURUGADASS P ACA	07/06/2008
79	109942	MR. KETUL HARSHADBHAI SHAH ACA	30/12/2008	109	204601	MR. MUKUNDAN V FCA	13/03/2009
80	111167	MS. MAYURI DHIRAJ SHAH ACA	01/04/2008	110	204788	MS. TEENA B ACA	10/02/2009

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
111	204794	MS. GAYATHRI G ACA	13/02/2009	141	208641	MR. GURURAJ KULKARNI FCA	01/04/2008
112	204838	MS. SHERINE JOSE FCA	01/04/2008	142	208655	MR. BANDRI BALAJI PRASANNA ACA	25/09/2008
113	204924	MR. SUBRAMANIAN R ACA	14/03/2008	143	208656	MR. KUMAR GUPTA P V S S FCA	01/04/2008
114	205076	MR. BHARAT RAM VARADACHARI FCA	06/10/2008	144	208811	MR. SHASHIDHAR G FCA	15/12/2008
115	205113	MR. RAMAMURTHY C FCA	30/04/2008	145	208890	MS. SUJATHA K BHAT ACA	10/02/2008
116	205519	MR. PASUPATHI V ACA	01/04/2008	146	209157	MR. VAIYAPURI KANNAN R FCA	01/04/2008
117	205639	MR. SAMBASIVA RAO MURAKONDA ACA	01/04/2008	147	209570	MR. VIVEK PACHISIA FCA	01/02/2008
118	205839	MR. MAHENDRA JAIN FCA	01/04/2008	148	209575	MR. ANOOP B FCA	23/10/2008
119	205994	MR. MURALIKRISHNAN T N ACA	17/09/2008	149	209603	MR. SANTHOSH KUMAR M K ACA	01/04/2008
120	206000	MR. MURUGESAN R FCA	25/06/2008	150	209742	MS. CHITRA S ACA	22/09/2008
121	206449	MR. SUNDARESAN J ACA	01/04/2008	151	209876	MR. YOGISH ACHARYA K FCA	01/04/2008
122	206576	MS. VIDYA NAGARAJAN ACA	31/03/2008	152	210005	MS. SUJATHA R BHAT FCA	31/12/2007
123	206818	MR. SRINIVAS ARAVALLI FCA	31/03/2008	153	210053	MR. ABRAHAM PAYNADATH VARKEY ACA	01/04/2008
124	206852	MR. GIRI K ACA	25/11/2008	154	210171	MS. ANURADHA KASARABADA FCA	01/04/2008
125	206896	MR. LAXMINARAYANA T FCA	17/05/2008	155	210348	MS. SUCHITHRA K R ACA	12/03/2009
126	207071	MS. RADHA S ACA	02/08/2008	156	210575	MR. VENKATA SIVA PRASAD TUMULURI FCA	01/01/2009
127	207076	MR. GOPINATH S ACA	01/02/2008	157	210666	MR. GNANANIDHI GALI ACA	01/08/2008
128	207143	MR. RAVINDRAN V FCA	01/12/2007	158	210859	MS. JYOTHI K ACA	21/05/2007
129	207272	MR. SHRIKANT M S P FCA	26/09/2008	159	211022	MR. SANJAY B SINGHAL ACA	01/04/2008
130	207331	MR. PRAKASH NAYAK S ACA	05/05/2008	160	211146	MS. DIVYA ALOYSIUS ACA	22/08/2007
131	207363	MR. BALAJI P D FCA	08/09/2008	161	211158	MS. RAJI L FCA	19/09/2008
132	207586	MS. LATHA C ACA	26/12/2008	162	211446	MR. TANIKELLA SRI VENKATA RAMANAMURTY FCA	01/04/2008
133	207650	MR. KIRAN MOHAN L FCA	18/02/2009	163	211878	MR. VISWANATH S ACA	01/04/2008
134	207756	MR. KARTHIK BHARATHI J ACA	06/07/2007	164	211928	MR. PHANEENDRA KUMAR D ACA	04/10/2007
135	208184	MS. PRIYA K ACA	31/12/2008	165	211929	MR. POOPANDIAN S FCA	28/04/2008
136	208208	MR. VENUGOPAL K FCA	07/10/2008	166	211931	MR. VENKATRAMAN P ACA	26/09/2008
137	208258	MR. NANDAKUMAR R FCA	01/04/2008	167	211967	MR. SURENDER REDDY B ACA	06/09/2008
138	208409	MR. NAVEEN TULSIAN FCA	01/04/2008	168	211982	MR. SURYA BHASKARA REDDY D ACA	31/05/2008
139	208413	MR. RAMANANDA KAMATH FCA	01/02/2008	169	212039	MR. RAMA KRISHNA MADDI ACA	28/01/2008
140	208415	MR. SAVIO GEORGE KIDANGAN ACA	22/08/2008	170	212150	MR. ASHOK S ACA	06/03/2008

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
171	212235	MS. RANJU JAIN ACA	17/09/2008	201	215471	MR. PANKAJ KUMAR BOHARA ACA	22/02/2008
172	212260	MR. PRADEEP N ACA	12/02/2008	202	215472	MR. ABHAY SHANKAR V ACA	20/08/2008
173	212263	MR. PRAKASH K G ACA	02/04/2007	203	215627	MR. ANAND PRAKASH JANGID ACA	26/12/2008
174	212429	MS. SURYAPRABHA RENU S ACA	21/02/2009	204	215671	MS. PARVATHA VARDHINI C ACA	07/12/2007
175	212495	MR. NARASIMHA RAO NAMBURU FCA	16/08/2008	205	215720	MR. ARVINDA KUMAR H S ACA	16/09/2008
176	212498	MS. SHILPA N R ACA	26/12/2008	206	215749	MS. TEENA JERRY ACA	01/10/2008
177	212609	MR. SUNIL KUMAR VATTIPALLI ACA	22/02/2008	207	215763	MR. HEMANT KUMAR M SHURPALI ACA	27/02/2008
178	212619	MR. MANIAN K B S FCA	28/10/2008	208	215783	MR. RAJESH V S ACA	12/01/2009
179	212624	MR. ARUNAGIRINATHAN S ACA	02/01/2009	209	215821	MR. SANJEEVA RAO VUNNAM ACA	01/04/2008
180	212659	MR. SREENIVASAN K ACA	01/04/2008	210	215849	MR. LAKSHMI KANTHA R ACA	28/02/2008
181	212796	MR. RAMAKRISHNA RAO PERURI ACA	01/10/2008	211	215929	MR. VASANTH KUMAR K B M ACA	14/02/2009
182	212996	MR. DINKAR T V ACA	31/01/2008	212	216160	MS. RAMYANITHARSHINI PA ACA	04/07/2008
183	213161	MR. BUSSA KISHAN ACA	15/12/2008	213	216217	MR. ARUN BALAJI A ACA	25/06/2008
184	213228	MR. AYYAPPAN S ACA	19/11/2008	214	216254	MR. PARTHASARATHY R ACA	31/05/2008
185	213304	MR. SHIVAKUMAR V M ACA	09/09/2008	215	216467	MR. AAKASH MANDELIA ACA	01/09/2008
186	213338	MR. SUNDAR N FCA	01/05/2008	216	216488	MR. SURESH KUMAR V ACA	09/09/2008
187	213384	MR. VASANT ANANDRAO NAIK ACA	01/06/2008	217	216531	MR. VARUN BALACHANDRAN ACA	10/03/2008
188	213583	MR. ANANDU VITHAL NAYAK ACA	07/02/2008	218	216587	MR. SURESH KUMAR ACA	02/04/2007
189	213586	MR. VIMAL RAJ FCA	31/12/2008	219	216825	MR. BINIL KUMAR KURIAKOSE ACA	04/06/2008
190	213801	MR. TOM CYRIL JOHN ACA	01/04/2007	220	216882	MR. ARIHANT BARDIA S ACA	22/02/2009
191	213918	MS. LAKSHMI K V ACA	16/05/2008	221	217303	MR. ADITYA KOTHARI ACA	05/01/2009
192	214074	MR. RAGHAVAN R ACA	01/09/2008	222	217312	MR. SENTHIL KUMAR S ACA	31/12/2008
193	214108	MS. SANGEETHA PATTUKUMAR ACA	11/06/2008	223	217613	MR. VENKATA NEHRU KUMAR T ACA	25/02/2008
194	214161	MS. REKHA BAI ACA	29/08/2008	224	217699	MS. MARIAMMA M ACA	01/12/2008
195	214257	MR. KODANDA PANI G ACA	11/02/2008	225	217884	MR. SUTHAKAR D ACA	06/04/2008
196	214432	MS. SUPRIYA R CHOUSALKAR ACA	09/03/2009	226	217904	MR. KHAJA MOIUNUDEEN AHMED N ACA	31/03/2008
197	214513	MR. BHARATH KUMAR SHARMA G ACA	31/12/2007	227	217975	MS. RACHANA KOTHARI ACA	01/04/2007
198	214540	MS. BHARATHY BALASUBRAMANIAN ACA	27/08/2008	228	218004	MS. LAKSHMI KALYANI BALANAGU ACA	31/03/2008
199	214789	MR. BADAL JAIN ACA	08/10/2007	229	218100	MS. RASHMI YADATI ACA	27/01/2009
200	214911	MR. GANESH KUMAR C ACA	01/03/2009	230	218102	MS. GUDDI RANI ACA	12/02/2009

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
231	218152	MS. SHIVAKUMARI J P ACA	22/09/2008	260	219885	MR. BINU K BALAKRISHNAN ACA	01/02/2008
232	218199	MR. PAWANKUMAR PRAKASH KULKARNI ACA	07/01/2009	261	219911	MR. UTTAMKUMAR P ACA	27/01/2008
233	218200	MS. PUSHPALATHA V ACA	07/07/2008	262	219981	MR. SUNDARAPARIPURNAN N ACA	18/09/2008
234	218488	MR. TUPPAD VIRUPAKSHAPPA MUPPANNA ACA	02/09/2008	263	220071	MR. KISHORE KUMAR B ACA	05/05/2008
235	218525	MR. SEEBAK K S ACA	01/01/2009	264	220113	MR. JASIN JOSE ACA	22/08/2008
236	218533	MR. SUBHASH BABU SAMALA ACA	01/04/2008	265	220129	MS. MANIMALA S ACA	01/04/2008
237	218615	MS. KARAYA NAMRATHA NARASIMHA NAYAK ACA	01/12/2008	266	220174	MR. JUNAID RAZVI L M ACA	26/07/2008
238	218631	MR. AMIT CHHALANI ACA	27/08/2008	267	220349	MR. MURALIDHARAN N ACA	11/09/2008
239	218663	MS. ARCHANA N ACA	13/10/2008	268	220382	MR. DHEERAJ KUMAR AGARWAL ACA	01/04/2008
240	218763	MS. POORNIMA G ACA	14/12/2008	269	220529	MR. BHARADHWAJ D ACA	01/04/2008
241	218830	MR. SAMBASIVA REDDY BADDURI ACA	16/08/2008	270	220623	MS. ARPITHA M ACA	16/04/2008
242	218889	MR. KARTIK S ACA	10/03/2008	271	220723	MS. DEVI MANGA BOJJA ACA	22/08/2008
243	218911	MR. MAHENDRA M ACA	20/01/2009	272	220725	MR. MAHESH MANICKHAM K ACA	29/08/2008
244	218917	MR. CHANAKYUDU J ACA	27/11/2008	273	220825	MR. SWAMINATHAN V ACA	15/11/2008
245	218943	MR. SHIVAPRASADA M T ACA	09/09/2008	274	221064	MR. RANJITH KUMAR K ACA	01/09/2008
246	219092	MR. NIJO M PANJIKARAN ACA	20/10/2008	275	221086	MS. DIVYA S ACA	07/11/2008
247	219174	MR. SHANMUGAVELU S ACA	19/09/2008	276	221250	MR. MOHANAKUMAR N ACA	13/11/2008
248	219188	MR. VIKRAM PRAKASH JAVERI ACA	16/04/2008	277	221317	MR. SREYAS GUJJAR ACA	06/10/2008
249	219204	MS. SRIDEVI VILLA ACA	01/04/2008	278	221385	MR. ANUP DUTT H ACA	18/11/2008
250	219230	MS. AARATHI ZAWAR ACA	16/01/2009	279	221422	MR. RAJA SHEKAR METI ACA	01/01/2009
251	219279	MR. URANKAR SACHIN MOHAN ACA	25/12/2008	280	221526	MR. SUNOJ SANNNI ACA	01/10/2008
252	219363	MR. SRINIVAS K ACA	19/07/2008	281	221744	MR. SUBRAHMANYAM P ACA	01/02/2009
253	219366	MS. NISHA MENON ACA	02/04/2008	282	221961	MR. MEDUTHURI VENKATESWAR REDDY ACA	10/01/2009
254	219461	MR. SENTHIL KUMAR R ACA	31/01/2008	283	401859	MR. JAIN AVINASH FCA	01/08/2008
255	219570	MR. MADANA HANUMANTHA KUMAR R ACA	01/04/2008	284	406146	CA. RADHA RANI GUPTA ACA	26/12/2008
256	219613	MR. KUMARA ACA	09/05/2008	285	406566	CA. ANAND PALADHI ACA	01/04/2008
257	219726	MS. ANN MARY GEORGE ACA	10/09/2008	286	502346	MS. GUPTA PARUL ACA	21/08/2007
258	219764	MR. VEERENDRA KUMAR H ACA	02/04/2008	287	511099	MR. GANESH P PAI ACA	23/02/2009
259	219829	MR. VENKAT NARSINGA RAO K ACA	01/04/2008				

(T KARTHIKEYAN)
SECRETARY

Kolkata-700071, the 30th September 2009

3ECA/4/1/2008-2009 in pursuance of regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(C) of The Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institution of Chartered Accountants of India has removed from the register of members of this Institute with effect from 1st October 2008 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons :-

S.No.	MRN	Member Name & Place	S.No.	MRN	Member Name & Place
1.	001188	Mr. Ganguli Anil Kumar Kolkata	16.	010672	Mr. Lahiri Ajay Kumar Kolkata
2.	003265	Mr. Banerjee Amal Kumar Kolkata	17.	010773	Mr. Saha Sukumar Kolkata
3.	003268	Mr. Bidani Narinder Nath Kolkata	18.	011174	Mr. Praphullachandra Shantilal shah Kolkata
4.	004863	Mr. Pal Sudhir Krishna Kolkata	19.	011422	Mr. Sisir Kumar Datta Kolkata
5.	005388	Mr. Saha Upendra Chandra Kolkata	20.	012128	Mr. Agrawal Lakshendra Kumar Kolkata
6.	006998	Mr. Majumdar Sushil Kumar Kolkata	21.	012235	Mr. Agarwal Madan Lal Kolkata
7.	007507	Mr. Srinivasan K Kolkata	22.	012588	Mr. Patodia Rajendra Prasad Kolkata
8.	007800	Mr. Chakravarty Arun Kumar Kolkata	23.	013023	Mr. Chakrabarti Pradip Kumar Kolkata
9.	008019	Mr. Kamrani Abdul Karim Sharjah	24.	013165	Mr. Ghosh Dipak Kumar Kolkata
10.	008426	Mr. Bandyopadhyay Sikhar Kolkata	25.	013268	Mr. Choudhary Vijay Kumar Kolkata
11.	008452	Mr. Nandi Ashok Kumar London	26.	013351	Mr. Venkatesan V Port Blair
12.	008719	Mr. Mukhopadhyay Syamananda Oman	27.	013471	Mr. Ganguli Gangesh Kumar Kolkata
13.	009404	Mr. Datta Sabyasachi Kolkata	28.	013540	Mr. Mitra Tapas Kumar Kolkata
14.	009873	Mr. Bhandari Prakash Chand Kolkata	29.	013922	Mr. Asok Kumar Bandyopadhyay Kolkata
15.	010178	Mr. Sen Mihir Kumar New Jersey	30.	013957	Mr. Bhandari Anil Kumar Kolkata

31.	014018	Mr. Bhowmik Chitta Bikash Kolkata	52.	050513	Mr. Begani Vijay Kumar Randiahat
32.	014458	Mr. Das Prabir Kumar Howrah	53.	050581	Ms. Sengupta Ila Kolkata
33.	014863	Mr. Sethi Vir Kumar Kolkata	54.	050698	Mr. Sil Debabrata Kolkata
34.	015201	Mr. Roy Beni Madhab Kolkata	55.	050755	Mr. Kashinath Gouli Howrah
35.	015349	Mr. Law Pravin Kumar Dubai	56.	050872	Mr. Deb Ratan Kumar Silchar
36.	016381	Mr. Ghosh Anjan Kolkata	57.	050905	Mr. Banerjee Prasenjit Kolkata
37.	016524	Mr. Basu Lilamay Kolkata	58.	050935	Mr. Mukherjee Pabitra Kumar Bhubaneswar
38.	016641	Mr. Chakrabarti Biswa Nath Howrah	59.	051012	Mr. Sen Partha Kolkata
39.	016722	Mr. Daga Lalit Kumar Kolkata	60.	051054	Mr. Bakshi Sohail Yousuf Kolkata
40.	017944	Mr. Kapur Ashwani Kumar Kolkata	61.	051247	Mr. Alphanso Richard Das Kolkata
41.	019784	Mr. Jaya Kumar G Kolkata	62.	051268	Mr. Gupta Sandip Kolkata
42.	037701	Mr. Veeramallu Bhima Satyam Silchar	63.	051339	Mr. Ahmed Tariq Canada
43.	040447	Mrs. Kaushal Smita Pavan Kolkata	64.	051342	Mr. Sharma Brij Mohan Kolkata
44.	045505	Mr. Kaustav Mriganka Majumdar Kolkata	65.	051417	Mr. Gupta Duli Chand Kolkata
45.	048162	Mr. Ghoshdastidar Sumitendranath Kolkata	66.	051482	Ms. Chattopadhyay Sampa Kolkata
46.	049437	Ms. Majumder Shashwati Middlesex	67.	051627	Mr. Ganguli Dipankar Daressalam
47.	050167	Mr. Chattarj Shyamal Baran Kolkata	68.	051686	Mr. Ghatak Sumanta Kolkata
48.	050265	Mr. Ghosh Surajit Kumar Kolkata	69.	051791	Mr. Narayanan K V Kolkata
49.	050322	Mr. Khandelwal Balabhadra Rourkela	70.	051825	Mr. Hari Dilip Kumar New York
50.	050459	Mr. Bandyopadhyay Swapan Kumar Kolkata	71.	051913	Mr. Panda Bimal Chandra Bhubaneswar
51.	050481	Mr. Talukdar Suniramal Kolkata	72.	051992	Mr. Johri Rohit Dubai

73.	051997	Mr. Borar Moolchand Guwahati	94.	053137	Mr. Dilip Kumar Sundaram Bloomfield Hills
74.	052011	Mr. Jaiswal Badri Prasad Kolkata	95.	053323	Mr. Bagaria Anil Kumar Lagos
75.	052079	Ms. Shanti Mani S Kolkata	96.	053347	Mr. Umesh Verma Rishra
76.	052142	Mr. Mookherjee Tridib Jyoti Kolkata	97.	053413	Mr. Marodia Alok Kolkata
77.	052219	Mr. Gopalakrishnan L Kuwait City	98.	053418	Mr. Das Sudipto Dubai
78.	052259	Mr. Ray Bijay Kolkata	99.	053472	Mr. Subramanian V Cairo
79.	052326	Mr. Mitra Raj Shantanu Dubai	100.	053522	Mr. Basu Saibal Kolkata
80.	052345	Mr. Jhunhunwala Rajesh Kolkata	101.	053595	Mr. Agarwal Shambhu Kumar Kolkata
81.	052354	Mr. Mitra Srikumar Howrah	102.	053599	Mr. Agrawal Pradip Jyoti Kolkata
82.	052456	Mr. Agrawal Suresh Prasad Kolkata	103.	053619	Mr. Sen Kalyan Ontario
83.	052465	Mr. Bhanatha Pradeep London	104.	053643	Mr. Dilip Kumar Jhalaria Kolkata
84.	052485	Mr. Shaw Kailash Nath Kenya	105.	053713	Mr. Rao C V Suryanarayan Bhubaneswar
85.	052498	Mr. Biswas Kalyan Kolkata	106.	053758	Mr. Pati Tilak Jakarta
86.	052541	Mr. Panda Rama Kanta Cuttack	107.	053791	Ms. Kapur Priti Kolkata
87.	052666	Mr. Haque Fazlul Masundi	108.	053886	Ms. Gupta Kusum Kolkata
88.	052691	Mr. Ghosh Shomnath Kolkata	109.	053932	Mr. Bose Subarno Kolkata
89.	052697	Mr. Bhikam Chand Mishra Kolkata	110.	053954	Mr. Agarwal Vinay Kumar Kolkata
90.	052771	Mr. Singhvi Anil Kolkata	111.	054062	Mr. Pathak Indrajit Kolkata
91.	052781	Mr. Sharma Ramawatar Kolkata	112.	054099	Mr. Labo Chrisanthus Adrain Australia
92.	052827	Mr. Bhora Basant Kumar Kolkata	113.	054101	Mr. Agarwal Mohan Lal Shibpur
93.	053008	Mr. Anchali Naresh Kumar Indonesia	114.	054220	Mr. Jatia Arvind Kolkata

115.	054269	Mr. Banthia Harak Chand Romania	136.	055183	Mr. Udai Kumar Agarwal Kolkata
116.	054280	Mr. Daga Aloke Kumar Kolkata	137.	055216	Mr. Datta Prasenjit Kolkata
117.	054327	Mr. Acharya Beni Prasad Bhubaneswar	138.	055220	Mr. Puroshottam Kumar Kankani Kolkata
118.	054333	Mr. Maheshwari Sanjay Kolkata	139.	055293	Mr. Gopal Kumar Swaika Kolkata
119.	054381	Mr. Patel Sandip V Cambridge	140.	055296	Mr. Kumbhat Kaushal Kolkata
120.	054390	Mr. Ajmera Rajesh Kolkata	141.	055306	Mr. Gupta Sanjeev Botswana
121.	054446	Mr. Sahoo Ajaya Kumar Burla	142.	055396	Mr. Baid Sandeep Kumar Kolkata
122.	054456	Mr. Halan Sushil Kumar Kolkata	143.	055447	Mr. Prasanta Kumar Boruah Guwahati
123.	054474	Mr. Soni Rajesh Kumar Hindmotor	144.	055616	Mr. Dasgupta Somnath Dubai
124.	054502	Mr. Rustomjee Malesra Rusi B Kolkata	145.	055645	Ms. Gupta Anupama Kolkata
125.	054527	Mr. Banwari Lal Gupta Manila	146.	055663	Mr. Mukherjee Joydeep Uttarpara
126.	054550	Mr. Datta Supriyo Kolkata	147.	055678	Mr. Bairoliya Sandeep Kumar Joka
127.	054642	Mr. Agarwal Pramod Kumar Kolkata	148.	055686	Mr. Kundu Amitava Kolkata
128.	054661	Mr. Agarwal Ashutosh Kolkata	149.	055706	Mr. Adhikary Himansu Kumar Kolkata
129.	054691	Mr. Desouza Eric Clive Toronto	150.	055726	Mr. Khairulla Salim Kolkata
130.	054852	Mr. Lamba Sanjiv Kolkata	151.	055758	Mr. Guha Roy Aniruddha Kolkata
131.	054919	Mr. Singhvi Ashok Kumar Kolkata	152.	055771	Mr. Choudhury Subinoy Esh Kolkata
132.	054920	Mr. Choudhary Sanjay Kumar Raniganj	153.	055848	Ms. Susmita Dutta Khatra
133.	055026	Mr. Sengupta Sujoy Kolkata	154.	055881	Mr. Sarkar Nandan Kumar Bakhrabat
134.	055082	Mr. Datta Roy Pritam Kolkata	155.	055901	Mr. Agarwal Niranjan Kumar Kolkata
135.	055156	Mr. Mukhopadhyay Amitabha Kolkata	156.	055942	Mr. Shyamal Sarkar Uttarpara

157.	056054	Ms. Jalan Sangita Russia	178.	056723	Ms. Singh Seema Kolkata
158.	056107	Mr. Gupta Bhaskar Kolkata	179.	056728	Mr. Suppal Kamal Kumar Kolkata
159.	056199	Mr. Sengupta Abhijit Kolkata	180.	056741	Mr. Maharaj Pankaj Kumar Kolkata
160.	056218	Mr. Mukherjee Naba Kumar Kolkata	181.	056751	Mr. Mehta Sanjay Kolkata
161.	056219	Mr. Mukherjee Kaushik Kolkata	182.	056752	Mr. Chrimar Aditya Kolkata
162.	056263	Mr. Gangopadhyay Arup Kolkata	183.	056753	Mr. Mohanta Indrajit Guwahati
163.	056277	Mr. Sahoo Ajaya Kumar Bongaigaon	184.	056819	Mr. Bose Bijoy Kumar Kolkata
164.	056370	Mr. Rajesh Kumar Sahoo Bhubaneswar	185.	056886	Mr. Gurumurthy N Kolkata
165.	056385	Mr. Roy Prantick Kolkata	186.	056931	Mr. Lahoty Navin Kumar Kolkata
166.	056395	Mr. Chakravorty Udit Kolkata	187.	056944	Mr. Maharana Prativa Ranjan Bhubaneswar
167.	056421	Mr. Tarafdar Shaikh Ramjan Oman	188.	056962	Mr. Kheraluwala Masood Ali S Dae Es Salaam
168.	056472	Mr. Bagchi Basab Prasad Kalyani	189.	056985	Mr. Lihala Kapil Kolkata
169.	056486	Mr. Agarwal Sunil Kumar Chandannagar	190.	057019	Mr. Atul Srivastava Kolkata
170.	056513	Mr. Bhatta Debnarayan Kolkata	191.	057039	Mr. Duggar Sushil Kumar Kolkata
171.	056564	Mr. Netai Chakravarty Kolkata	192.	057061	Mr. Kochar Dilip Kumar Kolkata
172.	056568	Mr. Choudhury Sowmitra Narayan Hindmotor	193.	057078	Mr. Khan Sabha Kolkata
173.	056587	Ms. Roy Kundu Arumita Kolkata	194.	057131	Mr. Jhunhunwala Subhash Kumar Kolkata
174.	056626	Mr. Jha Nabin Kumar Shilong	195.	057154	Mr. Mehra Rajiv Kolkata
175.	056695	Mr. Roy Sirshendu Kolkata	196.	057216	Mr. Hada Chandra Sen UAE
176.	056703	Mr. Chattopadhyay Saumen Howrah	197.	057296	Mr. Shaw Premesh Kolkata
177.	056705	Mr. Jain Deepak Kolkata	198.	057301	Mr. Ghosh Sibaji Kolkata

199.	057317	Mr. Ghosh Debasish Kolkata	220.	057883	Mr. Agrawal Maheshwar Dubai
200.	057327	Mr. Mitra Sandeep Kumar Kolkata	221.	057888	Mr. Hazarika Pratyush Tapan Guwahati
201.	057335	Mr. Ram Rakesh Kolkata	222.	057908	Mr. Kejriwal Sandeep kumar Kolkata
202.	057371	Mr. Mishra Sanjeev California	223.	057914	Mr. Pal Saumya Jyoti Kolkata
203.	057382	Mr. Das Subhra Kolkata	224.	057919	Mr. Agarwal Manoj Kolkata
204.	057398	Mr. Jain Akash Kolkata	225.	057945	Mr. Choudhary Rajesh Kolkata
205.	057401	Ms. Das Deepa Kolkata	226.	057974	Mr. Bandyopadhyay Anjan Kolkata
206.	057412	Mr. Mishra Aditya Kolkata	227.	057987	Mr. Damani Mahavir Prasad Kolkata
207.	057414	Mr. Das Chintamani Kolkata	228.	057999	Mr. Panigrahi Harekrushna Bhubaneswar
208.	057450	Mr. Mishra Niladri Prasad Bhubaneswar	229.	058002	Mr. Jalan Rakesh Kolkata
209.	057489	Mr. Gupta Sandeep Kolkata	230.	058051	Mr. Garodia Rajesh Kumar Durgapur
210.	057513	Ms. Nag Nandini Kolkata	231.	058066	Mr. Agarwal Nirmal Kolkata
211.	057524	Ms. Chakrabarti Mausumi Kolkata	232.	058102	Mr. Ray Sabyasachi Kolkata
212.	057678	Mr. Poddar Sanjay Kolkata	233.	058141	Ms. Khaitan Rashmi Kolkata
213.	057682	Mr. Agarwal Sanjay Kolkata	234.	058174	Mr. Mazumder Bishwajit Ruwi
214.	057728	Mr. Swain Nursingha Charan Bhubaneswar	235.	058182	Mr. Ranasingh Anil Kumar Bhubaneswar
215.	057738	Mr. Agarwal Anand Kolkata	236.	058188	Mr. Chakrabarti Parthasarathi Kolkata
216.	057779	Ms. Gupta Sangeeta Kolkata	237.	058197	Mr. Maheshwari Pankaj Kolkata
217.	057806	Mr. Agarwala Ranjan Kolkata	238.	058311	Mr. Gupta Naveen Kolkata
218.	057860	Mr. Chandra Sekhar Mohanty Puri	239.	058315	Mr. Saikat Mitra Kolkata
219.	057873	Mr. Tiwari Rakesh Kumar Kolkata	240.	058320	Mr. Maitra Ujjwal Kolkata

241.	058364	Mr. Gupta Shailesh Kumar Howrah	262.	058888	Ms. Tulshan Ranjita Kolkata
242.	058366	Mr. Guha Subhadip Kolkata	263.	058919	Mr. Sarkar Barun Kumar Haldia
243.	058420	Ms. Walia Kitty Simrat Kolkata	264.	058920	Mr. Thakur Arvind Kumar Kolkata
244.	058512	Mr. Mitra Joydeep Kolkata	265.	058956	Mr. Maheshwari Rajiv Kumar Kolkata
245.	058518	Mr. Jan Md Tanveer Kolkata	266.	059001	Mr. Khandelwal Santosh Kolkata
246.	058534	Mr. Dilip Kumar Singh Bhadrakali	267.	059031	Mr. Sarawagi Santosh Kumar Kolkata
247.	058544	Mr. Pathak Devesh Kolkata	268.	059045	Mr. Acharya Mulagada Nanaji Berhampur
248.	058547	Mr. Bhattacharyya Dipankar Shyamnagar	269.	059063	Mr. Khaitan Siddhartha Kolkata
249.	058570	Mr. Mitra Amitabha Kolkata	270.	059085	Mrs. Mukherjee Jaeita Durgapur
250.	058588	Mr. Gupta Pabhel Dubai	271.	059114	Mr. Bhola Sanjay Howrah
251.	058632	Mr. Kejriwal Vivekanand Budgebudge	272.	059124	Ms. Sangeeta Agarwal Lahila Kolkata
252.	058638	Mr. Bubna Pankaj Kolkata	273.	059209	Mr. Neogi Kaustav Konnagar
253.	058648	Mr. Sheth Ameet Kolkata	274.	059216	Mr. Parasramka Sandeep Kolkata
254.	058653	Mr. Ghosh Arupesh Kolkata	275.	059246	Mr. Jhunjhunwala Vivek Kolkata
255.	058660	Mr. Bose Koushik Kolkata	276.	059284	Mr. Das Sunil Rayagada
256.	058663	Mr. Sen Gupta Biswajeet Kolkata	277.	059317	Mr. Dhanuka Binay Kolkata
257.	058716	Mr. Pillai Nobey Kumar Kolkata	278.	059338	Mr. Saraf Anil Kumar Kolkata
258.	058757	Ms. Piyali Banerjee Kolkata	289.	059360	Mr. Agarwal Anand Kolkata
259.	058813	Mr. Chandak Raj Kumar Howrah	280.	059362	Mr. Mukherjee Arghya Sanjose
260.	058819	Mr. Arya Rakesh Kolkata	281.	059384	Mr. Kajaria Yogesh Kolkata
261.	058830	Mr. Bandyopadhyay Somnath Haldia	282.	059408	Mr. Mishra Nihar Ranjan Bhubaneswar

283.	059415	Mr. Jain Anoop Kumar Kolkata	304.	059896	Ms. Eidnani Dimple Kolkata
284.	059421	Ms. Mahasweta Majumder Kolkata	305.	059918	Mr. Parsurampuriah Vikash Howrah
285.	059432	Mr. Jain Praveen Kumar Kolkata	306.	059955	Ms. Baishya Sanghita Gwahati
286.	059498	Mr. Chatterjee Sabyasachi Durgapur	307.	059963	Mr. Jaiswal Sujit Kamrup
287.	059550	Mr. Datta Jaydip Kolkata	308.	059968	Mr. Agrawal Amit Hooghly
288.	059598	Mr. Tulsian Bishnu Kumar Kolkata	309.	059973	Mr. Jain Ajay Kolkata
289.	059613	Mr. Mohanty Debasis Bhubaneswar	310.	059994	Mr. Kedia Shyam Sunder Howrah
290.	059614	Mr. Akshay Kumar Dey Balasore	311.	060038	Mr. Sureka Rajesh Howrah
291.	059637	Mr. Ray Rajat Kolkata	312.	060050	Mr. Bhattacharyya Sugata Sonarpur
292.	059661	Mr. Nimani Bimal Kolkata	313.	060064	Mr. Sadhukhan Milan Kolkata
293.	059673	Mr. Sekhar Somadathan Kolkata	314.	060110	Mr. Borthakur Sasanka Sekhar Duliajan
294.	059757	Mr. Ghoshal Atanu Barasat	315.	060135	Mr. Vivek Sitaram Sharma Kolkata
295.	059769	Mr. Sharma Rajeev Liluah	316.	060143	Mr. Agarwal Sunil Kumar Kolkata
296.	059773	Mr. Singh Pankaj Kumar Kolkata	317.	060150	Mr. Sougata Banerjee Issaquah
297.	059774	Ms. Sahal Anjana Kolkata	318.	060159	Mr. Sarrof Shyam Sunder Kolkata
298.	059779	Mr. Ganeribala Vineet Kumar Kolkata	319.	060163	Mr. Poddar Rajiv Kolkata
299.	059792	Mr. Bhura Ashok Kumar Kolkata	320.	060216	Mr. Agarwal Amit Kolkata
300.	059808	Mr. Narayan Rajesh Kolkata	321.	060240	Mr. Bhupal Gautam Kolkata
301.	059833	Mr. Behera Patita Paban Bhubaneswar	322.	060258	Mr. Rajesh Kumar Dhawan Kolkata
302.	059866	Mr. Sureka Vinod Kolkata	323.	060259	Mr. Mathews Shibu Kolkata
303.	059883	Mr. Gupta Rajkumar Kolkata	324.	060265	Mr. Paul Joydeep Barasat

325.	060276	Mr. Malpani Nirmal Kumar Kolkata	346.	060815	Ms. Navalakha Seema Guwahati
326.	060311	Mr. Vivek Kumar Tulsian Kolkata	347.	060826	Mr. Choubey Sanjeev Kumar Tinsukia
327.	060342	Ms. Bavishi Hetal Kolkata	348.	060836	Mr. Agarwal Anand Kolkata
328.	060368	Mr. Patnaik Vikram Kolkata	349.	060846	Mr. Mitra Phalguni Kolkata
329.	060388	Mr. Roy Vivek Progun Kolkata	350.	060857	Mr. Choudhary Amit Kolkata
330.	060392	Mr. Parakh Amit Howrah	351.	060862	Mr. Basak Partha Kolkata
331.	060439	Mr. Mukhopadhyay Ramjoy Howrah	352.	060875	Mr. Bhora Rahul Kolkata
332.	060454	Mr. Agrawal Sanjay Kolkata	353.	060901	Mr. Mukesh Agarwala Durgapur
333.	060493	Mr. Grewal Davinder Kaur Kolkata	354.	060926	Mr. Dokania Vikash Kumar Kolkata
334.	060503	Mr. Ghosh Suranjan Kolkata	355.	060971	Mr. Dutta Prosenjit Kolkata
335.	060549	Mr. Singhpurwala Moiz Kolkata	356.	061027	Mr. Parida Tusar Kant Kolkata
336.	060554	Mr. Jaiswal Prakash Kumar Kolkata	357.	061036	Mr. Jain Pankaj Kumar Salkia
337.	060630	Mr. Jain Neeraj Kolkata	358.	061072	Mr. Hazarika Debojeet Duliajan
338.	060646	Mr. Pareek Arun Kolkata	359.	061086	Mr. Bahety Rahul Kolkata
339.	060666	Mr. Kejriwal Samir Kumar Howrah	360.	061106	Mr. Agarwal Girish Kolkata
340.	060697	Mr. Deepak Kumar Kolkata	361.	061108	Mr. Garg Rakesh Kumar Shibpur
341.	060718	Mr. Mitra Arunava Kolkata	362.	061143	Ms. Kapoor Moly Kolkata
342.	060725	Mr. Das Partha Kolkata	363.	061150	Mr. Maity Anupam Howrah
343.	060761	Mr. Agarwal Shivendra Nath Salkia	364.	061157	Mr. Das Amborish Kolkata
344.	060802	Mr. Surana Vikash Kolkata	365.	061173	Mr. Sahoo Gopinath Bhubaneswar
345.	060804	Mr. Chaudhuri Avik Kolkata	366.	061276	Mr. Jalan Vikash Kolkata

367.	061300	Ms. Chouroria Pooja Kolkata	388.	061841	Mr. Amit Kumar Agarwal Howrah
368.	061305	Mr. Ladhania Vineet Salkia	389.	061855	Mr. Lath Mukesh Bhadrakali
369.	061330	Ms. Mehta Minal Howrah	390.	061907	Mr. Gupta Arindam Serampore
370.	061332	Mr. Ray Amit Kolkata	391.	061916	Ms. Sadhukhan Bipasa Kolkata
371.	061347	Mr. Jain Niraj Guwahati	392.	061960	Ms. Dugar Rekah Howrah
372.	061358	Mr. Mahapatra Pranab Kumar Bhubaneswar	393.	061968	Mr. Tiwari Arvind Siliguri
373.	061404	Mr. Jain Amit Kumar Rishra	394.	061988	Mr. Arvind Baheti Kolkata
374.	061407	Mr. Dokania Ramakant Kolkata	395.	061991	Mr. Agarwal Amit Kolkata
375.	061448	Mr. Gupta Nitin Guddu Kolkata	396.	061992	Ms. Gupta Koel Kolkata
376.	061449	Mr. Basu Manjir Howrah	397.	062020	Mr. Sharma Harkesh Howrah
377.	061476	Mr. Bharalawala Dilip Kumar Kolkata	398.	062021	Ms. Daimia Bhavana Kolkata
378.	061495	Mr. Sanjay Kumar Agarwal Kolkata	399.	062022	Ms. Minu Jhunjunwala Singapore
379.	061514	Mr. Singh Anupreet Kolkata	400.	062063	Ms. Bhattacharya Sukanya Kolkata
380.	061622	Mr. Bhagat Umesh Malda	401.	062069	Mr. Roy Subhasish Kolkata
381.	061639	Mr. Aich Arpan Kolkata	402.	062084	Mr. Bhimani Vishal Kolkata
382.	061668	Mr. Kejriwal Purushottam Kolkata	403.	062113	Mr. Hashmi Hassan Afroz Kolkata
383.	061700	Mr. Basu Deepayan Kolkata	404.	062117	Mr. Pal Debnath Howrah
384.	061746	Mr. Sharma Saurabh Kolkata	405.	062124	Mr. Jain Rajesh Kolkata
385.	061781	Ms. Jain Snehlata Howrah	406.	062180	Mr. Agarwala Aditya Siliguri
386.	061787	Ms. Ramamurthy Rupa Kolkata	407.	062204	Mr. Sengupta Siladitya Chinsura
387.	061818	Mr. Garg Manish Kolkata	408.	062229	Mr. Ladia Anjani Kumar Kolkata

409.	062235	Mr. Dargar Sanjeev Kolkata	430.	062657	Ms. Tibreiwal Vaishali Kolkata
410.	062253	Mr. Agarwal Vinay Kumar Kolkata	431.	062665	Mr. Agrawal Ashish Rishra
411.	062304	Mr. Gupta Om Prakash Kolkata	432.	062700	Mr. Senapati Prafulla Kumar Bhubaneswar
412.	062313	Mr. Patanaik Sandip Bhubaneswar	433.	062715	Mr. Singh Sanjiv Kumar Kolkata
413.	062319	Mr. Heera Kasyp Kolkata	434.	062739	Mr. Banthia Vineet Kumar Kolkata
414.	062328	Mr. Guha Subhrajit Kolkata	435.	062769	Mr. Nahata Anand Rishra
415.	062334	Mr. Sonthalia Deepak Sambalpur	436.	062816	Mr. Shroff Chetan Kolkata
416.	062340	Mr. Gupta Kaushik Kolkata	437.	062819	Mr. Agrawal Manish Kolkata
417.	062383	Ms. Khandelwala Shruti Kolkata	438.	062829	Ms. Bagri Sweta Salkia
418.	062388	Ms. Harlalka Neha Kolkata	439.	062850	Mr. Madhogaria Satish Barakar
419.	062442	Mr. Jopat Manish Agartala	440.	062851	Mr. Kedia Amit Kumar Kolkata
420.	062468	Mr. Agarwal Alok Kumar Kolkata	441.	062853	Mr. Agrawal Ashish Kolkata
421.	062471	Mr. Kumar Sachin Kolkata	442.	062870	Mr. Basu Shantanu Kolkata
422.	062485	Mr. Goswami Shaubhik Kolkata	443.	062873	Mr. Mishra Bipin Kumar Rishra
423.	062488	Mr. Patwari Mehul Howrah	444.	062876	Mr. Manish Goenka Rishra
424.	062513	Mr. Agarwal Bimal Kolkata	445.	062890	Mr. Poddar Vikash Kolkata
425.	062531	Mr. Agarwal Vishal Howrah	446.	062935	Ms. Agarwal Mridu Kolkata
426.	062537	Mr. Kedia Ashish Kolkata	447.	062938	Mr. Roy Pushpal Kolkata
427.	062551	Mr. Bothra Ajit Kolkata	448.	062953	Ms. Agarwal Dipti Kolkata
428.	062567	Mr. Panda Soumya Ranjan Kolkata	449.	062959	Mr. Dubey Manoj Kumar Kolkata
429.	062568	Mr. Zia Raihan Dubai	450.	062963	Mr. Parekh Amit Kolkata

451.	062968	Mr. Bazaz Sunil Kumar Howrah	472.	063339	Ms. Rathi Divya Kolkata
452.	063021	Mr. Jana Saumen Kolkata	473.	063342	Mr. Agarwal Rajesh Barakar
453.	063071	Ms. Bose Jayeeta Kolkata	474.	063368	Mr. Subhas Verma Howrah
454.	063085	Mr. Khanna Sandeep Kolkata	475.	063396	Mr. Kedia Deepak Kolkata
455.	063091	Mr. Mishra Sanjay Kumar Bhadrakali	476.	063399	Mr. Sharma Vikash Kolkata
456.	063116	Ms. Mamta Daga Kolkata	477.	063469	Mr. Bansal Mitesh Kumar Barakar
457.	063123	Mr. Agarwal Amit Kolkata	478.	063482	Mr. Sharma Amit Kolkata
458.	063133	Ms. Chakraborty Sharmishta Kolkata	479.	063493	Mr. Agrawal Rakesh Kolkata
459.	063177	Mr. Sureka Manoj Howrah	480.	063495	Mr. Mundra Vineet Kolkata
460.	063179	Mr. Saha Arindam Kolkata	481.	063541	Ms. Wadhwa Shalini Asansol
461.	063189	Ms. Pitty Priyanka Kolkata	482.	063583	Mr. Guha Abhishek Kolkata
462.	063209	Mr. Kedia Rahul Kolkata	483.	063587	Mr. Mohammed Sheikh Jaweed Cuttack
463.	063211	Mr. Sarkar Manas Kishore Kolkata	484.	063617	Mr. Patodia Samir Howrah
464.	063228	Mr. Alam Tanveer Kolkata	485.	063631	Ms. Mukherjee Indrani Howrah
465.	063245	Mr. Agarwal Bajrang Lal Kolkata	486.	063634	Mr. Dugar Yogender Kolkata
466.	063255	Mr. Manoj Ravi Kolkata	487.	063641	Mr. Ladhania Sanjay Kumar Bhubaneswar
467.	063288	Mr. Murarka Abhisek Rishra	488.	063648	Mr. Jain Pramod Kolkata
468.	063300	Mr. Gupta Rajiv Kolkata	489.	063650	Ms. Patel Yogita Kolkata
469.	063301	Mr. Sharma Rakesh Kolkata	490.	063658	Mr. Mishra Anshuman Bhubaneswar
470.	063307	Mr. Bagchi Sumitra Kumar Kolkata	491.	063700	Mr. Jain Vikash Bhubaneswar
471.	063320	Mr. S Chandra Sekhar Kharagpur	492.	063727	Mr. Choudhury Suvajit Kolkata

493.	063736	Mr. Vakharia Shailesh V Kolkata	514.	064087	Mr. Mishra Amit Kumar Howrah
494.	063742	Mr. Rai Anil Kumar Barakar	515.	064100	Mr. Agarwal Nitesh Kolkata
495.	063751	Mr. Ladha Nilesh Kolkata	516.	064106	Mr. Prasanta Kumar Roy Barbil
496.	063757	Mr. Thakkar Vinay Kolkata	517.	064107	Mr. Chandgotia Paras Kumar Rairangpur
497.	063758	Mr. Chatterjee Prabal Cuttack	518.	064113	Mr. Chamaria Deepak Kolkata
498.	063766	Ms. Agrawal Sangeeta Kolkata	519.	064126	Mr. Seth Rahul Kolkata
499.	063770	Mr. Sumit Ravi Kumar Kampala	520.	064141	Mr. Amit Kumar Kolkata
500.	063787	Mr. Agarwal Sandeep Raniganj	521.	064182	Mr. Gupta Deepak Kumar Hooghly
501.	063806	Mr. Bishal Kumar Bharuka Kolkata	522.	064185	Mr. Das Amit Kumar Konnagar
502.	063839	Ms. Jairam Anuradha Kolkata	523.	064191	Mr. Tantia Akash Kolkata
503.	063868	Ms. Gupta Sunita Kolkata	524.	064243	Ms. Walia Amrita Kolkata
504.	063869	Ms. Garg Neha Rourkela	525.	064269	Mr. Pradeep Kedia Bhubaneswar
505.	063874	Mr. Suraj Agarwal Kolkata	526.	064278	Mr. Ashish Kumar Singh Makhia
506.	063881	Mr. Agarwal Gopal Kumar Howrah	527.	064354	Mr. Sunil Kumar Agrawal Bolangir
507.	063884	Mr. Jhunjunwala Amit Kumar Kolkata	528.	064394	Ms. Rapti Basu Kolkata
508.	063893	Mr. Agarwal Nikhil Kumar Kolkata	529.	064404	Mr. Rajesh Kumar Pandey Kolkata
509.	063895	Ms. Agarwal Renu Barakar	530.	064409	Mr. Kamlesh Kumar Agarwal Kolkata
510.	063950	Mr. Swain Rabindra Kumar Bhubaneswar	531.	064427	Mr. Navin Verma Kolkata
511.	063983	Mr. Madhur Tibrewal Kolkata	532.	064437	Mr. Surendar Sharma Jhargram
512.	064029	Mr. Sharma Ankur Kolkata	533.	064454	Ms. Anjana Jain Kolkata
513.	064042	Mr. Madhogaria Vinay Howrah	534.	064459	Ms. Antara Pal Howrah

535.	064478	Mr. Samit Kumar Jena Kolkata	556.	064988	Mr. Pawan Kumar Periwal Kolkata
536.	064501	Mr. Nawal Kishore Verma Kolkata	557.	065035	Mr. Anjani Kumar Upadhyay Howrah
537.	064507	Mr. Aditya Marodia Kolkata	558.	065061	Mr. Rajesh Kumar Biyani Kolkata
538.	064508	Mr. Sumit Biswas Kolkata	559.	065063	Mr. Narayan Rath Jajpur Road
539.	064524	Mr. Arindam Biswas Kolkata	560.	065075	Ms. Preetu Baid Howrah
540.	064550	Mr. Jhahanwijha Shyamsukha Kolkata	561.	065090	Mr. Amit Rungta Kolkata Kolkata
541.	064551	Mr. Manoj Kumar Srivastwa Kolkata	562.	065097	Mr. Vivek Jain Bandel
542.	064564	Mr. Subhasis Rath Puri	563.	065118	Mr. A B Debasis Rout Kolkata
543.	064566	Mr. Sandeep Kumar Agarwal Durgapur	564.	065151	Mr. Manish Jajodia Kolkata
544.	064572	Mr. Sourabh Mukherjee Bhadrakali	565.	065187	Mr. Hanuman Das Rathi Howrah
545.	064581	Mr. Pankaj Agarwal Kolkata	566.	065248	Ms. Mamta Chopra Kolkata
546.	064582	Mr. Saurabh Agarwal Kolkata	567.	065262	Mr. Sandeep Das Bhubaneswar
547.	064585	Mr. Manish Agarwal Howrah	568.	065266	Mr. Navin Khaitan Nayasarai
548.	064649	Mr. Vivek Poddar Howrah	569.	065278	Ms. Seema Tiwary Hindmotor
549.	064672	Mr. Saurabh Jaiswal Kolkata	570.	065282	Ms. Mitu Saraf Bankura
550.	064728	Mr. Ravi Gadia Kolkata	571.	065288	Mr. Samir Agarwal Kolkata
551.	064789	Mr. Sandip Jajodia Kolkata	572.	065312	Ms. Nupur Kamani Cuttack
552.	064865	Mr. Rakesh Roshan Jha Kolkata	573.	065363	Mr. Ibrahim Lodhger Kolkata
553.	064952	Mr. Sanjay Kumar Soni Howrah	574.	065370	Mr. Rishi Swarnakar Rishra
554.	064956	Ms. Priti Jain Howrah	575.	065383	Mr. Subrata Kumar Panda Bhubaneswar
555.	064974	Ms. Mimli Kulshreshtha Kolkata	576.	065408	Ms. Sapna Jain Kolkata

577.	065448	Mr. Awadhesh Kumar Kolkata	598.	065862	Mr. Birendra Kumar Mahnot Kolkata
578.	065449	Mr. Jagabandhu Patra Bhubaneswar	599.	065865	Mr. Pranay Kumar Sureka Kolkata
579.	065466	Mr. Vikash Agarwal Howrah	600.	065894	Ms. Mamta Ojha Kolkata
580.	065477	Mr. Ashok Kumar Singh Kolkata	601.	065947	Mr. Sourav Dhandh Kolkata
581.	065482	Mr. Vikash Jain— Kolkata	602.	065958	Ms. Sweta Agarwal Howrah
582.	065486	Mr. Vikash Kumar Khemka Kolkata	603.	065963	Mr. Subodh Agarwal Howrah
583.	065488	Mr. Ashish Kumar Khandelwal Kolkata	604.	065987	Mr. Rakesh Kandoi Howrah
584.	065509	Mr. Prashant Saraswat Kolkata	605.	066028	Mr. Parikshita Das Balasore
585.	065565	Ms. Shobha Bhandari Kolkata	606.	066047	Mr. Ajay Agrawala Kolkata
586.	065578	Mr. Ravi Kumar Sharma Bhadrakali	607.	066051	Mr. Raju Mehta Kolkata
587.	065611	Mr. Manish Kumar Sharma Kolkata	608.	066067	Mr. Prateek Chaturvedi Hindmotor
588.	065620	Mr. Siva Prasad Sahu Keonjhar	609.	066077	Mr. Ashutosh Mohanty Keonjhar
589.	065655	Ms. Aditi Garg Kolkata	610.	066084	Mr. Sobhit Chhawchharia Kolkata
590.	065690	Mr. Sorabh Goenka Howrah	611.	066107	Mr. Gopal Taparia Hindmotor
591.	065737	Mr. Bijay Kumar Agrawal Subarnapur	612.	066116	Mr. Raj Kishore Prasad Kolkata
592.	065743	Mr. Md. Salauddin Ali Ahmed Jaipur	613.	066141	Mr. Sajal Abhishek Kolkata
593.	065770	Ms. Deepali Jairam Kolkata	614.	066148	Ms. Sweta Halan Kolkata
594.	065774	Mr. Sushmit Banerjee Kolkata	615.	066153	Mr. Satyajit Das Rourkela
595.	065787	Mr. Amarjeet Kumar Gupta Kolkata	616.	066157	Ms. Ritu Kedia Kolkata
596.	065807	Mr. Ganesh Kumar Bansal Rishra	617.	066209	Mr. Swaroop Kumar Kolkata
597.	065847	Mr. Rajesh Dutta Kolkata	618.	066240	Mr. Joydeep Naskar Kolkata

619.	066252	Mr. Abhishek Ranjan Singh Jamuria Hat	640.	070730	Mr. Mantri Ramesh Chandra Kolkata
620.	066284	Mr. Himanshu Sekhar Kabi Kolkata	641.	075737	Mr. Rakesh Kumar Shah Bhubaneswar
621.	066308	Mr. Santh Kumar Pattanayak Bhubaneswar	642.	076141	Ms. Bose Jaba Kolkata
622.	066312	Ms. Priyanka Agarwal Howrah	643.	078735	Mr. Pareek Aadi Aadi Guwahati
623.	066313	Mr. Rishi Poddar Kolkata	644.	080430	Mr. Bimal Singh Bhutoria Kolkata
624.	066333	Mr. Umesh Kumar Sharma Howrah	645.	088877	Mr. Guha Abhijit Australia
625.	066356	Ms. Aakansha Bhalotia Kolkata	646.	093251	Mr. Chaturvedi Alok Kolkata
626.	066365	Mr. Pankaj Kumar Rathi Rishra	647.	094136	Mr. Pattanayak Rajib Lochan Keonjhar
627.	066391	Mr. Dinesh Kumar Yadav Kolkata	648.	094284	Mr. Kar Saurabh Kolkata
628.	066399	Ms. Ranjeeta Tater Kolkata	649.	095638	Mr. Mahapatra Ramranjan Bhubaneswar
629.	066417	Ms. Rashi Agarwal Howrah	650.	095652	Mr. Biresh Das Bhubaneswar
630.	066420	Mr. Sandip Kumar Jain Kolkata	651.	096627	Mr. Gyanendra Kumar Panda Cuttack
631.	066422	Mr. Jalendra Padhiary Bhubaneswar	652.	097047	Mr. Dhavala Shekhar Kolkata
632.	066445	Mr. Amit Kumar Khatri Rajgangpur	653.	097342	Mr. Das Alok Kumar Bhubaneswar
633.	066446	Mr. Akash Kumar Agarwal Howrah	654.	097567	Mr. Kochar Sharad London
634.	066449	Mr. Bikash Purohit Barakar	655.	100397	Mr. Banerjee Bani Broto Kolkata
635.	066488	Mr. Sudhir Kumar Gilra Cuttack	656.	105800	Mr. Rajendra Kumar Sahu Bhubaneswar
636.	066538	Mr. Vishal Agarwal Kolkata	657.	108774	Mr. Sandeep Kumar Satapathy Bhubaneswar
637.	066540	Mr. Sanjay Yadav Hindmotor	658.	115108	Mr. Sumanta Kumar Nayak Bhubaneswar
638.	066552	Ms. Sweta Jain Kolkata	659.	121719	Mr. Mandula Srinivas Rao Kolkata
639.	066601	Ms. Paramita Chatterjee Kolkata	660.	201400	Mr. Venkata Subrahmanya Vara Prasad Ch Kolkata

661.	204986	Mr. Kaushik N Kolkata	670.	406381	Mr. Prabhat Kumar Kolkata
662.	207880	Ms. Rajvee P Kolkata	671.	502475	Mr. Patel Ranjit Sundargarh
663.	211241	Ms. Preethy Singhal Kolkata	672.	506394	Mr. Nirmal Chandra Sahoo Singtam
664.	211854	Ms. Lisa Dhar Kolkata	673.	507496	Mr. Bhim Lal Bastola Kathmandu
665.	212875	Mr. Hara Mohan Sahoo Bhubaneswar	674.	509011	Mr. Mukesh Kumar Patra Berhampur
666.	214077	Mr. Sony Mathew Kolkata	675.	509799	Mr. Dipak Sharma Gaidakot
667.	400384	Mr. Amit Agarwal Guwahati	676.	509854	Mr. Saumya Ranjan Sahoo Bargarh
668.	401903	Mr. Gupta Manish Bongaigaon	677.	510324	Mr. Basu Sharma Hojai
669.	404256	Mr. Bhura Pankaj Kumar Guwahati	678.	510568	Mr. Amit Kumar Chaudhary Digboi


T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

3ECA/4/2/2008-2009 : In Pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on Account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members.

S.No.	MRN	Member Name & Place	Removal Dt.
1.	001434	Mr. Sinha Dilip Kumar Kolkata	11/10/2008
2.	001999	Mr. Sen Gupta Asim Kumar Kolkata	04/04/2008
3.	002124	Mr. Narielvala Pestonji Mancherji Kolkata	09/08/2008
4.	002126	Mr. Ganguli Gangadhar Kolkata	02/11/2008
5.	002295	Mr. Maiti Saral Kumar Kolkata	01/10/2008
6.	002329	Mr. Banerjea Satindra Kishore Kolkata	18/10/2008
7.	002514	Mr. Dutt Balai Chandra Kolkata	17/02/2008
8.	002753	Mr. Sharma Suraj Mal Kolkata	28/02/2008
9.	003116	Mr. Sen Subir Kolkata	06/01/2009
10.	003203	Mr. Basu Nihar Kumar Kolkata	10/12/2007
11.	003252	Mr. Basu Prabir Kumar Kolkata	14/02/2009
12.	003421	Mr. Venkatesan Tirupattur Swaminathan Kolkata	31/05/2008
13.	003472	Mr. Ghosh Nikhil Ranjan Kolkata	16/09/2008
14.	003523	Mr. Sain Biswa Nath Kolkata	29/08/2008

S.No.	MRN	Member Name & Place	Removal Dt.
15.	003773	Mr. Chakraborty Amal Kumar Kolkata	12/07/2008
16.	003846	Mr. Chaudhuri Somendu Nag Kolkata	19/02/2008
17.	004132	Mr. Majumdar Sunil Chandra Bally	26/02/2008
18.	004487	Mr. Ray Tapasranjan Kolkata	10/08/2008
19.	004491	Mr. Biswas Jagadiswar Kolkata	30/01/2008
20.	004717	Mr. Thakur Ram Krishna Kolkata	14/12/2008
21.	005263	Mr. Pal Nanda Gopal Kolkata	14/10/2008
22.	005663	Mr. Sinha Bhabani Sankar Kolkata	06/04/2008
23.	005861	Mr. Bhattacharyya Santosh Bhuson Kolkata	27/06/2008
24.	005912	Mr. Dasgupta Nilay Kolkata	14/03/2008
25.	006423	Mr. Basu Sunilendra Chandra Kolkata	12/11/2008
26.	006589	Mr. Lodha Rajendra Singh Kolkata	04/10/2008
27.	007297	Mr. Banerjee Pankajkanti Kolkata	15/03/2008
28.	008666	Mr. Ray Subas Chandra Tamluk	09/01/2008

29. 009514	Mr. Majumder Pabitra Kumar	20/01/2009	39. 052243	Mr. Gopalan C N	12/03/2008
	Kolkata			Kolkata	
30. 010126	Mr. Ghosh Subrata	17/10/2008	40. 052480	Mr. Bagaria Dwarka Prasad	15/07/2007
	Kolkata			Kolkata	
31. 011180	Mr. Bhattacharyya Sarojendra Nath	07/01/2009	41. 052734	Mr. Jalan Arun Kumar	21/12/2008
	Kolkata			Dibrugarh	
32. 011861	Mr. Guha Biswajit	01/07/2008	42. 052746	Mr. Bhattacharya Kamal Kanti	30/09/2007
	Kolkata			Bhatpara	
33. 012753	Mr. Agarwalla Arjun Lal	30/11/2007	43. 052899	Mr. Roy Biswanath	04/01/2008
	Kolkata			Kolkata	
34. 012987	Mr. Banerjee Kali Das	19/06/2008	44. 053204	Mr. Mukhopadhyay Ajit Kumar	24/07/2008
	Kolkata			Burdwan	
35. 015144	Mr. Datta Naba Kumar	13/04/2008	45. 053412	Mr. Chattopadhyay Narayandas	12/12/2007
	Kolkata			Kolkata	
36. 015321	Mr. Bhattacharya Amalendu	29/08/2007	46. 054085	Mr. Rakshit Prasun	07/08/2008
	Kolkata			Kolkata	
37. 050633	Mr. Mukherjee Gautam	11/01/2008	47. 072464	Mr. Goswami Sujit Kumar	08/01/2009
	Kolkata			Kolkata	
38. 050672	Mr. De Swapan	03/01/2008			
	Kolkata				

T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

3ECA/4/3/2008-2009 : In Pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at Their Request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members.

S.No.	MRN	Member Name & Place	Removal Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Place	Removal Dt.
1.	002754	Mr. Mandal Sanat Kumar Kolkata	01/04/2008	4.	060390	Mr. Alappat Louis Francis Liluah	11/12/2007
2.	002833	Mr. Biswas Prabir Kumar Kolkata	01/04/2008	5.	061799	Mr. Soni Vivek Kolkata	10/06/2008
3.	011157	Mr. Datta Jayanta Kumar Chinsura	01/04/2008	6.	062708	Mr. Bachhawat Amit Kolkata	14/07/2008

T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

The 15th December 2009

3ECA/5/1/2008-2009: With reference to this Institute's Notification Nos : 3ECA/4/6/1988-89, Dated 24/02,1989, 3ECA/ 4/6/ 1989-90 Dated 02/11/1989, 3ECA/4/10/1991-92, Dated 23/01/1992, 3ECA/4/3/1992-93,Dated 22/01/1993, 3ECA/ 4/2/1999-00, Dated 03/12/1999, 3ECA/ 4/3/2000-01, Dated 22/02/2001, 3ECA/ 4/3/2001-02, Dated 19/11/2001, 3ECA/ 4/3/2002-03, Dated 31/03/2003, 3ECA/4/2/2003-04, Dated 08/09/2004, 3ECA/ 4/3/2004-05, Dated 31 01/2005, 3ECA/4/5/2005/06, Dated 06/04/2006, 3ECA/4/4/2006/07, Dated 30 /11/2006, 3ECA/ 4/1/2007-08, Dated 15/12/2008, it is hereby notified in pursuance of Regulations 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names of the following members:-

S.No. MRN	Member Name & Place	Restoration Dt.	S.No. MRN	Member Name & Place	Restoration Dt.
1. 005388	Mr. Saha Upendra Chandra FCA Kolkata	01/10/2008	14. 050020	Mr. Dash Suresh Chandra ACA Bhubaneswar	01/10/2007
2. 006979	Mr. Surana Niranjana FCA Jaipur	01/10/2007	15. 050150	Mr. Ramesh Isshar Das Bhatia FCA Sharjah	22/12/2003
3. 007800	Mr. Chakravarty Arun Kumar FCA Kolkata	01/10/2008	16. 050167	Mr. Chattaraj Shyamal Baran FCA Kolkata	01/10/2008
4. 012235	Mr. Agarwal Madan Lal FCA Kolkata	01/10/2008	17. 050265	Mr. Ghosh Surojit Kumar ACA Kolkata	01/10/2008
5. 013351	Mr. Venkatesan V FCA Portblair	01/10/2008	18. 050427	Mr. Kusal Sankar Chaudhuri ACA Kolkata	01/10/2001
6. 013905	Mr. Barman Prasanta Kumar Roy FCA Kolkata	01/10/2008	19. 050471	Mr. Majumder Ranjan Kumar ACA Kolkata	01/10/1989
7. 013922	Mr. Asok Kumar Bandyopadhyay FCA Kolkata	01/10/2008	20. 050481	Mr. Talukdar Sunirmal ACA Mumbai	01/10/2008
8. 014525	Mr. Chakravarty Dipankar ACA Jamshedpur	01/10/2004	21. 050570	Mr. Mrinal Kanti Das ACA Kolkata	01/10/2004
9. 014863	Mr. Sethi Vir Kumar ACA Kolkata	01/10/2008	22. 050623	Mr. Dasgupta Asok Kumar ACA Kolkata	01/10/2005
10. 016381	Mr. Ghosh Anjan FCA Kolkata	01/10/2008	23. 050777	Mr. Bhandari Ashok ACA Kolkata	01/10/2001
11. 017286	Mr. Mukhopadhyay Pijush Kumar ACA Kolkata	01/10/2005	24. 050872	Mr. Deb Ratan Kumar FCA Silchar	01/10/2008
12. 037701	Mr. Veeramallu Bhima Satyam FCA Silchar	01/10/2008	25. 050935	Mr. Mukherjee Pabitra Kumar FCA Kolkata	01/10/2008
13. 049437	Ms. Majumder Shashwati ACA London	01/10/2008	26. 051012	Mr. Sen Partha FCA Kolkata	01/10/2008

27.	051107	Mr. Jagadish Prasad Lohoty FCA Kolkata	01/10/2006	47	052266	Mr. Praween Kumar Agrawal FCA Kolkata	01/10/2006
28.	051268	Mr. Gupta Sandip ACA Kolkata	01/10/2008	48	052283	Mr. Sharma Gannavarapu Perla Gannanadha FCA Kolkata	01/10/2007
29.	051342	Mr. Sharma Brij Mohan ACA Kolkata	01/10/2008	49	052345	Mr. Jhunjhunwala Rajesh FCA Kolkata	01/10/2008
30.	051365	Mr. Jaju Radhey Shyam ACA Kolkata	01/10/2007	50	052399	Mr. Candra Shekhar GACA Singapur	01/10/1992
31.	051432	Mr. Pradhan Subrata Kumar ACA Bhadrakali	01/10/2002	51	052456	Mr. Agrawal Suresh Prasad FCA Kolkata	01/10/2008
32.	051452	Mr. Jaya Prakash Bhagat ACA Asansol	01/10/2004	52.	052485	Mr. Shaw Kailash Nath FCA Kisumu	01/10/2008
33.	051474	Mr. Chakrabarti Kalyan ACA Kolkata	01/10/1992	53.	052541	Mr. Panda Rama Kanta FCA Cuttack	01/10/2008
34.	051482	Ms. Chattopadhyay Sampa ACA Kolkata	01/10/2008	54.	052612	Mr. Bangur Om Prakash ACA Kolkata	01/10/2008
35.	051686	Mr. Ghatak Sumanta ACA Kolkata	01/10/2007	55.	052697	Mr. Bhikam Chand Mishra FCA Kolkata	01/10/2008
36.	051825	Mr. Hari Dilip Kumar FCA New York	01/10/2008	56.	052771	Mr. Singhvi Anil FCA Jubail	01/10/2008
37.	051913	Mr. Panda Bimal Chandra FCA Bhubaneswar	01/10/2008	57.	052781	Mr. Sharma Ramawatar FCA Kolkata	01/10/2008
38.	051997	Mr. Borar Moolchand FCA Guwahati	01/10/2008	58.	052827	Mr. Bhora Basant Kumar FCA Kolkata	01/10/2008
39.	052000	Ms. Pritama Dutta ACA Kolkata	01/10/2004	59.	053124	Mr. Manoj Kumar Singhal ACA Mumbai	01/10/1999
40.	052011	Mr. Jaiswal Badri Prasad FCA Kolkata	01/10/2008	60.	053161	Mr. Bhattacharyya Anjan ACA Kolkata	01/10/2007
41.	052042	Mr. Ashok Kumar Mohta FCA Kolkata	01/10/2004	61.	053413	Mr. Marodia Aloke ACA Kolkata	01/10/2008
42.	052078	Mr. Kothari Vinod Kumar ACA Kolkata	01/10/2005	62.	053418	Mr. Das Sudipto ACA Dubai	01/10/2008
43.	052079	Ms. Shanti Mani S ACA Doha	01/10/2008	63.	053599	Mr. Agrawal Pradip Jyoti FCA Kolkata	01/10/2008
44.	052123	Mr. Shivkumar Thandavan ACA Chennai	09/12/1991	64.	053643	Mr. Dilip Kumar Jhajria FCA Kolkata	01/10/2008
45.	052219	Mr. Gopalkrishnan L FCA Kuwait City	01/10/2008	65.	053713	Mr. Rao C V Suryanarayan ACA Mumbai	01/10/2008
46.	052259	Mr. Ray Bijay FCA Kolkata	01/10/2008	66.	053861	Mr. Singhania Kishan ACA Jakarta	01/10/2007

67.	053886	Ms. Gupta Kusum ACA Kolkata	01/10/2008	87.	054919	Mr. Singhvi Ashok Kumar FCA Kolkata	01/10/2008
68.	053943	Mr. Singh Promod Kumar ACA Dhanbad	01/10/1989	88.	054968	Mr. Sanjoy Kumar Gupta FCA Kolkata	01/10/2007
69.	053961	Mr. Banthia Santosh Kumar ACA Kolkata	01/10/1988	89.	055026	Mr. Sengupta Sujoy ACA New Delhi	01/10/2008
70.	054101	Mr. Agarwal Mohan Lal FCA Kolkata	01/10/2008	90.	055156	Mr. Mukhopadhyay Amitabha ACA Pune	01/10/2008
71.	054126	CA. Bhaskar Banerjee FCA Kolkata	01/10/2007	91.	055187	CA. V Sridhar ACA Kolkata	01/10/2001
72.	054148	Mr. Barua Pradyut Kumar FCA Golaghat	01/10/2005	92.	055241	Mr. Hariharan Anand ACA Safat	01/10/2005
73.	054192	Mr. Gautam Chandra De ACA Kolkata	01/10/1992	93.	055259	CA. Harish Kumar Toshniwal FCA Kolkata	01/10/2006
74.	054220	Mr. Jatia Arvind ACA Kolkata	01/10/2008	94.	055296	Mr. Kumbhat Kaushal ACA Kolkata	01/10/2008
75.	054310	Mr. Sarkar Apurba Kanti ACA Naihati	01/10/2001	95.	055346	Mr. Kar Kalyan Kumar ACA Kolkata	22/12/2003
76.	054333	Mr. Maheshwari Sanjay ACA Kolkata	01/10/2008	96.	055347	Mr. Arora Rajeev ACA Mississauga	22/12/2003
77.	054336	Mr. Tandon Vijay ACA Kolkata	01/10/2004	97.	055351	Mr. Sinha Tapas Kumar ACA Delhi	01/10/2007
78.	054341	Mr. Kochar Ajit ACA Kolkata	01/10/2005	98.	055359	Mr. Tapas Kumar Banerjee ACA Kolkata	01/10/2006
79.	054358	Mr. Agrawal Kailash Kumar ACA Rajgangpur	01/10/2002	99.	055396	Mr. Baid Sandeep Kumar FCA Bangalore	01/10/2008
80.	054390	Mr. Ajmera Rajesh ACA Kolkata	01/10/2008	100.	055525	Mr. Mishra Biswajit FCA Ontario	01/10/2006
81.	054475	Mr. Halder Kalyan ACA Kolkata	08/12/2000	101.	055562	Mr. Das Joydeep ACA Kolkata	01/10/2005
82.	054493	Mr. Singh Jagadish ACA Kolkata	01/10/1992	102.	055616	Mr. Dasgupta Somnath ACA Muscat	01/10/2008
83.	054502	Mr. Rustomjee Malesra Rusi B ACA Kolkata	01/10/2008	103.	055663	Mr. Mukherjee Joydeep ACA Kolkata	01/10/2008
84.	054550	Mr. Datta Supriyo FCA Kolkata	01/10/2008	104.	055664	CA. Sudipta Ghosh FCA Tamiluk	01/10/2007
85.	054661	Mr. Agarwal Ashutosh FCA Kolkata	01/10/2008	105.	055689	Ms. Reena Choudhury Banotha ACA London	01/10/2007
86.	054816	CA. Ashok Kumar Agrawal FCA Kolkata	01/10/2004	106.	055706	Mr. Adhikary Himansu Kumar FCA Hindmotor	01/10/2008

107. 055758	Mr. Guha Roy Aniruddha ACA Kolkata	01/10/2008	126. 056486	Mr. Agarwal Sunil Kumar FCA Chandannagar	01/10/2008
108. 055820	Mr. Sonar Brij Mohan ACA Kolkata	01/10/2007	127. 056502	Mr. Sahoo Pabitra Mohan FCA Chennai	01/10/2007
109. 055926	Mr. Chakrabarty Biswanath FCA Yellowknife	01/10/2007	128. 056513	Mr. Bhatta Debnarayan ACA Kolkata	01/10/2008
110. 055942	Mr. Shyamal Sarkar FCA Uttarpara	01/10/2008	129. 056523	CA. Bihari Harihar ACA Berhampur	01/10/2005
111. 056012	Mr. Swapan Kumar Gupta ACA Kolkata	01/10/2006	130. 056568	Mr. Soumitra Narayan Choudhury FCA Hindmotor	01/10/2008
112. 056066	Mr. Sanjay Pansari ACA Rochester Hills	22/12/2003	131. 056633	Mr. Toshniwal Lalit ACA Kolkata	01/10/2006
113. 056079	Mr. Joshi Mahendra Kumar ACA Howrah	01/10/2007	132. 056705	Mr. Jain Deepak ACA Kolkata	01/10/2008
114. 056107	Mr. Gupta Bhaskar ACA Kolkata	01/10/2008	133. 056723	Ms. Singh Seema ACA Ontario	01/10/2008
115. 056116	Mr. Satadal Ray ACA Kolkata	01/10/2006	134. 056727	Mr. Krishnan Vijay ACA Dubai	01/10/2007
116. 056150	Mr. Ray Aniruddha ACA Kolkata	01/10/2002	135. 056752	Mr. Chrimar Aditya FCA Kolkata	01/10/2008
117. 056199	Mr. Sengupta Avijit ACA Kolkata	01/10/2008	136. 056753	Mr. Mohanta Indrajit FCA Guwahati	01/10/2008
118. 056203	Ms. Khatuka Jyoti ACA New Delhi	01/10/1998	137. 056802	Mr. Sengupta Arindam ACA Kolkata	01/10/2007
119. 056218	Mr. Mukherjee Naba Kumar FCA Kolkata	01/10/2008	138. 056819	Mr. Bose Bijoy Kumar ACA Dubai	01/10/2008
120. 056263	Mr. Gangyopadhyay Arup ACA Kolkata	01/10/2008	139. 056870	Ms. Nidhi Jain ACA Kolkata	01/10/2001
121. 056277	Mr. Sahoo Ajay Kumar ACA Raipur	01/10/2008	140. 056931	Mr. Lahoty Navin Kumar FCA Kolkata	01/10/2008
122. 056291	Mr. Hrudananda Kar ACA Hyderabad	01/10/2004	141. 056944	Mr. Maharana Prativa Ranjan FCA Bhubaneswar	01/10/2008
123. 056345	Mr. Rajesh Kumar Deora ACA Toronto	01/10/2007	142. 056962	Mr. Kheraulwala Masood Ali S ACA Dar Es Salaam	01/10/2008
124. 056370	Mr. Rajesh Kumar Sahoo ACA Bhubaneswar	01/10/2008	143. 056985	Mr. Lihala Kapil FCA Kolkata	01/10/2008
125. 056385	Mr. Roy Prantick FCA Kolkata	01/10/2008	144. 057019	Mr. Atul Srivastava ACA Chengalpattu	01/10/2008

145.	057061	Mr. Kochar Dilip Kumar ACA Kolkata	01/10/2008	164.	057806	Mr. Agarwala Ranjan FCA Kolkata	01/10/2008
146.	057131	Mr. Jhunjhunwala Subhash Kumar FCA Kolkata	01/10/2008	165.	057860	Mr. Chandra Sekhar Mohanty FCA Puri	01/10/2008
147.	057165	Mr. Rajesh Sharma ACA Shillong	01/10/2006	166.	057873	Mr. Tiwari Rakesh Kumar ACA Navi Mumbai	01/10/2008
148.	057216	Mr. Hada Chandra Sen ACA Abu Dhabi	01/10/2008	167.	057888	Mr. Hazarika Pratyush Tapan FCA Guwahati	01/10/2008
149.	057317	Mr. Ghosh Debasish FCA Kolkata	01/10/2008	168.	057914	Mr. Pal Saumya Jyoti ACA Kolkata	01/10/2008
150.	057327	Mr. Mitra Sandeep Kumar ACA Bangalore	01/10/2008	169.	057919	Mr. Agarwal Manoj ACA Kolkata	01/10/2008
151.	057382	Mr. Das Subhra ACA London	01/10/2008	170.	057945	Mr. Choudhury Rajesh ACA Gurgaon	01/10/2008
152.	057401	Ms. Das Deepa FCA Kolkata	01/10/2008	171.	057974	Mr. Bandyopadhyay Anjan ACA Kolkata	01/10/2008
153.	057414	Mr. Dash Chintamani FCA Kolkata	01/10/2008	172.	057987	Mr. Damani Mahavir Prasad FCA Kolkata	01/10/2008
154.	057450	Mr. Mishra Niladri Prasad ACA Bhubaneswar	01/10/2008	173.	057999	Mr. Panigrahi Harekrushna ACA Bhubaneswar	01/10/2008
155.	057507	Mr. Mudalliar Shreeniwas ACA Chennai	08/12/2000	174.	058013	Ms. Capoor Deepa ACA Dubai	01/10/2004
156.	057581	Mr. Pal Biswajit ACA Haldia	01/10/2004	175.	058045	Ms. Tanuja Sinha ACA Kolkata	01/10/2007
157.	057629	Mr. Chattopadhyay Sudip Kumar ACA Kolkata	01/10/2007	176.	058051	Mr. Garodia Rajesh Kumar ACA Durgapur	01/10/2008
158.	057640	Mr. Deepak Agarwal FCA Gangtok	01/10/2007	177.	058101	Mr. Mukundan K ACA Kolkata	08/12/2000
159.	057712	Mr. Daga Sandeep ACA Kolkata	01/10/2004	178.	058102	Mr. Ray Sabyasachi FCA Kolkata	01/10/2008
160.	057714	Ms. Deora Manisha ACA Toronto	01/10/2007	179.	058141	Ms. Khaitan Rashmi ACA Kolkata	01/10/2007
161.	057720	Mr. Sen Gupta Aniruddha ACA Kolkata	01/10/2005	180.	058182	Mr. Ranasingh Anil Kumar FCA Bhubaneswar	01/10/2008
162.	057738	Mr. Agarwal Anand ACA Mumbai	01/10/2008	181.	058188	Mr. Chakrabarti Parthasarathi ACA Kolkata	01/10/2008
163.	057779	Ms. Gupta Snageeta FCA Leicestershire	01/10/2008	182.	058197	Mr. Maheshwari Pankaj ACA Mumbai	01/10/2008

183.	058286	Mr. Somani Sunil ACA Bangalore	01/10/2006	202.	058933	Mr. Parakh Ajay Vikram ACA Kolkata	01/10/2007
184.	058307	Mr. Saurabh Jain ACA Kolkata	01/10/2007	203.	058956	Mr. Maheshwari Rajiv Kumar ACA Kolkata	01/10/2008
185.	058311	Mr. Gupta Naveen FCA Kolkata	01/10/2008	204.	058958	Mr. Padhi Dillip Kumar ACA Berhampur	01/10/2005
186.	058420	Ms. Walia Kitty Simrat ACA New Delhi	01/10/2008	205.	058981	Mr. Jain Pramod Kumar ACA Howrah	01/10/2006
187.	058541	Mr. Srinivas Chintada FCA Hyderabad	01/10/2007	206.	059001	Mr. Khandelwal Santosh FCA Kolkata	01/10/2008
188.	058544	Mr. Pathak Devesh FCA Kolkata	01/10/2008	207.	059031	Mr. Sarawagi Ashok Kumar FCA Kolkata	01/10/2008
189.	058547	Mr. Bhattacharyya Dipankar FCA Shyamnagar	01/10/2008	208.	059063	Mr. Khaitan Siddhartha ACA Kolkata	01/10/2008
190.	058570	Mr. Mitra Amitabha ACA Kolkata	01/10/2008	209.	059064	Mr. Dani Mitesh ACA Ahmedabad	22/12/2003
191.	058590	Mr. Hozifa T Khairulla FCA Kolkata	01/10/2007	210.	059084	Mr. Pinaki Saha ACA Muscat	01/10/2007
192.	058632	Mr. Kejriwal Vivekanand FCA Kolkata	01/10/2008	211.	059085	Mrs. Mukherjee Jaeita ACA Singapore	01/10/2008
193.	058638	Mr. Bubna Pankaj ACA Kolkata	01/10/2008	212.	059124	Ms. Sangeeta Agarwal Lhila FCA Kolkata	01/10/2008
194.	058653	Mr. Ghosh Arupesh FCA Kolkata	01/10/2008	213.	059216	Mr. Sandeep Parasramka ACA Kolkata	01/10/2008
195.	058663	Mr. Sen Gupta Biswajeet ACA Mumbai	01/10/2008	214.	059338	Mr. Saraf Anil Kumar FCA Kolkata	01/10/2008
196.	058669	Mr. Patni Madhup Kumar ACA Kolkata	01/10/2005	215.	059408	Mr. Mishra Nihar Ranjan FCA Jamshedpur	01/10/2008
197.	058700	Mr. Chakrabarty Partha ACA Kolkata	01/10/2007	216.	059418	Mr. Amarendra Saran ACA Kolkata	01/10/2007
198.	058738	Mr. Sen Sankar ACA Mumbai	01/10/2007	217.	059421	Ms. Mahasweta Majumder FCA Kolkata	01/10/2008
199.	058757	Ms. Piyali Banerjee FCA Kolkata	01/10/2008	218.	059550	Mr. Datta Jaydip FCA Kolkata	01/10/2008
200.	058813	Mr. Chandak Raj Kumar ACA Howrah	01/10/2008	219.	059613	Mr. Mohanty Debasis ACA Navi Mumbai	01/10/2008
201.	058830	Mr. Bandyopadhyay Somnath ACA Begusarai	01/10/2008	220.	059614	Mr. Akshay Kumar Dey FCA Balasore	01/10/2008

221. 059637	Mr. Ray Rajat ACA Kolkata	01/10/2008	240. 060388	Mr. Roy Vivek Progun ACA Kolkata	01/10/2008
222. 059651	Mr. Premananda Panda ACA Sambalpur	01/10/2005	241. 060400	Mr. Deo Satyen Swachala ACA Bhubaneswar	01/10/2007
223. 059769	Mr. Sharma Rajeev ACA Howrah	01/10/2008	242. 060431	Mr. Gautam Bhartia ACA Kolkata	01/10/2007
224. 059774	Ms. Sahal Anjana FCA Kolkata	01/10/2008	243. 060447	Mr. Sinha Vikram ACA Singapore	01/10/2005
225. 059846	Ms. Gupta Sangeeta ACA Kolkata	01/10/2007	244. 060448	Mr. Vyas Sant Kumar ACA Gurgaon	01/10/2007
226. 059866	Mr. Sureka Vinod ACA Bangkok	01/10/2008	245. 060449	Mr. Singh Shivendra ACA Mumbai	01/10/2005
227. 059963	Mr. Jaiswall Sujit FCA Kolkata	01/10/2008	246. 060454	Mr. Agarwal Sanjay ACA Kolkata	01/10/2008
228. 059968	Mr. Agrawal Amit ACA Toronto	01/10/2008	247. 060461	Mr. Subhash Kumar Bubna ACA Howrah	01/10/2004
229. 059973	Mr. Jain Ajay ACA Kolkata	01/10/2008	248. 060493	Ms. Grewal Davinder Kaur ACA Kolkata	01/10/2008
230. 060050	Mr. Bhattacharyya Sugata ACA Kolkata	01/10/2008	249. 060503	Mr. Gosh Suranjan ACA Pune	01/10/2008
231. 060052	Mr. Sharma Prasenjit Prasad ACA Guwahati	01/10/2002	250. 060527	Ms. Sangneria Mannu ACA Kolkata	01/10/2007
232. 060074	Mr. Agrawal Anupam ACA Rishra	22/12/2003	251. 060547	Mr. Kamlesh Chokani ACA Asansol	01/10/2007
233. 060114	Mr. Baisya Manajit ACA Raniganj	01/10/2004	252. 060549	Mr. Singapurwala Moiz ACA Riyadh	01/10/2008
234. 060135	Mr. Vivek Sitaram Sharma FCA Kolkata	01/10/2008	253. 060629	Mr. Mohapatra Pratap Kumar ACA Durgapur	01/10/2007
235. 060143	Mr. Agarwal Sunil Kumar FCA Kolkata	01/10/2008	254. 060630	Mr. Jain Neeraj ACA Kolkata	01/10/2008
236. 060159	Mr. Sarrof Shyam Sunder ACA Kolkata	01/10/2008	255. 060646	Mr. Pareek Arun ACA Hyderabad	01/10/2008
237. 060240	Mr. Bhupal Gautam ACA Mumbai	01/10/2008	256. 060666	Mr. Kejriwal Samir Kumar ACA Howrah	01/10/2008
238. 060259	Mr. Mathews Shibu ACA Saharanpur	01/10/2008	257. 060705	Mr. Om Prakash FCA Samalkot	22/12/2003
239. 060276	Mr. Malpani Nirmal Kumar ACA Kolkata	01/10/2008	258. 060718	Mr. Mitra Arunabha ACA Kolkata	01/10/2008

259.	060761	Mr. Shivendra Nath Agarwal FCA	01/10/2008	279.	061266	Mr. Chakraborty Nilanjan ACA	01/10/2005
		Rishra				Kolkata	
260.	060772	Mr. Nahata Rajesh Kumar ACA	01/10/2001	280.	061270	Mr. Sharma Debajit Mohan ACA	01/10/2007
		Ankleshwar				Guwahati	
261.	060802	Mr. Surana Vikash ACA	01/10/2008	281.	061300	Ms. Chouroria Pooja ACA	01/10/2008
		Pasir Gudang				Kuwait City	
262.	060826	Mr. Choubey Sanjeev Kumar ACA	01/10/2008	282.	061317	Mr. Kothari Piyush ACA	01/10/2007
		Tinsukia				Kolkata	
263.	060836	Mr. Agarwal Anand ACA	01/10/2008	283.	061347	Mr. Jain Niraj ACA	01/10/2008
		Mumbai				Gurgaon	
264.	060846	Mr. Mitra Phalguni ACA	01/10/2008	284.	061358	Mr. Mahapatra Pranab Kumar ACA	01/10/2008
		Kolkata				Bhubaneswar	
265.	060862	Mr. Basak Partha ACA	01/10/2008	285.	061360	Mr. Mohanta Mitra Bhanu ACA	01/10/2004
		Kolkata				Solan	
266.	060875	Mr. Bhora Rahul ACA	01/10/2008	286.	061366	Mr. Jain Manoj ACA	01/10/2005
		Kolkata				New Delhi	
267.	060901	Mr. Mukesh Agarwala FCA	01/10/2008	287.	061404	Mr. Amit Kumar Jain FCA	01/10/2008
		Durgapur				Rishra	
268.	060926	Mr. Dokania Vikash Kumar ACA	01/10/2008	288.	061407	Mr. Dokania Ramakant ACA	01/10/2008
		Faridabad				Bangalore	
269.	060971	Mr. Dutta Prosenjit ACA	01/10/2008	289.	061409	Mr. Kothari Gopal ACA	01/10/2007
		Kolkata				Rishra	
270.	061024	Mr. Bansal Sandip ACA	01/10/2007	290.	061417	Mr. Agarwalla Sanjay ACA	01/10/2005
		Kolkata				Gurgaon	
271.	061045	CA. Purushottam Binani ACA	01/10/2007	291.	061448	Mr. Gupta Nitin Guddu ACA	01/10/2008
		Kolkata				Kolkata	
272.	061072	Mr. Hazarika Debojeet ACA	01/10/2008	292.	061449	Mr. Basu Manjir ACA	01/10/2008
		Duliajan				Gurgaon	
273.	061086	Mr. Bahety Rahul ACA	01/10/2008	293.	061484	Mr. Khendelwal Gaurav ACA	01/10/2005
		Mumbai				Sitchar	
274.	061106	Mr. Agarwal Girish ACA	01/10/2008	294.	061495	Mr. Sanjay Kumar Agarwal FCA	01/10/2008
		Kolkata				Kolkata	
275.	061150	Mr. Maiti Anupam ACA	01/10/2008	295.	061514	Mr. Singh Anupreet ACA	01/10/2008
		Bhopal				Kolkata	
276.	061157	Mr. Das Ambarish ACA	01/10/2008	296.	061737	Mr. Sharma Prakash ACA	01/10/2006
		Kolkata				Bangalore	
277.	061173	Mr. Sahoo Gopinath ACA	01/10/2008	297.	061746	Mr. Sharma Saurabh ACA	01/10/2008
		Bhubaneswar				Kolkata	
278.	061193	Mr. Hatim Moiz Hussain ACA	01/10/2005	298.	061760	Mr. Pandey Arbind Kumar ACA	01/10/2005
		Doha				Bangalore	

299. 061779	Mr. Agarwal Udit ACA Kolkata	01/10/2006	319. 062124	Mr. Jain Rajesh ACA Kolkata	01/10/2008
300. 061789	Mr. Gupta Anand ACA Kolkata	01/10/2005	320. 062125	Mr. Sengupta Sitansu ACA Kolkata	01/10/2006
301. 061841	Mr. Amit Kumar Agarwal FCA Kolkata	01/10/2008	321. 062169	Ms. Roy Choudhury Srabanti ACA Bangalore	01/10/2005
302. 061855	Mr. Lath Mukesh ACA Pune	01/10/2008	322. 062204	Mr. Sengupta Siladitya ACA Chinsura	01/10/2008
303. 061867	Mr. Choudhury Amrish Raj ACA Bangalore	01/10/2007	323. 062229	Mr. Ladia Anjani Kumar ACA Stamford	01/10/2008
304. 061873	Mr. Sarkar Chandra Nath ACA Kolkata	01/10/2007	324. 062235	Mr. Dargar Sanjeev ACA Kolkata	01/10/2008
305. 061889	Mr. Agarwal Deepak Kumar ACA Doha	01/10/2004	325. 062242	Mr. Panda Susanta Kumar ACA Warangal	01/10/2007
306. 061901	Mr. Konchada Srinivas Subudhi ACA Chennai	01/10/2007	326. 062253	Mr. Agarwal Vinay Kumar ACA Mumbai	01/10/2008
307. 061953	Mr. Vishnu Kumar Tulsyan ACA Kolkata	01/10/2006	327. 062299	Mr. Jhunjhunwala Vikash ACA Howrah	01/10/2007
308. 061960	Ms. Dugar Rekha ACA Kolkata	01/10/2008	328. 062304	Mr. Gupta Om Prakash ACA Kolkata	01/10/2008
309. 061968	Mr. Arvind Tewari FCA Siliguri	01/10/2008	329. 062313	Mr. Pattanaik Sambit ACA Bhubaneswar	01/10/2008
310. 061988	Mr. Arvind Baheti ACA Kolkata	01/10/2008	330. 062319	Mr. Mehra Kabir ACA Hyderabad	01/10/2008
311. 062002	Mr. Durga Prasad Pattanaik ACA Bhubaneswar	01/10/2007	331. 062328	Mr. Guha Subhrajit ACA Hyderabad	01/10/2008
312. 062063	Ms. Bhattacharya Sukanya ACA Kolkata	01/10/2008	332. 062334	Mr. Deepak Sonthalia FCA Sambalpur	01/10/2008
313. 062066	Ms. Joshi Usha ACA Pune	01/10/2007	333. 062340	Mr. Gupta Kaushik ACA Navi Mumbai	01/10/2008
314. 062069	Mr. Roy Subhasish ACA London	01/10/2008	334. 062346	Mr. Jaiswal Sanjay Kumar ACA Patna	01/10/2005
315. 062084	Mr. Bhimani Vishal ACA Kolkata	01/10/2008	335. 062383	Ms. Khandelwal Shruti ACA Bangalore	01/10/2008
316. 062113	Mr. Hashmi Hassan Afroz ACA Kolkata	01/10/2008	336. 062388	Mr. Harialka Neha ACA Mumbai	01/10/2008
317. 062117	Mr. Pal Debnath ACA Howrah	01/10/2008	337. 062419	Mr. Sourav Manas Ghosh ACA Kolkata	01/10/2007
318. 062120	Mr. Sanwaria Shekhar ACA Wilton	01/10/2004	338. 062468	Mr. Agarwal Alope Kumar ACA Kolkata	01/10/2008

339. 062470	Mr. Jaiswal Pankaj ACA Kolkata	01/10/2007	358. 062876	Mr. Manish Goenka ACA Rishra	01/10/2008
340. 062483	Mr. Calcuttawala Mohammed Z ACA Dubai	01/10/2007	359. 062890	Mr. Poddar Vikash ACA Kolkata	01/10/2008
341. 062485	Mr. Goswami Shouvik ACA Kolkata	01/10/2008	360. 062935	Mr. Agarwal Mridu ACA Kolkata	01/10/2008
342. 062537	Mr. Kedia Ashish ACA Kolkata	01/10/2008	361. 062938	Mr. Roy Pushpal ACA Kolkata	01/10/2008
343. 062551	Mr. Bothra Ajit ACA Gurgaon	01/10/2008	362. 062953	Ms. Agarwal Dipti ACA Kolkata	01/10/2008
344. 062568	Mr. Zia Raihan ACA Dubai	01/10/2008	363. 062959	Mr. Dubey Manoj Kumar ACA Kolkata	01/10/2008
345. 062571	Mr. Kedia Samir ACA Mumbai	01/10/2004	364. 062963	Mr. Parekh Amit ACA Kolkata	01/10/2008
346. 062588	Ms. V A Lakshmi ACA Kolkata	01/10/2007	365. 062968	Mr. Bazaz Sunil Kumar ACA Kolkata	01/10/2008
347. 062596	Mr. Biswal Debankar ACA Cuttack	01/10/2007	366. 063007	Mr. Chaudhuri Aniruddha ACA Kolkata	01/10/2004
348. 062608	Mr. Mittal Sanjay ACA Mumbai	01/10/2006	367. 063014	Ms. Dolly Kothari ACA Kolkata	01/10/2005
349. 062627	Mr. Dibyendu Nandi ACA Kolkata	01/10/2007	368. 063017	Mr. Goenka Abhishek ACA Kolkata	01/10/2007
350. 062700	Mr. Senapati Prafulla Kumar ACA Bhubaneswar	01/10/2008	369. 063021	Mr. Jena Saumen ACA Kolkata	01/10/2008
351. 062715	Mr. Singh Sanjiv Kumar ACA Kolkata	01/10/2008	370. 063024	Mr. Badal Kumar Upadhyaya ACA Bhubaneswar	01/10/2007
352. 062739	Mr. Bantia Vineet Kumar ACA Bangalore	01/10/2008	371. 063038	Mr. Mundhra Anurag ACA Rishra	01/10/2007
353. 062808	Ms. Rachana Paharia ACA Kolkata	01/10/2007	372. 063085	Mr. Khanna Sandeep ACA Kolkata	01/10/2008
354. 062812	Ms. Maskara Rashmi ACA Bangalore	01/10/2007	373. 063116	Ms. Mamta Daga ACA Kolkata	01/10/2008
355. 062829	Ms. Bagri Sweta ACA Dubai	01/10/2008	374. 063189	Ms. Pitty Priyanka ACA Kolkata	01/10/2008
356. 062850	Mr. Madhogaria Satish ACA Barakar	01/10/2008	375. 063207	Mr. Agarwala Prakash ACA Secunderabad	01/10/2007
357. 062853	Mr. Agarwal Ashish ACA Mumbai	01/10/2008	376. 063228	Mr. Alam Tanweer ACA Kolkata	01/10/2008


377. 063274	Mr. Vishal Pachisia ACA Kolkata	01/10/2005	397. 063631	Ms. Mukherjee Indrani ACA Howrah	01/10/2008
378. 063288	Mr. Murarka Abhishek ACA Kolkata	01/10/2008	398. 063634	Mr. Dugar Yogender ACA Kolkata	01/10/2008
379. 063300	Mr. Gupta Rajiv ACA Bangalore	01/10/2008	399. 063641	Mr. Ladhania Sanjay Kumar ACA Bhubaneswar	01/10/2008
380. 063301	Mr. Sharma Rakesh ACA Jaipur	01/10/2008	400. 063648	Mr. Jain Pramod ACA Kolkata	01/10/2008
381. 063306	Mr. Satyajit Nayak ACA Bhadrak	01/10/2007	401. 063650	Ms. Patel Yogita ACA Santa Monica	01/10/2008
382. 063390	Mr. Kumar Navin ACA Muscat	01/10/2007	402. 063688	Mr. Sipani Vikash Kumar ACA Chennai	01/10/2007
383. 063433	Mr. Mishra Sujit Kumar ACA Kolkata	01/10/2007	403. 063689	Mr. Nawal Garia Sunit ACA Kolkata	01/10/2007
384. 063468	Mr. Nitesh Kumar Agarwal ACA Jamuria	01/10/2007	404. 063700	Mr. Jain Vikash ACA Bhubaneswar	01/10/2008
385. 063469	Mr. Bansal Mitesh Kumar ACA Bangalore	01/10/2008	405. 063708	Mr. Datta Partha ACA Kolkata	01/10/2005
386. 063482	Mr. Sharma Amit ACA Kolkata	01/10/2008	406. 063727	Mr. Suvajit Choudhuri ACA Kolkata	01/10/2008
387. 063493	Mr. Agrawal Rakesh ACA Abu Dhabi	01/10/2008	407. 063736	Mr. Vakharia Shailesh V ACA Kolkata	01/10/2008
388. 063495	Mr. Mundra Vineet ACA Lagos	01/10/2008	408. 063742	Mr. Rai Anil Kumar ACA Barakar	01/10/2008
389. 063540	Mr. Agarwal Bikash Kumar ACA Kolkata	01/10/2007	409. 063751	Mr. Ladha Nilesh ACA Kolkata	01/10/2008
390. 063541	Ms. Wadhwa Shalini ACA Kolkata	01/10/2008	410. 063757	Mr. Thakkar Vinay ACA Bangalore	01/10/2008
391. 063568	Mr. Manu Kumar ACA Kolkata	01/10/2005	411. 063758	Mr. Chatterjee Prabal ACA Cuttack	01/10/2008
392. 063583	Mr. Guha Abhishek ACA Bangalore	01/10/2008	412. 063766	Ms. Agrawal Sangeeta ACA Kolkata	01/10/2008
393. 063585	Mr. Agarwal Vinit Kumar ACA Bangalore	01/10/2007	413. 063770	Mr. Sumit Ravi Kumar ACA New Delhi	01/10/2008
394. 063587	Mr. Mohammed Sheik Jaweed ACA Cuttack	01/10/2008	414. 063806	Mr. Vishal Kumar Bharuka ACA Kolkata	01/10/2008
395. 063617	Mr. Patodia Samir ACA Howrah	01/10/2008	415. 063839	Ms. Jairam Anuradha ACA Chennai	01/10/2008
396. 063630	Mr. Nath Nikhil Kumar ACA Damanjodi	01/10/2006			

416. 063868	Ms. Gupta Sunita ACA Kolkata	01/10/2008	436. 064113	Mr. Chamaria Deepak ACA Kolkata	01/10/2008
417. 063869	Ms. Garg Neha ACA Mumbai	01/10/2008	437. 064185	Mr. Das Amit Kumar ACA Bangalore	01/10/2008
418. 063874	Mr. Suraj Agarwal ACA Kolkata	01/10/2008	438. 064191	Mr. Tantia Akash ACA Kolkata	01/10/2008
419. 063881	Mr. Agarwal Gopal Kumar ACA Howrah	01/10/2008	439. 064243	Ms. Walia Amrita ACA Bangalore	01/10/2008
420. 063884	Mr. Jhunjhunwala Amit Kumar ACA Kolkata	01/10/2008	440. 064269	Mr. Pradeep Kedia ACA Bhubaneswar	01/10/2008
421. 063893	Mr. Agarwal Nikhil Kumar ACA Kolkata	01/10/2008	441. 064278	Mr. Ashish Kumar Singh ACA New Delhi	01/10/2008
422. 063895	Ms. Agarwal Renu ACA Gurgaon	01/10/2008	442. 064354	Mr. Sunil Kumar Agrawal ACA Bolangir	01/10/2008
423. 063937	Mr. Surana Siddhartha Rai ACA Kolkata	01/10/2007	443. 064394	Ms. Rapti Basu ACA Gurgaon	01/10/2008
424. 063938	Mr. Kochar Mayank ACA Kolkata	01/10/2007	444. 064404	Mr. Rajesh Kumar Pandey ACA Kolkata	01/10/2008
425. 063950	Mr. Swain Rabindra kumar ACA Bhubaneswar	01/10/2008	445. 064427	Mr. Navin Verma ACA Kolkata	01/10/2008
426. 063953	Mr. Mahato Awdhesh ACA Mumbai	01/10/2007	446. 064437	Mr. Surendar Sharma ACA Kolkata	01/10/2008
427. 063983	Mr. Madhur Tibriwal ACA Kolkata	01/10/2008	447. 064447	Mr. Amit Kumar Jajodia ACA Howrah	01/10/2007
428. 064002	Mr. Bansal Arun ACA Bargarh	01/10/2007	448. 064459	Ms. Antara Pal ACA Hyderabad	01/10/2008
429. 064026	Ms. Toshniwal Natasha ACA Kolkata	01/10/2007	449. 064478	Mr. Samit Kumar Jena ACA Kolkata	01/10/2008
430. 064029	Mr. Sharma Ankur ACA Bangalore	01/10/2008	450. 064501	Mr. Nawal Kishore Verma ACA Jamshedpur	01/10/2007
431. 064034	CA. Ranjan Rajeev Kumar ACA Thane	01/10/2006	451. 064507	Mr. Aditya Marodia ACA Kolkata	01/10/2008
432. 064042	Mr. Madhogaria Vinay ACA Howrah	01/10/2008	452. 064508	Mr. Sumit Biswas ACA Kolkata	01/10/2008
433. 064054	Mr. Nayak Ashok Kumar ACA Bhubaneswar	01/10/2007	453. 064515	Mr. Amit Joshi ACA Kolkata	01/10/2006
434. 064062	Mr. Chatterjee Amitabh ACA Hyderabad	01/10/2007	454. 064524	Mr. Arindam Biswas ACA Bangalore	01/10/2008
435. 064106	Mr. Prasanta Kumar Roy ACA Bhubaneswar	01/10/2008	455. 064550	Mr. Jhahanwigha Shyamsukha ACA Kolkata	01/10/2008

456. 064551	Mr. Manoj Kumar Srivastwa ACA	01/10/2008	476. 065035	Mr. Anjani Kumar Upadhyay ACA	01/10/2008
	Kolkata			Kolkata	
457. 064564	Mr. Subhasis Rath ACA	01/10/2008	477. 065044	CA. Manoj Kumar Gupta ACA	01/10/2007
	Lagos			Kolkata	
458. 064581	Mr. Pankaj Agarwal ACA	01/10/2008	478. 065061	Mr. Rajesh Kumar Biyani ACA	01/10/2008
	Kolkata			Kolkata	
459. 064582	Mr. Saurabh Agarwal ACA	01/10/2008	479. 065063	Mr. Narayan Rath ACA	01/10/2008
	Secunderabad			Jajpur	
460. 064585	Mr. Manish Agarwal ACA	01/10/2008	480. 065075	Ms. Preetu Baid ACA	01/10/2008
	Nagda			Howrah	
461. 064623	Mr. Devendra Kumar Golchha ACA	01/10/2007	481. 065097	Mr. Vivek Jain ACA	01/10/2008
	Aurangabad			Bandel	
462. 064639	Ms. Eisha Shroff ACA	01/10/2007	482. 065151	Mr. Manish Jajodia ACA	01/10/2008
	Bangalore			Kolkata	
463. 064649	Mr. Vivek Poddar ACA	01/10/2008	483. 065152	Mr. Manoj Agarwala ACA	01/10/2007
	Howrah			Malda	
464. 064659	Ms. Sunita Das ACA	01/10/2007	484. 065248	Ms. Mamta Chopra ACA	01/10/2008
	Kolkata			Kolkata	
465. 064672	Mr. Saurabh Jaiswal ACA	01/10/2008	485. 065266	Mr. Navin Khaitan ACA	01/10/2008
	Bangalore			Nayasarai	
466. 064692	Mr. Ram Kumar Khetan ACA	01/10/2007	486. 065278	Ms. Seema Tiwary ACA	01/10/2008
	Bargarh			Kolkata	
467. 064728	Mr. Ravi Gadia ACA	01/10/2008	487. 065282	Ms. Mitu Saraf ACA	01/10/2008
	Kolkata			Bankura	
468. 064743	Mr. Kishan Rathi ACA	01/10/2006	488. 065288	Mr. Samir Agarwal ACA	01/10/2008
	Kolkata			Kolkata	
469. 064789	Mr. Sandip Jajodia ACA	01/10/2008	489. 065312	Ms. Nupur Kamani ACA	01/10/2008
	Kolkata			Cuttack	
470. 064855	Mr. Ajay Sharma ACA	01/10/2007	490. 065380	Mr. Dinesh Jhunjhunwala ACA	01/10/2007
	Kolkata			Howrah	
471. 064865	Mr. Rakesh Roshan Jha ACA	01/10/2008	491. 065383	Mr. Subrat Kumar Panda ACA	01/10/2008
	Jamshedpur			Bhubaneswar	
472. 064952	Mr. Sanjay Kumar Soni ACA	01/10/2007	492. 065398	Mr. Sachin Gupta ACA	01/10/2007
	Howrah			Kolkata	
473. 064956	Ms. Priti Jain ACA	01/10/2008	493. 065414	Mr. Amit Kumar Jagnani ACA	01/10/2007
	Howrah			Kolkata	
474. 064974	Ms. Mimli Kulshreshtha ACA	01/10/2008	494. 065449	Mr. Jagabandhu Patra ACA	01/10/2008
	Perth			Bhubaneswar	
475. 064988	Mr. Pawan Kumar Periwal ACA	01/10/2008	495. 065466	Mr. Vikash Agarwal ACA	01/10/2008
	New Delhi			Howrah	

496. 065482	Mr. Vikash Jain ACA Singapore	01/10/2008	516. 066051	Mr. Raju Mehta ACA Kolkata	01/10/2008
497. 065486	Mr. Ashish Kumar Khendelwal ACA Kolkata	01/10/2008	517. 066077	Mr. Ashutosh Mohanty ACA Keonjhar	01/10/2008
498. 065565	Ms. Shobha Bhandari ACA Kolkata	01/10/2008	518. 066084	Mr. Sobhit Chhawchharia ACA Kolkata	01/10/2008
499. 065578	Mr. Ravi Kumar Sharma ACA Bhadrakali	01/10/2008	519. 066116	Mr. Raj Kishore Prasad ACA Bangalore	01/10/2008
500. 065620	Mr. Shiv Prasad Sahu ACA Berhampore	01/10/2007	520. 066141	Mr. Sajal Abhishek ACA Kolkata	01/10/2008
501. 065621	Mr. Haroon Rashid ACA Kolkata	01/10/2007	521. 066240	Mr. Joydeep Naskar ACA Mumbai	01/10/2008
502. 065690	Mr. Sorabh Goenka ACA Howrah	01/10/2008	522. 066252	Mr. Abhishek Ranjan Singh ACA Jamuria	01/10/2008
503. 065722	CA. Gopal Kumar Gupta ACA Kolkata	01/10/2007	523. 066284	Mr. Himanshu Sekhar Kabi ACA Kolkata	01/10/2008
504. 065737	Mr. Bijay Kumar Agrawal ACA Binka	01/10/2008	524. 066312	Ms. Priyanka Agarwal ACA Howrah	01/10/2008
505. 065743	Mr. Md Salauddin Ali Ahemad ACA Patna	01/10/2008	525. 066313	Mr. Rishi Poddar ACA Mumbai	01/10/2008
506. 065770	Ms. Deepali Jairam ACA Kolkata	01/10/2008	526. 066333	Mr. Umesh Kumar Sharma ACA Howrah	01/10/2008
507. 065807	Mr. Ganesh Kumar Bansal ACA Mumbai	01/10/2008	527. 066356	Ms. Aakansha Bhalotia ACA Kolkata	01/10/2008
508. 065862	Mr. Birendra Kumar Mahanto ACA Kolkata	01/10/2008	528. 066365	Mr. Pankaj Kumar Rathi ACA Rishra	01/10/2008
509. 065865	Mr. Pranay Kumar Sureka ACA Kolkata	01/10/2008	529. 066391	Mr. Dinesh Kumar Yadav ACA Mumbai	01/10/2008
510. 065894	Ms. Mamta Ojha ACA Haldia	01/10/2008	530. 066422	Mr. Jalendra Padhiari ACA Chennai	01/10/2008
511. 065947	Mr. Sourav Dhandh ACA Kolkata	01/10/2008	531. 066449	Mr. Bikash Purohit ACA Barakar	01/10/2008
512. 065963	Mr. Subodh Agarwal ACA Kolkata	01/10/2008	532. 066552	Ms. Sweta Jain ACA Kolkata	01/10/2008
513. 065987	Mr. Rakesh Kandoi ACA Bangalore	01/10/2008	533. 075637	Mr. Dipak Kumar Modi FCA Bhadrakali	01/10/2006
514. 066028	Mr. Parikshita Das ACA Bhadrak	01/10/2008	534. 076141	Ms. Bose Jaba ACA Dubai	01/10/2008
515. 066047	Mr. Ajay Agrawala ACA Kharagpur	01/10/2008	535. 079101	Mr. Sah Bhuvnesh ACA Hyderabad	01/10/2007

536. 086280	Mr. Narayan Sahu FCA	01/10/2007	550. 108774	Mr. Sandeep Kumar Satapathy ACA	01/10/2008
	Bhubaneswar			Bhubaneswar	
537. 090317	Mr. Roy Biswa Jivan ACA	22/12/2003	551. 110317	Ms. Ruchi Agarwal ACA	01/10/2007
	Bhubaneswar			London	
538. 093251	Mr. Chaturvedi Alok FCA	01/10/2008	552. 114642	Mr. Vikram Jha ACA	01/10/2006
	Kolkata			Kolkata	
539. 094284	Mr. Kar Saurabh ACA	01/10/2008	553. 115108	Mr. Sumanta Kumar Nayak ACA	01/10/2008
	Kolkata			Bhubaneswar	
540. 095078	Mr. Surojit Singh FCA	01/10/2004	554. 204986	Mr. Kaushik N ACA	01/10/2008
	Panji			Howrah	
541. 095638	Mr. Mahapatra Ramranjan FCA	01/10/2008	555. 206029	Mr. Jose Joseph FCA	01/10/2004
	Baripada			New York	
542. 095652	Mr. Biresh Das FCA	01/10/2008	556. 206780	Mr. Badri Narayan Subudhi ACA	01/10/2007
	Bhubaneswar			Muscat	
543. 097047	Mr. Dhavala Shekhar FCA	01/10/2008	557. 400384	Mr. Amit Agarwal ACA	01/10/2008
	Kolkata			Mumbai	
544. 097342	Mr. Das Alok Kumar ACA	01/10/2008	558. 404256	Mr. Bhura Pankaj Kumar ACA	01/10/2008
	Bhubaneswar			Guwahati	
545. 097541	Mr. Purohit Bhuwan ACA	01/10/2006	559. 503917	Mr. Rajat Kumar Samal ACA	01/10/2007
	Vadodra			Mumbai	
546. 097567	Mr. Kochar Sharad ACA	01/10/2008	560. 506394	Mr. Nirmal Chandra Sahoo ACA	01/10/2008
	Mumbai			Faridabad	
547. 098526	Mr. Gupta Ashok Kumar ACA	01/10/2007	561. 509854	Mr. Saumya Ranjan Sahoo ACA	01/10/2008
	Siliguri			Bargarh	
548. 100379	Mr. Banerjee Bani Broto ACA	01/10/2008	562. 510568	Mr. Amit Kumar Chaudhary ACA	01/10/2008
	Kolkata			Digboi	
549. 105800	Mr. Rajendra Kumar Sahu FCA	01/10/2008			
	Chennai				



T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

3ECA/5/2/2008-2009: With reference to this Institute's Notification Nos : 3ECA/ 4/11/1986-87 Dated 31 Mar 1987, 3ECA/ 4/12/ 1983-84 Dated 31 Mar 1984, 3ECA/ 4/2/1995-96 Dated 25 Mar 1996, 3ECA/ 4/3/1992-93 Dated 22 Jan 1993, 3ECA/ 4/4/93-94 Dated 1 Feb 1994, 3ECA/ 4/1/2007-08 Dated 15 Dec 2008, 3ECA/ 4/2/1999-00 Dated 03 Dec 1999, 3ECA/ 4/2/2003-04 Dated 08 Sep 2004, 3ECA/4/3/1998-99 Dated 12 May 1999, 3ECA/4/3/2000-01 Dated 22 Feb 2001, 3ECA/ 4/3/2001-02 Dated 19 Nov 2001, 3ECA/ 4/3/2002-03 Dated 31 Mar 2003, 3ECA/ 4/4/2006-07 Dated 30 Nov 2006, 3ECA/4/5/2005-06 Dated 06 April 2006, it is hereby notified in pursuance of Regulations 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names of the following members. :-

S.No. MRN	Member Name & Place	Restoration Dt.	S.No. MRN	Member Name & Place	Restoration Dt.
1. 010162	Mr. Abhash Chandra Bhattacharyya FCA Kolkata	01/10/2001	17. 054558	Mr. Verma Sunil ACA Mumbai	12/12/2008
2. 010801	CA. Bhikam Chand Lamboria FCA Kolkata	03/09/2008	18. 054897	Mr. Bandyopadhyay Sudip ACA Mumbai	25/04/2008
3. 013330	Mr. Devshankar Purkayastha ACA Mumbai	13/02/2009	19. 057256	Mr. Rajesh Rajkarnikar ACA Kathmandu	01/10/2005
4. 014764	Mr. Sushil Kumar Saraogi FCA Kolkata	02/06/2008	20. 058379	Mr. Banerjee Sanjoy ACA Singapore	22/12/2003
5. 018079	Mr. Hari Haran V FCA Bangalore	16/01/2009	21. 058584	Mr. Roy Soumyajit ACA Kolkata	19/01/2009
6. 050700	Mr. Ghosh Samar ACA Kolkata	27/08/2008	22. 058954	Mr. Somani Umesh ACA Dubai	15/04/2008
7. 050763	Mr. Basu Samar Kumar ACA Kolkata	21/05/2008	23. 059283	Mr. Bandyopadhyay Subhadip ACA Mumbai	25/04/2008
8. 051207	Mr. Tanmay Guha Sarkar FCA Kolkata	27/02/2009	24. 063086	Mr. Mohanty Satyabrata ACA Bhubaneswar	01/10/2005
9. 051309	Mr. Das Nimai Kumar ACA Kolkata	18/12/2008	25. 063371	CA. Uma Shankar Kalyani ACA Bangalore	21/04/2008
10. 051378	Mr. Gour Mohan Das ACA Kolkata	22/08/2008	26. 064098	Mr. Dubey Satyendra Kumar ACA Kolkata	28/04/2008
11. 051563	Mr. Gupta Pranab Kumar ACA Kolkata	10/09/2008	27. 064189	Ms. Manju Gupta ACA Kolkata	13/05/2008
12. 052026	Mr. Bandyopadhyay Pradip Kumar ACA Amlai	03/11/2008	28. 065372	Mr. Praveen Nevatia ACA Rishra	05/05/2008
13. 052103	Mr. Sengupta Kishore Chira Ranjan ACA Fontainebleau	26/02/2009	29. 094629	Mr. Pradip Rathi FCA Deogarh	01/10/2007
14. 052869	Mr. Varanasi Romesh Kumar FCA Dar Es Salaam	27/05/2008	30. 500024	Mr. Baral Umakanta ACA Cuttack	12/01/2009
15. 054346	Mr. Tyebbhoy Juzer M ACA Muscat	03/06/2008	31. 506066	Mr. Amit Rathi ACA Chennai	01/10/2007
16. 054492	Mr. Nagarajan Sriram ACA Florham	24/04/2008			

T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

The 30th November 2009

3ECA/8/1/2008-2009 : In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from 01/10/2008 as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Place
1.	002415	Mr. Pande Shri Nath FCA Howrah
2.	002635	Mr. Das Bhupati Nath FCA Kolkata
3.	004124	Mr. Bhandari Raj Ran Chhor Chand FCA Kolkata
4.	004147	Mr. Mehta Sumer Chand FCA Kolkata
5.	005533	Mr. Mandal Gobardhan Das FCA Hooghly
6.	006903	Mr. Sural Arunabha FCA Kolkata
7.	009006	Mr. Guhathakurta Ranendra Nath FCA Kolkata
8.	011004	Mr. Ray Abhijit ACA Kolkata
9.	011779	Mr. Chatterji Subrata ACA Kolkata
10.	012708	Mr. Mukherjee Pritam Gopal FCA Kolkata
11.	050100	Mr. Choudhury Gautam Hazra ACA Kolkata
12.	050710	Mr. Debashis Basu ACA Kolkata
13.	051476	Mr. Ranjit Sengupta FCA Kolkata
14.	051551	Mr. Bhar Pradip FCA Kolkata

S.No.	MRN	Member Name & Place
15.	051839	Mr. Sanghavi Hiren U ACA Kolkata
16.	052314	Mr. Guha Bhaskar ACA Kolkata
17.	052617	Mr. Banerjee Anjan ACA Kolkata
18.	052879	Mr. Nandi Jahar ACA Oman
19.	053169	Mr. Shree Mohan Hamirbasia FCA Kolkata
20.	054420	Mr. Singh Sanjay Kumar FCA Kolkata
21.	054887	Mr. Shaw Jaiprakash ACA Kolkata
22.	054941	Mr. Patro P Rajarao FCA Bhubaneswar
23.	055025	Mr. Paul Jagannath Kumar FCA Konnagar
24.	055090	Mr. Mahesh JhunJhunwala FCA Kolkata
25.	055182	Mr. Sharma Suresh Kumar FCA Rishra
26.	055211	Mr. Bhansali Nareshkumar Hiralal FCA Kolkata
27.	055325	Mr. Siddhartha Banerjee ACA Kolkata
28.	055361	Mr. Ghosh Aninda ACA Kolkata

29.	055871	Mr. Vijay Kumar Patodia ACA Howrah	48	058128	Mr. Kedia Ashok Kumar ACA Kolkata
30.	056001	Mr. Agrawal Sanjay Kumar FCA Howrah	49	058291	Mr. Chowdhury Amit ACA Kolkata
31.	056055	Mr. Ganguli Sandipan ACA Howrah	50	058479	Ms. Ganguli Paramita ACA Shibpur
32.	056092	Mr. Saraf Ramanand ACA Kolkata	51	058776	Mr. Chatterjee Pratik ACA Baidyabati
33.	056213	Mr. Mahapatra Dhiman ACA Kolkata	52.	058913	Mr. Maneesh Kumar Khakholia FCA Kolkata
34.	056760	Mr. Ghoshal Rajib FCA Kolkata	53.	059074	Mr. Agrawal Vinay ACA Kolkata
35.	056771	Mr. Nag Rupam ACA Kolkata	54.	059113	Mr. Datta Rabindra Nath ACA Kolkata
36.	056817	Mr. Ganguly Anirban ACA Kolkata	55.	059211	Mr. Arnab Goswami FCA Kolkata
37.	057018	Mr. Gupta Prashant ACA Kolkata	56.	059234	Mr. Dasgupta Manish ACA Guwahati
38.	057162	Mr. Dalmia Rakesh Rosan ACA Kolkata	57.	059273	Mr. Thakur Padma Kant FCA Kolkata
39.	057264	Mr. Samjadar Biplab ACA Kolkata	58.	059422	Mr. Ray Mainak ACA Bangalore
40.	057423	Mr. Goenka Deepak ACA Kolkata	59.	059428	Ms. Sagun Tulsyan FCA Kolkata
41.	057492	Mr. Indranath Chatterjee ACA Kolkata	60.	059553	Mr. Paul Subrata ACA Kolkata
42.	057544	Mr. Pradipta Biswas FCA Kolkata	61.	059841	Mr. Patodia Siddhartha ACA Kolkata
43.	057764	Mr. Ashis Kumar Mishra FCA Berhampur	62.	059871	Mr. Manoj Kumar Singh FCA Konnagar
44.	057771	Mr. Tulsian Manoj ACA Mumbai	63.	059901	Mr. Ray Sourjajit ACA Kolkata
45.	057808	Mr. Agarwal Manoj ACA Kolkata	64.	059980	Mr. Gupta Jayesh ACA Kolkata
46.	057809	Ms. Anurita Chaturvedi ACA Kolkata	65.	059982	Mr. Bhakta Tirthamay ACA Kolkata
47	057893	Mr. Mohanty Hara Prasad ACA Keonjhar	66.	060251	Mr. Banka Vivek Kumar ACA Purulia

67.	060284	Mr. Chetan Chowdhury FCA Kolkata	85.	062457	Mr. Gupta Vinay Kumar ACA Kolkata
68.	060413	Mr. Suhasaria Rakesh ACA Howrah	86.	062679	Mr. Baid Vineet ACA Kolkata
69.	060567	Mr. Loyalka Keshav Kant ACA Raniganj	87.	062748	Ms. Bhalotia Meenakshi ACA Kolkata
70.	060858	Mr. Golchha Gautam Kumar ACA Howrah	88.	062763	Mr. Rishabh Jain ACA Naharlagun
71.	061148	Mr. Manish Kumar ACA Kolkata	89.	063068	Mr. Roy Mahadev ACA Kolkata
72.	061483	Mr. Agarwal Govind Prasad ACA Howrah	90.	063154	Ms. Ganeriwal Abha ACA Kolkata
73.	061498	Mr. Jaipurai Jugal Kishor ACA Kolkata	91.	063169	Mr. Jain Pradip ACA Kolkata
74.	061540	Mr. Sameer Goenka FCA Kolkata	92.	063524	Mr. Varshney Indra Prakash ACA Howrah
75.	061541	Mr. Vikash Goenka FCA Kolkata	93.	063533	Mr. Saha Abijit ACA Kolkata
76.	061558	Ms. Bhudolia Sanjula ACA Kolkata	94.	063614	Mr. Pramod Dangaich ACA Kolkata
77.	061624	Mr. Todi Sunil ACA Kolkata	95.	063931	Mr. Chowdhury Saugata ACA Siliguri
78.	061633	Ms. Kar Debolina ACA Secunderabad	96.	064138	Ms. Agarwal Sarika ACA Kolkata
79.	061706	Mr. Sanjib Manna FCA Tamluk	97.	064208	Mr. Sandeep Kumar Poddar ACA Kolkata
80.	061868	Mr. Agarwal Navin Kumar ACA Kolkata	98.	064616	Ms. Ekta Kejriwal ACA Dibrugarh
81.	062026	Ms. Kandoi Chitra ACA Kolkata	99.	064890	Mr. Pravin Agarwalla ACA Siliguri
82.	062168	Mr. Jaiswal Shilpi ACA Howrah	100.	065193	Mr. Shubhashis Sarkar ACA Kolkata
83.	062259	Mr. Shashi Kumar ACA Howrah	101.	065203	Mr. Rajesh Mall ACA Kolkata
84.	062317	Mr. Pritam Chowdhury ACA Kolkata	102.	065308	Mr. Maheshwar Nayak ACA Purulia

103.	065371	Mr. Anil Kumar Dash ACA Bhubaneswar	110.	095745	Mr. Meher Gautam ACA Doha
104.	065431	Mr. Dillip Kumar Mishra ACA Paradip	111.	097166	Ms. Jain Neeta ACA Kolkata
105.	065523	Mr. Pankaj Kumar Agarwal ACA Kolkata	112.	212455	Mr. Singh Rashmi Ranjan ACA Bhubaneswar
106.	066237	Mr. Ranju Mukhopadhyay ACA Hooghly	113.	400744	Ms. Nagar Versha ACA Kolkata
107.	066398	Mr. Pankaj Singh Chaudhary ACA Kathmandu	114.	406250	Mr. Madhu Sudhan Sawa ACA Rourkela
108.	081428	Mr. Ghosh Arun Chand ACA Kolkata	115.	408319	Mr. Mahaveer Baid ACA Kolkata
109.	090884	Mr. Mohanty Tapas Ranjan ACA Bhubaneswar	116.	510319	Mr. Abhaya Kumar Dash ACA Kolkata

T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

Kolkata-700071, the 30th November 2009

3ECA/8/2/2008-2009: In Pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Place	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Place	Cancel Dt.
1.	007956	Mr. Chakrabarti Siddheswar FCA Kolkata	01/04/2008	16.	052249	Mr. Sumit Kumar Dutt FCA Kolkata	02/03/2009
2.	012845	Mr. Agarwala Shiw kumar FCA Kolkata	01/04/2008	17.	052924	Mr. Choudhary Awadhesh Kumar FCA Kolkata	04/08/2008
3.	013972	Mr. Patodia Bimal Kishore FCA Kolkata	01/04/2008	18.	053153	Mr. Dipak Ghosh ACA Kolkata	15/09/2008
4.	016300	Mr. Chatterjee Dilip Kumar FCA Kolkata	27/01/2009	19.	053997	Mr. Shah Anand Kumar FCA Kolkata	31/12/2008
5.	016350	Mr. Gandhi Arun Kumar FCA Kolkata	01/10/2008	20.	054074	Mr. Sarda Kamal FCA Kolkata	01/04/2008
6.	016706	Mr. Shyam Daswani FCA Kolkata	17/05/2008	21.	054188	Mr. Lodha Harsh Vardhan FCA Kolkata	04/10/2008
7.	050569	CA. Biplab Kumar Saha ACA Kolkata	01/04/2008	22.	054323	Mr. Chaudhary Deepak Kumar FCA Kolkata	31/12/2008
8.	050762	Mr. Bandyopadhyay Nirmal Kumar FCA Kolkata	10/03/2008	23.	054620	Mr. Maiti Biswajit FCA Kolkata	01/01/2008
9.	050782	Mr. Surana Kamal Singh FCA Howrah	25/09/2008	24.	054621	Mr. Kapur Dipak FCA Visakhapatnam	29/02/2008
10.	050840	Mr. Abhay Mal Lodha FCA Kolkata	19/03/2009	25.	054626	Mr. Pradhan Amiya Kumar FCA Guwahati	31/03/2008
11.	051218	Mr. Tapas Datta FCA Kolkata	20/06/2008	26.	054689	Mr. Alope Kumar Mukhopadhyay FCA Kolkata	19/12/2008
12.	051580	CA. Kirti Ranjan Patra Kosala FCA New Delhi	01/04/2008	27.	055895	Mr. Pasari Pradeep ACA Mumbai	01/04/2008
13.	051787	Mr. Srinivasan N R FCA Kolkata	31/03/2008	28.	055946	Mr. Chakrabarti Utpal Kanti FCA Chinsura	01/04/2008
14.	051812	Mr. Banik Pranab Kumar FCA Kolkata	01/04/2008	29.	056095	Ms. Bagchi Saswati ACA Kolkata	01/04/2008
15.	052002	CA. K Sekher FCA Kolkata	01/04/2008	30.	056374	Mr. Shukla Anil FCA Hooghly	01/04/2008

31. 056428	Mr. Nirdosh Kumar Agarwal	FCA	24/03/2008	52. 059002	Mr. Alok Taparia	FCA	25/12/2008
	Kolkata				Rishra		
32. 056497	Mr. Sabyasachi Mullick Chowdhury	ACA	07/01/2009	53. 059201	Mr. Samit Kumar Das	FCA	01/04/2008
	Kolkata				Kolkata		
33. 056575	Mr. Datta Rajat Ranjan	FCA	01/08/2008	54. 059386	Mr. Anshuman Bal	FCA	05/03/2009
	Kolkata				Kolkata		
34. 056586	Mr. Bahety Chandra Mohan	FCA	11/11/2008	55. 059476	Mr. Kayan Govind	ACA	01/04/2008
	Kolkata				Kolkata		
35. 056712	Mr. Bansal Dipak	FCA	10/03/2008	56. 059528	Mr. Tapan Gupta	FCA	09/06/2008
	Kolkata				Kolkata		
36. 057111	Mr. Jain Pankaj Kumar	FCA	31/03/2008	57. 059627	Mr. Rungta Ashish	FCA	31/12/2008
	Kolkata				Bhubaneswar		
37. 057251	Mr. Agarwal Manoj Kumar	ACA	13/01/2009	58. 060007	Ms. Saraf Sarita	ACA	31/03/2008
	Kolkata				Kolkata		
38. 057434	Mr. Manoj Kumar Beriwalla	FCA	20/08/2008	59. 060402	Mr. Bajaj Manish Kumar	FCA	11/12/2008
	Kolkata				Howrah		
39. 057561	Mr. Ghosh Debabrata	FCA	01/01/2009	60. 060405	Ms. Diptakshi Goswami Pal	FCA	01/11/2008
	Kolkata				Kolkata		
40. 057617	Mr. Agarwal Dileep Kumar	FCA	10/09/2008	61. 060666	Mr. Kejriwal Samir Kumar	ACA	15/01/2009
	Kolkata				Howrah		
41. 057836	Mr. Jain Sambhaw Kumar	ACA	23/12/2008	62. 060858	Mr. Golchha Gautam Kumar	ACA	01/10/2008
	Kolkata				Howrah		
42. 058105	Mr. Neeraj Jayaswal	FCA	23/02/2009	63. 060864	Mr. Ashish Kumar Bhoot	FCA	09/03/2009
	Kolkata				Howrah		
43. 058146	Mr. Subhasish Kar	FCA	07/11/2008	64. 061033	Mr. Gosawmi Sabyasachi	ACA	19/10/2008
	Kolkata				Kolkata		
44. 058371	Mr. Agarwal Vikash	FCA	12/03/2008	65. 061068	Mr. Banthia Sanjay	ACA	04/03/2009
	Kolkata				Kolkata		
45. 058478	Mr. Singh Goutam	FCA	22/08/2008	66. 061134	Mr. Anil Kumar Jaiswal	FCA	27/11/2008
	Rourkela				Kolkata		
46. 058493	Mr. Kishore Kumar Senapati	FCA	24/06/2008	67. 061210	CA. Vikash Mehrotra	FCA	29/01/2009
	Agartala				Kolkata		
47. 058550	Mr. Goyal Sanjeev Kumar	FCA	01/04/2008	68. 061218	Mr. Panda Chittaranjan	ACA	01/07/2007
	Kolkata				Joda		
48. 058597	Mr. Bhotoria Jitendra	FCA	01/04/2008	69. 061344	Mr. Manish Sureka	FCA	01/04/2008
	Kolkata				Kolkata		
49. 058664	Mr. Agarwal Shiv Nath	ACA	16/03/2009	70. 061450	Mr. Mukesh Kumar Sonthalia	FCA	25/03/2008
	Kolkata				Kolkata		
50. 058689	Mr. Sarogi Manoj	ACA	17/03/2009	71. 061493	Mr. Chetan Prakash Bagria	FCA	01/04/2008
	Kolkata				Kolkata		
51. 058757	Ms. Piyali Banerjee	FCA	01/04/2008	72. 061515	Ms. Sayantani De	FCA	19/10/2008
	Kolkata				Kolkata		

73. 061806	Mr. Lakshman Gupta	FCA	11/11/2008	94. 063951	Mr. Majumdar Ayan	ACA	30/12/2008
	Kolkata				Chandannagar		
74. 061838	Mr. Sushil Kumar Agarwal	FCA	29/01/2009	95. 063956	Mr. Sunil Dalmia	ACA	01/04/2008
	Howrah				Kolkata		
75. 061881	Mr. Juthani Samir	ACA	22/09/2008	96. 063992	Mr. Agarwal Anup Kumar	ACA	12/03/2008
	Kolkata				Rangpo		
76. 061935	Ms. Nidhi Agarwal	ACA	02/09/2008	97. 064040	Ms. Garima Killa	ACA	25/03/2008
	Kolkata				Kolkata		
77. 062136	Mr. Arvind Agrawal	FCA	13/10/2008	98. 064178	Mr. Binay Agrawal	ACA	01/08/2008
	Kantabanji				Kolkata		
78. 062176	Mr. Rathi Naresh	ACA	15/01/2009	99. 064428	Mr. Ram Bharat Yadav	ACA	25/02/2009
	Rishra				Burnpur		
79. 062270	Mr. Deepak Kumar Sharam	ACA	22/12/2008	100. 064436	Mr. Sayandeep Chowdhury	ACA	20/03/2008
	kolkata				Kolkata		
80. 062356	Ms. Jalan Anjula	ACA	01/04/2008	101. 064491	Mr. Amar Agarwal	ACA	01/03/2008
	Hindmotor				Raniganj		
81. 062653	Ms. Sahewala Chandni	ACA	01/09/2008	102. 064525	Mr. Umesh Kumar Agarwal	ACA	08/08/2006
	Siliguri				Howrah		
82. 063095	Mr. Agrawal Roshan	ACA	31/03/2008	103. 064545	Ms. Manisha Kotecha	ACA	06/01/2009
	Kolkata				Kolkata		
83. 063117	Mr. Dhar Arunav	ACA	25/08/2008	104. 064636	Mr. Sandip Agarwal	ACA	25/03/2009
	Ariyalur				Kolkata		
84. 063195	Mr. Jindal Jai Prakash	ACA	30/09/2008	105. 064693	Ms. Deepika Garg	ACA	10/10/2008
	Howrah				Kolkata		
85. 063317	Mr. Chhaparia Rajesh Kumar	ACA	01/04/2008	106. 064747	Mr. Jayanta Majumdar	ACA	16/07/2008
	Howrah				Howrah		
86. 063566	Mr. Agarwal Vikash	ACA	23/09/2009	107. 064821	Mr. Hitesh Kumar Vegad	ACA	25/03/2008
	Kolkata				Bhubaneswar		
87. 063652	Ms. Kedia Nimisha	ACA	29/09/2008	108. 064831	Mr. Pankaj Khemka	ACA	01/04/2008
	Kolkata				Siliguri		
88. 063665	Mr. Sharma Girish	ACA	29/09/2008	109. 064902	Mr. Prabhat Ranjan	ACA	12/12/2008
	Kolkata				Howrah		
89. 063721	Mr. Kejriwal Sandeep	ACA	29/08/2008	110. 064906	Ms. Vandana Khaitan	ACA	30/12/2008
	Kolkata				Hyderabad		
90. 063812	Mr. Jha Sunil Kumar	ACA	29/11/2008	111. 064970	Mr. Abir Loharuka	ACA	25/02/2008
	Kolkata				Kolkata		
91. 063849	Mr. Deborshi Roy	ACA	01/10/2005	112. 065039	Ms. Parminder Kaur Gandhi	ACA	31/10/2008
	Kolkata				Kolkata		
92. 063883	Mr. Manish Tiwari	ACA	01/04/2008	113. 065123	Mr. Giridhar Dhelia	ACA	16/09/2008
	Kolkata				Kolkata		
93. 063890	Mr. Gupta Sandeep	ACA	27/11/2008	114. 065241	Mr. Piyush Kumar Lakhotia	ACA	01/10/2008
	Kolkata				Kolkata		

115. 065334	Ms. Reema Jalan	ACA	23/12/2008	127. 066075	Ms. Prity Kabra	ACA	01/04/2008
	Kolkata				Guwahati		
116. 065589	Ms. Anshu Dokania	ACA	19/08/2008	128. 066105	Mr. Rajiv Kumar Roy	ACA	19/11/2008
	Jamshedpur				Kolkata		
117. 065604	Mr. Arup Kumar Nandi	ACA	01/04/2008	129. 066602	Mr. Alok Jha	ACA	01/04/2008
	Kolkata				Singapore		
118. 065638	Mr. Ritesh Kyal	ACA	01/04/2008	130. 066818	Mr. Naval Kala	ACA	13/10/2008
	Kolkata				Kolkata		
119. 065646	Mr. Deepak Kumar Sharma	ACA	01/04/2008	131. 066984	CA. Debjani Sengupta	ACA	27/01/2009
	Kolkata				Kolkata		
120. 065655	Ms. Aditi Garg	ACA	29/02/2008	132. 066995	CA. Vikash Gupta	ACA	11/02/2009
	Kolkata				Kolkata		
121. 065721	Ms. Sangeeta Bansal	ACA	01/10/2008	133. 074570	Mr. Sengupta Asim	ACA	15/09/2008
	Kolkata				Kolkata		
122. 065738	Mr. Harish Patwari	ACA	20/01/2009	134. 094648	Mr. Nayak Ranjita Kumar	FCA	16/03/2009
	Howrah				Kolkata		
123. 065745	Mr. Prasanjit Puan	ACA	04/07/2008	135. 401703	Mr. Sanjay Dixit	FCA	01/04/2008
	Bhubaneswar				Kolkata		
124. 065921	Mr. Ranjeet Mittal	ACA	25/03/2008	136. 408336	Mr. Vimal Jaiswal	ACA	01/04/2008
	Kolkata				Kolkata		
125. 065977	Mr. Sasanka Cattopadhyay	ACA	03/03/2009	137. 500385	Mr. Biplob Kumar Saha	FCA	01/03/2008
	Kolkata				Kolkata		
126. 066070	Mr. Ajay Kumar Agarwal	ACA	06/01/2009	138. 502113	Ms. Goel Swati	ACA	29/12/2008
	Kolkata				Kolkata		
				139. 508612	Mr. Raju Pradhan	ACA	28/09/2007
					Kathmandu		

T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

Kanpur-208001, the 20th October 2009

3CCA(4)/(1) 2008-2009 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20 (1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 1st Oct. 2008 on account of non payment of prescribed fees, the names of the following persons :-

S.No.	MR.N.	Name	Place
1.	001251	CA. DUTTA PRAG	LUCKNOW
2.	003260	CA. AGARWAL DHARAM PRAKASH	LUCKNOW
3.	004251	CA. MANDAL A.P.	RANCHI
4.	006638	CA. KEDAR MANI	DEORIA
5.	008227	CA. DAMANI KRISHNA RATAN	INDORE
6.	009233	CA. BANERJI UMESH	NOIDA
7.	009499	CA. MEHROTRA SITA RAM	GURGAON
8.	009857	CA. NATARAJAN R	BHOPAL
9.	010804	CA. HAJRA TIMIR BARAN	KOLKATA
10.	011131	CA. TEKRIWAL PREM KUMAR	JAMSHEDPUR
11.	011646	CA. LAL KAILASH BHUSHAN	NOIDA
12.	012147	CA. SRIVASTAVA KESHAV KRISHNA	LUCKNOW
13.	012164	CA. HARIHARAM P.	JAMSHEDPUR
14.	012380	CA. CHOUDHURY SANTOSH KUMAR	BOKARO STEEL CITY
15.	012493	CA. SUD AVINASH CHANDER	NOIDA
16.	013701	CA. AGARWAL SAROJ KUMARI	LUCKNOW
17.	015409	CA. BANSAL VIJAY KUMAR	BEAWAR

S.No.	MR.N.	Name	Place
18.	015972	CA. AGIWAL SITARAM	JAMSHEDPUR
19.	016326	CA. SINGHVI DAULAT CHAND	JODHPUR
20.	016441	CA. PARAKH KUSHAL CHAND	BHOPAL
21.	017074	CA. SINGHVI GANPAT	JODHPUR
22.	017078	CA. SIBAL VIRA	KANPUR
23.	017554	CA. SANTOSH KUMAR VAID	NOIDA
24.	019828	CA. JHUNJHUNWALA PRAMOD KUMAR	KANPUR
25.	030712	CA. JAIN TARA CHAND	BEAWAR
26.	031382	CA. GUPTA HARISH KUMAR	JODHPUR
27.	031819	CA. GOLCHA KAPOORCHAND CHAMPA LAL	JODHPUR
28.	031997	CA. SAMPAT RAJ GAHLOT	JODHPUR
29.	033103	CA. MAN MOHAN	SHAHNOL
30.	034245	CA. JAIN NIRAJ GYAN CHAND	INDORE
31.	037857	CA. GUPTA MAHENDRA KUMAR	KOTA
32.	039035	CA. JAIN RAJENDRA	JODHPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
33.	039365	CA. KUMBHAT PANKAJ	JODHPUR
34.	039606	CA. SAMEER LAL	JABALPUR
35.	040312	CA. SALEEM MEYAJI	UDAIPUR
36.	041138	CA. PAREEK HARISH KUMAR	BHILWARA
37.	042813	CA. SHAH RAJU JAYANTILAL	BHOPAL
38.	043050	CA. JANI RAJESH	BHILWARA
39.	043117	CA. SOMANI SANJAY KUMAR	RANCHI
40.	043435	CA. SURANA SURESH	JODHPUR
41.	045051	CA. SANGAM BHARATI	ALLAHABAD
42.	045753	CA. SONI VIMAL KISHORE	NAGDA
43.	045969	CA. GOYAL NAND KISHOR	AJMER
44.	046912	CA. JAIN RAJENDRA KUMAR	BHILWARA
45.	047343	CA. SONI ROOPWANT	UDAIPUR
46.	048579	CA. LAAD VASUNDHARA H	INDORE
47.	049090	CA. MAHESHWARI RAJNISH	UDAIPUR
48.	049514	CA. MANTRI ANURAG	GURGAON
49.	050042	CA. SHARDA MANOJ KUMAR	AJMER
50.	050074	CA. GUPTA AMOD	MEERUT
51.	050834	CA. CATTOPADHYAY SACHIN	ALLAHABAD

S.No.	MR.N.	Name	Place
52.	051344	CA. ROY SHYAM SUNDAR	DHANBAD
53.	051891	CA. SINGH PRAMOD KUMAR	PATNA
54.	051994	CA. MD KHAL IQUEZZAMAN	DHANBAD
55.	052163	CA. SINGHVI MAHENDRA KUMAR	JODHPUR
56.	052223	CA. JAISWAL RAMESH CHAND	VARANASI
57.	053652	CA. JAIN VIVEK CHANDRA	LUCKNOW
58.	053822	CA. LUTHARA SUDIP	LUCKNOW
59.	054317	CA. MOHANTY SUDHANSU SEKHAR	BHILAI
60.	054500	CA. VERMA JYOTI SONI	JAIPUR
61.	055081	CA. SETHIA RAJENDRA	BIKANER
62.	056005	CA. MANDHANA OM PRAKASH	BHOPAL
63.	056027	CA. DWARY RAVI SHANKAR	DEOGHAR
64.	056585	CA. AKHRAMKA PRAMOD KUMAR	JAIPUR
65.	056609	CA. MAUR RAJESH	JALORE
66.	056816	CA. AGARWAL RAJ KUMAR	RAIPUR
67.	057600	CA. PATRO CH MANOJ KUMAR	BHOPAL
68.	057683	CA. SHARMA NAVIN KUMAR	GONDA
69.	058211	CA. SANGEETA RATHI	LUCKNOW

S.No.	MR.N.	Name	Place
70.	058511	CA. R.S. RAMESH	JAMSHEDPUR
71.	058585	CA. LAKHOTIA ROHIT	FORBESGANJ
72.	058897	CA. JAJODIA PRATIK	NOIDA
73.	059564	CA. MUKHERJEE SUMIT	RAIPUR
74.	059812	CA. PARAKH BOBBY	INDORE
75.	059919	CA. KHETAN MADHUKAR	NOIDA
76.	060188	CA. AGARWAL SUDHA	BHAGALPUR
77.	060379	CA. SRIVASTAVA VIVEK	NEW DELHI
78.	060492	CA. YADAV RAM CHANDRA PRASAD	RAIPUR
79.	060525	CA. AMIT KUMAR SARAOGI	KHAGARIA
80.	060626	CA. GOLCHHA MANISH KUMAR	FORBESGANJ
81.	060651	CA. AMIT KUMAR VYAS	BEAWAR
82.	060967	CA. SHAROFF VIKAS	NOIDA
83.	061059	CA. VARMA ANKITA	JAMSHEDPUR
84.	061278	CA. MUKUND JHUNJHUNWALA	RANCHI
85.	061312	CA. TULSYAN VIKASH KUMAR	DHANBAD
86.	061477	CA. TRIPATHY BIBHU PADARABINDA	CUTTACK
87.	061810	CA. THAKUR KUMAR NATH	GORAKHPUR
88.	062543	CA. AGARWAL RAJ KUMAR	BEGUSARAI

S.No.	MR.N.	Name	Place
89.	062714	CA. SHARMA VAIDEHI	VAISHALI
90.	062803	CA. PRAWAL MANISHA	BAREILLY
91.	063056	CA. DALMIA ANSHU KUMAR	PATNA
92.	063199	CA. SHARMA MAHAVEER	JODHPUR
93.	063724	CA. MISHRA SUDEEP	CUTTACK
94.	063875	CA. CHANDRA SURESH	GORAKHPUR
95.	064828	CA. SOHAN LAL PRASAD	NOIDA
96.	065059	CA. BHASKAR GUPTA	DHANBAD
97.	065573	CA. DEEPAK KUMAR AGRAWAL	RAXAUL
98.	065895	CA. VIVEK BARNWAL	KOLKATA
99.	066043	CA. VIKASH JAIN	BHAGALPUR
100.	070097	CA. DARJI SURESH CHAND	SHAHNOL
101.	070189	CA. NIRMAL SHYAM	ALLAHABAD
102.	070213	CA. KHANNA PANKAJ	KANPUR
103.	070489	CA. GUPTA SUSHIL KUMAR	KANPUR
104.	070491	CA. PRITHI PAL SINGH	KANPUR
105.	070524	CA. HARSH MOHAN	ALIGARH
106.	070531	CA. PRABHAS CHANDRA BHANTI	UDAIPUR
107.	070534	CA. PREM KUMAR JOTWANI	ALLAHABAD

S.No.	MR.N.	Name	Place
108.	070531	CA. GUPTA RAVI PRAKASH	ALLAHABAD
109.	070836	CA. SUNIL KUMAR	NOIDA
110.	070877	CA. AGARWAL HEMANT	INDORE
111.	070925	CA. ABHIRAM VEER	LUCKNOW
112.	071029	CA. AWASTHI SHAIENDRA KUMAR	KANPUR
113.	071038	CA. KOTHARI VINEET	JAIPUR
114.	071113	CA. TALWAR SURENDRA KUMAR	GHAZIABAD
115.	071138	CA. GROVER RAKESH KUMAR	ALLAHABAD
116.	071147	CA. RASTOGI ATUL	KANPUR
117.	071156	CA. VED PRAKASH	AGRA
118.	071306	CA. VACHHANEY MANOHAR	JAIPUR
119.	071324	CA. ASHOK PRAKASH MUNDRA	JAIPUR
120.	071343	CA. GARG SHELENDRA NATH	HAPUR
121.	071346	CA. RAM RAJ SONI	KOLKATA
122.	071358	CA. BHANSALI PARAS CHAND	JAIPUR
123.	071377	CA. SHAH GOPAL DAS	JODHPUR
124.	071489	CA. MUJAWDIYA KRISHNA GOPAL	INDORE
125.	071638	CA. GUPTA SURESH KUMAR	BHOPAL

S.No.	MR.N.	Name	Place
126.	071703	CA. NIRMAL KUMAR JAIN	BHILWARA
127.	071725	CA. GEORGE NINAN ABRAHAM	KANPUR
128.	071756	CA. JAIN BHUPENDRA KUMAR	BHILWARA
129.	071776	CA. LOHIYA ANAND PRAKASH	JODHPUR
130.	071895	CA. SAXENA ANIL KUMAR	KANPUR
131.	071915	CA. PACHAURI LAV	ALLAHABAD
132.	071941	CA. SHARMA GOPAL LAL	JAIPUR
133.	071985	CA. GARG SURENDRA KUMAR	GHAZIABAD
134.	072123	CA. JAIN DHARAM CHAND	JAIPUR
135.	072271	CA. PRAMOD KUMAR MAHESHWARI	ALIGARH
136.	072281	CA. SINGHVI PRAKASH KUMAR	JODHPUR
137.	072360	CA. PRASOON KUMAR BHATTACHARYYA	HAZARIBAGH
138.	072370	CA. BAIRATHI DINESH	JAIPUR
139.	072503	CA. SETH RAJESH	ALLAHABAD
140.	072520	CA. AHUJA DHARMENDRA KUMAR	MEERUT
141.	072556	CA. VIDYARTHI RAJEN	BAREILLY
142.	072597	CA. BANTHIA SUSHIL	INDORE
143.	072711	CA. DASHORA NAVIN PRAKASH	INDORE

S.No.	MR.N.	Name	Place
144.	072791	CA. PUSHPENDRA	ALLAHABAD
145.	072799	CA. MOHAMMAD IMRAN	BHOPAL
146.	072838	CA. SOMANI VIJAY KUMAR	PALIMRWAR
147.	072842	CA. JAIN AJAY KUMAR	MUZAFFAR NAGAR
148.	072905	CA. PANDWAL RAJENDRA	UDAIPUR
149.	072998	CA. GANG VINOD KUMAR	INDORE
150.	073223	CA. MULLICK PULAK RAJ	DEHRADUN
151.	073240	CA. TAHILIANI VIJAY KUMAR	JAIPUR
152.	073269	CA. PRADEEP KUMAR	GHAZIABAD
153.	073328	CA. KRIPLANI KAILASH	LUCKNOW
154.	073428	CA. ADARSH KUMAR	NOIDA
155.	073436	CA. MANISH BHANDARI	JODHPUR
156.	073446	CA. TEWARI BALRAM	LUCKNOW
157.	073468	CA. GUPTA SHIRISH KUMAR	KANPUR
158.	073502	CA. GUPTA SUNIL KUMAR	NEW DELHI
159.	073677	CA. JAIN SHANTI CHAND	JODHPUR
160.	073705	CA. ANIL KUMAR MEHTA	JODHPUR
161.	073714	CA. SHARMA VIVEK	AGRA
162.	073719	CA. SHUKLA SHARAD	LUCKNOW
163.	073725	CA. DAVE ATUL	LUCKNOW

S.No.	MR.N.	Name	Place
164.	073749	CA. MANOJ KUMAR GUPTA	MEERUT
165.	073844	CA. BHASIN NARENDRA KUMAR	DEHRADUN
166.	073848	CA. CHOWDHRY PRANEET KUMAR	JAIPUR
167.	073860	CA. DAFRIA NITIN KUMAR	INDORE
168.	073861	CA. KHARE SURYA PRAKASH	BARABANKI
169.	073952	MR. KAYATHWAL OM PRAKASH	JAIPUR
170.	073985	CA. SRIVASTAVA SUNIL KUMAR	LUCKNOW
171.	074109	CA. KEDIA RAJESH KUMAR	RAIPUR
172.	074127	CA. INDRA KUMAR	LUCKNOW
173.	074130	CA. RAKESH KUMAR SINGH	KANPUR
174.	074132	CA. KABRA SANJAY	INDORE
175.	074141	CA. KIYAWAT AJIT KUMAR	INDORE
176.	074186	CA. VISWANATH V	PUNE
177.	074212	CA. KUMBHAT JAIDEEP	JAIPUR
178.	074224	CA. MADHWI MUNDRA	INDORE
179.	074235	CA. KARNAWAT MANOJ	DEHRADUN
180.	074241	CA. DHOOT JUGAL KISHORE	JODHPUR
181.	074415	CA. BABU LAL BHATHAR	JODHPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
182.	074453	CA. MITTAL DINESH KUMAR	BHOPAL
183.	074532	CA. PANDA HEMANTA KUMAR	SONEBHADRA
184.	074553	CA. JAIN SURESH KUMAR	UDAIPUR
185.	074670	CA. LAKHOTIA PRADEEP	JAIPUR
186.	074700	CA. SINGH SANJEEV KUMAR	BOKARO STEEL CITY
187.	074853	CA. MAHAJAN RAKESH	GHAZIABAD
188.	074884	CA. KHANDELWAL SANJEEV	INDORE
189.	074889	CA. LODHA SUNIL KUMAR	MUMBAI
190.	074916	CA. BOTHRA SANJAY KUMAR	RAIPUR
191.	074935	CA. MALPANI SANJAY	JAIPUR
192.	074997	CA. ATUL GOPATI	JAIPUR
193.	075124	CA. SAXENA RAJEEV KUMAR	FATEHGARH
194.	075133	CA. SHARMA NAVEEN KUMAR	GHAZIABAD
195.	075224	CA. MEHTA SANDEEP	JODHPUR
196.	075248	CA. SUNIL KUMAR SINGH	KANPUR
197.	075316	CA. VINEET KUMAR	RAIPUR
198.	075360	CA. CHATURVEDI RAJIV KUMAR	LUCKNOW
199.	075432	CA. SHARMA VIVEK	JAIPUR
200.	075546	CA. BANSAL GIRRAJ KUMAR	GURGAON

S.No.	MR.N.	Name	Place
201.	075614	CA. DUTTA BISWA NATH	ANUPPUR
202.	075619	CA. SHAH RAJKUMAR	INDORE
203.	075633	CA. BAGGA AJIT SINGH	UJJAIN
204.	075641	CA. AGARWAL ANIL	BHOPAL
205.	075670	CA. MADAN GOPAL	BHAGALPUR
206.	075738	CA. TODI VISHNU DUTT	KUTCH
207.	075739	CA. RAKESH SARASWAT	AHMEDABAD
208.	075768	CA. GUTGUTIA VIVEK	DHANBAD
209.	075785	CA. SRIVASTAVA RAKESH	KANPUR
210.	075791	CA. SINGH ADITYA KUMAR	BHOPAL
211.	075805	CA. BHANDARI ASHEESH	NOIDA
212.	075821	CA. MISRA KAMLAKER	DELHI
213.	075829	CA. JHA PARITOSH	BIKANER
214.	075920	CA. PUNTAMBEKAR VINITA	INDORE
215.	075948	CA. SUNIL KUMAR LOHIYA	BHILWARA
216.	075956	CA. HUSSAINI DAIRKEE	NEEMUCH
217.	075962	CA. RAJENDRA SINGH	DHOLPUR
218.	075986	CA. SHARWAN KUMAR PARASHAR	JAIPUR
219.	076012	CA. SHUKLA AKHILESH	KANPUR
220.	076017	CA. AGARWAL ANOOP KUMAR	ALLAHABAD

S.No.	MR.N.	Name	Place
221.	076104	CA. GUPTA RAJENDRA KUMAR	INDORE
222.	076210	CA. SINGH GOPESHWAR KUMAR	NOIDA
223.	076298	CA. GABRA MANOJ	UDAIPUR
224.	076356	CA. BHANDARI RAJEEV	JODHPUR
225.	076420	CA. AGARWAL SANJEEV KUMAR	MUMBAI
226.	076488	CA. MOR SANJAY MADANMOHAN	JABALPUR
227.	076489	CA. BHATNAGAR SHARAD	GHAZIABAD
228.	076501	CA. MASAND AJAY	INDORE
229.	076566	CA. BHANDARI DEEPAK	JODHPUR
230.	076569	CA. TEKCHANDANI JITENDER	JODHPUR
231.	076709	CA. SABHARWAL JYOTI	BAHRAICH
232.	076774	CA. DEEPAK KUMAR	NOIDA
233.	076786	CA. PAVECHA AJAY	RATLAM
234.	076799	CA. JAIN NIRMAL KUMAR	JAIPUR
235.	076856	CA. SHARMA GANESH	JAIPUR
236.	076946	CA. JAIN SUMENDRA	NOIDA
237.	077053	CA. SHAILENDRA KUMAR	BUXAR
238.	077057	CA. SHARMA RAVI	JAIPUR
239.	077099	CA. SANJAY KUMAR	NAGPUR
240.	077128	CA. MUNDRA AVINASH	MUMBAI

S.No.	MR.N.	Name	Place
241.	077140	CA. SINHA MANISH KUMAR	GHAZIABAD
242.	077195	CA. BAJPAI GANESH PRASAD	VARANASI
243.	077226	CA. DHANUKA MANOJ	INDORE
244.	077244	CA. SHARMA RAHUL	JAIPUR
245.	077298	CA. KAPLISH KAMAL DEV	BHOPAL
246.	077344	CA. MEHTA RAVI	JODHPUR
247.	077416	CA. JAIN AJIT KUMAR	KHARGONE
248.	077457	CA. AGARWAL ANIL KUMAR	LUCKNOW
249.	077503	CA. SINGHAL DINESH KUMAR	SUMERPUR
250.	077538	CA. MUNDHRA MAHESH KUMAR	JODHPUR
251.	077560	CA. AJIT T	BANGOLORE
252.	077593	CA. LIKHYANI MANOJ	JAIPUR
253.	077639	CA. KAUL MALLIKA	INDORE
254.	077648	CA. ASHISH PUNDHIR	JAIPUR
255.	077714	CA. AGRAWAL AMITABH	ARARIA
256.	077747	CA. VIJAY LAXMI	NOIDA
257.	077748	CA. SWAMINATHAN MAITHREYI	NOIDA
258.	077759	CA. GUPTA DEEPIKA	DEHRADUN
259.	077778	CA. JAIN PANKAJ	UDAIPUR
260.	077947	CA. AGRAWAL SUSHIL	BHOPAL

S.No.	MR.N.	Name	Place
261.	077989	CA. JAIN DHARMENDRA	INDORE
262.	078013	CA. JAIN AJAY KUMAR	AGRA
263.	078071	CA. JOSHI PRAVEEN	UDAIPUR
264.	078169	CA. BISWAS UTTAM KUMAR	JAMSHEDPUR
265.	078262	CA. GARG CHARU	MEERUT
266.	078293	CA. GUPTA PRABHAT	MEERUT
267.	078351	CA. PAREEK ANIL	JAIPUR
268.	078355	CA. MANU AARYAN	AJMER
269.	078356	CA. TULSIAN ADITYA	KANPUR
270.	078388	CA. KAPOOR PRAGATI	KANPUR
271.	078447	CA. SUDHA GUPTA	JAIPUR
272.	078456	CA. ATUL KUMAR	DEHRADUN
273.	078516	CA. AGARWAL SANJAY	BOKARO STEEL CITY
274.	078557	CA. DINKAR RAJENDRA	JAIPUR
275.	078573	CA. BIHANI GOPAL	JAIPUR
276.	078640	CA. SINGH SUNIL KUMAR	RANCHI
277.	078645	CA. MEHRA SIDHARTHA	GHAZIABAD
278.	078654	CA. GROVER NEELIMA	GHAZIABAD
279.	078674	CA. AGARWAL DHARMENDRA	MUZAFFAR NAGAR
280.	078693	CA. SHAMIM R. V.	UDAIPUR
281.	078694	CA. VYAS KAMAL KISHOR	JODHPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
282.	078705	CA. TANDON SAURABH	LUCKNOW
283.	078711	CA. PAREEK SUNIL KUMAR	BHILWARA
284.	078766	CA. JOSHI NEERAJ	UJJAIN
285.	078813	CA. GUPTA AMIT	JAIPUR
286.	078906	CA. ARUN PACHORI	JAIPUR
287.	078974	CA. AHMAD KAREEM	ALLAHABAD
288.	079046	CA. BAJAJ MOHIT	PATNA
289.	079055	CA. NANDAWAT HAMENT KUMAR	PRATAPGARH
290.	079058	CA. BAJORIA SUNDEEP	RANCHI
291.	079114	CA. JAIN PAWAN KUMAR	MODINAGAR
292.	079129	CA. VYAS RAMESH	JODHPUR
293.	079184	CA. RAHUL KUMAR VASHISHTH	GURGAON
294.	079221	CA. HOTCHANDANE VIJAY ARJU	JAIPUR
295.	079257	CA. AJAY KUMAR DADHICH	BHARUCH
296.	079325	CA. TRIPTI VISHNOI	JODHPUR
297.	079360	CA. SHARMA ANIL KUMAR	JAIPUR
298.	079367	CA. BHATT AMIT	JAIPUR
299.	079380	CA. VISHNOI VIBHOR	NOIDA
300.	079407	CA. NAHATA ROHIT	UDAIPUR
301.	079408	CA. MODANI ALOK	INDORE

S.No.	MR.N.	Name	Place
302.	079546	CA. UDAY BHANU AWASTHI	LAKHIMPUR KHERI
303.	079594	CA. BHOJWANI RAJESH	JODHPUR
304.	079620	CA. VIVEK VARSHNI	ALLAHABAD
305.	079719	CA. BIJAY KUMAR AGARWAL	SERAIKELLA
306.	079721	CA. NITIN GARG	BHOPAL
307.	079739	CA. MEHTA RITUNJAY	PALI MARWAR
308.	079765	CA. BHANDARI RAHUL RAJ	JODHPUR
309.	079779	CA. BATTERYWALA MUSHTAK ALI	INDORE
310.	079852	CA. SHARMA NITIN	NEW DELHI
311.	079891	CA. SHAH RITESH	INDORE
312.	079913	CA. ARORA GAURAV	NOIDA
313.	079973	CA. KHABIYA MEENAKSHI	INDORE
314.	079999	CA. THAKUR SANJAY KUMAR	RAMGARH
315.	080242	CA. SATYA PRAKASH	LUCKNOW
316.	080718	CA. JAIN ARUN KUMAR	GHAZIABAD
317.	080803	CA. KHAN ALI RAZA	RAMPUR
318.	080965	CA. GOEL RAM KUMAR	GHAZIABAD
319.	081426	CA. KAUSHIK MAHAVIR PRASAD	NOIDA
320.	081609	CA. ROOHANI AFSAR HUSEIN	LUCKNOW

S.No.	MR.N.	Name	Place
321.	081721	CA. RAKESH KUMAR	NOIDA
322.	082292	CA. AJAYA CHAND	NEW DELHI
323.	082570	CA. MATHUR DEVENDRA SWAROOP	LUCKNOW
324.	082572	CA. RAI MUNINDRA NARAIN	PATNA
325.	082584	CA. JAIN RAKESH KUMAR	NOIDA
326.	082756	CA. SHARMA RAMESH CHANDRA	AJMER
327.	082820	CA. SALUJA PARSHOTAM LAL	SRIGANGA NAGAR
328.	082970	CA. KAUSHAL BALRAM	HARDWAR
329.	083013	CA. NARINDER KUMAR	JAIPUR
330.	083402	CA. JUNEJA SANJEEV	NOIDA
331.	083669	CA. ROY OINDRILA	NODIA
332.	083805	CA. VISHNU KUMAR	MATHURA
333.	084062	CA. MATHUR RAKESH SWARUP	SHAHJAHAN-PUR
334.	085394	CA. CHAWLA RAJESH	NOIDA
335.	085926	CA. DUBLISH SANJEEV KUMAR	GHAZIABAD
336.	086199	CA. GUPTA SUBODH	NOIDA
337.	086394	CA. GUPTA SITA RAM	SWAIMADHO-PUR
338.	086719	CA. SANGHVI RAKESH	JAIPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
339.	087034	CA. SINGH GEETIKA	NOIDA
340.	087772	CA. AGARWAL SANTOSH	GHAZIABAD
341.	088259	CA. VIKRAM SINGH	NOIDA
342.	088282	CA. VINOD BABU	LUCKNOW
343.	088978	CA. CHAWLA ANIL	DEHRADUN
344.	089136	CA. SAXENA ANIL	GHAZIABAD
345.	089440	CA. ARORA SANJEEV	NOIDA
346.	089665	CA. GUPTA SANDEEP KUMAR	NEW DELHI
347.	089877	CA. SETHIA MANOJ	GHAZIABAD
348.	090748	CA. TEKRIWAL RAJESH KUMAR	DELHI
349.	091081	CA. MEHTA AKHILESH	INDORE
350.	091393	CA. GUPTA RAM GOPAL	GHAZIABAD
351.	091561	RAMAKANT PAREEK	SIKAR
352.	091878	CA. GOEL ANIL KUMAR	JODHPUR
353.	092358	CA. GUPTA MUKESH KUMAR	BULAND- SHAHR
354.	092377	CA. KUMAR HARIT MAHENDRA	BHIWADI
355.	092563	CA. MITTAL SANJEEV	GHAZIABAD
356.	092710	CA. PURI PUNIT	NOIDA
357.	092747	CA. SINGH NIRMAL KUMAR	BOKARO STEEL CITY

S.No.	MR.N.	Name	Place
358.	092870	CA. PARVATI KARAN	NOIDA
359.	093051	CA. SHANDILYA SUSHIL KUMAR	NEW DELHI
360.	093558	CA. RAJIV KUMAR	GHAZIABAD
361.	093984	CA. NITIN KUMAR	NOIDA
362.	094064	CA. MISHRA ROHIT	NOIDA
363.	094509	CA. B. MRUDULA VANI	GHAZIABAD
364.	094531	CA. BIDYA BHUSHAN BHARTIYA	RANCHI
365.	094617	CA. MAKKAR SANDEEP	ROORKEE
366.	094933	CA. AGARWAL VISHNU	RAIGARH
367.	095626	CA. NAIR VIKRAM	NOIDA
368.	095757	CA. VISHWANATHAN V.	GHAZIABAD
369.	096431	CA. AGRAWAL ASHISH	GHAZIABAD
370.	096537	CA. MAHESHWARI HEMANT	BANGALORE
371.	096599	CA. KIRAN	NOIDA
372.	096726	CA. MAHESHWARI VIPUL KUMAR	KASGANJ
373.	096837	CA. RAJEEV KUMAR	PATNA
374.	096855	CA. ADITYA KUMAR SINGH	MEERUT
375.	096952	CA. JAIN ANUPAM	NOIDA
376.	096963	CA. PRADHAN SUYASH KUMAR	NOIDA
377.	097254	CA. HUSSAIN KARAR	RANCHI

S.No.	MR.N.	Name	Place
378.	097401	CA. MANMOHAN KUMAR	GHAZIABAD
379.	097670	CA. MAHAJAN RAM	GURGAON
380.	098130	CA. JAIN SUNIL KUMAR	NOIDA
381.	098199	CA. VAID NITIN	GHAZIABAD
382.	098531	CA. BANSAL DEEPAK	BHIWADI
383.	098628	CA. GUPTA JUHI	GHAZIABAD
384.	098720	CA. VIRENDRA KUMAR	GHAZIABAD
385.	099059	CA. SHARMA AMIT	KASHIPUR
386.	099066	CA. SATI GANESH PRASAD	GHAZIABAD
387.	099142	CA. GAUTAM NIRAJ KUMAR	PATNA
388.	099210	CA. RAJPUT JATIN	NOIDA
389.	099255	CA. SHARMA SAJJAN	RAIPUR
390.	099290	CA. SINGH DEEPAK	ETAH
391.	099304	CA. SHRESTH ARUN	GHAZIABAD
392.	099344	CA. JAIN GAURAV	JAIPUR
393.	099854	CA. JHA ASHOK KUMAR	NOIDA
394.	099858	CA. GUPTA AMIT	JAIPUR
395.	101317	CA. KOTHARI RAMESH KUMAR	UDAIPUR
396.	101382	CA. KAMAL KISHORE GOYAL	SURAT

S.No.	MR.N.	Name	Place
397.	103390	CA. KHATRI MURLIDHAR DAULATRAM	NOIDA
398.	104850	CA. KOTHARI ALOK KUMAR	JAIPUR
399.	105109	CA. AGARWAL AMIT RAKESH	NEW DELHI
400.	105361	CA. VINOD SAMDANI	BHILWARA
401.	106022	CA. MANISH KUMAR K. TYAGI	DEHRADUN
402.	106559	CA. SAURABH KUMAR	SITAPUR
403.	106840	CA. SHAILESH BANKATLAL MODY	PALI
404.	107774	CA. MITTAL SIDDHARTH MUKUL	INDORE
405.	107934	CA. SHARMA SHAILENDRA	UDAIPUR
406.	108202	CA. AGRAWAL JAMBU KUMAR	KOTA
407.	109018	CA. ARVIND SINGHVI	BHILWARA
408.	109767	CA. VIJAY BAXIRAM PALIWAL	NOIDA
409.	110394	CA. AGRAWAL ANAND PRAKASH	AJMER
410.	110692	CA. SHIVAM PRAHLADKA	BHILWARA
411.	110695	CA. JOSHI ABHINAV	INDORE
412.	113744	CA. UMA AGRAWAL	MUMBAI
413.	116243	CA. SHARDA AMIT	JABALPUR
414.	116664	CA. KHURANA HEMLATA SAURABH	GHAZIABAD

S.No.	MR.N.	Name	Place
415.	117866	CA. SHARMA SHYAM KISHORE	LUCKNOW
416.	118654	CA. GUPTA ARPIT	KOTA
417.	119422	CA. KANCHAN VIPIN MALHOTRA	NOIDA
418.	120548	CA. JYOTI MAHAJAN	GHAZIABAD
419.	121685	CA. NITIN ASHOK BAGHRECHA	RAIPUR
420.	121864	CA. SURENDRA LAHOTI	BHILWARA
421.	122346	CA. SRINIVASA SUBBARAJU ATCHUTUNI	JAIPUR
422.	123859	CA. BHARAT KUMAR MISHRA	LUCKNOW
423.	123883	CA. BABITA AGARWAL	BIKANER
424.	127327	CA. ARVIND KHANDELWAL	CHITTOR- GARH
425.	127423	CA. SANJAY KUMAR RAGHUVANSHI	INDORE
426.	200090	CA. SURESH BABU R.	HYDERABAD
427.	203997	CA. CHOCKALINGAM P.L.	MUMBAI
428.	204313	CA. RAJESH KUMAR P.V.	NOIDA
429.	204856	CA. GANESH RAMAN ARAJULA G.	NOIDA
430.	205290	CA. SATHISH V.	PUNE
431.	205868	CA. PRAKASH CHAND	UDAIPUR
432.	208338	CA. PRABHAKARAN C.	CHENNAI

S.No.	MR.N.	Name	Place
433.	210104	CA. PARUL NEGI	GHAZIABAD
434.	211343	CA. SANDEEP SHARMA	JAIPUR
435.	212148	CA. VENKATA SATYANARAYANA JAGU	CHENNAI
436.	216746	CA. AVINASH KUMAR LODHA	BANGALORE
437.	400005	CA. DE KAUSHIK	BHILAI
438.	400031	CA. JEJANI AMIT KUMAR	RANCHI
439.	400040	CA. BUGALIYA DEVENDRA	JAIPUR
440.	400072	CA. RATHI VIKAS	JAIPUR
441.	400073	CA. KHANDELWAL ASHOK KUMAR	JAIPUR
442.	400092	CA. KHATTAR RASHMI	MODINAGAR
443.	400095	CA. JAIN AMIT	JAIPUR
444.	400118	CA. KUMAR CHAITANYA	PATNA
445.	400154	CA. BOHRA NITIN	SOJOOT CITY
446.	400168	CA. KANHAIYA LAL SHARMA	JAIPUR
447.	400200	CA. GUPTA RASHMI	NEW DELHI
448.	400245	CA. PARAKH RITU	JAIPUR
449.	400255	CA. AJAYANGSHU BANERJEE	RANCHI
450.	400273	CA. AGARWAL VIKAS JI	ALLAHABAD
451.	400312	CA. CHAUDHARY ASHIMA	GHAZIABAD
452.	400337	CA. BHANDARI MADHUR	JAIPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place	S.No.	MR.N.	Name	Place
453.	400351	CA. BHATIA HARINDER	DEHRADUN	472.	400858	CA. SHARMA GAUTAM	REWA
454.	400428	CA. ANWARUL HABIB	KANPUR	473.	400896	CA. GUPTA MANISH	BAREILLY
455.	400456	CA. MISRA SUMAN	KANPUR	474.	400979	CA. BHATIA SANDHYA KUMAR	UDAIPUR
456.	400463	CA. MANISH SAHAI	NEW DELHI	475.	401000	CA. NUR ALI KAJANI	KANPUR
457.	400529	CA. CHOUDHARY ANJU	NOIDA	476.	401013	CA. AGARWAL UMESH KUMAR	JAIPUR
458.	400554	CA. MEHANDIRATTA SHRAY	SAHARANPUR	477.	401021	CA. VASEEM ABBAS	UDAIPUR
459.	400586	CA. MALPANI VIKAS	JAIPUR	478.	401025	CA. SINGH SAMPAT	JAIPUR
460.	400623	CA. JAIN AVINASH	JAIPUR	479.	401033	CA. SARAF ANKIT	DALTONGANJ
461.	400627	CA. AMIT BAJAJ	GHAZIABAD	480.	401098	CA. RAKESH KUMAR JAIN	INDORE
462.	400630	CA. LUTHRA AMARDEEP SINGH	NOIDA	481.	401123	CA. MAHESHWARI AMIT	JAIPUR
463.	400651	CA. BANSAL NIDHI	JAIPUR	482.	401140	CA. ARORA ROHIT	KANPUR
464.	400660	CA. MOONDRA YOGESH	JODHPUR	483.	401169	CA. PIYUSH MITTAL	BHARATPUR
465.	400670	CA. AFTAB GUL ATTARI	UDAIPUR	484.	401175	CA. TIWARI ABHISHEK	JAIPUR
466.	400684	CA. GUPTA ANAND KUMAR	KANPUR	485.	401176	CA. VERMA PIYUSH	MUMBAI
467.	400726	CA. MITTAL PANKAJ	KOTA	486.	401187	CA. GOSWAMI DEBOBRATO	KOLKATA
468.	400788	CA. GAHLOT DEEPIKA	JODHPUR	487.	401238	CA. SAHA ANURAG	GHAZIABAD
469.	400790	CA. SOMANI SUSHEEL KUMAR	MUMBAI	488.	401256	CA. JINDAL ANOOTOSH	UDAIPUR
470.	400812	CA. MOHD AKRAM	JAHANGIRA- BAD	489.	401258	CA. GOEL ROHIT KUMAR	GURGAON
471.	400855	CA. MEHTA SHILPA	INDORE	490.	401281	CA. BAJPAI VAIBHAVA	KANPUR
				491.	401310	CA. ALOK HOLANI	UJJAIN

S.No.	MR.N.	Name	Place
492.	401311	CA. MASSEY AROHAN	MUZAFFAR-NAGAR
493.	401318	CA. JAIN PRAFUL	BANGALORE
494.	401337	CA. SADANA MUNISH	DEHRADUN
495.	401342	CA. AGARWAL MANISH KUMAR	DHANBAD
496.	401353	CA. SHRIVASTAVA PRABAL	BHOPAL
497.	401377	CA. MIGLANI ANKUR GOPAL	CHHINDWARA
498.	401384	CA. AGARWAL RUCHI	KOTA
499.	401455	CA. PANDIT SUSHEEL	HYDERABAD
500.	401481	CA. MAHESHWARI ANSUL	GHAZIABAD
501.	401490	CA. CHOWDHARY SHIV PRAKASH	BHILWARA
502.	401491	CA. SHILPI DAS	DEHRADUN
503.	401493	CA. AGRAWAL UPENDRA KUMAR	BOKARO
504.	401494	CA. MISHRA ASHOK KUMAR	MIRZAPUR
505.	401498	CA. AGARWAL GANGA	RANCHI
506.	401515	CA. NAVIN KUMAR JAIN	GHAZIABAD
507.	401523	CA. VIJAYWARGIYA ASHISH	GWALIOR
508.	401529	CA. TALEJA AMIT	BANGALORE
509.	401625	CA. LEKHWANI RAJ KUMAR	BHOPAL
510.	401684	CA. JITENDRA KUMAR VERMA	AGRA
511.	401798	CA. MEHTA AMIT	KISHANGARH

S.No.	MR.N.	Name	Place
512.	401801	CA. GAGANDEEP SINGH	DEHRADUN
513.	401816	CA. HARSHAD KUMAR SHAH	VARANASI
514.	401958	CA. MANTRI ABHISHEK	AJMER
515.	401984	CA. MAHAJAN AKHIL	GHAZIABAD
516.	402001	CA. SONTHALIA KIRON	JAIPUR
517.	402011	CA. MUKESH KUMAR CHOUDHARY	AJMER
518.	402014	CA. SHARMA ASHISH	ALWAR
519.	402023	CA. BARIYAWAL BASIL	JODHPUR
520.	402034	CA. BANSAL AMIT KUMAR	JABALPUR
521.	402102	CA. KHANDELWAL SHILPI	ALWAR
522.	402123	CA. MEHTA ANIMESH	BIKANER
523.	402181	CA. PRAJAPATI DINESH KUMAR	HARDWAR
524.	402196	CA. ATRI ALOK	JAIPUR
525.	402204	CA. AGRAWAL ALOK	DURG
526.	402224	CA. MITTAL MAHESH	KOTA
527.	402228	CA. PRAVEEN KUMAR	PATNA
528.	402256	CA. JAIN PRAVEENA	JODHPUR
529.	402271	CA. GUPTA PARESH	JAIPUR
530.	402296	CA. JAIN NEERJA	JAIPUR
531.	402318	CA. MAHESHWARI VIKAS KUMAR	KEKRI

S.No.	MR.N.	Name	Place	S.No.	MR.N.	Name	Place
532.	402338	CA. SHRIVASTAVA DIGVIJAY DARSHAN	INDORE	550.	402657	CA. AGRAWAL OM PRAKASH	JAIPUR
533.	402341	CA. AGARWAL YOGESH	GURGAON	551.	402665	CA. KRISHNA CHANI	JAIPUR
534.	402366	CA. ATTARI IMTIYAZ AHMED	UDAIPUR	552.	402672	CA. BERDIA BHUPENDRA	BANGALORE
535.	402396	CA. MALHOTRA MONICA	JAIPUR	553.	402723	CA. KOTHARI SHIKHA JAYANT	BHOPAL
536.	402416	CA. BHATI KRISHAN KUMAR	BULAND- SHAHR	554.	402726	CA. RATHI ASHOK KUMAR	DELHI
537.	402426	CA. PANDEY BRIJESH	DELHI	555.	402766	CA. MANTRI MANISH	AJMER
538.	402429	CA. SHRIYA SANJEEV	KANPUR	556.	402795	CA. JAIN AMIT	BHILWARA
539.	402459	CA. AGARWAL ABHAY	KANPUR	557.	402803	CA. MODI AJAY	MADHUPUR
540.	402466	CA. PATWARI MANISH	JAIPUR	558.	402825	CA. SAXENA SUNIL KUMAR	DHOLPUR
541.	402471	CA. SINGHAL MAYURI	BHARATPUR	559.	402831	CA. SINGH MUKESH KUMAR	BOKARO STEEL CITY
542.	402483	CA. HIMANSHU RAMAN	PILIBHIT	560.	402839	CA. DADHICH ASHISH	NEW DELHI
543.	402518	CA. GARG SAURABH KUMAR	GURGAON	561.	402866	CA. HABLANI SUSHIL	INDORE
544.	402570	CA. HIMANSHU MITTAL	MEERUT	562.	402912	CA. SETHIA VIKAS	MUMBAI
545.	402572	CA. GOYAL DEEPAK	ALWAR	563.	402956	CA. VIJAY MUKESH	JAIPUR
546.	402596	CA. GYAWALI MANOJ KUMAR	LUCKNOW	564.	402988	CA. TAPARIA VINAY KUMAR	JAIPUR
547.	402598	CA. KULKARNI RUSHIKESH	INDORE	565.	402999	CA. ALAM NAIYER	RANCHI
548.	402604	CA. BHOI SUNIL KUMAR	RAIPUR	566.	403024	CA. KANCHHAL AJAY KUMAR	TONK
549.	402615	CA. HIRAWAT GAURAV	JAIPUR	567.	403077	CA. JAIN AMIT KUMAR	GADARWARA
				568.	403083	CA. BADJATYA SURENDRA	INDORE

S.No.	MR.N.	Name	Place
569.	403100	CA. MAROO PUNEET	INDORE
570.	403122	CA. PALASIYA KUTUBUDDIN	UDAIPUR
571.	403123	CA. AGRAWAL HARISH SHIVDAS	MANAWAR
572.	403148	CA. CHANDRA CHANDAN	JAIPUR
573.	403156	CA. PUROHIT SANJAY	PHALODI
574.	403160	CA. JAIN SHARAD	INDORE
575.	403178	CA. GAUTAM MANISH	JAIPUR
576.	403182	CA. SHAH MOSAM	BARNAGAR
577.	403195	CA. SHARMA OM PRAKASH	UDAIPUR
578.	403198	CA. JARKHANDI RAHUL ANAND	VARANASI
579.	403226	CA. TANDON MOHIT KUMAR	JAIPUR
580.	403247	CA. FARZANA HUSAIN	RATLAM
581.	403263	CA. PATIDAR BHIMRAJ	DHAR
582.	403281	CA. ASTHANA ANKUR	BIKANER
583.	403330	CA. PALSANIA VIKAS	RAIPUR
584.	403337	CA. JAIRATH VARUN	NOIDA
585.	403340	CA. PUNIA VINOD	HOSHIARPUR
586.	403344	CA. JAIN MITU	GORAKHPUR
587.	403357	CA. MUNDRA ANURAG KUMAR	PALI MARWAR
588.	403404	CA. SEHGAL SUMIT	GHAZIABAD

S.No.	MR.N.	Name	Place
589.	403408	CA. AGARWAL ASHUTOSH	RISHIKESH
590.	403410	CA. GUPTA SHILPA	MEERUT
591.	403416	CA. BADLANI DILIP KUMAR	GORAKHPUR
592.	403422	CA. GUPTA GAURAV	MEERUT
593.	403425	CA. DOSHI ROHIT	DHAR
594.	403427	CA. MANGLANI ANIL	KANPUR
595.	403435	CA. SINGHI SUDHANSHU	JODHPUR
596.	403444	CA. YADAV DISHA	JAIPUR
597.	403454	CA. GERIANI HEMANT	JAIPUR
598.	403462	CA. MAHESHWARI RAMESH	UDAIPUR
599.	403468	CA. JAIN ABHINESH	BANGALORE
600.	403476	CA. BHARGAVA MOHI	JAIPUR
601.	403505	CA. KHURANA ANTRIKSH	JAIPUR
602.	403553	CA. VIJAY SHARMA	RATLAM
603.	403622	CA. SAXENA ASHISH KUMAR	ALIGARH
604.	403628	CA. JAIN PRAVEEN	UDAIPUR
605.	403639	CA. VERMA SANJEEV KUMAR	KANPUR
606.	403643	CA. PANDEY ADYA KUMAR	KANPUR
607.	403670	CA. AGRAWAL AMIT	KUMARDHUBI
608.	403672	CA. BAHETI RAJEEV	JODHPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place	S.No.	MR.N.	Name	Place
609.	403676	CA. ARORA ASHISH	LUCKNOW	629.	404075	CA. MATHUR APOORVA	PALI MARWAR
610.	403690	CA. MANISH JAIN	SAHARANPUR	630.	404103	CA. GOYAL MEGHNA	SIKANDRA- BAD
611.	403722	CA. PIYUSH KUMAR	ALLAHABAD	631.	404142	CA. JAIN PAYAL	JODHPUR
612.	403732	CA. SRIVASTAVA RITESH	LUCKNOW	632.	404145	CA. BUDHIA SAKET	KORBA
613.	403748	CA. AGRAWAL SHIKHA	KANPUR	633.	404149	CA. JINDAL MUKUL KUMAR	HAPUR
614.	403756	CA. SAMAR ANIL	UDAIPUR	634.	404155	CA. SINGH VINEETA	GHAZIABAD
615.	403814	CA. BANO SEHNAZ	JAIPUR	635.	404156	CA. KURAWAR- WALA INSIYA	UDAIPUR
616.	403816	CA. ARORA GAUTAM	INDORE	636.	404175	CA. GADIA SULBHA	RATLAM
617.	403833	CA. ARORA ANUJ	AGRA	637.	404177	CA. NEEMA ANKIT	INDORE
618.	403840	CA. SHARMA MANISH KUMAR	JAIPUR	638.	404208	CA. JAIN ABHISHEK	PATNA
619.	403841	CA. GOYAL MUKESH	JAIPUR	639.	404226	CA. SARDA NIRMAL KUMAR	BIKANER
620.	403882	CA. BHANDARI ABHISHEK	JODHPUR	640.	404230	CA. GUPTA RUCHI	JAIPUR
621.	403884	CA. GUPTA SORBH	ALWAR	641.	404254	CA. NISHANT AGRAWAL	BANSWARA
622.	403886	CA. NAVNEET KUMAR RAI	MAU	642.	404264	CA. MANCHANDA NIDHI	NEW DELHI
623.	403888	CA. CHANDAK NIRMAL	JODHPUR	643.	404278	CA. JADHAO VIJAY KUMAR	RAIPUR
624.	403935	CA. SHARMA SHRUTI	JAIPUR	644.	404302	CA. MANERIKAR ADITI MADHAV	GURGAON
625.	403951	CA. SAXENA ARCHIT	DELHI	645.	404317	CA. KHANDELWAL RAHUL	NEW DELHI
626.	403989	CA. AGARWAL RUCHIT	AGRA	646.	404392	CA. GUPTA ABHISHEK	JAIPUR
627.	404005	CA. MAHESH CHAND	ALWAR	647.	404397	CA. BANSAL ANIL	UDAIPUR
628.	404060	CA. DHAKER MAHENDRA SINGH	JAIPUR	648.	404436	CA. GUPTA MANOJ	JAIPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
649.	404441	CA. GUPTA HEMANT	NOIDA
650.	404584	CA. AMIT	JAIPUR
651.	404597	CA. HARSHIT AGARWAL	JAIPUR
652.	404605	CA. SHRIMAL ASHISH	UDAIPUR
653.	404614	CA. GULATI SUMIT	LUCKNOW
654.	404627	CA. GOYAL NAVEEN	JAIPUR
655.	404649	CA. AGARWAL MAHIMA	AJMER
656.	404665	CA. RAJEEV KUMAR TIWARY	DELHI
657.	404736	CA. DEEPAK BHATIA	INDORE
658.	404737	CA. GUPTA SHOBHIT KUMAR	ROORKEE
659.	404750	CA. AGARWAL AMIT	GHAZIABAD
660.	404757	CA. JAIN PRAVEEN	KISHANGARH
661.	404763	CA. AJMERA SACHIN	JAIPUR
662.	404783	CA. AGRAWAL RINKU	BHILAI
663.	404809	CA. ANEJA MOHIT	GHAZIABAD
664.	404835	CA. JAIN APEKSHA	AGRA
665.	404866	CA. SARDA SAURABH	MUMBAI
666.	404890	CA. NIDHI MANISH RATHI	DEWAS
667.	404917	CA. SHAH HIMANSHU	MUMBAI
668.	404929	CA. SUDAN JASVINDER SINGH	DEHRADUN
669.	404946	CA. GUPTA ANSHUL	ALWAR

S.No.	MR.N.	Name	Place
670.	404959	CA. ARYA RISHI	GHAZIABAD
671.	404985	CA. KOTHARI NIKHIL	JAIPUR
672.	404999	CA. KHUSHBU SURIYA	BHILWARA
673.	405013	CA. JAIN SAURABH	KOTA
674.	405027	CA. BAPNA VIRENDRA SINGH	MUMBAI
675.	405079	CA. AGRAWAL RITESH KUMAR	GIRIDIH
676.	405080	CA. BABEL JITESH	NEW DELHI
677.	405087	CA. KEJRIWAL NIDHI	KOTA
678.	405093	CA. JAIN SAKSHI	NEW DELHI
679.	405115	CA. RASTOGI RAJAT	RANCHI
680.	405230	CA. HAIDER ARQUAM	RAIPUR
681.	405327	CA. MAIRAJ HUSSAIN MUHIB	UDAIPUR
682.	405345	CA. ASHISH KUMAR SURANA	RONI
683.	405350	CA. SANJAY SINGH BAGHEL	KANPUR
684.	405351	CA. MEENU BHADOURIA	KANPUR
685.	405364	CA. GOPAL NAWANDHAR	JODHPUR
686.	405366	CA. PAWAN AGRAWAL	CHHATARPUR
687.	405367	CA. PRIYANKA JAIN	HARDWAR
688.	405378	CA. PANKAJ KUMAR SINGH	ALLAHABAD
689.	405391	CA. ROSHAN MOONDRA	JODHPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
690.	405405	CA. JATIN VIJAYVERGIYA	MUMBAI
691.	405408	CA. ABHINANDAN LODHA	JAIPUR
692.	405415	CA. PALLAVI BANKA	JAIPUR
693.	405419	CA. VISHAL MANCHANDA	CHHATARPUR
694.	405423	CA. GAURAV LUNAWAT	RATLAM
695.	405436	CA. RUCHI BOHRA	SOJAT CITY
696.	405438	CA. MANISH GARG	NEW DELHI
697.	405447	CA. RAVIN KAKKAR	ALLAHABAD
698.	405452	CA. SUCHITA P. MITTAL	MUMBAI
699.	405459	CA. PAWAN KUMAR BANG	JAIPUR
700.	405505	CA. SUDHANSHU GOYAL	AJMER
701.	405506	CA. VIBHA CHOUDHARY	BHILWARA
702.	405572	CA. ANOOP VERMA	INDORE
703.	405595	CA. MANISH KOTHARI	JAIPUR
704.	405662	CA. RAJIT MAHENDRA TILLANI	RATLAM
705.	405663	CA. LAXMI KANT UPADHYAY	UDAIPUR
706.	405672	CA. LALIT KUMAR GARG	JAIPUR
707.	405698	CA. SACHCHIDANAND PACHORI	BHOPAL
708.	405713	CA. SURENDRA KUMAR	BOKARO

S.No.	MR.N.	Name	Place
709.	405734	CA. AKSHAT KAPOOR	NEW DELHI
710.	405778	CA. SANJAY LALWANI	BHOPAL
711.	405781	CA. VARUN SINGHI	PUNE
712.	405786	CA. FAHIM AHMAD	KANPUR
713.	405791	CA. SAURABH GUPTA	KANPUR
714.	405818	CA. PIYUSH AGRAWAL	NEEMUCH
715.	405820	CA. AASHISH P. BHANDARI	JODHPUR
716.	405830	CA. ASHISH KUMAR KHANDELWAL	MUMBAI
717.	405850	CA. VIVEK DARGAR	MUMBAI
718.	405885	CA. YASH MEHTA	JAIPUR
719.	405905	CA. PARAMANAND JAISWAL	GORAKHPUR
720.	405941	CA. DIVPREET KAUR	SAHARANPUR
721.	405957	CA. VIKAS JAIN	JAIPUR
722.	405962	CA. NITESH KALANTRI	CHITTORGARH
723.	406003	CA. PRAVEEN UPADHYAY	THANE
724.	406028	CA. RAKESH KUMAR SINGH	VARANASI
725.	406040	CA. KAPIL PACHORI	JAIPUR
726.	406041	CA. MOHIT KHANDELWAL	MUMBAI
727.	406046	CA. ALOK GUPTA	INDORE

S.No.	MR.N.	Name	Place
728.	406052	CA. PRAGATI JAIN	JAIPUR
729.	406054	CA. SHILPA JAITHALYA	INDORE
730.	406071	CA. PREETI MISHRA	JAIPUR
731.	406093	CA. SHIPRA TRIVEDI	MUMBAI
732.	406100	CA. HEMANT KUMAR JAIN	SHIVPURI
733.	406115	CA. ABHINAV SINGHAL	JAIPUR
734.	406143	CA. LALIT JAIN	MUMBAI
735.	406154	CA. JINESH AGARWAL	DELHI
736.	406157	CA. NIKITA PODDAR	INDORE
737.	406193	CA. SUNITA AGRAWAL	BHUBANESWAR
738.	406228	CA. TARUN GARG	MEERUT
739.	406242	CA. NIKHIL KEJRIWAL	KOTA
740.	406296	CA. GARIMA JAIN	KOTA
741.	406309	CA. ANUPAM SOMANI	JAIPUR
742.	406338	CA. NEERAJ TANDON	LUCKNOW
743.	406345	CA. ADITYA KEDIA	HANUMAN-GARH TOWN
744.	406373	CA. RAJ KUMAR GUPTA	MAU
745.	406402	CA. SHARAD LALWANI	JODHPUR
746.	406412	CA. RAVI RANJAN	PATNA
747.	406422	CA. ANUSHREE KOTHARI	JAIPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
748.	406424	CA. PARAG AGARWAL	MEERUT
749.	406427	CA. SHIKHA SARAF	MUMBAI
750.	406428	CA. GEETIKA RAJDEO	UDAIPUR
751.	406446	CA. GOKUL INDANI	INDORE
752.	406472	CA. MANISH GUGLIYA	RATLAM
753.	406475	CA. LALIT KUMAR JAIN	DEI
754.	406527	CA. MANISH ARORA	PALI MARWAR
755.	406598	CA. RAHUL JAIN	JAIPUR
756.	406609	CA. ASHUTOSH BAGADIA	JAIPUR
757.	406611	CA. SAKET SOMANI	HYDERABAD
758.	406644	CA. KUMAR VARUN SAHU	VARANASI
759.	406670	CA. YOGESHI KUMAR AGRAWAL	JAIPUR
760.	406742	CA. SHIPRA LODHA	MUMBAI
761.	406776	CA. VIJAY AJMERA	JAIPUR
762.	406833	CA. VIMAL HIRWANI	KOTA
763.	406860	CA. GAGAN CHAWLA	LUCKNOW
764.	406897	CA. RAMJI THAKUR	JHANSI
765.	406900	CA. SHEELU JAIN	JAIPUR
766.	406917	CA. KAUSTUBH KUMAR MITTAL	JAIPUR
767.	406920	CA. MANISH MOTWANI	JAIPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
768.	406933	CA. RAHUL MARWAL	MODINAGAR
769.	406949	CA. NAGENDRA BIJARNIYA	JAIPUR
770.	406971	CA. DILIP KUMAR AGRAWAL	DEOGARH
771.	407003	CA. CHETAN CHANDRAMOHAN VAIDYA	JABALPUR
772.	407010	CA. BAKUL GOYAL	AGRA
773.	407051	CA. NISHANT AGARWAL	MORADABAD
774.	407056	CA. ADITI GULATI	NEW DELHI
775.	407064	CA. KAMAL BAJAJ	MEERUT
776.	407077	CA. ARJUN SINGH ANJANA	MANDSAUR
777.	407088	CA. DEEPAK MUTHA	JODHPUR
778.	407115	CA. ANIL RAGHUVANSHI	KHARGONE
779.	407124	CA. AKHIL BHANDARI	JODHPUR
780.	407139	CA. RAJEEV KUMAR DUBEY	MUMBAI
781.	407152	CA. DHIRANDER TYAGI	GHAZIABAD
782.	407173	CA. DHEERAJ VIJAY	JAIPUR
783.	407178	CA. AKHIL KUMAR GUPTA	GURGAON
784.	407190	CA. HARSH KUMAR SACHDEVA	ALLAHABAD
785.	407197	CA. DEEPAK MEHTA	UDAIPUR
786.	407200	CA. POONAM AGARWAL	AGRA
787.	407215	CA. SWETA JAISWAL	RANCHI

S.No.	MR.N.	Name	Place
788.	407271	CA. SONAM BAHETI	INDORE
789.	407272	CA. MANDVI SANAWAR	MUMBAI
790.	407305	CA. ABHILASHA JAIN	BHILWARA
791.	407312	CA. VAIBHAV BHAGAT	KANPUR
792.	407331	CA. KEDAR PRASAD SINGHAL	INDORE
793.	407346	CA. PREETI PATWA	INDORE
794.	407361	CA. MRIGANK SINHA	GHAZIABAD
795.	407401	CA. VINAY NARASIMHAN	INDORE
796.	407404	CA. PRAVEEN JAISWAL	RAIPUR
797.	407409	CA. VISHRANT SHUKLA	LUCKNOW
798.	407411	CA. AMIT SONI	INDORE
799.	407419	CA. PRASHANT BISEN	RAIPUR
800.	407427	CA. RUCHI JAIN	JHANSI
801.	407441	CA. BHUPENDRA KUMAR GUPTA	JAIPUR
802.	407488	CA. AJAY GOYAL	MUMBAI
803.	407527	CA. POOJA CHAUHAN	BHOPAL
804.	407537	CA. DHARMKIRTI JAIN	BHILWARA
805.	407558	CA. ANKIT TONGIA	JAIPUR
806.	407578	CA. MANSI AGARWAL	GHAZIABAD
807.	407699	CA. NARAYAN SANTOSH ABHYANKAR	BILASPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
808.	407731	CA. ASHUTOSH BAJAJ	DEHRADUN
809.	407757	CA. RUCHI BAPNA	UDAIPUR
810.	407760	CA. ABHINAV MEHROTRA	ALLAHABAD
811.	407771	CA. VINOD LUDHANI	KANPUR
812.	407798	CA. VIPIN BOHRA	SOJAT CITY
813.	407821	CA. MAMTA JAIN	BALAGHAT
814.	407856	CA. GULSHAN JAIN	JAIPUR
815.	407867	CA. SUSHANT KUMAR	PATNA
816.	407878	CA. PUNEET KUMAR BAJORIA	CHURU
817.	407887	NIMESH KUMAR SARASWAT	KASHIPUR
818.	407891	CA. AJIT CHHAJER	JAIPUR
819.	407903	CA. NARENDRA SINGH	JAIPUR
820.	407928	CA. DEEPAK KUMAR NARNOLIA	JAMSHEDPUR
821.	407937	CA. SANJAY AGRAWAL	MATHURA
822.	407944	CA. NUTAN BHARTI	BANGALORE
823.	407947	CA. SUMEET BEHAL	INDORE
824.	407953	CA. PANKAJ SHARMA	DHANBAD
825.	407957	CA. SANJEEV VYAS	JODHPUR
826.	407986	CA. NAVNEET KUMAR ASAWA	BHILWARA
827.	408012	CA. HIMANSHU VIJAY	KOTA

S.No.	MR.N.	Name	Place
828.	408028	CA. KAILASH CHANDRA GOYAL	BANGALORE
829.	408064	CA. ANOOP KUMAR MISHRA	SITAPUR
830.	408084	CA. LALIT KUMAR KALRA	BADAUN
831.	408097	CA. SOMA CHATTERJEE	RANCHI
832.	408141	CA. DHEERAJ RANASARIA	JAIPUR
833.	408152	CA. RICHA KAPOOR	MUMBAI
834.	408168	CA. NAVEEN LOHIYA	JODHPUR
835.	408183	CA. KARAMVEER SINGH KAURAW	BHOPAL
836.	408199	CA. VISHAL CHHIBBAR	DEHRADUN
837.	408213	CA. RUCHITA SAWA	JAMSHEDPUR
838.	408224	CA. MANISHA GUPTA	RANCHI
839.	408235	CA. MANISH AGRAWAL	JAIPUR
840.	408244	CA. CHANDRESH SAYANI	JABALPUR
841.	408250	CA. PRABUDDHA NARAYAN TRIPATHI	AMBIKAPUR
842.	408258	CA. KAMLESH MUROTIYA	CHITTOR- GARH
843.	408281	CA. KULDEEP KUMAR KATARIA	GWALIOR
844.	408285	CA. KRISHAN KUMAR	JAIPUR
845.	408288	CA. SIDDIQA SAIFY	UDAIPUR
846.	408294	CA. RAKESH KUMAR BANSAL	BHADRA
847.	408304	CA. PRITPAL SINGH VILKHU	JAMSHEDPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place	S.No.	MR.N.	Name	Place
848.	408327	CA. BHAGWAN AGARWAL	JODHPUR	868.	408683	CA. SUNIL SHARMA	JAIPUR
849.	408370	CA. ANJALI MEHTA	AJMER	869.	408690	CA. GAURAV GUPTA	GURGAON
850.	408373	CA. NITESH JAIN	JAIPUR	870.	408699	CA. RINKY RAJDEV	BHOPAL
851.	408374	CA. POOJA JAIN	JAIPUR	871.	408747	CA. RAJEEV SHARMA	PATNA
852.	408398	CA. AMENDRA SINGHVI	JODHPUR	872.	408774	CA. MANOJ KUNWAR RATHORE	JAIPUR
853.	408400	CA. RISHI TIWARI	LUCKNOW	873.	408776	CA. SUNAINA SHEKHAWAT	JAIPUR
854.	408401	CA. ANJALI SRIVASTAVA	KANPUR	874.	408869	CA. AMIT SINGH	PUNE
855.	408422	CA. PRATIMA SHARDA	BARMER	875.	409005	CA. PANKAJ GARG	ROORKEE
856.	408423	CA. MAHESH KUMAR GOYAL	JAIPUR	876.	409053	CA. AJAY KUMAR	DEOGHAR
857.	408448	CA. YOGESH KUMAR CHATURVEDI	MATHURA	877.	500030	CA. RAVNEET KAUR	DELHI
858.	408465	CA. VIKAS PATEL	JODHPUR	878.	500092	CA. MADAN ARJUN	NOIDA
859.	408546	CA. ASHISH DWIVEDI	PITHAMPUR	879.	500587	CA. SANJIT KUMAR	DARBHANGA
860.	408559	CA. VIKAS NAHTA	BEAWAR	880.	500852	CA. KOHLI PANKAJ	BIKANER
861.	408564	CA. SANJAY KUMAR JAIN	INDORE	881.	501019	CA. AGARWAL APPOORVE	NOIDA
862.	408581	CA. AMIT SAHAI MATHUR	DEHRADUN	882.	501022	CA. JAIN RAHUL	JABALPUR
863.	408629	CA. VARSHA MUNDRA	BHILWARA	883.	501150	CA. SAURABH BANSAL	NEW DELHI
864.	408647	CA. AAQUIL SHARAF	UNNAO	884.	501175	CA. VIJAY KUMAR AGRAWAL	RAIPUR
865.	408662	CA. TARUN KUMAR YADAV	MADHUBANI	885.	501207	CA. RAJEEV KUMAR	HARDWAR
866.	408663	CA. SANYOGITA SINGH	INDORE	886.	501299	CA. AJAY KUMAR GUPTA	ALMORA
867.	408682	CA. SHRUTI CHITLANGIA	MUMBAI	887.	501318	CA. SHIKHAR UTKARSH	HARDWAR

S.No.	MR.N.	Name	Place
888.	501459	CA. SHARMA ARVIND KUMAR	NOIDA
889.	501632	CA. NIDHI AGARWAL	GHAZIABAD
890.	501913	CA. SINGH HARI	JAIPUR
891.	502261	CA. KULDEEP CHAUHAN	GHAZIABAD
892.	502302	CA. KHURANA SAURABH	GHAZIABAD
893.	502496	CA. RANGNEKAR SAMEER	NOIDA
894.	502631	CA. LAL SMITA	NOIDA
895.	502632	CA. VINAY BHUSHAN	GHAZIABAD
896.	502802	CA. SARVESH KUMAR	GHAZIABAD
897.	502804	CA. AHMAD IMRAN	MOTIHARI
898.	502912	CA. AMIT HARIT	BHIWADI
899.	502923	CA. SHARMA DINESH KUMAR	NOIDA
900.	502927	CA. AGRAWAL MAYANK KUMAR	GHAZIABAD
901.	502998	CA. PANSARI NISHANT	DARBHANGA
902.	503254	CA. GUPTA NITIN	ETAWAH
903.	503413	CA. MITTAL MEGHNA	KOTA
904.	503589	CA. JINDAL ABHISHEK	BEAWAR
905.	503652	CA. NARENDRA PAL SINGH	BOKARO STEEL CITY
906.	503877	CA. BALWANT KUMAR	GHAZIABAD
907.	504285	CA. KASHYAP MANISH	JAIPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
908.	504761	CA. ASHWANI KUMAR	HAMIRPUR
909.	504845	CA. PANDEY SANJAY KUMAR	LUCKNOW
910.	504859	CA. MAHAJAN PRAVIN	ALWAR
911.	505625	CA. GYAWALI BIPUL	DEHRADUN
912.	505654	CA. THAPA RITU	DEHRADUN
913.	505675	CA. AGARWAL RAVI	NOIDA
914.	505695	CA. JAIN MEENAKSHI	GHAZIABAD
915.	505754	CA. GUPTA RAVI BHUSHAN PRASAD	PURNIA
916.	505804	CA. SINGH YASHASVEE	SATNA
917.	505913	CA. MISHRA BIBHUTI BHUSAN	NOIDA
918.	506173	CA. GAURAV PAUL	GHAZIABAD
919.	506324	CA. NIMISH AGRAWAL	DELHI
920.	506658	CA. VISHAL JAIN	DELHI
921.	506826	CA. VISHAL ARORA	LUCKNOW
922.	507020	CA. SHALABH SINGHAL	GHAZIABAD
923.	507137	CA. SHIVA CHANDRA SHRESTHA	UDAIPUR
924.	507355	CA. PURUSHOTTAM KUMAR SINGH	ALWAR
925.	507671	CA. TARUN KUMAR	SUGAULI
926.	507946	CA. SANJAY KUMAR RAI	GHAZIPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place	S.No.	MR.N.	Name	Place
927.	508012	CA. GHANSHYAM JHA	GURGAON	936.	510083	CA. POONAM	GHAZIABAD
928.	508572	CA. MANOJ KUMAR	HATHRAS	937.	510246	CA. HEMANT KUMAR GUPTA	NEW DELHI
929.	508843	CA. AMOL AGARWAL	BANGALORE	938.	510260	CA. CHANDRA BHUSHAN	RAMGARH
930.	509288	CA. RAKESH BHANDARI	NOIDA	939.	510305	CA. NIRBHAYA SHANKAR GUPTA	FIROZABAD
931.	509337	CA. SHARAD SAXENA	GHAZIABAD	940.	510347	CA. ABHISHEKHA MATHUR	KALYAN
932.	509466	CA. TUHIN CHATURVEDI	LUCKNOW	941.	510565	CA. SUDHA GUPTA	MUMBAI
933.	509798	CA. RITU MADAN	NOIDA	942.	510848	CA. ANITA PAHUJA	BAREILLY
934.	509823	CA. NITESHWAR SINGH	GHAZIABAD	943.	511299	CA. BINOD KUMAR BHUYAN	ASKA
935.	510029	CA. ANKIT MAHESWARI	HATHRAS				


(T. KARTHIKEYAN)
SECRETARY

3CCA(4)(2)/2008-2009 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on Account of death with effect from date (s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
1.	000980	CA. RANGNEK-KAR, GANGA DHAR VISHNUPANT	INDORE	12.01.08
2.	001030	CA. SATYANAR-AYANIAH K M	LUCKNOW	04.04.08
3.	001637	CA. CHANDRA PRAKASH HIRA LAL	INDORE	24.09.08
4.	00169	CA. MISRA SHRI KRISHNA	VARANASI	04.03.09
5.	003069	CA. PUNJAWAT GANESHLAL SAJJANLAL	UDAIPUR	08.02.09
6.	003476	CA. LAKSHMI NARAIN PRASAD	PATNA	10.12.08
7.	003565	CA. DUBEY VIJAI PRAKASH	KANNAUJ	20.10.06
8.	005355	CA. UJJAL KUMAR GUPTA	PATNA	22.02.09
9.	005368	CA. KANJIKAVIL JOSEPH JOHN	NOIDA	24.01.08
10.	008799	CA. JAIN CHANDRA PRAKASH	GHAZIBAD	02.12.08
11.	008987	CA. GUPTA GYAN CHAND	JAIPUR	13.03.08
12.	009261	CA. CHUG MAN MOHAN SINGH	SAHARANPUR	02.04.08
13.	012008	CA. GULLATI YOGESH	KANPUR	01.02.09
14.	013538	CA. GUPTA SHREE KRISHNA	BHOPAL	30.10.08

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
15.	014461	CA. HARADHAN MAJI	DHANBAD	05.03.08
16.	014515	CA. DAGA MANGI LAL	SATNA	08.01.09
17.	016415	CA. JAIN SUBHASH CHAND	SHIVPURI	13.12.08
18.	070314	CA. JAIN PAWAN KUMAR	ALWAR	29.07.08
19.	070387	CA. AGARWAL HARI SHANKAR	AGRA	27.04.08
20.	071906	CA. CHANDER MOHAN	PILKHUWA	10.01.09
21.	072085	CA. KAR ARUN KUMAR	PATNA	18.07.2008
22.	073843	CA. MUNDRA BRIJ MOHAN	RAIPUR	23.07.2008
23.	074353	CA. AGARWAL MAHENDRA KUMAR	JAIPUR	15.10.2008
24.	075935	CA. GARG MAHESH	JODHPUR	24.03.2009
25.	076202	CA. KASHYAP SANJEEV	JODHPUR	16.08.2008
26.	076731	CA. CHOUHAN ANIL KUMAR	INDORE	10.12.2008
27.	402375	CA. ASHISH KUMAR	BHOPAL	15.02.2009
28.	0402834	CA. KAPOOR NITIN	LUCKNOW	17.04.2008

(T. KARTHIKEYAN)
SECRETARY

The 20th December 2009

3CCA(5)(1)/2008-2009: With reference to this Institute's notification nos. 3CCA(4)(1)/2004-2005 dated 27.11.2004, 3CCA(4)(1)/2005-2006 dt. 7.11.2005, 3CCA(4)(1)/2006-2007 dt. 16.10.2006, 3CCA(4)(1)/2007-2008 dt. 30-10.07, 3CCA(4)(1)/2008-2009 dated 15 Apr. 2009, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members :-

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date	S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
1.	002567	CA. SAH GOBIND PRASAD, FCA	PATNA	01.10.2007	13.	019828	CA. JHUN- JHUNWALA PRAMOD KUMAR, FCA	KANPUR	01.10.2008
2.	008227	CA. DAMANI KRISHNA RATAN, ACA	INDORE	01.10.2007	14.	030443	CA. SHAH VINAY KUMAR, ACA	INDORE	01.10.1996
3.	009499	CA. MEHROTRA SITA RAM, ACA	GUR- GAON	01.10.2008	15.	031382	CA. GUPTA HARISH KUMAR, FCA	JODHPUR	01.10.2008
4.	009783	CA. SHRI KANT DAVE, ACA	KANPUR	01.10.2006	16.	031819	CA. GOLCHA KAPOOR CHAND CHANPALAL, FCA	JODHPUR	01.10.2008
5.	010750	CA. SUREKA BIMAL KUMAR, FCA	MIRZAPUR	01.10.1999	17.	031997	CA. SAMPAT RAJ GAHLOT, FCA	JODHPUR	01.10.2008
6.	010804	CA. HAJRA TIMIR BARAN, FCA	KOLKATA	01.10.2008	18.	034245	CA. JAIN NIRAJ GYAN CHAND, ACA	INDORE	01.10.2008
7.	012147	CA. SRIVASTAVA KESHAV KRISHNA, FCA	LUCKNOW	01.10.2008	19.	038027	CA. SUDHIR- KUMAR JAIN ACA	MUMBAI	01.10.1993
8.	012380	CA. CHAUDHA- RY SANTOSH KUMAR, ACA	B.S.CITY	01.10.2008	20.	039365	CA. KUMBHAT PANKAJ, ACA	JODHPUR	01.10.2008
9.	014016	CA. TUSHARENDU GUPTA, ACA	JAMSHEDPUR	01.08.1982	21.	042813	CA. SHAH RAJU JAYANTILAL, FCA	BHOPAL	01.10.2008
10.	015409	CA. BANSAL VIJAY KUMAR, FCA	BEAWAR	01.10.2008	22.	042997	CA. SANCHETI SHAIENDRA ACA	JODHPUR	01.10.2004
11.	016326	CA. SINGHVI DAULAT CHAND, FCA	JODHPUR	01.10.2008	23.	043050	CA. JAIN RAJESH, FCA	BHILWARA	01.10.2008
12.	017554	CA. SANTOSH KUMR VAID, FCA	NOIDA	01.10.2008					

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
24.	043117	CA. SOMANI SANJAY KUMAR, ACA	RANCHI	01.10.2008
25.	043435	CA. SURANA SURESH, ACA	JODHPUR	01.10.2008
26.	044621	CA. BHANSALI PRABHAT, ACA	JODHPUR	08.12.1997
27.	048579	CA. LAAD VASUNDHARA, H., FCA	INDORE	01.10.2008
28.	049090	CA. MAHESH- WARI RAJNISH, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
29.	050074	CA. GUPTA AMOD, FCA	MEERUT	01.10.2008
30.	050420	CA. SARAF UMESH KUMAR ACA	NOIDA	01.10.2007
31.	051419	CA. SOMNATH GANGOPADHYAY FCA	ANGUL	01.10.2007
32.	051891	CA. SINGH PRAMOD KUMAR FCA	PATNA	01.10.2008
33.	052223	CA. JAISWAL RAMESH CHAND, FCA	VARANASI	01.10.2008
34.	052518	CA. DEBASISH ROY, ACA	PANIPAT	09.12.1991
35.	053822	CA. LUTHARA SUDIP, ACA	LUCKNOW	01.10.2008
36.	054166	CA. AMIT SEN ACA	BHILAI	01.10.2007
37.	055081	CA. SETHIA RAJENDRA, FCA	BIKANER	01.10.2008
38.	056027	CA. DWARY RAVI SHANKAR FCA	DEOGHAR	01.10.2008
39.	056585	CA. AKHRAMKA PRAMOD KUMAR FCA	JAIPUR	01.10.2008
40.	056651	CA. AGRAWAL GOPAL, FCA	THANE	01.10.2004

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
41.	056816	CA. AGARAWAL RAJ KUMAR, FCA	RAIPUR	01.10.2008
42.	057683	CA. SHARMA NAVIN KUMAR, ACA	GONDA	01.10.2008
43.	058585	CA. LAKH- OTIA ROHIT, ACA	FORBES- GANJ	01.10.2008
44.	058985	CA. DHAND ANUP, ACA	INDORE	01.10.2005
45.	059812	CA. PARAKH BOBBY, ACA	INDORE	01.10.2008
46.	059952	CA. AGRAWAL AMIT, ACA	MUZZAF- FARPUR	01.10.2006
47.	060379	CA. SRIVASTAVA VIVEK, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
48.	060525	CA. AMIT KUMAR SARAOGI, FCA	KHAGARIA	01.10.2008
49.	061268	CA. MATLIA MANISH, ACA	NOIDA	01.10.2007
50.	061278	CA. MUKUND JHUNJHUNWALA, FCA	RANCHI	01.10.2008
51.	061312	CA. TULSYAN VIKASH KUMAR, ACA	DHANBAD	01.10.2008
52.	061477	CA. TRIPATHY BIBHU PADARA- BINDA, ACA	CUTTAK	01.10.2008
53.	061810	CA. THAKUR KUMAR NATH, ACA	GORAKH- PUR	01.10.2008
54.	062316	CA. RAKESH KUMAR CHOUBEY, ACA	BHAGAL- PUR	01.10.2006
55.	062803	CA. PRAWAL MANISHA, ACA	BAREEILLY	01.10.2008
56.	062960	CA. KEDIA RAKESH, ACA	SECUNDERA- BAD	01.10.2007

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
57.	063056	CA. DALMIA ANSHU KUMAR, ACA	PATNA	01.10.2008	74.	071147	CA. RASTOGI ATUL, FCA	KANPUR	01.10.2008
58.	063199	CA. SHARMA MAHAVEER, ACA	JODHPUR	01.10.2008	75.	071250	CA. SETH SANJAY, FCA	KANPUR	01.10.2004
59.	063670	CA. AGARWAL VINEET, ACA	GURGAON	01.10.2005	76.	071292	CA. MEHRA YUVRAJ KUMAR, FCA	NAVI MUMBAI	01.10.2007
60.	063724	CA. MISHRA SUDEEP, ACA	CUTTACK	01.10.2008	77.	071343	CA. GARG SHELENDRA NATH, FCA	HAPUR	01.10.2008
61.	064642	CA. MRINAL SOMANI ACA	BOKARO STEEL CITY	01.10.2007	78.	071346	CA. RAM RAJ SONI, FCA	KOLKATA	01.10.2008
62.	065059	CA. BHASKAR GUPTA, ACA	DHANBAD	01.10.2008	79.	071377	CA. SHAH GOPAL DAS ACA	JODHPUR	01.10.2008
63.	065139	CA. ABHISHEK KUMAR, ACA	KOLKATA	01.10.2007	80.	071393	CA. SINHA SUDHIR KUMAR, FCA	PATNA	01.10.2005
64.	070048	CA. RAWAT SURESH K, ACA	SINGRAULI	01.10.2006	81.	071486	CA. ASHWANI KUMAR, FCA	DELHI	01.10.2005
65.	070097	CA. DARJI SURESH CHAND ACA	SHAHNOL	01.10.2008	82.	071756	CA. JAIN BHUPENDRA KUMAR, FCA	BHILWARA	01.10.2008
66.	070213	CA. KHANNA PANKAJ, FCA	KANPUR	01.10.2008	83.	071776	CA. LOHIYA ANAND PRAKASH FCA	JODHPUR	01.10.2008
67.	070452	CA. MADAN- LAL CHHAJER, ACA	MUMBAI	01.10.1995	84.	071895	CA. SAXENA ANIL KUMAR FCA	KANPUR	01.10.2008
68.	070581	CA. GUPTA RAVI PRAKASH, FCA	ALLAHA- BAD	01.10.2008	85.	071941	CA. SHARMA GOPAL LAL FCA	JAIPUR	01.10.2008
69.	070836	CA. SUNIL KUMAR, FCA	NOIDA	01.10.2008	86.	071977	CA. AGRAWAL ANAND KUMAR, FCA	SECUNDERA BAD	01.10.2007
70.	070871	CA. MUKHOPA DHYAY SAMIDH ACA	PUNE	01.10.2007	87.	072019	CA. GHOSH AMITABH FCA	BHOPAL	01.10.2005
71.	070940	CA. BHANSALI ARVIND, FCA	JODHPUR	01.10.2004	88.	072082	CA. RAM AVTAR, ACA	SHAMLI	01.10.2002
72.	071080	CA. AGARWAL SHAIENDRA SWARUP, FCA	LUCKNOW	08.12.1997	89.	072218	CA. BUMB PRAKASH CHAND, ACA	MUMBAI	01.10.1998
73.	071103	CA. SATYAVIR SINGH DAGAR, FCA	JAIPUR	22.12.2003					

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
90.	072271	CA. PRAMOD KUMAR MAHESHWARI ACA	ALIGARH	01.10.2008	106.	073844	CA. BHASIN NARENDRA KUMAR, FCA	DEHRA-DUN	01.10.2008
91.	072281	CA. SINGHVI PRAKASH KUMAR, FCA	JODHPUR	01.10.2008	107.	073848	CA. CHOWDHRY JAIPUR PRANEET KUMAR, FCA		01.10.2008
92.	072393	CA. GOYAL SURENDRA KUMAR, FCA	JAIPUR	22.12.2003	108.	073860	CA. DAFRIA NITIN KUMAR FCA	INDORE	01.10.2008
93.	072413	CA. ASHOK SONI, ACA	NEW DELHI	01.10.1989	109.	073873	CA. JAIN SURESH KUMAR, ACA	NAWAL-GARH	22.12.2003
94.	072520	CA. AHUJA DHARMENDRA KUMAR, FCA	MEERUT	01.10.2008	110.	074088	CA. KHURADIA RATAN LAL FCA	UDIAPUR	01.10.2002
95.	072556	CA. VIDYARTHI RAJEN, FCA	BAREILLY	01.10.2008	111.	074130	CA. RAKESH KUMAR SINGH ACA	KANPUR	01.10.2008
96.	072597	CA. BANTHIA SUSHIL, FCA	INDORE	01.10.2008	112.	074139	CA. SHRI-VASTAVA SHATMANYU ACA	KANPUR	01.10.2001
97.	072791	CA. PUSHPE-NDRA, FCA	ALLAHA BAD	01.10.2008	113.	074186	CA. VISWANATH V, FCA	PUNE	01.10.2008
98.	072838	CA. SOMANI VIJAY KUMAR FCA	PALI MARWAR	01.10.2008	114.	074235	CA. KARNAWAT MANOJ, FCA	DEHRA-DUN	01.10.2008
99.	072905	CA. PANDWAL RAJENDRA, ACA	UDAIPUR	01.10.2008	115.	074241	CA. DHOOT JUGAL KISHORE FCA	JODHPUR	01.10.2008
100.	072991	CA. MAN-MOHAN BANSAL, FCA	JODHPUR	22.12.2003	116.	074251	CA. CHOUHAN DHAN RAJ ACA	JODHPUR	08.12.2000
101.	072993	CA. HARMESH KUMAR BAWEJA FCA	JODHPUR	01.10.2006	117.	074415	CA. BABU LAL BHATHAR, FCA	JODHPUR	01.10.2008
102.	073677	CA. JAIN SHANTI CHAND, ACA	JODHPUR	01.10.2008	118.	074453	CA. MITTAL DINESH KUMAR, FCA	BHOPAL	01.10.2008
103.	073721	CA. PREM KUMAR AGRAWAL, ACA	KANPUR	01.10.2007	119.	074532	CA. PANDA HEMANTA KUMAR, ACA	SONE-BHADRA	01.10.2008
104.	073725	CA. DAVE ATUL FCA	LUCKNOW	01.10.2008	120.	074536	CA. SINGHVI DINESH, FCA	JAIPUR	01.10.2006
105.	073834	CA. RAJESH CHAPLOT FCA	UDAIPUR	01.10.2006	121.	074553	CA. JAIN SURESH KUMAR ACA	UDAIPUR	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
122.	074688	CA. HEMANT KHABIA, FCA	BHOPAL	01.10.2007
123.	074700	CA. SINGH SANJEEV KUMAR, ACA	BOKARO STEEL CITY	01.10.2008
124.	074760	CA. SHUKLA SUNEEL M ACA	INDORE	01.10.2005
125.	074853	CA. MAHAJAN RAKESH, FCA	GHAZIA-BAD	01.10.2008
126.	074875	CA. PUKHRAJ SADH VAISHNAW ACA	NODIA	01.10.1992
127.	074884	CA. KHANDELWAL SANJEEV ACA	INDORE	01.10.2008
128.	074889	CA. LODHA SUNIL KUMAR ACA	MUMBAI	01.10.2008
129.	074916	CA. BOTHRA SANJAY KUMAR FCA	RAIPUR	01.10.2008
130.	074947	CA. YADAV SANJAY, ACA	DELHI	01.10.1999
131.	074950	CA. RAGHAB MISHRA, ACA	MUMBAI	01.10.1993
132.	074959	CA. CHOWDHRY VINOD, ACA	LUCKNOW	01.10.2007
133.	074997	CA. ATUL GOPATI, FCA	JAIPUR	01.10.2008
134.	075124	CA. SAXENA RAJEEV KUMAR, FCA	FATEH-GARH	01.10.2008
135.	075133	CA. SHARMA NAVEEN KUMAR, FCA	GHAZIA-BAD	01.10.2008
136.	075248	CA. SUNIL KUMAR SINGH, FCA	KANPUR	01.10.2008
137.	075316	CA. VINEET KUMAR, ACA	RAIPUR	01.10.2008
138.	075360	CA. CHATURVEDIRAJIV KUMAR, FCA	LUCKNOW	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
139.	075432	CA. SHARMA VIVEK, FCA	JAIPUR	01.10.2008
140.	075439	CA. VERMA PANKAJ, ACA	BHOPAL	01.10.1996
141.	075546	CA. BANSAL GIRRAJ KUMAR ACA	GURGANON	01.10.2008
142.	075571	CA. AGRAWAL BACHANESH KUMAR, ACA	JAIPUR	01.10.2005
143.	075619	CA. SHAH RAJKUMAR FCA	INDORE	01.10.2008
144.	075640	CA. SONI PAVAN KUMAR, FCA	KOTA	01.10.2006
145.	075714	CA. GUPTA ATUL KUMAR, FCA	JABALPUR	01.10.2006
146.	075725	CA. AJMERA NAVEEN, FCA	BHILWARA	01.10.2004
147.	075738	CA. TODI VISHNU DUTT, ACA	KUTCH	01.10.2008
148.	075739	CA. RAKESH SARASWAT FCA	AHMEDA-BAD	01.10.2008
149.	075768	CA. GUTGUTIA VIVEK, ACA	DHAN-BAD	01.10.2008
150.	075785	CA. SRIVASTVA RAKESH, FCA	KANPUR	01.10.2008
151.	075791	CA. SINGH ADITYA KUMAR, FCA	BHOPAL	01.10.2008
152.	075805	CA. BHANDARI ASHEESH, ACA	NODIA	01.10.2008
153.	075821	CA. MISRA KAMLAKER FCA	DELHI	01.10.2008
154.	075829	CA. JHA PARITOSH, FCA	BIKANER	01.10.2008
155.	075875	CA. VAIDYA NARENDRA FCA	BHOPAL	01.10.2006

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date	S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
156.	075920	CA. PUNTA-MBEKAR VINITA, ACA	INDORE	01.10.2008	172.	076946	CA. JAIN SUMENDRA ACA	NOIDA	01.10.2008
157.	075956	CA. HUSSAINI DAIREKEE, ACA	NEEMUCH	01.10.2008	173.	076983	CA. RAJENDRA AGARWAL, FCA	THANE	01.10.2005
158.	076017	CA. AGARWAL ANOOP KUMAR, FCA	ALLAHABAD	01.10.2008	174.	077099	CA. SANJAY KUMAR, ACA	NAGPUR	01.10.2008
159.	076104	CA. GUPTA RAJENDRA KUMAR, FCA	INDORE	01.10.2008	175.	077128	CA. MUNDRA AVINASH, ACA	MUMBAI	01.10.2008
160.	076277	CA. AVIASH BHARGAVA FCA	BIKANER	01.10.2006	176.	077185	CA. RAJIT MALHOTRA ACA	NODIA	01.10.2004
161.	076311	CA. PRADEEP DHOT, ACA	KANNOD	01.10.2006	177.	077195	CA. BAJPAI GANESH PRASAD FCA	VARANASI	01.10.2008
162.	076420	CA. AGARWAL SANJEEV KUMAR ACA	MUMBAI	01.10.2008	178.	077220	CA. SHUKLA SANJEEV, ACA	KANPUR	01.10.2004
163.	076488	CA. MOR SANJAY MADANMOHAN ACA	JABALPUR	01.10.2008	179.	077226	CA. DHANUKA MANOJ, ACA	INDORE	01.10.2008
164.	076709	CA. SABHARWAL JYOTI, FCA	BAHRAICH	01.10.2008	180.	077244	CA. SHARAMA RAHUL, FCA	JAIPUR	01.10.2008
165.	076719	CA. JHANWER DINESH CHANDER, ACA	INDORE	01.10.2002	181.	077263	CA. MANGLLA LALIT SINGH ACA	GUWAHATI	08.12.2000
166.	076771	CA. BHATNAGAR VINEET ACA	RENUKOOT	01.10.2007	182.	077322	CA. PARAKH RAJESH, ACA	JODHPUR	22.12.2003
167.	076774	CA. DEEPAK KUMAR, FCA	NODIA	01.10.2008	183.	077457	CA. AGARWAL ANIL KUMAR FCA	LUCKNOW	01.10.2008
168.	076780	CA. MUKHOPADHYAY SAIKAT ACA	GURGAON	01.10.2007	184.	077503	CA. SINGHAL DINESH KUMAR, FCA	SUMERPUR	01.10.2008
169.	076786	CA. PAVECHA AJAY, ACA	RATLAM	01.10.2008	185.	077538	CA. MUNDHARA MEHESH KUMAR, ACA	JODHPUR	01.10.2008
170.	076799	CA. JAIN NIRMAL KUMAR FCA	JAIPUR	01.10.2008	186.	077560	CA. AJIT T ACA	BANGALORE	01.10.2008
171.	076926	CA. SUNIL KUMAR VERMA FCA	INDORE	01.10.2006	187.	77648	CA. ASHISH PUNDHIR, FCA	JAIPUR	01.10.2008
					188.	077748	CA. SWAMINATHAN MAITHREYI, ACA	NODIA	01.10.2008

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
189.	077751	CA. SHAROHA TUSHANKUR ACA	MEERUT	01.10.2007
190.	077759	CA. GUPTA DEEPIKA, FCA	DEHRA- DUN	01.10.2008
191.	077778	CA. JAIN PANKAJ, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
192.	077838	CA. HAJRA SRIRUPA, ACA	PUNE	22.12.2003
193.	077989	CA. JAIN DHARMENDRA FCA	INDORE	01.10.2008
194.	078013	CA. JAIN AJAY KUMAR, FCA	AGRA	01.10.2008
195.	078030	CA. BANERJEE ANOOP KUMAR, ACA	JAMSHED PUR	01.10.2006
196.	078031	CA. ARRANDER KULDEEP KAUR ACA	JAMSHED PUR	01.10.2006
197.	078055	CA. GARG SHARAD KUMAR, ACA	AGRA	01.10.2005
198.	078129	CA. SHARMA MANOJ KUMAR ACA	JAIPUR	01.10.2006
199.	078293	CA. GUPTA PRABHAT, FCA	MEERUT	01.10.2008
200.	078351	CA. PAREEK ANIL, FCA	JAIPUR	01.10.2008
201.	078355	CA. MANU AARYAN, ACA	AJMER	01.10.2008
202.	78372	CA. SETHI SONIA, ACA	DEHRA- DUN	01.10.2004
203.	078432	CA. MUNISH KUMAR MITTAL, ACA	GHAZIA BAD	01.10.2002
204.	078447	CA. SUDHA GUPTA, FCA	JAIPUR	01.10.2008
205.	078572	CA. SHARMA ANIL KUMAR FCA	HYDERA BAD	01.10.2007
206.	078612	CA. AGARWAL VINEET, ACA	BHILAI	01.10.2007

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
207.	078640	CA. SINGH SUNIL KUMAR ACA	RANCHI	01.10.2008
208.	078694	CA. VYAS KAML KISHOR, ACA	JODHPUR	01.10.2008
209.	078699	CA. KAWATRA SANJAY, ACA	BHOPAL	01.10.2005
210.	078705	CA. TANDON SAURABH, FCA	LUCKNOW	01.10.2008
211.	078741	CA. GUPTA PRAVEEN, FCA	GWALIOR	01.10.2007
212.	078754	CA. BRIJESH KUMAR, ACA	GHAZIBAD	01.10.2007
213.	078766	CA. JOSHI NEERAJ, ACA	UJJAIN	01.10.2008
214.	078838	CA. GARG VIKAS, FCA	BULAND- SHAHR	01.10.2007
215.	078906	CA. ARUN PACHORI, FCA	JAIPUR	01.10.2008
216.	078970	CA. SRIVASTAVA MANISA, ACA	RAIPUR	01.10.2007
217.	078978	CA. GUPTA SUDHIR, ACA	GHAZIA- BAD	01.10.2007
218.	079004	CA. SETH NEVILLE, ACA	GURGAON	01.10.2007
219.	079024	CA. PODDAR SANDEEP, ACA	KOLKATA	22.12.2003
220.	079029	CA. SINGHAI MONIKA, ACA	JABALPUR	01.10.2004
221.	079098	CA. VIKRAM KUMAR BHUTRA, ACA	AJMER	01.10.2007
222.	079129	CA. VYAS RAMESH, ACA	JODHPUR	01.10.2008
223.	079184	CA. RAHUL KUMAR VASHISHTH, FCA	GURGAON	01.10.2008
224.	079257	CA. AJAY KUMAR DADHICH, FCA	BHARUCH	01.10.2008

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
225.	079287	CA. THAKUR VIVEK, ACA	INDORE	01.10.2005
226.	079325	CA. TRIPTI VISHNOI, FCA	JODHPUR	01.10.2008
227.	079338	CA. BAHETI SHAMBHOO, ACA	MUMBAI	22.12.2003
228.	079367	CA. BHATT AMIT, ACA	JAIPUR	01.10.2008
229.	079380	CA. VISHNOI VIBHOR, ACA	NOIDA	01.10.2008
230.	079391	CA. YOGESH KUMAR, FCA	GHAZIA-BAD	01.10.2007
231.	079403	CA. MANOHAR LAL PALIWAL, ACA	JODHPUR	08.12.2000
232.	079421	CA. JAISWAL MANISH KUMAR, FCA	BANGAL-ORE	01.10.2007
233.	079433	CA. SACHIN TYAGI, FCA	MEERUT	01.10.2006
234.	079446	CA. SUNIL RAWAT, FCA	JAIPUR	01.10.2007
235.	079457	CA. PANDEY SHIVASHISH, ACA	AJMER	01.10.2007
236.	079546	CA. UDAY BHANU AWASTHI, FCA	LAKHIM-PUR KHERI	01.10.2008
237.	079581	CA. TANDON RUCHI, ACA	LUCKNOW	01.10.2007
238.	079594	CA. BHOJWANI RAJESH, ACA	JODHPUR	01.10.2008
239.	079620	CA. VIVEK VARSHNI, FCA	ALLAHA-BAD	01.10.2008
240.	079719	CA. BIJAY KUMAR AGARWAL, FCA	SERAIKE-LLA	01.10.2008
241.	079721	CA. NITIN GARG, FCA	BHOPAL	01.10.2008
242.	079794	CA. SUNIL KUMAR JAIN, FCA	JAIPUR	01.10.2006

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
243.	079852	CA. SHARMA NITIN, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
244.	079913	CA. ARORA GAURAV, ACA	NOIDA	01.10.2008
245.	079974	CA. SHUKLA RISHI, ACA	INDORE	01.10.2007
246.	079999	CA. THAKUR SANJAY KUMAR, ACA	RAMGARH	01.10.2008
247.	080904	CA. KANSAL UMESH, FCA	NEW DELHI	01.10.2007
248.	080965	CA. GOEL RAM KUMAR, FCA	GHAZIA-BAD	01.10.2008
249.	081204	CA. PAUL SUNIRMAL, ACA	CHENNAI	01.10.1996
250.	081426	CA. KAUSHIK MAHAVIR PRASAD, FCA	NOIDA	01.10.2008
251.	081609	CA. ROOHANI AFSAR HUSEIN, ACA	LUCKNOW	01.10.2008
252.	081663	CA. ABHAY KUMAR BHARGAVA, FCA	KANPUR	01.10.1996
253.	082292	CA. AJAYA CHAND, FCA	NEW DELHI	01.10.2008
254.	082572	CA. RAI MUNINDRA NARAIN, FCA	PATNA	01.10.2008
255.	082584	CA. JAIN RAKESH KUMAR, FCA	NOIDA	01.10.2008
256.	082707	CA. E C SEBASTIAN, FCA	PATNA	01.10.2004
257.	082820	CA. SALUJA PARSHOTAM LAL, FCA	SRIGANGA NAGAR	01.10.2008
258.	083031	CA. GOYAL ARVIND, FCA	JAIPUR	01.10.1998
259.	083402	CA. JUNEJA SANJEEV, FCA	NOIDA	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
260.	083669	CA. ROY OINDRILA, ACA	NOIDA	01.10.2008
261.	084062	CA. MATHUR RAKESH SWARUP, FCA	SHAHJAN- PUR	01.10.2008
262.	085926	CA. DUBLISH SANJEEV KUMAR, FCA	GHAZIA- BAD	01.10.2008
263.	086199	CA. GUPTA SUBODH, FCA	NOIDA	01.10.2008
264.	086719	CA. SANGHVI RAKESH, FCA	JAIPUR	01.10.2008
265.	087297	CA. RATHI SHIV RATAN, ACA	SIKAR	01.10.2007
266.	087579	CA. KANKAN ASHISH, ACA	GURGAON	01.10.2007
267.	088259	CA. VIKRAM SINGH, FCA	NOIDA	01.10.2008
268.	088772	CA. RAJENDRA KUMAR, FCA	NOIDA	01.10.2007
269.	088997	CA. MAHESH CHANDRA, FCA	VIDYUT NAGAR	01.10.2007
270.	089425	CA. SOMANI ANUJ KUMAR, FCA	GHAZIA- BAD	01.10.2005
271.	089665	CA. GUPTA SANDEEP KUMAR, FCA	NEW DELHI	01.10.2008
272.	090061	CA. ARORA SANJEEV, FCA	NOIDA	01.10.2007
273.	091219	CA. TAYL KAPIL K, ACA	NOIDA	01.10.1996
274.	091364	CA. VERMA SANJAY, ACA	NEW DELHI	08.12.2000
275.	091561	CA. RAMA- KANT PAREEK, ACA	SIKAR	01.10.2008
276.	091878	CA. GOEL ANIL KUMAR, FCA	JODHPUR	01.10.2008
277.	092747	CA. SINGH NIRMAL KUMAR, ACA	BOKARO STEEL CITY	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
278.	092780	CA. GOVINDA RAO BALAGA, ACA	PONDI- CHERRY	01.10.2007
279.	093116	CA. MANEESH GUPTA, ACA	BAREILLY	01.10.2007
280.	093206	CA. MUKHERJE SANTANU, ACA	PATNA	01.10.2006
281.	093337	CA. JADIA SANTOSH KUMAR, FCA	RAMPUR	01.10.2006
282.	094624	CA. GOEL AMIT, FCA	ALLAHA- BAD	01.10.2007
283.	095757	CA. VISHWAN- ATHHAN V, FCA	GHAZIA- BAD	01.10.2008
284.	096537	CA. MAHESH- WARI HEMANT, FCA	BANGAL- ORE	01.10.2008
285.	096599	CA. KIRAN ACA	NOIDA	01.10.2008
286.	096726	CA. MAHESH- WARI VIPUL KUMAR, FCA	KASGANJ	01.10.2008
287.	096837	CA. RAJEEV KUMAR, ACA	PATNA	01.10.2008
288.	097401	CA. MAN- MOHAN KUMAR, FCA	GHAZIA- BAD	01.10.2008
289.	097456	CA KRISHNAN N V ACA	DELHI	01.10.2007
290.	097736	CA. GUPTA AJAY, ACA	MUMBAI	01.10.2005
291.	097945	CA. V MAHESHWAR, ACA	NOIDA	01.10.2007
292.	098130	CA. JAIN SUNIL KUMAR, ACA	NOIDA	01.10.2008
293.	098157	CA. SANJAY KUMAR, ACA	RAIGARH	01.10.2007
294.	098362	CA. GUPTA MANISH, ACA	NEW DELHI	01.10.2004

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
295.	098531	CA. BANSAL DEEPAK, ACA	BHIWADI	01.10.2008
296.	099059	CA. SHARMA AMIT, ACA	KASHIPUR	01.10.2008
297.	099290	CA. SINGH DEEPAK, ACA	ETAH	01.10.2008
298.	099977	CA PATERIA PREETI, ACA	NOIDA	01.10.2007
299.	101057	CA. SHAH NITESH KUMAR, FCA	INDORE	01.10.2005
300.	101382	CA. KAMAL KISHORE GOYAL, ACA	SURAT	01.10.2008
301.	103335	CA. PRASHANT CHATURVEDI, ACA	MUMBAI	01.10.2005
302.	104850	CA. KOTHARI ALOK KUMAR, FCA	JAIPUR	01.10.2008
303.	105429	CA. BIRLA PRAKASH, ACA	MUMBAI	22.12.2003
304.	106022	CA. MANISH KUMAR V TYAGI, FCA	DEHRA- DUN	01.10.2008
305.	106104	CA. AGRAWAL SANDEEP KUMAR, FCA	BARAN	01.10.2007
306.	106784	CA. SANJAY RATHI, ACA	NAVI MUMBAI	01.10.2007
307.	106977	CA. BHANDARI PRAVEEN T, ACA	INDORE	01.10.2007
308.	107774	CA. MITTAL SIDDHARTH MUKUL, ACA	INDORE	01.10.2008
309.	108202	CA AGRAWAL JAMBU KUMAR, FCA	KOTA	01.10.2008
310.	108862	CA VISHAL S JAIN, ACA	BHOPAL	01.10.2005
311.	110692	CA. SHIVAM PRAHLADKA, ACA	BHILWARA	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
312.	111321	CA. JAIN SANJAY KUMAR, ACA	RAJNAND- GAON	01.10.2007
313.	111935	CA. HIRESH SONTHALIA, ACA	MUMBAI	01.10.2007
314.	112576	CA. CHEERAN- JEEV AJMERA, ACA	PUNE	01.10.2004
315.	113744	CA. UMA AGARWAL, ACA	MUMBAI	01.10.2008
316.	114991	CA. JAGETIYA ANIL KUMAR, ACA	MUMBAI	01.10.2006
317.	116243	CA. SHARDA AMIT, ACA	JABALPUR	01.10.2008
318.	116664	CA. KHURANA HEMLATA SAURABH, ACA	GHAZIA- BAD	01.10.2008
319.	117264	CA. PUNGLIA KANAN, ACA	CHITTOR- GARH	01.10.2007
320.	119422	CA. KANCHAN VIPIN MALH- OTRA, ACA	NOIDA	01.10.2008
321.	120548	CA. JYOTI MAHAJAN, ACA	GHAZIA- BAD	01.10.2008
322.	121292	CA. YASHPAL KAMLAPRASAD AGARWAL, ACA	JAIPUR	01.10.2007
323.	121685	CA. NITIN ASHOK BAGHRECHA, ACA	RAIPUR	01.10.2008
324.	127423	CA. SANJAY KUMAR RAGHUVANSHI, ACA	INDORE	01.10.2008
325.	200090	CA. SURESH BABU R, ACA	HYDERA- BAD, ACA	01.10.2008
326.	205290	CA. SATHISH V, ACA	PUNE	01.10.2008
327.	205868	CA. PRAKASH CHAND, FCA	UDAIPUR	01.10.2008

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date	S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
328.	208338	CA. PRABHA-KARAN C, ACA	CHENNAI	01.10.2008	345.	400627	CA AMIT BAJAJ, FCA	GHAZIA-BAD	01.10.2008
329.	211399	CA. JAYAKRISHNAN K, ACA	NOIDA	01.10.2004	346.	400630	CA. LUTHRA AMARDEEP SINGH, ACA	NOIDA	01.10.2008
330.	212148	CA. VENKATA SATYANARAYANA, JAGU ACA	CHENNAI	01.10.2008	347.	400645	SAXENA SHOBHIT, ACA	BHOPAL	01.10.2006
331.	216721	CA. GOPALA KRISHNA SAKAMURI, ACA	HYDERABAD	01.10.2007	348.	400726	CA. MITTAL PANKAJ, ACA	KOTA	01.10.2008
332.	400005	CA DE KAUSHIK, ACA	BHILAI	01.10.2008	349.	400764	CA. JAGETIYA RAM SAHAY, ACA	BHILWARA	22.12.2003
333.	400040	CA. BUGALIYA DEVENDRA, ACA	JAIPUR	01.10.2008	350.	400775	CA. SHRIVASTAVA ROHIT, ACA	GURGAON	01.10.2007
334.	400154	CA. BOHRA NITIN, ACA	SOJAT CITY	01.10.2008	351.	400790	CA. SOMANI SUSHEEL KUMAR, ACA	MUMBAI	01.10.2008
335.	400168	CA. KANHAIYA LAL SHARMA, FCA	JAIPUR	01.10.2008	352.	400795	CA. JAIN ARINJAY KUMAR, ACA	GURGAON	01.10.2006
336.	400182	CA. SINGH PRITHVI RAJ, ACA	GURGAON	01.10.2007	353.	400818	CA. GUPTA ASHISH KUMAR, ACA	BUNDI	22.12.2003
337.	400200	CA. GUPTA RASHMI, ACA	NEW DELHI	01.10.2008	354.	400898	CA. KHATRI SAMIR, ACA	NOIDA	01.10.2007
338.	400255	CA. AJAYAN-GSHU BANERJEE, FCA	RANCHI	01.10.2008	355.	401001	CA. MALANI ASHISH, ACA	INDORE	01.10.2007
339.	400377	CA. AJMERA DHEERAJ, ACA	JAIPUR	01.10.2007	356.	401021	CA. VASEEM ABBAS, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
340.	400410	CA. GUPTA JUGGI LAL, ACA	VALSAD	22.12.2003	357.	401025	CA. SINGH SAMPAT, ACA	JAIPUR	01.10.2008
341.	400428	CA ANWARUL HABIB, FCA	KANPUR	01.10.2008	358.	401056	CA. AGARWAL RISHI, ACA	MUMBAI	01.10.2007
342.	400456	CA. MISRA SUMAN, ACA	KANPUR	01.10.2008	359.	401091	CA JAIN JAYESH, ACA	JODHPUR	01.10.2007
343.	400463	CA MANISH SAHAI, ACA	NEW DELHI	01.10.2008	360.	401098	CA. RAKESH KUMAR JAIN, FCA	INDORE	01.10.2008
344.	400573	CA. KANDOI KAMAL, ACA	GURGAON	01.10.2007	361.	401123	CA. MAHESHWARI AMIT, ACA	JAIPUR	01.10.2008
					362.	401140	CA. ARORA ROHIT, ACA	KANPUR	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
363.	401169	CA. PIYUSH MITTAL, FCA	BHARAT-PUR	01.10.2008
364.	401176	CA. VERMA PIYUSH, ACA	MUMBAI	01.10.2008
365.	401238	CA. SAHA ANURAG, ACA	GHAZIA-BAD	01.10.2008
366.	401242	CA. SOMANI VINOD, ACA	JAIPUR	01.10.2007
367.	401256	CA. JINDAL ANOOTOSH, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
368.	401258	CA. GOEL ROHIT KUMAR, ACA	GURGAON	01.10.2008
369.	401310	CA ALOK HOLANI, FCA	UJJAIN	01.10.2008
370.	401311	CA. MASSEY AROHAN, ACA	MUZAFF-ARNAGAR	01.10.2008
371.	401318	CA JAIN PRAFUL, ACA	BANGA-LORE	01.10.2008
372.	401337	CA. SADANA MUNISH, ACA	DEHRA-DUN	01.10.2008
373.	401342	CA. AGARWAL MANISH KUMAR, ACA	DHANBAD	01.10.2008
374.	401353	CA. SHRIVASTAVA, PRABAL, ACA	BHOPAL	01.10.2008
375.	401423	CA. RAGHU-VANSHI DIVYA, ACA	BHOPAL	01.10.2007
376.	401455	CA. PANDIT SUSHEEL, ACA	HYDERA-BAD	01.10.2008
377.	401490	CA. CHOWDHARY SHIV PRAKASH, ACA	BHILWARA	01.10.2008
378.	401493	CA. AGARWAL UPENDRA KUMAR, ACA	BOKARO	01.10.2008
379.	401502	CA. GUPTA SAJAL, ACA	GHAZIA-BAD	01.10.2007

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
380.	401515	CA NAVIN KUMAR JAIN, FCA	GHAZAI-BAD	01-10-2008
381.	401529	CA. TALEJA AMIT, ACA	BANGA-LORE	01.10.2008
382.	401571	CA. JHUNJHUN-HARI-WALA MUKESH NAGAR KUMAR, ACA		01.10.2007
383.	401611	CA. SAKLECHA PRAVIN KUMAR, ACA	INDORE	01.10.2007
384.	401712	CA. CHOUDHURY ADITI, ACA	GURGAON	01.10.2007
385.	401801	CA. GAGAN-DEEP SINGH, FCA	DEHRA-DUN	01.10.2008
386.	401816	CA. HARSHAD KUMAR SHAH, FCA	VARANASI	01.10.2008
387.	401884	CA. SUNIL SRIVASTAVA, ACA	SHIKOHA-BAD	01.10.2007
388.	401910	CA. KAMRA RAJIV, ACA	UDAIPUR	01.10.2004
389.	401930	CA. CHATURVEDI MOHIT N, ACA	THANE	01.10.2007
390.	401932	CA. MAJUMDAR RAHUL, ACA	UDAIPUR	01.10.2005
391.	401990	CA. NACHRANI MAHESH, ACA	RAIPUR	01.10.2006
392.	402001	CA. SONTALIA KIRON, ACA	JAIPUR	01.10.2008
393.	402002	CA. RAWAT PRAHALAD DAS, ACA	KORBA	01.10.2007
394.	402014	CA. SHARMA ASHISH, ACA	ALWAR	01.10.2008
395.	402062	CA. SHAW DEEPAK KUMAR, ACA	MUMBAI	01.10.2006

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
396.	402100	CA. GUPTA ASHISH, ACA	JAIPUR	01.10.2006	414.	402449	CA. PUNDBHIR ABHISHEK SINGH, ACA	JAIPUR	01.10.2005
397.	402102	CA. KHANDEL- WAL SHILPI, ACA	ALWAR	01.10.2008	415.	402471	CA. SINGHAL MAYURI, ACA	BHARAT- PUR	01.10.2008
398.	402181	CA. PRAJAPATI DINESH KUMAR, ACA	HARDWAR	01.10.2008	416.	402518	CA. GARG SAURABH KUMAR, ACA	GURGAON	01.10.2008
399.	402224	CA. MITTAL MAHESH, ACA	KOTA	01.10.2008	417.	402570	CA HIMANSHU MITTAL, FCA	MEERUT	01.10.2008
400.	402241	CA PIPADA TRISHLA, ACA	INDORE	01.10.2004	418.	402604	CA. BHOI SUNIL KUMAR, ACA	RAIPUR	01.10.2008
401.	402245	CA. BOTHRA RAJESH, ACA	BIKANER	01.10.2007	419.	402606	CA. DANGA- YACH NAVEEN, ACA	JAIPUR	01.10.2007
402.	402256	CA. JAIN PRAVEENA, ACA	JODHPUR	01.10.2007	420.	402615	CA. HIRAWAT GAURAV, ACA	JAIPUR	01.10.2008
403.	402271	CA. GUPTA PARESH, ACA	JAIPUR	01.10.2008	421.	402657	CA. AGARWAL OM PRAKASH, ACA	JAIPUR	01.10.2008
404.	402289	CA. JAIN MANISH, ACA	MUMBAI	01.10.2007	422.	402672	CA BERDIA BHUPENDRA, ACA	BANGA- LORE	01.10.2008
405.	402318	CA. MAHESH- WARI, VIKAS KUMAR, ACA	KEKRI	01.10.2008	423.	402726	CA. RATHI ASHOK KUMAR, ACA	DELHI	01.10.2008
406.	402338	CA. SHRIVAST- AVA DIGVIJAY DARSHAN, ACA	INDORE	01.10.2008	424.	402825	CA. SAXENA SUNIL KUMAR, ACA	DHOLPUR	01.10.2008
407.	402341	CA. AGARWAL YOGESH, ACA	GURGAON	01.10.2008	425.	402839	CA. DADHICH ASHISH, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
408.	402396	CA. MALHO- TRA MONICA, ACA	JAIPUR	01.10.2008	426.	402846	CA. MAHESH- WARI JAI KISHAN, ACA	JAMNA- GAR	01.10.2004
409.	402401	CA. KHATRI PANKAJ, ACA	NAGAU	01.10.2007	427.	402866	CA. HABLANI SUSHIL, ACA	INDORE	01.10.2008
410.	402406	CA. NIKHIL AGARWAL, ACA	INDORE	01.10.2007	428.	402912	CA. SETHIA VIKAS, ACA	MUMBAI	01.10.2008
411.	402426	CA. PANDEY BRIJESH, ACA	DELHI	01.10.2008	429.	402930	CA. AGARWAL NAMAN, ACA	LUCKNOW	01.10.2007
412.	402429	CA. SHRIYA SANJEEV, ACA	KANPUR	01.10.2008	430.	403083	CA BADJATYA SURENDRA, ACA	INDORE	01.10.2008
413.	402448	CA. JAIN VAJBHAV, ACA	JAIPUR	01.10.2006					

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
431.	403122	CA. PALASIYA KUTUBUDDIN, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
432.	403140	CA SHRIMAL SHARAD, ACA	THANE	01.10.2007
433.	403178	CA GAUTAM MANISH, ACA	JAIPUR	01.10.2007
434.	403182	CA SHAH MOSAM, FCA	BARNAG- AR	01.10.2008
435.	403184	CA GANDHI DEEPAK, ACA	BHILWARA	01.10.2007
436.	403190	CA HARIALKA VIKASH KUMAR, ACA	LADNUN	01.10.2007
437.	403195	CA SHARMA OM PRAKASH, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
438.	403198	CA JARKHANDI RAHUL ANAND, ACA	VARANSI	01.10.2008
439.	403227	CA SHWETA MANDOWARA, ACA	UDAIPUR	01.10.2007
440.	403263	CA PATIDAR BHIMRAJ, FCA	DHAR	01.10.2008
441.	403316	CA MASAND RITESH, ACA	LUCKNOW	01.10.2007
442.	403330	CA PALSANIA VIKAS, FCA	RAIPUR	01.10.2008
443.	403337	CA JAIRATH VARUN, ACA	NOIDA	01.10.2008
444.	403340	CA PUNIA VINOD, ACA	HOSHIAR- PUR	01.10.2008
445.	403378	CA JAIN MUKUL, ACA	JAIPUR	01.10.2005
446.	403387	CA SHARMA AMIT, ACA	BHILWARA	01.10.2007
447.	403408	CA AGARWAL ASHUTOSH, ACA	RISHIKESH	01.10.2008
448.	403416	CA BADLANI DILIP KUMAR, ACA	GORAKHP- UR	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
449.	403427	CA MANGLANI ANIL, ACA	KANPUR	01.10.2008
450.	403444	CA YADAV DISHA, ACA	JAIPUR	01.10.2008
451.	403462	CA MAHESHW- ARI RAMESH, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
452.	403468	CA JAIN ABHINESH, ACA	BANGALO- RE	01.10.2008
453.	403505	CA KHURANA ANTRIKSHA, ACA	JAIPUR	01.10.2008
454.	403553	CA VIJAY SHARMA, ACA	RATLAM	01.10.2008
455.	403622	CA SAXENA ASHISH KUMAR, ACA	ALIGARH	01.10.2008
456.	403628	CA JAIN PRAVEEN, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
457.	403643	CA PANDEY ADYA KUMAR, ACA	KANPUR	01.10.2008
458.	403670	CA AGRAWAL AMIT, ACA	KUMARD- HUBI	01.10.2008
459.	403722	CA PIYUSH KUMAR, ACA	ALLAHA- BAD	01.10.2008
460.	403752	CA MISHRA ANSHUMAN, ACA	PUNE	01.10.2007
461.	403756	CA SAMAR ANIL, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
462.	403810	CA PARASHAR RAHUL, ACA	VARANSI	01.10.2007
463.	403816	CA ARORA GAUTAM, ACA	INDORE	01.10.2008
464.	403833	CA ARORA ANUJ, ACA	AGRA	01.10.2008
465.	403840	CA SHARMA MANISH KUMAR, ACA	JAIPUR	01.10.2008
466.	403841	CA GOYAL MUKESH, ACA	JAIPUR	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
467.	403882	CA BHANDARI ABHISHEK, ACA	JODHPUR	01.10.2008	485.	404254	CA. NISHANT AGARWAL, ACA	BANSWARA	01.10.2008
468.	403888	CA CHANDAK NIRMAL, ACA	JODHPUR	01.10.2008	486.	404263	CA. VISHAL MANGAL, ACA	JAIPUR	01.10.2007
469.	403903	CA JAIN RAKESH KUMAR, ACA	JAIPUR	01.10.2007	487.	404264	CA. MANCHAN-DA NIDHI, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
470.	403926	CA JAIN MANISH KUMAR, ACA	MUMBAI	01.10.2006	488.	404278	CA. JADHAO VIJAY KUMAR, ACA	RAIPUR	01.10.2008
471.	403989	CA AGARWAL RUCHIT, ACA	AGRA	01.10.2008	489.	404294	CA. GUPTA NITIN, ACA	SAHIBAB-AD	01.10.2007
472.	404005	CA MAHESH CHAND, ACA	ALWAR	01.10.2008	490.	404302	CA. MANERIK-AR ADITI MADHAV, ACA	GURGAON	01.10.2008
473.	404022	CA AGARWAL RADHA KISHAN, ACA	JAIPUR	01.10.2007	491.	404317	CA. KHANDEL-WAL RAHUL, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
474.	404049	CA PATEL GYANENDRA KUMAR, ACA	NAVI MUMBAI	01.10.2007	492.	404334	CA. WAGH SANTOSH, ACA	INDORE	01.10.2005
475.	404069	CA. CHODHARY AKHILESH, ACA	INDORE	01.10.2006	493.	404392	CA. GUPTA ABHISHEK, ACA	JAIPUR	01.10.2008
476.	404142	CA. JAIN PAYAL, ACA	JODHPUR	01.10.2008	494.	404397	CA. BANSAL ANIL, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
477.	404145	CA. BUDHIYA SAKET, ACA	KORBA	01.10.2008	495.	404627	CA. GOYAL NAVEEN, ACA	JAIPUR	01.10.2008
478.	404149	CA. JINDAL MUKUL KUMAR, ACA	HAPUR	01.10.2008	496.	404665	CA. RAJEEV KUMAR TIWARY, ACA	DELHI	01.10.2008
479.	404155	CA. SINGH VINEETA, ACA	GHAZIAB-AD	01.10.2008	497.	404696	CA. AGRAWAL PANKAJ, ACA	MUMBAI	01.10.2007
480.	404175	CA. GADIA SULBHA, ACA	RATLAM	01.10.2008	498.	404736	CA. DEEPAK BHATIA, ACA	INDORE	01.10.2008
481.	404204	CA. KHUTETA SURABHI, ACA	JAIPUR	01.10.2007	499.	404750	CA. AGRAWAL AMIT, ACA	GHAZIA-BAD	01.10.2008
482.	404208	CA. JAIN ABHISHEK, ACA	PATNA	01.10.2008	500.	404753	CA. NAGAR RANI, ACA	GHAZIA-BAD	01.10.2007
483.	404224	CA. KASLIWAL SOURABH, ACA	UJJAIN	01.10.2006	501.	404757	CA. JAIN PRAVEEN, ACA	KISHAN-GARH	01.10.2008
484.	404226	CA. SARDA NIRMAL KUMAR, ACA	BIKANER	01.10.2008	502.	404763	CA. AJMERA SACHIN, ACA	JAIPUR	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
503.	404780	CA. VIJAY ANKITA, ACA	AJMER	01.10.2007	521.	405364	CA. GOPAL NAWANDHAR, ACA	JODHPUR	01.10.2008
504.	404831	CA. MANOJ HABLANI, ACA	INDORE	01.10.2007	522.	405399	CA. SANJAY KUMAR SHARMA, ACA	JAIPUR	01.10.2007
505.	404836	CA. JAIN LALIT, ACA	NEW DELHI	01.10.2007	523.	405405	CA. JATIN VIJAY VERGIYA, ACA	MUMBAI	01.10.2008
506.	404866	CA. SARDA SAURABH, ACA	MUMBAI	01.10.2008	524.	405423	CA. GAURAV LUNAWAT, ACA	RATLAM	01.10.2008
507.	404890	CA. NIDHI MANISH RATHI, ACA	DEWAS	01.10.2008	525.	405438	CA. MANISH GARG, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
508.	404915	CA. JAGETIA SONAL, ACA	INDORE	01.10.2006	526.	405439	CA. UMAKANT, ACA	SRIGANGA-NAGAR	01.10.2007
509.	404917	CA. SHAH HIMANSHU, ACA	MUMBAI	01.10.2008	527.	405447	CA. RAVIN KAKKAR, ACA	ALLAHA-BAD	01.10.2008
510.	404929	CA. SUDAN JASVINDER SINGH, ACA	DEHRA-DUN	01.10.2008	528.	405452	CA. SUCHITA P MITTAL, ACA	MUMBAI	01.10.2008
511.	404992	CA. SINGH GYANESH PRATAP, ACA	THANE	01.10.2006	529.	405459	CA. PAWAN KUMAR BANG, ACA	JAIPUR	01.10.2008
512.	404999	CA. KHUSHBU SURIYA, ACA	BHILWARA	01.10.2008	530.	405463	CA. MANOJ KUMAR TOTLA, ACA	JAIPUR	01.10.2007
513.	405013	CA. JAIN SAURABH, ACA	KOTA	01.10.2008	531.	405468	CA. KISHORE HABLANI, ACA	INDORE	01.10.2007
514.	405027	CA. BAPNA VIRENDRA SINGH, ACA	MUMBAI	01.10.2008	532.	405505	CA. SUDHAN-SHU GOYAL, ACA	AJMER	01.10.2008
515.	405080	CA. BABEL JITESH, ACA	NEW DELHI	01.10.2008	533.	405506	CA. VIBHA CHOUDHARY, ACA	BHILWARA	01.10.2008
516.	405093	CA. JAIN SAKSHI, ACA	NEW DELHI	01.10.2008	534.	405514	CA. SANDESH RATHI, ACA	GULAB-PURA	01.10.2006
517.	405115	CA. RASTOGI RAJAT, ACA	RANCHI	01.10.2008	535.	405572	CA. ANOOP VERMA, ACA	INDORE	01.10.2008
518.	405230	CA. HAIDER ARQUAM, ACA	ABU DHABI	01.10.2008	536.	405698	CA. SACHCHI-DANAND PACHORI, ACA	BHOPAL	01.10.2008
519.	405350	CA. SANJAY SINGH BAGHEL, ACA	KANPUR	01.10.2008	537.	405734	CA. AKSHAT KAPOOR, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
520.	405351	CA. MEENU BHADAORIYA, ACA	KANPUR	01.10.2008					

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
538.	405778	CA. SANJAY LALWANI, ACA	BHOPAL	01.10.2008
539.	405781	CA. VARUN SINGHI, ACA	PUNE	01.10.2008
540.	405818	CA. PIYUSH AGRAWAL, ACA	NEEMUCH	01.10.2008
541.	405830	CA. ASHISH KUMAR KHAND-ELWAL, ACA	MUMBAI	01.10.2008
542.	405850	CA. VIVEK DARGAR, ACA	MUMBAI	01.10.2008
543.	405905	CA. PARMA-NAND JAISWAL, PUR ACA	GORAKH-PUR	01.10.2008
544.	405941	CA. DIVPREET KAUR, ACA	SAHARAN-PUR	01.10.2008
545.	405962	CA. NITESH KALANTARI, ACA	CHITTOR-GARH	01.10.2008
546.	406003	CA. PRAVEEN UPADHYAY, ACA	THANE	01.10.2008
547.	406028	CA. RAKESH KUMAR SINGH, ACA	VARANSI	01.10.2008
548.	406041	CA. MOHIT KHANDLWAL, ACA	MUMBAI	01.10.2008
549.	406046	CA. ALOK GUPTA, ACA	INDORE	01.10.2008
550.	406054	CA. SHILPA JAITHALAYA, ACA	INDORE	01.10.2008
551.	406115	CA. ABHINAV SINGHAL, ACA	JAIPUR	01.10.2008
552.	406143	CA. LALIT JAIN, ACA	MUMBAI	01.10.2008
553.	406154	CA. JINESH AGARWAL, ACA	DELHI	01.10.2008
554.	406191	CA. CHITWAN KEJRIWAL, ACA	KANPUR	01.10.2006
555.	406193	CA. SUNITA AGARWAL, ACA NESHWAR	BHUBHA-	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
556.	406199	CA. PARIKSHIT SINGH BHATI, ACA	MUMBAI	01.10.2006
557.	406228	CA. TARUN GARG, ACA	MEERUT	01.10.2008
558.	406345	CA. ADITYA KEDIA, ACA	HANUMAN GARH TOWN	01.10.2008
559.	406365	CA. SUMANTA ROY, ACA	KOLKATA	01.10.2007
560.	406373	CA. RAJ KUMAR GUPTA, ACA	MAU	01.10.2008
561.	406412	CA. RAVI RANJAN, ACA	PATNA	01.10.2008
562.	406424	CA. PARAG AGARWAL, ACA	MEERUT	01.10.2008
563.	406427	CA. SHIKHA SARAF, ACA	MUMBAI	01.10.2008
564.	406439	CA. ASHISH SHARMA, ACA	JAIPUR	01.10.2007
565.	406450	CA. MITESH-WAR MAHAJAN, ACA	JAIPUR	01.10.2007
566.	406472	CA. MANISH GUGLIYA, ACA	RATLAM	01.10.2008
567.	406475	CA. LALIT KUMAR JAIN, ACA	DEI	01.10.2008
568.	406527	CA. MANISH ARORA, ACA	PALI MARWAR	01.10.2008
569.	406609	CA. ASHUTOSH BAGADIA, ACA	JAIPUR	01.10.2008
570.	406611	CA. SAKET SOMANI, ACA	HYDERA-BAD	01.10.2008
571.	406670	CA. YOGESH KUMAR AGARWAL, ACA	JAIPUR	01.10.2008
572.	406686	CA. SANDEEP D PUROHIT, ACA	NEW DELHI	01.10.2007
573.	406742	CA. SHIPRA LODHA, ACA	MUMBAI	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
574.	406833	CA. VIMAL HIRWANI, ACA	KOTA	01.10.2008
575.	406860	CA. GAGAN CHAWLA, ACA	LUCKNOW	01.10.2008
576.	406897	CA. RAMJI THAKUR, ACA	JHANSI	01.10.2008
577.	406900	CA. SHEELU JAIN, ACA	JAIPUR	01.10.2008
578.	406920	CA. MANISH MOTWANI, ACA	JAIPUR	01.10.2008
579.	406933	CA. RAHUL MARWAL, ACA	MODI- NAGAR	01.10.2008
580.	406949	CA. NAGENDRA BIJARNIYA, ACA	JAIPUR	01.10.2008
581.	406971	CA. DILIP KUMAR (ORISSA) AGRAWAL, ACA	DEOGARH	01.10.2008
582.	407003	CA. CHETAN CHANDRA MOHAN VAIDYA, ACA	JABALPUR	01.10.2008
583.	407010	CA. BAKUL GOYAL, ACA	AGRA	01.10.2008
584.	407026	CA. SANJAY KAPDI, ACA	BHOPAL	01.10.2007
585.	407056	CA. ADITI GULATI, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
586.	407074	CA. MOHD. HASAN ZAIDI, ACA	LUCKNOW	01.10.2007
587.	407098	CA. MAHESH JAISALMERIA ACA	AHMED- ABAD	01.10.2007
588.	407115	CA. ANIL RAGHUVANSHI, ACA	KHAR- GONE	01.10.2008
589.	407152	CA. DHIREN- DRA TYAGI, ACA	GHAZIA- BAD	01.10.2008
590.	407153	CA. VISHAL VIJAY, ACA	MANGA- LORE	01.10.2007

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
591.	407167	CA. HIMANSHU KHANDELWAL, ACA	MUMBAI	01.10.2007
592.	407172	CA. GOPAL KRISHAN MUNDRA, ACA	JAIPUR	01.10.2007
593.	407173	CA. DHEERAJ VIJAY, ACA	JAIPUR	01.10.2008
594.	407178	CA. AKHIL KUMAR GUPTA, ACA	GURGAON	01.10.2008
595.	407190	CA. HARSH KUMAR SACHDEVA, ACA	ALLAH- ABAD	01.10.2008
596.	407200	CA. POONAM AGRAWAL, ACA	AGRA	01.10.2008
597.	407215	CA. SWETA JAISWAL, ACA	RANCHI	01.10.2008
598.	407256	CA. VISHWA- JEET KUMAR THAKUR, ACA	DELHI	01.10.2007
599.	407271	CA. SONAM BAHETI, ACA	INDORE	01.10.2008
600.	407296	CA. PRASHANT PARIMAL, ACA	LUCKNOW	01.10.2007
601.	407305	CA. ABHILASHA JAIN, ACA	BHILWARA	01.10.2008
602.	407312	CA. VAIBHAV BHAGAT, ACA	KANPUR	01.10.2008
603.	407317	CA. GAURAV JAIN, ACA	NEW DELHI	01.10.2007
604.	407346	CA. PREETI PATWA, ACA	INDORE	01.10.2008
605.	407409	CA. VISHRANT SHUKLA, ACA	LUCKNOW	01.10.2008
606.	407411	CA. AMIT SONI, ACA	INDORE	01.10.2008
607.	407427	CA. RUCHI JAIN, ACA	JHANSI	01.10.2008
608.	407438	CA. NEVEEN SINGHVI, ACA	MERTA CITY	01.10.2007

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
609.	407441	CA. BHUPEN- DRA KUMAR GUPTA, ACA	JAIPUR	01.10.2008	627.	408224	CA. MANISHA GUPTA, ACA	RANCHI	01.10.2008
610.	407537	CA. DHARM- KRITI JAIN, ACA	BHILWARA	01.10.2008	628.	408235	CA. MANISH AGRAWAL, ACA	JAIPUR	01.10.2008
611.	407581	CA. DWARKA PRASAD PRAJAPATI, ACA	AJMER	01.10.2007	629.	408244	CA. CHANDRE- SH SAYANI, ACA	JABALPUR	01.10.2008
612.	407731	CA. ASHUTOSH BAJAJ, ACA	DEHRA- DUN	01.10.2008	630.	408250	CA. PRABUD- DHA NARAYAN TRIPATHI, ACA	AMBIKA- PUR	01.10.2008
613.	407757	CA. RUCHI BAPNA, ACA	UDAIPUR	01.10.2008	631.	408258	CA. KAMLESH MUROTIYA, ACA	CHITTOR- GARH	01.10.2008
614.	407760	CA. ABHINAV MEHROTRA, ACA	ALLAH- ABAD	01.10.2008	632.	408285	CA. KRISHAN KUMAR, ACA	JAIPUR	01.10.2008
615.	407771	CA. VINOD LUDHANI, ACA	KANPUR	01.10.2008	633.	408304	CA. PRITPAL SINGH VILKHU, ACA	JAMSHIED- PUR	01.10.2008
616.	407794	CA. ABHISHEK SAXENA, ACA	NEW DELHI	01.10.2007	634.	408373	CA. NITESH JAIN, ACA	JAIPUR	01.10.2008
617.	407821	CA. MAMTA JAIN, ACA	BALAGHAT	01.10.2008	635.	408374	CA. PUJA JAIN, ACA	JAIPUR	01.10.2008
618.	407867	CA. SUSHANT KUMAR, ACA	PATNA	01.10.2008	636.	408398	CA. AMENDRA SINGHVI, ACA	JODHPUR	01.10.2008
619.	407878	CA. PUNEET KUMAR BAJORIA, ACA	CHURU	01.10.2008	637.	408400	CA. RISHI TIWARI, ACA	LUCKNOW	01.10.2008
620.	407887	CA. NIMESH KUMAR SARASWAT, ACA	KASHIPUR	01.10.2008	638.	408422	CA. PRATIMA SHARDA, ACA	BARMER	01.10.2008
621.	407937	CA. SANJAY AGRAWAL, ACA	MATHURA	01.10.2008	639.	408423	CA. MAHESH KUMAR GOYAL, ACA	JAIPUR	01.10.2008
622.	407944	CA. NUTAN BHARTI, ACA	BANGA- LORE	01.10.2008	640.	408448	CA. YOGESH KUMAR CHATURVEDI, ACA	MATHURA	01.10.2008
623.	408012	CA. HIMANSHU VIJAY, ACA	KOTA	01.10.2008	641.	408546	CA. ASHISH DWIVEDI, ACA	PITHAM- PUR	01.10.2008
624.	408064	CA. ANOOP KUMAR MISHRA, ACA	SITAPUR	01.10.2008	642.	408581	CA. AMIT SAHAI MATHUR, ACA	DEHRA- DUN	01.10.2008
625.	408141	CA. DHEERAJ RANASARIA, ACA	JAIPUR	01.10.2008	643.	408647	CA. AAQUIL SHARAF, ACA	UNNAO	01.10.2008
626.	408199	CA. VISHAL CHHIBBAR, ACA	DEHRA- DUN	01.10.2008	644.	409005	CA. PANKAJ GARG, ACA	ROORKEE	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
645.	500030	CA. RAVNEET KAUR, ACA	DELHI	01.10.2008	663.	502721	CA. ARYA ANAND, ACA	GURGAON	01.10.2004
646.	500092	CA. MADAN ARJUN, ACA	NOIDA	01.10.2008	664.	503254	CA. GUPTA NITIN, ACA	ETAWAH	01.10.2008
647.	500332	CA. KHURANA SAMIR, ACA	BANGA-LORE	01.10.2007	665.	503413	CA. MITTAL MEGHNA, ACA	KOTA	01.10.2008
648.	500471	CA. RAI AVINASH KUMAR, ACA	GHAZIA-BAD	01.10.2006	666.	503454	CA. JAIN VISHAL, ACA	NEW DELHI	01.10.2007
649.	500587	CA. SANJIT KUMAR, ACA	DARBHA-NGA	01.10.2008	667.	504285	CA. KASHYAP MANISH, ACA	JAIPUR	01.10.2008
650.	501035	CA. GOYAL JITENDRA, ACA	BHARAT-PUR	01.10.2007	668.	504761	CA. ASHWANI KUMAR, ACA	HAMIR-PUR	01.10.2008
651.	501150	CA. SAURABH BANSAL, FCA	NEW DELHI	01.10.2008	669.	504845	CA. PANDEY SANJAY KUMAR, ACA	LUCKNOW	01.10.2008
652.	501175	CA. VIJAY KUMAR AGRAWAL, FCA	RAIPUR	01.10.2008	670.	505456	CA. DEWAN NISHANT, ACA	GURGAON	01.10.2007
653.	501207	CA. RAJEEV KUMAR, FCA	HARDWAR	01.10.2008	671.	505625	CA. GYAWALI BIPUL, ACA	DEHRA-DUN	01.10.2008
654.	501299	CA. AJAY KUMAR GUPTA, FCA	ALMORA	01.10.2008	672.	505754	CA. GUPTA RAVI BHUSHAN PRASAD, ACA	PURNIA	01.10.2008
655.	501397	CA. JAIN RAHUL, ACA	JAIPUR	01.10.2007	673.	505804	CA. SINGH YASHASVEE, ACA	SATNA	01.10.2008
656.	501459	CA. SHARMA ARVIND KUMAR, ACA	NOIDA	01.10.2008	674.	506038	CA. TEENA SINGHAL, ACA	DEHRA-DUN	01.10.2007
657.	501495	CA. SHASHI SHANKER, ACA	MADHU-BANI	01.10.2006	675.	506324	CA. NIMISH AGRAWAL, ACA	DELHI	01.10.2008
658.	501632	CA. NIDHI AGGARWAL, FCA	GHAZIA-BAD	01.10.2008	676.	506412	CA. RAVI DAGA, ACA	JODHPUR	01.10.2007
659.	502261	CA. KULDEEP CHAUHAN, FCA	GHAZIA-BAD	01.10.2008	677.	506658	CA. VISHAL JAIN, ACA	DELHI	01.10.2008
660.	502407	CA. GUPTA AMIT, ACA	GHAZIA-BAD	01.10.2007	678.	506771	CA. KAMAL BAHADUR PACHHAL, ACA	SONE-BHADRA	01.10.2007
661.	502646	CA. MUNISH JAIN, FCA	DEHRA-DUN	01.10.2007	679.	507020	CA. SHALABH SINGHAL, ACA	GHAZIA-BAD	01.10.2008
662.	502709	CA. PRASAD PRABHAT KUMAR, ACA	GURGAON	01.10.2006	680.	507671	CA. TARUN KUMAR, ACA	SUGAULI	01.10.2008
					681.	508012	CA. GHAN-SHYAM JHA, ACA	GURGAON	01.10.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
682.	599277	CA. RAJESH KUMAR PANDEY, ACA	PATNA	01.10.2007	686.	510246	CA. HEMANT KUMAR GUPTA, DELHI ACA	NEW	01.10.2008
683.	509298	CA. RITU YADAV, ACA	NOIDA	01.10.2007	687.	510347	CA. ABHISHEKHA MATHUR, ACA	KALYAN	01.10.2008
684.	509798	CA. RITU MADAN, ACA	NOIDA	01.10.2008	688.	510565	CA. SUDHA GUPTA, ACA	MUMBAI	01.10.2008
685.	510029	CA. ANKIT MAHESHWARI, ACA	HATHRAS	01.10.2008	T. KARTHIKEYAN SECRETARY				

3CCA(5) (2)/2008-2009 : With reference to this Institute's Notification Nos. : 3CCA (4) (1) / 2000-2001 dated 02 Feb 2001, 3CCA (4) (1)/2004-2005 dated 27 Nov 2004, 3CCA (4) (1)/2005-2006 dated 07 Nov 2005, 3CCA (4) (1)/2006-07 dated 16 Oct. 2006, 3CCA (4) (1)/2007-2008 dated 30 Oct. 2007, 3CCA (4) (1)/2008-2009 dated 15 Apr 2009, 3CCA (4) (1) /99-2000 dated 12 Jan 2000, 3CCA (4) (2)/2002-2003 dated 29 Nov 2002, 3CCA (4) (5)/97-98 dated 17 Jun 1998. It is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names the names of the following members :-

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
1.	007373	CA. SHRI GOPAL GARG, FCA	JAIPUR	26.05.08	13.	074375	CA. VINOD SINGH FCA	NAVI MUMBAI	24.07.2008
2.	013856	CA. JITENDER KUMAR NAGPAL, ACA	GUR- GAON	06.08.2008	14.	074607	CA. SANDEEP KUMAR FCA	BANGA -LORE	30.04.2008
3.	020611	CA. RAVI SHANKAR K, FCA,	HYDER- RABAD	14.07.2008	15.	074699	CA. BAPNA VINOD KUMAR, ACA	GUR- GAON	27.03.2009
4.	049251	CA. ROONGTA JAGDISH G ACA	DEORIA	11.12.2008	16.	075371	CA. ANIL SAXENA, ACA	MATH- URA	05.01.2009
5.	057353	CA. MUKHOPA- DHYAY ANIRBAN FCA,	NOIDA	07.05.2008	17.	075914	CA. SUNIL CHAND FCA	JAIPUR	14.11.2008
6.	063343	CA. NAVIN KUMAR CHOUBEY, ACA,	BHAGAL- PUR	01.10.2007	18.	077177	CA. MISHRA RAVI FCA	JAIPUR	29.04.2008
7.	071226	CA. ASHOK KUMAR JAIN FCA,	JODHPUR	15.04.2008	19.	077226	CA. DHANUKA MANOJ ACA	INDORE	24.03.2008
8.	071696	CA. MANOJ BAHADUR ACA	MUMBAI	04.07.2008	20.	077822	CA. ROY PRAVEERN ACA	NEW DELHI	30.04.2008
9.	072740	CA. RAJIV SINGHI, ACA,	MHOW	21.04.2008	21.	078269	CA. AGRAWAL AJAY, ACA	BHILAI	14.05.2008
10.	073631	CA. SABOO MANOJ FCA	JAIPUR	18.09.2008	22.	079178	CA. PAWA JEENU ACA	NOIDA	06.05.2008
11.	074006	CA. SHARMA ANIL KUMAR FCA	GHAZIA- BAD	09.06.2008	23.	079799	CA. RATHI MANOJ KUMAR ACA	POKARAN	14.10.2008
12.	074021	CA. JAIN RAJENDRA KUMAR, ACA,	JODHPUR	26.12.2008	24.	082031	CA. AGARWAL SUBASH C FCA	NOIDA	04.07.2008
					25.	083832	CA. SUSHIL KUMAR FCA	DELHI	07.05.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
26.	086753	CA. DALMIA SANDEEP KUMAR FCA	MUMBAI	27.10.2008
27.	110111	CA. RAKESH JAIN ACA	MUMBAI	17.07.2008
28.	401226	CA. SHARMA ABHASH ACA	MUMBAI	31.07.2008
29.	402656	CA. PUNIT VED ACA	INDORE	22.04.2008
30.	402713	CA. JAIN ANKUSH ACA	KOTA	16.04.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
31.	403912	CA. MUNDRA DINESH KUMAR ACA	CHITTOR-13.05.2008 GARH	
32.	404027	CA. BHARTI ROHIT ACA	SAHARAN-06.01.2009 PUR	
33.	405144	CA. TATER SUSHIL ACA	BEAWAR	28.04.2008
34.	406093	CA. SHIPRA TRIVEDI ACA	MUMBAI	01.10.2008

(T. KARTHIKEYAN)
SECRETARY

3CCA(5)(3)/2008-2009 : With reference to this Institute's Notification Nos. : 3 CCA (4) (1)/2006/2007 dated 16 Oct 2006, 3CCA (4) (1)/2007-2008 dated 30th Oct. 2007, 3CCA (4) (1)/2008-2009 dated 15 Apr 2009, It is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names the names of the following members:-

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
1.	011646	CA. LAL KAILASH BHUSHAN, ACA	NOIDA	01.10.2008
2.	055844	CA. SINGH RANJIT KUMAR, FCA	HYDERA- BAD	01.10.2007
3.	060703	CA. BEBORTA SANKET, ACA	MUMBAI	01.10.2005
4.	065573	CA. DEEPAK KUMAR AGRAWAL, ACA	RAXAUL	01.10.2008
5.	072928	CA. KAPOOR DINESH, ACA	NEW DELHI	01.10.1995
6.	072998	CA. GANG VINOD KUMAR, ACA	INDORE	01.10.2008
7.	074652	CA. VERMA RAJESH KUMAR, ACA	GUR- GAON	01.10.2007
8.	075955	CA. GAGGAR DEEN BANDHU, FCA	BHIL- WARA	01.10.2007
9.	078516	CA. AGARWAL SANJAY, FCA	BOKARO STEEL CITY	01.10.2008
10.	079407	CA. NAHATA ROHIT, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
11.	082879	CA. GIRISH CHANDRA BADUNI, ACA	BEAWAR	01.10.1993
12.	091944	CA. AGRAWAL ANAND KUMAR, ACA	DELHI	01.10.2006

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
13.	097670	CA. MAHAJAN RAM, ACA	GUR- GAON	01.10.2008
14.	098531	CA. BANSAL DEEPAK, ACA	BHIWADI	01.10.2007
15.	105109	CA. AGARWAL AMIT RAKESH, ACA	NEW DELHI	01.10.2008
16.	400109	CA. SARDA SANDEEP KUMAR, ACA	JAIPUR	01.10.2006
17.	400312	CA. CHAUDHARY ASHIMA, ACA	GHAZIA- BAD	01.10.2008
18.	400386	CA. MAHESHWARI KALPESH, ACA	JODH- PUR	01.10.2007
19.	401337	CA. SADANA MUNISH, FCA	DEHRA- DUN	01.10.2007
20.	402619	CA. ANAND PATNI, ACA	HARDA	01.10.2007
21.	402742	CA. JAIN KAPIL, ACA	CHENNAI	01.10.2007
22.	402918	CA. GUPTA SUNIL, ACA	ALWAR	01.10.2006
23.	403123	CA. AGRAWAL HARISH SHIVDAS, ACA	MANA- WAR	01.10.2007
24.	403148	CA. CHANDRA CHANDAN, ACA	JAIPUR	01.10.2008
25.	403269	CA. DESHPANDE PANKAJ, ACA	INDORE	01.10.2007

S.No.	MR.N.	Name	Date	S.No.	MR.N.	Name	Date
26.	404154	CA. AGRAWAL RAM KISHAN, ACA	JAIPUR 01.10.2007	35.	407488	CA. AJAY GOYAL, ACA	MUMBAI 01.10.2008
27.	404614	CA. GULATI SUMIT, ACA	LUCK- NOW 01.10.2008	36.	408682	CA. SHRUTI CHITLANGIA, ACA	MUMBAI 01.10.2008
28.	404743	CA. KOOLWAL GAURAV, ACA	JAIPUR 01.10.2005	37.	408690	CA. GAURAV GUPTA, ACA	GUR- GAON 01.10.2008
29.	405662	CA. RAJIT MAHENDRA TILLANI, ACA	RATLAM 01.10.2008	38.	408774	CA. MANOJ KANWAR RATHORE, ACA	JAIPUR 01.10.2008
30.	406093	CA. SHIPRA TRIVEDI, ACA	MUMBAI 01.10.2008	39.	500852	CA. KOHLI PANKAJ, ACA	BIKANER 01.10.2008
31.	406734	CA. PRATEEK SINHA, ACA	MUMBAI 01.10.2007	40.	503877	CA. BALWANT KUMAR, ACA	GHAZIA- BAD 01.10.2008
32.	406823	CA. YOGESH NAGDA, ACA	UDAIPUR 01.10.2007	41.	508843	CA. AMOL AGARWAL, ACA	BANGA- LORE 01.10.2008
33.	407077	CA. ARJUN SINGH ANJNA, ACA	MAND- SOUR 01.10.2008	42.	511299	CA. BINOD KUMAR BHUYAN, ACA	ASKA 01.10.2008
34.	407419	CA. PRASHANT BISEN, ACA	RAIPUR 01.10.2008				


(T. KARTHIKEYAN)
SECRETARY

The 20th December 2009

3CCA(8) (1) /2008-2009 : In pursuance of Clause (iii) of regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
1.	008951	CA. PREM PRAKASH, FCA	INDORE	01.04.2008
2.	015972	CA. AGIWAL SITARAM, ACA	JAMSHED-PUR	03.03.2008
3.	016828	CA. NAGORI NIRANJAN LAL, FCA	CHITTOR-GARH	10.12.2008
4.	025884	CA. ANAND KUMAR DAMANI, FCA	INDORE	01.01.2009
5.	034567	CA. VIJAYVERGIYA KAUSHAL KISHORE, FCA	INDORE	09.03.2009
6.	035392	CA. SHARMA ASHOK KUMAR OMKARMAL, FCA	BHOPAL	12.08.2008
7.	042040	CA. NUWAL DINESH KUMAR, FCA	BHILWARA	01.04.2008
8.	045555	CA. TOSHNIWAL KAILASH CHANDRA, FCA	SATNA	03.03.2008
9.	046702	CA. SWAMINATHAN VARAGUR KRISHNAMUR, ACA	NOIDA	08.05.2008
10.	050108	CA. SHARMA PRABHU DAYAL, FCA	BHILWARA	01.04.2008
11.	059964	CA. AGARWAL BASANT KUMAR, ACA	NOIDA	09.06.2008
12.	064655	CA. AMIT KUMAR AGRAWAL, ACA	RAMGARH	13.06.2008
13.	071104	CA. AGARWAL BASANT KUMAR, FCA	SATNA	22.01.2009
14.	071444	CA. RASTOGI RAKESH KUMAR, FCA	NOIDA	07.07.2008

S.No.	M.R.N.	Name	Place	Date
15.	071457	CA. KHETAWAT VIJAY, FCA	BHOPAL	01.09.2008
16.	071761	CA. AGRAWAL RAJESH, FCA	KANPUR	09.03.2009
17.	072496	CA. JHALA BHAWANI SINGH, FCA	INDORE	09.03.2009
18.	073129	CA. RAJEEV MAWKIN, FCA	KANPUR	01.11.2008
19.	073364	CA. RATHI VIKRAM, FCA	NEW DELHI	16.05.2007
20.	073748	CA. GUPTA SUNJEEV, FCA	MEERUT	04.03.2009
21.	073948	CA. WAHI SUNJAY, FCA	LUCKNOW	31.03.2008
22.	074184	CA. CHHIBBER SHAMMI, ACA	ONTARIO	22.09.2008
23.	074233	CA. MANTRI CHANDER PRAKASH, FCA	BHILWARA	01.04.2008
24.	075446	CA. MODI MUNISH, ACA	JAIPUR	06.03.2009
25.	075481	CA. AGARWAL ANUP KUMAR, FCA	KANPUR	16.08.2008
26.	075705	CA. JHA NAND KUMAR, FCA	BOKARO	13.01.2009
27.	076001	CA. KEDIA SHASHIKANT, FCA	KANPUR	17.03.2009
28.	076185	CA. MUKESH KUMAR BAGRIYA, ACA	INDORE	10.08.2009
29.	076245	CA. AGARWAL SHARAD KUMAR, ACA	KUTCH	06.06.2008
30.	076262	CA. GUPTA AJAY KUMAR, FCA	AGRA	01.07.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
31.	076312	CA. AGARWAL VIPUL, ACA	GURGAON	01.04.2008
32.	076568	CA. MEHTA MANEESH, FCA	INDORE	11.08.2008
33.	076699	CA. SHARAN GOVIND, FCA	NEW DELHI	18.12.2008
34.	077154	CA. TARAFDAR JYOTI RANJAN, FCA	KANPUR	01.07.2008
35.	077171	CA. ANIL KUMAR AGARWAL, FCA	KANPUR	30.09.2008
36.	077253	CA. SHARMA RAJEEV, FCA	AGRA	29.12.2008
37.	077357	CA. SHUKLA SAURABH, FCA	RAIPUR	18.11.2008
38.	077364	CA. AGARWAL SANDEEP KUMAR, ACA	BAREILLY	18.03.2009
39.	077436	CA. AGARWAL MANOJ, ACA	ALWAR	01.03.2009
40.	077515	CA. KHANDEL- WAL DINESH, FCA	JAIPUR	26.10.2008
41.	077641	CA. MAHESH- WARI SUMAN, FCA	AJMER	02.02.2008
42.	077646	CA. GUPTA SUBHASH CHANDRA, FCA	JAIPUR	13.06.2008
43.	077892	CA. DEEPAK KUMAR KEDAWAT, FCA	JAIPUR	01.04.2008
44.	078633	CA. MITTAL RAJESH KUMAR, ACA	GHAZIA- BAD	17.03.2009
45.	078740	CA. GUPTA VIVEK, FCA	JAIPUR	31.03.2008
46.	078775	CA. BAJPAI CHANDRA KISHORE, FCA	BANDA	01.04.2008
47.	078921	CA. AGRAWAL ATUL KUMAR, FCA	ALIGARH	01.03.2009
48.	078951	CA. JINDAL SURBHI SEN, FCA	MEERUT	15.05.2008
49.	079003	CA. SHAH VIKAS, FCA	INDORE	01.06.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
50.	079315	CA. JITENDRA ARORA, FCA	MEERUT	25.08.2008
51.	079429	CA. VIJAY RAJESH, FCA	JAIPUR	30.10.2008
52.	079648	CA. BHOJWANI PRAMOD KUMAR, FCA	BHOPAL	17.06.2008
53.	079813	CA. VISHAL GUPTA, FCA	FARUKKH- ABAD	01.04.2008
54.	079839	CA. ATUL GUPTA, FCA	KANPUR	31.03.2008
55.	085954	CA. AWASTHI KAMAL, FCA	RAE- BARELI	23.06.2008
56.	089113	CA. CHHABRA DEEPAK, FCA	NOIDA	16.01.2009
57.	091180	CA. GOYAL ASHISH, ACA	GHAZIA- BAD	01.04.2008
58.	093264	CA. PUNEET SAIM, FCA	NOIDA	04.03.2009
59.	095579	CA. MAHESH- WARI SANJAY, FCA	GHAZIA- BAD	01.03.2009
60.	098105	CA. BHARDWAJ VINOD, ACA	PATNA	13.08.2008
61.	113259	CA. ASHA GAURAV MAHESHWARI, ACA	JAIPUR	12.09.2008
62.	118667	CA. JAIN PEEYUSH KUMAR, ACA	NAVI MUMBAI	05.10.2008
63.	124101	CA. VINITA CHAUDHARY, ACA	UDAIPUR	19.05.2008
64.	400063	CA. VIJAY PATIDAR, FCA	DHAR	10.01.2009
65.	400065	CA. NAVEEN PARASAR, FCA	GURGAON	04.07.2008
66.	400114	CA. KAPIL JAIN, FCA	INDORE	18.03.2009
67.	400257	CA. GIRDHARI SINGH, ACA	JAIPUR	01.09.2008
68.	400421	CA. SAHDEV ROHIT, ACA	KANPUR	22.09.2008
69.	400434	CA. AMIT RANJAN, FCA	KOLKATA	04.02.2009
70.	400436	CA. JAI BHUSHAN, ACA	LUCKNOW	04.08.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
71.	400450	CA. NIGAM VIVEK, ACA	LUCKNOW	07.07.2008
72.	400461	CA. PRABHU DAYAL AGARWAL, FCA	JAIPUR	01.04.2008
73.	400576	CA. SUNIL KUMAR KANCHHAL, FCA	JAIPUR	01.09.2008
74.	400593	CA. NITIN SETHI, FCA	JAIPUR	31.03.2008
75.	400677	CA. NIRMAL KUMAR AGARWAL, FCA	JAIPUR	02.02.2009
76.	400718	CA. RAJENDRA KUMAR JAIN, FCA	RAIGARH	01.04.2008
77.	400734	CA. JAIN MANISH, ACA	UJJAIN	22.04.2008
78.	400888	CA. SANJEEV KUMAR AGARWAL, FCA	KANPUR	07.10.2008
79.	400941	CA. KAPOOR VIPUL, ACA	NOIDA	07.12.2007
80.	400990	CA. NISHANT GUPTA, FCA	JAIPUR	13.10.2008
81.	401025	CA. SINGH SAMPAT, ACA	JAIPUR	01.04.2008
82.	401183	CA. AMRISH KHANDELWAL, FCA	INDORE	01.04.2008
83.	401273	CA. GORWANI KAVITA, ACA	JAIPUR	01.10.2008
84.	401287	CA. RAJEEV JAIN, FCA	JAIPUR	01.04.2008
85.	401332	CA. AMIT GUPTA, FCA	SINGAPORE	16.12.2008
86.	401450	CA. NAVYA, FCA	NOIDA	01.07.2008
87.	401510	CA. MUNDRA SUNIL KUMAR, ACA	THANE	23.03.2009
88.	401545	CA. MOHD. SHAKIL KHAN, FCA	RAJSAMAND	26.12.2008
89.	401551	CA. ANIL BANSAL, FCA	NOIDA	02.01.2009
90.	401601	CA. ARORA REETESH, ACA	LUCKNOW	31.03.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
91.	401618	CA. RUNGTA JAYA, ACA	DELHI	01.04.2008
92.	401619	CA. AGARWAL BRIJ GOPAL, ACA	LUCKNOW	25.03.2008
93.	401641	CA. ANKUR BANSAL, FCA	AGRA	25.09.2008
94.	401646	CA. MILENDRA KUMAR TIWARI, FCA	JABALPUR	04.05.2008
95.	401678	CA. RAJNEESH GUPTA, FCA	BILASPUR (CHHAT)	12.05.2008
96.	401719	CA. KANSAL ADARSH KUMAR, ACA	MEERUT	11.02.2009
97.	401777	CA. MAHESH-WARI GAURAV, ACA	GHAZIA-BAD	27.04.2008
98.	401847	CA. ANIL KUMAR JAIN, FCA	TONK	26.03.2008
99.	401966	CA. SAXENA MANMOHAN KUMAR, ACA	CHAND-AUSI	26.05.2008
100.	402000	CA. SUMIT BADWANI, FCA	RAIPUR	24.02.2009
101.	402046	CA. RAJGARHIA RACHNA, ACA	RANCHI	01.04.2008
102.	402090	CA. KARUNA BHANSALI, FCA	DELHI	22.06.2008
103.	402093	CA. JASLEEN KAUR BHASIN, FCA	RANCHI	01.03.2009
104.	402126	CA. MUNOT DINESH KUMAR, ACA	PALI	01.12.2008
105.	402150	CA. SAURABH MEHROTRA, FCA	LUCKNOW	16.06.2008
106.	402590	CA. GEHLOT SHWETA, ACA	JODHPUR	31.03.2008
107.	402796	CA. GUPTA VANITA, ACA	JAIPUR	09.03.2009
108.	402818	CA. SHARMA CHANDRA MOHAN, ACA	JAIPUR	15.04.2008
109.	402829	CA. SAXENA DEVRISHI, ACA	JAIPUR	01.02.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
110.	402913	CA. MITTAL PAWAN, ACA	INDORE	21.02.2009	129.	404394	CA. AGRAWAL NARENDRA KUMAR, ACA	JAIPUR	05.09.2008
111.	402961	CA. SONI SANAND KUMAR, ACA	KEKRI	31.03.2008	130.	404430	CA. GARG LOVELESH, ACA	AGRA	27.10.2008
112.	402998	CA. MANGAL ATISH, ACA	MIRA ROAD	28.09.2008	131.	404505	CA. HEMANT AOLE, ACA	CHHIND- WARA	22.08.2008
113.	403059	CA. GUPTA GAURAV KUMAR, ACA	KOTA	03.05.2008	132.	404602	CA. KRISHNANI PRAKASH KUMAR, ACA	JAIPUR	20.12.2008
114.	403121	CA. BHANDARI MANISH, ACA	UDAIPUR	12.03.2008	133.	404712	CA. DEODHAR RAVINDRA, ACA	MUMBAI	01.07.2008
115.	403421	CA. BORDIYA KAMAL KUMAR, ACA	BHILWARA	01.04.2008	134.	404725	CA. SHARMA KAILASH, ACA	JAIPUR	01.05.2008
116.	403462	CA. MAHESH- WARI RAMESH, ACA	UDAIPUR	15.03.2008	135.	404738	CA. KHATER ANKUR, ACA	JAIPUR	01.04.2008
117.	403797	CA. BHANDARI ANIL KUMAR, ACA	BHILWARA	03.07.2008	136.	404765	CA. PANKAJ KUMAR GUPTA, ACA	DEHRA- DUN	02.09.2008
118.	403553	CA. VIJAY SHARMA, ACA	RATLAM	26.03.2008	137.	404900	CA. MANISH JAIN, ACA	ALWAR	01.04.2008
119.	403607	CA. MANISH GUPTA, ACA	KANPUR	16.12.2008	138.	404948	CA. SIDDHARTH SUBHASH SETHI, ACA	DURG	15.03.2008
120.	403894	CA. LATH SHANTANU, ACA	LUCKNOW	01.04.2008	139.	404998	CA. DARDA VINEET, ACA	BHILWARA	02.03.2009
121.	404018	CA. POONAM SIKKA, ACA	KOTA	30.06.2008	140.	405137	CA. NEELAM SHARMA, ACA	UDAIPUR	18.06.2008
122.	404047	CA. AGRAWAL RAMESHWAR PRASAD, ACA	JAIPUR	26.12.2008	141.	405179	CA. MAHESH- WARI PRASHANT, ACA	KANPUR	27.02.2009
123.	404104	CA. MANGRUL- KER SHNTNOO VISHNUPAT, ACA	NAGPUR	06.12.2008	142.	405271	CA. SACHIN GUPTA, ACA	HAPUR	01.04.2008
124.	404119	CA. VAKHARIYA PINKESH KUMAR, ACA	INDORE	05.11.2008	143.	405273	CA. OSTWAL ASHISH, ACA	UDAIPUR	01.01.2009
125.	404175	CA. GADIA SULBHA, ACA	RATLAM	25.03.2008	144.	405323	CA. SHRAWAN GOEL, ACA	RANCHI	01.05.2008
126.	404303	CA. POORNIMA KABRA, ACA	MUMBAI	20.04.2008	145.	405335	CA. DILIP DAS, ACA	GHAZIA- BAD	26.03.2008
127.	404328	CA. HEDA MAHESH KUMAR, ACA	AJMER	20.03.2008	146.	405358	CA. VINEET PATEL, ACA	RAIPUR	30.10.2008
128.	404345	CA. VYAS PARITOSH, ACA	INDORE	01.06.2008	147.	405389	CA. RAJESHWAR TELANG, ACA	GWALIOR	31.12.2008
					148.	405399	CA. SANJAY KUMAR SHARMA, ACA	JAIPUR	23.08.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date	S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
149.	405429	CA. PRAVEEN KUMAR SHARMA, ACA	JODHPUR	15.07.2008	169.	406330	CA. RUPESH SHARMA, ACA	MEERUT	23.01.2009
150.	405467	CA. NIKHIL TANDON, ACA	RUDRA-PUR	01.12.2008	170.	406473	CA. SWAATI SINGH, ACA	JAIPUR	01.04.2008
151.	405535	CA. NIVEDITA PODDAR, ACA	KOTA	10.10.2008	171.	406576	CA. VAIBHAV SHARMA, ACA	JAIPUR	01.05.2008
152.	405745	CA. MUDIT KUMAR AGRAWAL, ACA	VARANASI	13.04.2008	172.	406678	CA. BHAVNA MANGLIK, ACA	KANPUR	01.09.2008
153.	405746	CA. AMIT AGRAWAL, ACA	GWALIOR	01.05.2008	173.	406725	CA. VIVEK BAJPAI, ACA	KANPUR	01.04.2008
154.	405765	CA. VIPIN KUMAR SRIVASTAVA, ACA	LUCKNOW	16.03.2008	174.	406733	CA. MANISH AGARWAL, ACA	KANPUR	28.03.2008
155.	405838	CA. KULDEEP MAHESHWARI, ACA	MUMBAI	10.08.2008	175.	406831	CA. NAMITA JAIN, ACA	JAIPUR	01.04.2008
156.	405857	CA. ROHIT PATERIA, ACA	DELHI	01.08.2008	176.	406904	CA. PRAMOD AGARWAL, ACA	AGRA	26.03.2008
157.	405933	CA. SAMIR AGARWAL, ACA	KANPUR	02.01.2008	177.	407046	CA. ASHISH ANIL GUPTA, ACA	INDORE	21.07.2008
158.	405942	CA. HEMANT KUMAR, ACA	SATNA	20.03.2008	178.	407049	CA. DEEPAK SINGH, ACA	MORADA-BAD	01.04.2008
159.	405976	CA. MOHIT KUMAR, ACA	LUCKNOW	19.01.2008	179.	407061	CA. KULDEEP AGARWAL, ACA	UDAIPUR	01.04.2008
160.	405980	CA. VIPIN KUMAR, ACA	AGRA	13.03.2009	180.	407104	CA. KAPIL BANSAL, ACA	SRIGANGA-NAGAR	17.01.2009
161.	406011	CA. SUDEEP PANT, ACA	LUCKNOW	25.03.2008	181.	407217	CA. ANURADHA JAIN, ACA	JAIPUR	01.10.2008
162.	406021	CA. MANISH GOEL, ACA	BAREILLY	27.11.2008	182.	407258	CA. RACHANA MITTAL, ACA	JAMSHED-PUR	01.03.2008
163.	406060	CA. KAUSHAL-ENDRA PANDEY, ACA	KANPUR	01.12.2008	183.	407284	CA. NAVEEN JAIN, ACA	JAIPUR	01.04.2008
164.	406073	CA. SANJAY KUMAR MUNDHADA, ACA	VARANASI	01.12.2008	184.	407306	CA. SANDEEP KUMAR, ACA	SANGARIA	25.08.2008
165.	406179	CA. SHIV KUMAR GUPTA, ACA	CHOMU	01.04.2008	185.	407356	CA. JUGAL KISHOR, ACA	JAIPUR	25.03.2008
166.	406206	CA. MUKESH KUMAR JAIN, ACA	DURG	02.03.2009	186.	407420	CA. HARISH ARORA, ACA	GURGAON	22.05.2008
167.	406277	CA. SHANTANU MANI SINGH, ACA	MEERUT	11.06.2007	187.	407497	CA. TRIPTI YADAV, ACA	GWALIOR	23.10.2008
168.	406324	CA. VIKAS KUMAR BANSAL, ACA	INDORE	05.01.2009	188.	407502	CA. SAURABH AGARWAL, ACA	KANPUR	01.04.2008
					189.	407552	CA. ABHISHEK SHARMA, ACA	JAIPUR	02.02.2009
					190.	407600	CA. SUMIT KUMAR, ACA	PATNA	20.01.2009

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
191.	407712	CA. SHIKHA PANDEY, ACA	RANCHI	03.09.2008
192.	407745	CA. ASHOK JAIN, ACA	GWALIOR	05.07.2008
193.	408121	CA. ASHU JAIN, ACA	MEERUT	01.04.2008
194.	408175	CA. AHUTOSH SAHU, ACA	ALLAH-ABAD	24.08.2008
195.	408189	CA. MANOJ KUMAR SHARMA, ACA	SIKAR	02.05.2008
196.	408285	CA. KRISHAN KUMAR, ACA	JAIPUR	01.04.2008
197.	408373	CA. NITESH JAIN, ACA	JAIPUR	28.05.2008
198.	408454	CA. AMIT JOSHI, ACA	RANCHI	23.06.2008
199.	408496	CA. SHIKHAR AGARWAL, ACA	NEW DELHI	23.06.2008
200.	408587	CA. NEHA MAHESHWARI, ACA	BHILWARA	19.03.2009
201.	408643	CA. SHRAVAN KUMAR SHARMA, ACA	JAMSHED-PUR	07.07.2008
202.	408712	CA. ISHAN AGARWAL, ACA	MUMBAI	01.04.2008
203.	408716	CA. VIVEK AGARWAL, ACA	NEW DELHI	12.06.2008
204.	408717	CA. SUNIL MAHENDRU, ACA	MEERUT	22.05.2008
205.	408728	CA. ROHAN GUPTA, ACA	ALLAH-ABAD	02.07.2008
206.	408745	CA. AASTHA RANGAN, ACA	RASAL KHAIMAH	01.04.2008
207.	408756	CA. SHANU JAIN, ACA	DEHRA-DUN	25.02.2009
208.	408767	CA. ANTARA PAUL, ACA	RANCHI	14.10.2008
209.	408781	CA. DURGESH KUMAR TIWARI, ACA	KOLKATA	01.04.2008
210.	408787	CA. SANDEEP KUMAR BINDAL, ACA	JAIPUR	13.08.2008
211.	408897	CA. SIDDHARTHA ARORA, ACA	NEW DELHI	08.03.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
212.	408909	CA. KAPIL JAIN, ACA	ROORKEE	21.07.2008
213.	408922	CA. HITESH KUMAR AGARWAL, ACA	AGRA	01.08.2008
214.	409108	CA. PRIYANKA SAMDANI, ACA	BHILWARA	28.07.2008
215.	409125	CA. NITIN MEHROTRA, ACA	MUMBAI	30.06.2008
216.	409146	CA. RAJ KUMAR JAIN, ACA	SWAIMA-DHOPUR	26.12.2008
217.	409187	CA. PAYAL JAIN, ACA	UDAIPUR	01.10.2008
218.	409294	CA. SAURABH AGARWAL, ACA	GURGAON	29.08.2008
219.	409304	CA. JAGRITI MALVIYA, ACA	JABALPUR	09.03.2009
220.	409356	CA. VIKRAM KUMAR, ACA	SHEOGANJ	19.01.2009
221.	409368	CA. SAURABH GUPTA, ACA	LUCKNOW	30.01.2009
222.	409377	CA. DIVYA KIRAN BANSAL, ACA	HARDWAR	05.12.2008
223.	409459	CA. SAWAN GADIA, ACA	NOIDA	02.12.2008
224.	409503	CA. DEEPAK GARG, ACA	MORENA	10.11.2008
225.	409525	CA. VIKASH SHRIVASTAVA, ACA	JABALPUR	10.02.2009
226.	409714	CA. RAVISH KUMAR ARORA, ACA	LUCKNOW	12.01.2009
227.	409743	CA. KUSUM BHARTI, ACA	SAHARAN-PUR	07.02.2009
228.	409872	CA. YOGESH KUMAR VERMA, ACA	MODI NAGAR	01.01.2009
229.	500291	CA. RAJESH KUMAR, ACA	GHAZIA-BAD	11.09.2008
230.	501291	CA. MOHIT MANCHANDA, FCA	KANPUR	16.12.2008
231.	504353	CA. JAIN SANDEEP, ACA	DELHI	03.01.2009
232.	505428	CA. RISHI DEV, ACA	RAIGARH	31.12.2008
233.	507121	CA. SUNITA YADAV, ACA	TIKAM-GARH	29.12.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
234.	507404	CA. RISHI JHA, ACA	NOIDA	01.07.2008
235.	509237	CA. MR. AMIT VERMA, ACA	NAVI-MUMBAI	01.04.2008
236.	509318	CA. ANKUR AGARWAL, ACA	GHAZIA-BAD	01.04.2008
237.	509573	CA. ROHIT KUMAR BHALOTIA, ACA	RAIGARH	29.12.2008
238.	509602	CA. ABHISHEK KUMAR, ACA	RANCHI	17.12.2008

S.No.	MR.N.	Name	Place	Date
239.	510633	CA. D NIRANJAN KUMAR, ACA	DHANBAD	14.08.2008
240.	510707	CA. GAURAV SINGH KHURANA, ACA	DELHI	02.03.2009
241.	511053	CA. SANDEEP KUMAR GARG, ACA	HAPUR	11.11.2008
242.	511609	CA. VISHNU KUMAR, ACA	BHARAT-PUR	28.11.2008

(T. KARTHIKEYAN)
SECRETARY

3CCA(8)/(2) 2008-2009 In pursuance of Regulation 10 (i) (iv) read with Regulation 10 (2)(b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the 01st October 2008, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S.No.	MR.N.	Name	Place
1.	002755	CA SHARMA SHANKER LAL, F.C.A.	MUMBAI
2.	009239	CA OM PRAKASH RUNGTA, FCA	INDORE
3.	010651	CA JAIN SATYENDRA KUMAR, FCA	JABALPUR
4.	011925	CA LADDHA RAM NIWAS, FCA	BHILWARA
5.	020883	CA RAJ KUMAR VV, ACA	JAIPUR
6.	035861	CA NAGORI GAUTAM KUMAR, FCA	INDORE
7.	038846	CAS BELLANI RADHA MANOHAR, FCA	BHOPAL
8.	041334	CA NAREDI RAVI KUMAR, FCA	BHILWARA
9.	041406	MA PODDAR VIVEK, FCA	MUMBAI
10.	043660	CA MEHTA RAKESH, ACA	LUCKNOW
11.	045313	CA GUPTA SEEMA MURARILAL, ACA	ALWAR
12.	050847	CA GARG RAMESH CHANDRA, FCA	KISHANGARH
13.	054145	CA AGRAWAL RAJENDRA, FCA	RAIPUR
14.	054911	CA CHOUDHARY SHRI NARAIN, FCA	HARDWAR
15.	055599	CA RAJ NARAYAN NARONE, FCA	B DEOGHAR

S.No.	MR.N.	Name	Place
16.	056561	CA KHETAN PANKAJ, FCA	GORAKHPUR
17.	057272	CA AGARWAL VIKASH, FCA	RAIPUR
18.	057496	CA SINGH AJIT KUMAR, ACA	BHIWADI
19.	059136	CA SONTHALIA DINESH KUMAR, FCA	REWA
20.	061489	CA MD AKRAMUL HAQUE, ACA	SAMASTIPUR
21.	061798	CA KEDIA ANAND, ACA	PURNIA
22.	063264	MS MASKARA ARCHANA, ACA	BEGUSARAI
23.	065606	CA UTTAM KUMAR BATHWAL, ACA	MADHUPUR
24.	070352	CA GOPAL KRISHNA, NOIDA FCA	
25.	070570	CA. NARENDRA KUMAR JAIN, FCA	UDAIPUR
26.	070949	CA MUDGAL BIMAL KANT, FCA	LUCKNOW
27.	070984	CA GUPTA JITENDRA KUMAR, FCA	GHAZIABAD
28.	071353	CA JYOTI KUMAR JAIN, ACA	NOIDA
29.	071522	CA BAPNA ANIL KUMAR, FCA	JAIPUR
30.	071714	CA MANGAL ASHOK, FCA	BHILWARA
31.	071735	CA UTTAM KUMAR KAPUR,	INDORE

S.No.	MR.N.	Name	Place	S.No.	MR.N.	Name	Place
32.	072247	CA BELLANI MANOHAR FCA	BHOPAL	51.	075231	CA JINDAL JAYANTI LAL, FCA	LUCKNOW
33.	072591	CA AGARWAL SHRI KUMAR, FCA	BAREILLY	52.	075489	CA MOHAMMED MOHSIAN, FCA	MEERUT
34.	072902	CA AGARWAL SHANKER LAL, FCA	BANSWARA	53.	075576	CA JAIN PURAN MAL, ACA,	INDORE
35.	073072	CA AGRWAL SANJIV, FCA	KANPUR	54.	075746	CA KHANDELWAL MUKESH KUMAR, FCA	INDORE
36.	073253	CA PARVEZ AHMAD, ACA	KANPUR	55.	075879	CA UPADHYAYA ASHISH KUMAR, ACA	LUCKNOW
37.	073814	CA RAJESH KUMAR, FCA	PATNA	56.	075978	CA MEHROTRA RAJEEV, ACA	GHAZIABAD
38.	073881	CA RAJESH VOHRA, FCA	HARDWAR	57.	076011	CA GOYAL BRIJESH, ACA	AJMER
39.	073912	CA CHOPDA LALIT KUMAR, FCA	RAIPUR	58.	076114	CA JAIN VIKAS, FCA	GHAZIABAD
40.	073986	CA PHERWANI MAHESH KUMAR, FCA	INDORE	59.	076284	CA. BRAJESH KUMAR, FCA	PATNA
41.	074202	CA GUPTA MAHESH CHAND, FCA	BHARATPUR	60.	076394	CA DUBEY MRIDUL, ACA	LUCKNOW
42.	074259	CA PAMNANI VISHAN KUMAR, ACA	JAIPUR	61.	076415	CA PODDAR KAPIL, ACA	BHARATPUR
43.	074446	CA AGARWAL NEELESH, ACA	NOIDA	62.	076435	CA BAJAJ MANOJ, ACA	JAIPUR
44.	074524	CA NARENDRA KOTHARI, FCA	JODHPUR	63.	076556	CA GUPTA VIJAY KUMAR, ACA	JAIPUR
45.	074530	CA JAIN NARESH KUMAR, ACA	KOTA	64.	076733	CA JHAWAR GOPAL KRISHAN, FCA	BARMER
46.	074697	CA AGARWAL KRISHAN KANT, ACA	SAHIBABAD	65.	076835	CA BHATRA HEMANT KUMAR, FCA	JAIPUR
47.	074833	CA GUPTA MUKESH, FCA	ALWAR	66.	077142	CA SINGH AJAY PRATAP, FCA	KANPUR
48.	074903	CA PANJWANI ANIL, FCA	JAIPUR	67.	077181	CA VERMA PREM NARAYAN, FCA	BHOPAL
49.	074957	CA RAGHUVANSHI SANDEEP, FCA	JAMNAGAR	68.	077327	CA JAIN SANJEEV KUMAR, ACA	DURG
50.	075044	CA TREHAN RAJAN, ACA	GORKHPUR	69.	077487	CA GUPTA SANTOSH KUMAR, FCA	KANPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
70.	077536	CA AGARWAL JITENDRA KUMAR, FCA	BARMER
71.	077564	CA SARIN MAHENDRA, ACA	INDORE
72.	077756	CA NARULA PUNEET, ACA	NOIDA
73.	077765	CA BHARGAVA PIYUSH, FCA	LUCKNOW
74.	077951	CA AGARWAL PRAMOD, FCA	JAIPUR
75.	078072	CA MANOJ KUMAR, FCA	HAZARIBAGH
76.	078077	CA JAIN KAMAL KUMAR, ACA	JAIPUR
77.	078156	CA BOMB BHARAT, FCA	KANKROLI
78.	078342	CA MANDHANYA SUNIL KUMAR, FCA	BHOPAL
79.	078661	CA BOTHRA ASHISH ASHOK KUMAR, ACA	JABALPUR
80.	078695	MS THACKER JASMINA, FCA	JAMSHEDPUR
81.	079037	CA SAKARIAH BOBBY, FCA	RAIPUR
82.	079119	CAMANISHKUMAR NARANIWAL, FCA	BHAWANIMANDI
83.	079222	CA KANSAL SUNIL, ACA	JAIPUR
84.	079244	CA HARISH SAHNI, FCA	MEERUT
85.	079326	CA BHATNAGAR AVNISH, ACA	GHAZIABAD
86.	079384	CA SINGHI AMIT, FCA	BHOPAL
87.	079422	CA BENGANI UMESH KUMAR, ACA	NAGOUR
88.	079652	MS GUPTA SHWETA, ACA	MEERUT

S.No.	MR.N.	Name	Place
89.	079713	CA TYAGI VIKAS, ACA	GHAZIABAD
90.	079878	CA AGARWAL MANISH, ACA	MATHURA
91.	079968	CA PAHUJA BRIJESH, FCA	AGRA
92.	080957	CA MAHESHWARY RAM SWAROOP, FCA	BAREILLY
93.	082974	CA BANSAL VISHNU DATT, FCA	NEW DELHI
94.	085035	CA CHAMAN PRAKASH, FCA	NAINITAL
95.	085223	CA SHIV KUMAR FCA	NOIDA
96.	085859	CA GUPTA UMESH KUMAR, FCA	NAINITAL
97.	085915	CA GURMUKH SINGH, ACA	DELHI
98.	087460	CA KANSAL SUNIL KUMAR, FCA	GHAZIABAD
99.	087808	CA WADEHRA RAJESH, FCA	DELHI
100.	088533	CA GUFRAN AHMED, FCA	AGRA
101.	089246	CA RAJIV KUMAR, FCA	GHAZIABAD
102.	089473	CA AGGARWAL SHIV SHANKER, FCA	DELHI
103.	089900	CA TAPARIA ATUL, ACA	GHAZIABAD
104.	089930	CA VAISH ALOK KUMAR, FCA	LUCKNOW
105.	091784	CA SINGH PREM, PAL, FCA	FIROZABAD
106.	092782	CA BHANSALI VIKRANT, ACA	JAIPUR
107.	093172	CA AGARWAL RAJIV KUMAR, ACA	GHAZIABAD
108.	093815	CA GARG DINESH KUMAR, FCA	BAREILLY

S.No.	MR.N.	Name	Place
109.	094411	CA KOCHHAR PRASHANT, FCA	DEHRADUN
110.	094417	CA MAHESWARI SUNITA, FCA	JAIPUR
111.	095084	CA SOOD ROHIT, ACA	NOIDA
112.	095824	CA VARSHNEY KAUSHAL KISHOR, FCA	MODINAGAR
113.	095913	CA BHATT RAVI KANT, ACA	VARANASI
114.	096204	CA DEEPAK YADAV, FCA	BAREILLY
115.	096233	CA MAHESHWARI SANAJY, FCA	LUCKNOW
116.	096500	CA GOEL GIRISH KUMAR, FCA	NOIDA
117.	096604	CA DHIRENDRA BAHADUR SINGH, ACA	REWA
118.	097388	MS DIVYA, FCA	KASHIPUR
119.	097794	CA AGARWAL PAWAN, ACA	AGRA
120.	098796	CA GUPTA VISHAL, ACA	NOIDA
121.	099820	CA NITIN AGARWAL, ACA	NOIDA
122.	109334	MS SMITA RATHI, ACA	PUNE
123.	110405	CA VIVEK JAIN, FCA	BHILWARA
124.	112430	CA GUNJAN JAIN, ACA	BEAWAR
125.	112704	CA AGAL ANIL, ACA	INDORE
126.	116334	CA VINIT KISHORE, ACA	PATNA
127.	126810	CA GOVIND BANSAL, ACA	BHOPAL
128.	400052	CA GOYAL DEEPAK, ACA	ALWAR

S.No.	MR.N.	Name	Place
129.	400151	CA AMIT KUMAR GUPTA, FCA	MEERUT
130.	400153	CA BANSAL BHARAT, ACA	GHAZIABAD
131.	400165	MS CHAUBEY ROLL, ACA	NEW DELHI
132.	400169	CA VIBHAKAR VINAY, ACA	RANCHI
133.	400249	CA ASHOK KUMAR JINDAL, FCA	JAIPUR
134.	400267	MS MANISHA KOTHARI, ACA	NOIDA
135.	400476	CA GUPTA VARUN, ACA	DEHRADUN
136.	400495	CA GOYAL GAUTAM, ACA	KANPUR
137.	400514	CA ARUN RATNAWAT, FCA	UDAIPUR
138.	400539	CA BIDASARIA ANUPAM, ACA	INDORE
139.	400650	MS MATHUR RICHA, ACA	JAIPUR
140.	400740	CA JAJODIA YASHPAL, ACA	BEAWAR
141.	400929	CA MANISH SARUPRIA, FCA	UDAIPUR
142.	400948	CA GAJENDRA DEO GAUTAM, FCA	ALIGARH
143.	401008	CA GUPTA RAHUL, ACA	DHOLPUR
144.	401076	CA GUPTA BHAVESH, ACA	KANPUR
145.	401330	CA KIRAN CHHAPERWAL, ACA	INDORE
146.	401460	CA BASU AMITABH, ACA	LUCKNOW
147.	401484	CA ANUSHI KAUSHAL, FCA	AGRA
148.	401631	CA LEENIKA SINGH, FCA	KANPUR

S.No.	MR.N.	Name	Place
149.	401658	CA BALMUKUND LADDHA, ACA	UDAIPUR
150.	401723	CA SHAKTI SINGH SHEKHAWAT, FCA	JAIPUR
151.	401737	CA AGRAWAL MANISH KUMAR, ACA	JAIPUR
152.	401881	CA CHANDAK NITESH KUMAR, ACA	NOIDA
153.	401889	CA GUPTA SORABH, ACA	GHAZIABAD
154.	401928	MS AGRAWAL DEEPA, ACA	AGRA
155.	401994	CA KARAM CHANDANI NARENDRA, ACA	JODHPUR
156.	402151	CA RUPESH KUMAR, ACA	JAMSHEDPUR
157.	402206	CA KAMAKSHI SINHA, ACA	JAMSHEDPUR
158.	402220	CA R MOHAN, ACA	GHAZIABAD
159.	402285	MS AGRAWAL GUNJAN, ACA	LUCKNOW
160.	402701	CA BHAMBANI SANDEEP, ACA	AGRA
161.	402779	CA GUPTA HITENDRA KUMAR, ACA	KOTA
162.	402780	MS BHAGAVATULA ANANDA SHALINI, ACA	KATNI
163.	402942	CA DEEPAK KUMAR, ACA	BANDA
164.	402966	CA ARORA SAURABH, ACA	BHOPAL
165.	402989	MS BHARGAVA GUNJAN, ACA	GHAZIABAD
166.	403117	CA SOGANI ANURAG, ACA	INDORE
167.	403194	CA SINGHAI NEERAJ, FCA	BHOPAL
168.	403367	CA JAIN GAURAV, ACA	KOTA

S.No.	MR.N.	Name	Place
169.	403524	CA KOTHARI DILIP, FCA	UDAIPUR
170.	403584	CA TANDON PUNEET, ACA	KANPUR
171.	403654	MS GUPTA ISHA, ACA	KANPUR
172.	403680	CA BRIJESH KUMAR, ACA	PALAMAU
173.	404004	CA ARORA ANIL KUMAR, ACA	JODHPUR
174.	404078	MS MAHESWARI SUNITA, ACA	INDORE
175.	404266	MS SHARMA ACA	JAIPUR
176.	404409	CA LODHA ASHISH, ACA	UDAIPUR
177.	404521	CA SAURABH JAIN, ACA	LUCKNOW
178.	404629	CA PANKAJ AGARWAL, ACA	PATNA
179.	404805	CA VISHAL KUMAR, ACA	CHANDAUSI
180.	404885	CA SAHARAN SUVESH, ACA	JAIPUR
181.	404937	CA GAUR SUDHANSHU, ACA	MEERUT
182.	405037	MS LOHIYA VINITA, ACA	JODHPUR
183.	405076	CA ARREN VAIBHAV, ACA	NOIDA
184.	405392	MS PREETI GAUTAM, ACA	BANGALORE
185.	405445	CA VEDBRAT, ACA	CHHATARPUR
186.	405479	CA ANKITA SHARAD BANSAL, ACA	BANGALORE
187.	405562	CA SUBHAL GARG, ACA	ETAWAH
188.	405592	CA ARUN GUPTA, ACA	BHOPAL

S.No.	MR.N.	Name	Place
189.	405599	CA PRAKASH TARAWAT, ACA	CHITTORGARH
190.	405615	CA SAMARJEET MITRA, ACA	RAIPUR
191.	405689	CA PRAVEEN KANODIA, ACA	UDAIPUR
192.	405768	MS PRIYANKA AGARWAL, ACA	BANGALORE
193.	406025	CA PAYAL GOEL, ACA	GURGOAN
194.	406106	CA AMIT KUMAR JAIN, ACA	JAIPUR
195.	406233	CA ASHISH ANIL, CHATURMOHTA, ACA	BALAGHAT
196.	406312	CA VAMSI KRISHNA SHUDHAKAR DASA, ACA	NOIDA
197.	406534	CA SHRUTI GARG, ACA	KANPUR
198.	406683	CA GOPAL KRISHAN GUPTA, ACA	NOIDA
199.	406971	CA DILIP KUMAR AGARWAL, ACA	DEOGARH(OR)
200.	407198	CA HUZefa ALI RAMPURAWALA, ACA	NEEMUCH
201.	407221	CA SANJEEV KUMAR GUPTA, ACA	KOLKATA
202.	407323	CA PANKAJ KUMAR S RANKA, ACA	UDAIPUR
203.	407358	CA TANISHA BANGAR, ACA	BHILWARA
204.	407477	CA TUSHAR PANDAY, ACA	ALLAHABAD
205.	407604	CA RAJENDRA PRASAD, ACA	MAU
206.	407733	CA NITIN PATODI, ACA	INDORE
207.	407926	CA. ASHISH JAIN, ACA	JAIPUR
208.	407931	CA NITESH RASTOGI, ACA	RISHIKESH

S.No.	MR.N.	Name	Place
209.	407966	CA SUNNY BATHLA, ACA	GAZIABAD
210.	408003	CA VIKRAM DOSHI, ACA	UDIAPUR
211.	408126	CA AMIT KUMAR AGARWAL, ACA	BHILAI
212.	408179	CA RUBY GUPTA, ACA	DHANBAD
213.	408270	CA ANJU SHARMA, ACA	GHAIZABAD
214.	408519	CA WASEEM MEHMOOD KHAN, ACA	BHOPAL
215.	408873	CA SACHIN AGARWAL, ACA	BAREILLY
216.	408921	CA MAHESH MANDOWARA, ACA	MUMBAI
217.	408957	CA PRIYANKA MISHRA, ACA	KANPUR
218.	409011	CA VIJAY KUMAR THAKKAR, ACA	INDORE
219.	502007	CA KOTHARI ANIL KUMAR, ACA	CHARU
220.	502171	CA PRAVEEN KUMAR, ACA	NEW DELHI
221.	503901	CA GAJENDRA KUMAR SINGH, ACA	SAMASTIPUR
222.	504078	CA MD NASIR HUSSAIN, ACA	DARBHANGA
223.	504554	CA MITTAL AMIT MOHAN, ACA	MATHURA
224.	506416	CA KAILASH GOYAL, ACA	BANGALORE
225.	506929	CA VARUN VIRMANI, ACA	GHAZIABAD
226.	507571	CA DHIRENDER SHARMA, ACA	NOIDA
227.	510127	CA SANDEEP BACHHAWAT, ACA	PHALODI
228.	510337	CA SUMIT GAUTAM MISHRA, ACA	GHAZIABAD

(T. KARTHIKEYAN)
SECRETARY

- 3.1.5. adequate civic facilities for essentials like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, etc. in conformity with the norms laid down by the Central/ State PWD;
 - 3.1.6. a library with at least 1000 books, or 100 books in different titles on each subject, whichever is more, of the proposed programmes to include both text books and reference books, besides two journals per subject, along with a book bank facility for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other sections as may be specified by the UGC from time to time;
 - 3.1.7. Necessary laboratory equipments as prescribed by the University/Statutory/Regulatory body concerned, for each of the higher education programmes;
 - 3.1.8. a multi-purpose complex / an auditorium and facilities for sports, canteen, health care, separate common rooms and separate hostels for boys and girls as per the local requirements as decided by the University;
 - 3.1.9. appropriate furniture for lecture/seminar rooms, laboratories, library, faculty rooms, rooms for administrative staff including the Principal, multi-purpose complex / auditorium, common rooms and hostel rooms, and for other facilities;
 - 3.1.10. a duly constituted managing body as specified by the University.
- 3.2. The college, if not run by the State Government,
- 3.2.1. shall be managed by a duly constituted and registered Society or Trust;
 - 3.2.2. shall satisfy the University that adequate financial provision is available for running the college for at least three years without any aid from any external source. In particular, it shall produce evidence of creating and maintaining a Corpus Fund permanently in the name of the college by way of irrevocable Government Securities of Rs. 15 lakh per programme, if the college proposes to conduct programme only in Arts, Science and Commerce, Rs.35 lakh per programme or as prescribed by the relevant Statutory/ Regulatory body, if it proposes to offer professional programmes, or FDRs for like amounts jointly held by the college and the University for a minimum lock in period of three years. The interest accrued out of it may be utilized by the college with the prior permission of the University for strengthening its infrastructure facilities;

3.2.3. shall also provide an undertaking to the University that it has adequate recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

3.3. The Registered Society/ Trust in justified exceptional cases may be allowed to start the college for the first year of the programmes in a readily available building, with the condition that all other academic and administrative requirements are satisfied under the Regulations and the college shall complete the buildings per para 4.4.6 and other requirements cited in the detailed project report by the end of the second year and the college is moved completely to the proposed permanent building by the beginning of the third year, failing which the college shall not be granted renewal of temporary affiliation until the college moves to the permanent buildings. Under no circumstances, extension of time for this movement to the permanent building shall be granted by the University beyond five years.

3.4. The Registered Society/ Trust proposing the college shall execute a bond:

3.4.1. to impart instruction only in the subjects and for the courses/programmes in the faculties for which affiliation has been granted by the University and shall not seek retrospective affiliation. All such courses/programmes shall follow the syllabi approved by the appropriate academic bodies of the University,

3.4.2. to comply with all the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, Rules and Regulations of the University framed in this regard ;

3.4.3. to follow the Rules, Regulations and Guidelines of the Statutory /Regulatory bodies issued from time to time;

3.4.4. to the effect that the number of teaching posts, the qualification of teaching staff and their recruitment/ promotion procedures as prescribed by the UGC and conditions of service shall be in accordance with the Statutes/Ordinance./ Regulations of the University/State Government/ UGC, and shall ensure imparting of adequate instruction to the students in the courses/programmes of studies to be undertaken by the college and that the Student-Teacher Ratio in the college shall be as per the UGC norms;

3.4.5. to the effect that the members of the teaching and non-teaching staff shall be regularly and fully paid in the pay scales along with applicable allowances as per the pay scales prescribed by the UGC/ Central/State Govt., as the case may be, from time to time;

3.4.6. to the effect that appointment of members of the teaching and the non-teaching staff shall be made only on considerations of merit

based on qualifications and experience prescribed for them and not by demanding or accepting any donation or other consideration;

- 3.4.7. to the effect that the college shall obtain the eligibility approval of the appointed teaching staff from the University within three months of affiliation and shall report all changes in the teaching staff and all other changes that may affect the fulfillment of the conditions for affiliation to the University within a fortnight of changes coming into effect.
- 3.4.8. to the effect that all fees to be charged from the students shall be as per the fee structure approved by the University based on the norms of the UGC from time to time;
- 3.4.9. to the effect that the college shall not collect any capitation fee or donation in any form amounting to corrupt practices from or on behalf of any of its students or their parents/guardians except the prescribed fee and other charges as approved by the University based on the norms of the UGC;
- 3.4.10. to the effect that no student shall be admitted to any programme of study by the college in anticipation of grant of affiliation or in excess of the number of seats sanctioned per programme of study by the University;
- 3.4.11. to the effect that the college shall not, without the previous permission of the University, suspend offering an already approved course / programme of study;
- 3.4.12. to the effect that the academic and welfare activities of the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups, including minorities, wherever applicable, shall be properly taken care of by the college;
- 3.4.13. to the effect that all registers and records, including audited statement of accounts, as required to be maintained under the Regulations / Orders of the UGC / University / Government shall be maintained and

made available as and when required for inspection;

- 3.4.14. to the effect that the college shall furnish all such returns and other information as the UGC / University / Government may require to enable it to monitor and judge the performance of the college with regard to maintenance of academic standards and shall take such action as the UGC / University / Government may direct to maintain the same;

4. Procedure for granting Temporary Affiliation:

- 4.1. The application to start a new college and to get it affiliated to an University can be submitted by Central/ State Government institutions and Registered Society/ Trust.
- 4.2. If the applicant is a Society/ Trust, it shall have been registered under Registration of Societies Act, the Trusts Act or any other Act of the Central / State Government on or before the date of submission of the application.
- 4.3. The Government / Society/ Trust which proposes to start the college and wishes to get it affiliated to the University in whose jurisdiction the location of college falls shall make an application within the stipulated time to the University in the prescribed proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.
- 4.4. The application shall be submitted with certified copies of the following documents:
- 4.4.1 Registration of the Society/Trust along with details of Constitution and Memorandum of Association;
 - 4.4.2 Letter from the Competent Authority designated by the Government concerned for classification of land and its location as Metropolitan or other areas;
 - 4.4.3 Land Use Certificate from the Competent Authority designated by the Government concerned;
 - 4.4.4 Registered land/Govt. leased land documents in the name of the applicant;
 - 4.4.5 Appropriate order from the Govt. permitting the Society/ Trust to start the college with details of the courses/ programmes intended to be offered;
 - 4.4.6 Building Plan of the proposed college prepared by a registered Architect and approved by the Competent Authority designated by the Govt. concerned;
 - 4.4.7 Registered documents by the registered Society/Trust earmarking land and buildings for the proposed college;

- 4.4.8 Details of the latest fund position along with photocopies of relevant bank accounts, including the evidence of the Corpus Fund earmarked for the purpose as specified under Clause 3.2.2.

4.4.9. Detailed Project Report giving

- a) background of the Society/ Trust with reference to its experience in promoting, managing and operating educational institutions; details of its promoters including their background; its activities in the social, charitable and educational spheres since its inception and its Vision and Mission;
- b) development plan for the college with timeline, spelling out its growth plan over the first 10 year period in terms of phasing of academic programmes, increase in students' intake and introduction of postgraduate programmes/ research, and the time schedule for stage-wise development of the academic infrastructure, like recruitment of faculty, and other support facilities, including student amenities, such as hostels, sports and recreational facilities
- c) architectural master plan indicating the land use pattern including those for the future;
- d) policy with regard to faculty recruitment, retention and development;
- e) structure of academic and administrative governance;
- f) sources of financing of capital and operating expenditure, besides funds to be generated through students' fees; and
- g) resource projections and their utilization schedule.

4.5. The University shall make a preliminary scrutiny of the application, and if found satisfactory, issue a letter of intent, within two weeks from the date of receipt of the application by the university, to cause an inspection within a period of three months for physical verification of all requirements for the grant of temporary affiliation.

4.6. The college shall be subjected to an inspection by the University through a committee of experts nominated by the Vice chancellor consisting of:

- 4.6.1 One Expert for each of the subject areas proposed,
- 4.6.2 Dean, College Development Council, / an equivalent academician of the university,
- 4.6.3 a representative of the higher education department of the Government not below the rank of Deputy Director, and
- 4.6.4 an Engineer from the PWD/CPWD or the University not below the rank of Executive Engineer.

One of the subject experts at the level of Professor, as nominated by the Vice-Chancellor, shall be the Chairperson of the Committee.

- 4.7. The report of the inspection committee shall be submitted by the Chairperson to the University duly filled in and signed by all the members. The University shall process the report through its appropriate Bodies and decide to grant, or not to grant, temporary affiliation to the college, recording the reasons in writing for its decision within three months of inspection.
- 4.8. On the basis of the infrastructure and other facilities available at the college, the University shall decide the number of seats for each programme in the college.
- 4.9. The Syndicate/ Executive Council of the University shall be the ultimate to decide granting, or not granting, affiliation.
- 4.10. Continuation of temporary affiliation of the programmes of study and the college itself shall be granted by the University on a year to year basis through inspection process prescribed in these Regulations.
- 4.11. If the University decides not to grant affiliation to the college for reasons, recorded in writing, of its failure to meet the conditions/ requirements for getting affiliation, the college may apply again if it fulfils the conditions/requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.

5. Eligibility Criteria for Permanent Affiliation:

- 5.1. The college shall have completed at least five years of satisfactory performance after getting temporary affiliation and attained the academic and administrative standards as prescribed by the University/ UGC/ Statutory/Regulatory Body concerned from time to time.
- 5.2. The college shall have completed construction of buildings and all infrastructure/facilities as stipulated in the Regulations.

5.3. All the teaching and non-teaching staff are appointed on permanent (appointed on regular basis, in case of a Government college) on the UGC/Government scales of pay,

5.4. The college shall have a duly constituted College Council as per the norms.

6. Procedure for granting Permanent Affiliation:

6.1. A college which wishes to get permanent affiliation shall apply to the University any time after completing five years of temporary affiliation in the proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.

6.2. The procedure for according permanent affiliation shall be the same as for granting temporary affiliation given in the Regulations.

6.3. If the University decides not to grant permanent affiliation to the college for reasons, to be recorded in writing, of its failure to meet the conditions/ requirements for getting such affiliation, the college may apply again if it fulfills the conditions/requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.

7. Eligibility to apply for addition of new programmes of study:

7.1. Any proposal for adding new programmes shall be considered by the University only after ensuring equitable distribution of facilities for higher education, having due regard, in particular, to the needs of the unserved, underdeveloped, rural, hilly, tribal and backward areas within its jurisdiction.

7.2. Any proposal for raising the existing under-graduate college to post-graduate studies level shall be considered by the University only after satisfactory completion of two years of the under-graduate programme and the proposed buildings, qualified faculty and other infrastructure facilities are fully created as per the Regulations.

7.3. Each application for addition of a new programme or for upgrading the existing programme to post-graduate level shall be accompanied by the prescribed fee in the form of Demand drafts drawn in favour of the Registrar of the University.

- 7.4. The procedure for according temporary affiliation to additional programmes of study or for upgrading the existing programmes in the college shall be the same as prescribed under the Regulations for temporary affiliation.

8. Withdrawal of affiliation:

- 8.1. The privileges conferred on a college by affiliation may be withdrawn in part or in full, suspended or modified, if the college, on due enquiry, is found to have failed to comply with any of the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances, the Rules and Regulations or any other direction or instruction of the UGC /University/Statutory/Regulatory body concerned, or failed to observe any of the conditions of affiliation, or has conducted itself in a manner prejudicial to the academic and administrative standards and interests of the University.
- 8.2. If an affiliated college ceases to function or is shifted to a different location or is transferred to a different Society, Trust, individual or a group of individuals without the prior approval of the University, the affiliation granted to the college shall lapse automatically on such ceasing, shifting or transfer, as the case may be, and it shall be treated as a new college for the purposes of future affiliation. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.
- 8.3. Without prejudice to the Regulations, the Commission on its own, or on the basis of any complaint or any other information or report from any other source, can cause an enquiry by the University in respect of a college, and after giving the college a reasonable opportunity of being heard, may pass an order under Section (12A) (4) of the UGC Act prohibiting such college from presenting any student then undergoing such specified course / programme of study therein to an university for the award of the qualification concerned and the affiliation of the college shall stand terminated as per Section (12A) (5) of the UGC Act.
- 8.4. If the University decides to withdraw the affiliation of the college, or the affiliation stands terminated by the order of the University, temporarily or permanently, such decision shall not affect the interests of the students of the college who were on its rolls at the time of issue of the order till they pass out the normal duration of programmes to which they are registered at that time. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.

9. Penalties on the Universities granting affiliation to sub-standard colleges or failure of Universities / colleges to comply with the Regulations of Commission:

9.1 If any University grants affiliation to a college which does not fulfill the conditions/ requirements for affiliation as per the Regulations, or if the University grants affiliation in contravention of the relevant provisions of the UGC Act and Regulations, the Commission may take such action as it may deem fit, including that of withholding the grants to the University and/or delisting the said University from the list of universities maintained by the Commission under Section 12B of the UGC Act.

9.2 If any college included under section 2(f) and receiving UGC Grants under section 12B is found guilty of violation of the Regulations, the Commission may take such action as it may deem fit, including that of withholding the grants to the college and/or delisting the said college from the list of colleges maintained by the Commission under Sections 2(f) and/or 12B of the UGC Act.

R. K. CHAUHAN
Secy.